



THE  
MAHABHARATA

( th

F th f t t' 'c y d't d by

V YA V Y V AT

A T A. (OXO )

*Prof. r f Sa krit d Co p rat' e Pl. gy*

*Pr 'd cy C Ueg M dra , d Ed't r*

*D r'pt' C lge of S krit*

*d Tel g M . : t t T i j r*

*Palace L'brary.*

V V S'ANT PARVAN. PART

PUBLISHED BY

V. RAMASWAMY SASTRULU & SONS

292 ESPLANADE MADRAS.

*All Rights Reserved.*

P R I N T E D B Y V. V. N E A W A R A S A I U L U  
V. R A M A W A M Y S A I R U L U & S O N S  
A T T H E ' V A V I L L A ' P R E S S , M A D R A S . 1 9 0 6 .

श्रीरस

# श्रीमन्महानारतम्

३. द्वितीयः

द्वितीयो भाग

मद्रपुर जर्जायकलाशाल सस्कृताचार्ये

(आक्सन्) एम्. (द्राम्)

इत्यादिविरुदाङ्कितैः

विद्यासागर विद्यावाचस्पति प पि सुब्रह्मण्यशास्त्रिणि

दाक्षिणात्यशाखानुसारेण सविमर्श शोधित

सत्यम्  
भ्यः पुनर्वेदाः  
चेत्  
ण चेत्



इ . गोक :  
गो :  
विद्ये  
विरुद्धच्छ कुतः

दि २५९

चेष्टपुर्या

व रामस्वामिशार लु अण्ड् सन्त्

इत्ये सन्मुद्घ प्रकाशितम्



चेन्नपुय

द्वणालये

द्वितम्

१९३६.

## INTRODUCTION.

### I

The S' t' P v      ru d    thr    volu  
The fi t vo      d      w' h ch pt    1 120  
co p      th who    of R j dh r    p op    th  
co d v u    d    w' th ch pt s 121-14    co p  
g th who    Ap ddh rma prop      d ch pt  
149 260    th Moks dh      Th th'rd vol  
d l w' th ch pt    261 339, comp t' g th Mok  
dh      wh ch    th l t ub-p rva of th S' t  
F rv

I th p p r to of th' vou    fo th Pre  
h f ow       u c pt fu y r p e t' v o  
h So th    R c       w re t' l' d.

pr t h P c p    T xt p t d. Th  
Mar cr'pt b o g to Br h    S K h  
S t g    P c P      'k    T' v d  
It d c p t o      ollow    S b t c  
p l -      S    18x2<sup>3</sup>    ch    L v

INTRODUCTION

410 · L · 10 14 o p g Sc'p  
 G h · S · P C .  
 u d fo dd't'o d' t Th  
 M cr'p b g t H' H' h th  
 M h j T v c d d  
 v' b o th h h k' d o  
 S' C P. R 'A'y K C I. E I  
 d c'pt'o : S b c  
 p · f · S' 2 ½ × 1 ½ · ch L v :  
 439 · L · 9 10 t P g Sc' t T ·  
 G h · S' t' P v co p : D  
 o T c'pt' 1791 A D

d fo dd't'o d' t. t h d  
 p. 870. Th M c'p b Mr .  
 S R 'gop Ayy Adv c t T' h op y  
 vho t'v v' g ' N l o ' h  
 T jor D' tr'ct. It d c'pt'o  
 o o : S b c pl · S'  
 15 ¼ × 2 ¼ · ch · L · 1 20 t p g  
 L v - (346 438) · Sc'pt · G th . S' t'  
 P v - R j dh r d Ap ddh a  
 co p t

INTRODUCTION

v''

F o p 71 o w d w M p  
 d fo dd't'o d' Th M r'p  
 b o o M S bb R (R y H )o V'  
 v l v' th T' v y D't I  
 d cr p o fol S b'  
 S'  $1 \times 1\frac{3}{4}$  ch L' 9 t p L v  
 242 Sc p .G th S P v M dh  
 b k off t h d

s d f dd d' c Th M  
 c pt w p oc d or by K K  
 L k h r y ly o K d y v'lg  
 th T' v y D c fo M . N  
 ly I d cr pt o  
 S b c p S  $17\frac{3}{8} \times 1\frac{3}{4}$  ch

v<sup>...</sup>

INTRODUCTION

h d c ' 329 ch p d 147 5 t  
cco d' g h No h R c 'o d 339  
ch.p d 14525 t z o y cc d' gt th  
S h R c 'o O r k g d' th  
ch o ch pt d h t b of  
h S' 'Pa v cco d' gt h P' c'pa T t  
p' d h d ov o 'c 'n' Vo XV  
h'ch co p th S' t' P rv .

Al M c'p r p 'v th S th  
R c 'o of th S' t' P v ' d'v'd'  
h S' 'P v ' to wo ' b-p v th  
R j dh Pa v d h M k -dh P v  
Th fo m r R ' dh r P v ' c d h  
Ap ddh c'o cco d' o th co opho  
' th M c'pts. How v w k ow f o  
th P v g h P of h Ad' P v  
(So h r R c ' Vo. I pp. 0 1) h t th  
S' t' P v c ' of ' b-p v Abh'  
c 'k p v (ch pt 1 33 nd 35-38) C rv k -  
'g h p rv (chapt 34) G h p v'bh g  
p v (ch pt 39) R j dh p v (ch pt  
40 120) Ap ddh p v (ch pte 121 148

INTRODUCT ON

d Mok dh r p v (ch p 149 339).  
d' g th P' c'p T o th S th R c  
o w h v th o d'v'd d h S ' P v  
' to h bov s' b p v , o o pr '  
ct h ch m o o h d ed b-p v o  
h 'r M h bh t .

### III SCHEME OF ADHYAYAS.

| No.   | N e f ' a v . | A<br>h<br>k<br>h<br>R<br>A<br>d | A<br>d<br>N<br>c<br>c<br>h<br>I | d<br>d<br>y<br>R<br>d | A<br>d<br>v<br>N<br>h<br>I | y<br>R<br>d<br>p<br>h | A<br>v<br>d<br>b<br>d<br>h<br>A<br>A | y<br>h<br>A<br>A<br>S<br>R<br>N | d<br>h<br>y<br>y<br>o<br>o<br>p<br>I | A<br>c<br>y<br>R<br>P<br>S |
|-------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| At    | 7             | 4                               | 0                               | 7                     | 7                          | 7                     | 7                                    | 7                               | 7                                    | 7                          |
| S u   | 78            |                                 | 0                               |                       |                            |                       |                                      |                                 |                                      |                            |
| A y   |               | 2                               |                                 |                       |                            |                       |                                      |                                 |                                      | 7                          |
| V a a | 7             | 7                               | 7                               |                       |                            |                       |                                      |                                 |                                      | 7                          |
| V     |               | 1                               |                                 |                       |                            |                       |                                      |                                 |                                      | 1                          |
| V     | 17            | 2                               |                                 |                       |                            |                       |                                      |                                 |                                      | 11                         |
| V     | 70            |                                 | 0                               |                       |                            |                       |                                      |                                 |                                      | 7                          |

|    |            |      |    |  |  |    |   |     |
|----|------------|------|----|--|--|----|---|-----|
| V  | K          |      |    |  |  | 1  |   | 1   |
| X  | S y        |      |    |  |  |    |   |     |
| X  | S p'k      | 18   | 1  |  |  | 1  |   |     |
| X  | .          | 7    | 7  |  |  | 7  | 7 | 7   |
| X  | S          |      |    |  |  | 7  |   |     |
| XI | A          | 1    | 10 |  |  | 27 | 1 | 1   |
| XV | A v n a    | 10   |    |  |  | 11 |   | 1   |
| XV | A va'k     | 4    |    |  |  | 1  |   |     |
| XV | M a        |      |    |  |  |    |   |     |
| XV | Ma'as a'ka | 3    | 3  |  |  | 3  |   |     |
| XV | Sva g o    |      |    |  |  | F  |   |     |
|    |            | 19 : | 10 |  |  |    | 1 | 000 |



IV  
CONCORDANCE.  
S'ANTI PARVAN. PART II

| P<br>th<br>h v d'p<br>Ch p | (1 l)<br>Edi'o<br>th<br>h v d'p<br>Ch p | (90r)<br>Kumbako m<br>Ed tio<br>Ch pt r. | M uscript<br>th South<br>Receasio<br>Ch pt . | (1 )<br>S' th r<br>R io<br>Chopt r. |
|----------------------------|---|--|--|-------------------------------------|
| 1 1                        |   | 131                                      | 13   | 191                                 |
| 1 9                        |   | 139                                      | 134  | 1                                   |
| 33                         |   |  | 13   | 12                                  |
| 1 4                        |   | 4  | 136  | 1                                   |
| 13                         |   | 1  | 1 7  | 195                                 |
| 3                          |   | 136                                      | 138  | 1 6                                 |
| 1 1                        |   | 137                                      | 1  | 197                                 |
| 138                        |   | 1 3                                      | 140  |                                     |
| 1 9                        |   | 13                                       | 141  | 1 9                                 |
| 140                        |   | 1 0                                      | 1 2  | 130                                 |
| 141                        |   | 41                                       | 14   | 131                                 |
| 14                         |   | 4  | 144  | 1                                   |
| 14                         |   | 14                                       | 14   | 1                                   |
| 4                          |   | 14                                       | 4  | 1                                   |
| 145                        |   | "  | "  | "                                   |
| 146                        |   | 145                                      | 147  | "                                   |
| 47                         |   | 146                                      | "  | "                                   |
| 148                        |   | 1 7                                      | 14   | "                                   |
| 14                         |   | 148                                      | 1  | "                                   |
| 1 0                        |   | 149                                      | 1 0  | 1 "                                 |
| 1 1                        |   | 150                                      | 151  | "                                   |
| 1 2                        |   | 1 1                                      | 1  | "                                   |
| 15                         |   | 1  | 1  | 1                                   |
| 15                         |   | 1  | 1  | 1 7                                 |
| 1 5                        |   | 1 4                                      | "  | "                                   |
| 15                         |   | 15                                       | 1  | "                                   |
| 1 7                        |   | "  | "  | "                                   |
| 15                         |   | 1 6                                      | 1  | 1 8                                 |
| 159                        |   | 157                                      | 157  | 1 9                                 |
| 1 0                        |   | 1 8                                      | 158  | 1 0                                 |
| 1                          |   | 1 9                                      | 15   | 141                                 |
| 1                          |   | 160                                      | 1 0  | 142                                 |

I TRODUCTIO

x "

| P<br>Bh v d'p<br>Ch pt | Ed't<br>th<br>Ch pt | K bak<br>Ed't'o<br>Ch pt | M script<br>h South r<br>s'o<br>Ch pt | o h<br>ce<br>Ch p |
|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                        | 16                  | 1 1                      | 1 ..                                  | 143               |
|                        | 1 4                 | 16 <sup>9</sup>          | "                                     | "                 |
|                        | 1 5                 | 16                       | 16                                    | 144               |
|                        | 16                  | 16                       | 1 3                                   | 14.               |
|                        | 1 1                 | 1 5                      | 164                                   | 146               |
|                        | 1 (1 1)             | 16                       | 165                                   | 1 1               |
|                        | " (28 5)            | 167                      | 166                                   | 148               |
|                        | 16                  | 168                      | 6.                                    | "                 |
|                        | 1.0                 | 169                      | 165                                   | "                 |
|                        | 1.1                 | 1.0                      | 169                                   | "                 |
|                        | 17 <sup>9</sup>     | 1.1                      | 1.0                                   | "                 |
|                        | 1.                  | 1.2                      | 171                                   | "                 |
|                        | 35                  | 6 <sup>9</sup>           | 1                                     | 149               |
|                        | 353                 | 36                       |                                       | 1 0               |
|                        | 5                   | 365                      |                                       | 151               |
|                        | 6                   | 63                       | 5                                     | 15 <sup>9</sup>   |
|                        | '                   | 37                       | 6                                     | 173               |
|                        |                     | 8                        | 7                                     | 1                 |
|                        | 9                   | 69                       | 8                                     | 1 5               |
|                        | 0                   | 70                       | 9                                     | 156               |
|                        | 1                   | 71                       | 0                                     | 157               |
|                        |                     | '                        | 11                                    | 1                 |
|                        |                     | '                        | 12                                    | 1                 |
|                        | 4                   | 74                       | 6                                     | 160               |
|                        | 3 -                 | 3, -                     | 14                                    | 161               |
|                        | 1.                  | 1.                       | 14                                    | 16 <sup>9</sup>   |
|                        | 1. -                | 1.4                      | 15                                    | 16                |
|                        | 176                 | 1.5                      | 16                                    | 1 4               |
|                        | 17.                 | 1.5                      | 1.                                    | 165               |
|                        | 178                 | 1. (1 54)                | 18                                    | 166               |
|                        | 178                 | " (5 65)                 | "                                     | "                 |
|                        | 1.9                 | 1.7                      | 19                                    | 16.               |
|                        | 180                 | 1.8                      | 20                                    | 168               |
|                        | 18                  | 1.9                      | 21                                    | 169               |
|                        | 8 <sup>9</sup>      | 180                      | 22                                    | 170               |
|                        | 18                  | 181                      | 2                                     | 1.1               |
|                        | 184                 | 18 <sup>9</sup>          | 4                                     | 1.2               |
|                        | 185                 | 18                       |                                       | 1.                |

| th<br>d'p<br>Ch pt r. | b<br>d'<br>Ch | Ch p    | th<br>C |
|-----------------------|---------------|---------|---------|
| 1                     | 1             |         | 17      |
| 1 7                   |               | 7       | 17      |
|                       | 1             |         | 17      |
| 1                     | 1 7           |         | 77      |
|                       | 1             |         | 17      |
| 1                     |               | 1       | 1;      |
| 1                     |               |         | 0       |
| 1                     |               |         | 1       |
| 1                     |               |         | 1       |
| 1                     | 1             |         | 18      |
|                       | 1             |         | 1       |
| 1 7                   | 1             | 7       | 1       |
| 198                   | 1             |         |         |
| 1                     | 1 7           |         | 18      |
| 00                    | 198           | 40      | 1       |
| 201                   | 1             |         | 1       |
| 0                     | 200           |         |         |
| 204                   |               | †       | "       |
| 20                    | 203           |         | "       |
| 206                   |               |         | "       |
| O itt d               |               | O 'tt d | 1       |
| 207                   |               | 7       | 1 1     |
| 20                    | 07            | 48      | 1       |
| 09                    |               | 9       |         |
| O 'tt d               |               | O 'tt d | 1       |
| O ' d                 | 1             | 50      | 19      |
| O ' d                 | 1             | O       | 1 6     |
| 10                    |               | 1 †     | 1 7     |
| 11                    | 1             |         | "       |
| 1                     | 1             |         | "       |
|                       | 1             |         | "       |
|                       | 1             |         | "       |

† —कोशे

या टिता

४५ इति वर्ते

\*

कृष्णाचार्यमुद्रितपुस्त

वर्तन्ते

‡

शेषयोः प्रमादतया ५

५ इति द्विरुक्तम्

| ti<br>h v d'p<br>Ch p . | bak<br>d't<br>Ch | r'<br>th<br>Cha | Cha |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----|
| 1                       | 7                |                 |     |
| 1                       | 1                | 7               |     |
| 17                      | 1                |                 |     |
| 1                       | 0                |                 |     |
| O d                     | 1                | O t d           | 199 |
| 1                       |                  | 60              | 200 |
| O t d                   |                  | O t d           | 201 |
| O t d                   | 4                | O t d           |     |
| 0                       | २२               | 1               | 20  |
| 1                       |                  | २               | २०४ |
| O d                     | 7                | O               | 205 |
| O t d                   | 8                | O t d           | 206 |
|                         | 2                | 3               | 207 |
|                         | 20               | 4               | 208 |
| 4                       | २१               |                 | 20  |
|                         | २                |                 | 210 |
|                         | २                | 7               | 211 |
| 7                       | 3                | 6               | 1२  |
|                         |                  | †               | २१  |
| 0                       | 37               | 70              | 1   |
| 1                       | 8(1-35)          | 71              | २१  |
| 3                       | २ ( 6- 1 )       | २               | २१  |
|                         | २                | 7               | 2 7 |
|                         | 0                | 1               | २१८ |
| 5                       | 241              | 7               | २१९ |
| 3                       | 4                | 17              | २२० |
| 7                       | 4                | 7               | २२१ |
|                         | 44               | 1               | २२  |
| 9                       | 45               | 50              | २२४ |
| 40                      | 46               | 1               | २२  |
| 241                     | 47               | 8२              | २२  |
| 4२                      | 4                |                 | २२७ |
| 4                       | 4                |                 | २२८ |

एते व्यायाः कृष्णाचार्यमुद्रितपुस्तके स्ते

† श्लो ९ व्यायानं ८३ सू

| P<br>with<br>Bh v d'p<br>Ch pt . | Ed' o<br>Ed' t' o<br>Ch pt r. | K mb ko<br>Ed' t' o<br>Ch pt r. | M n cr' p f<br>th S th rn<br>R c n' on<br>Ch pt . | S uth<br>R c<br>Ch pt r. |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|
| 24                               |                               | 0                               | 85  |                          |
| 24                               |                               | 51                              |   | 0                        |
| 24                               |                               | 52                              | 7   | 2 1                      |
| 24                               |                               | 53                              | 8   |                          |
| 248                              |                               | 4                               |   |                          |
| 24                               |                               | 5                               | 90  | 34                       |
| 270                              |                               | 25                              | 91  |                          |
| 271                              |                               | 7                               | 2   |                          |
| 27                               |                               | 5                               |   | 7                        |
| 27                               |                               | -                               | 94 †  |                          |
| 274                              |                               | 60                              | 5   | 9                        |
| 255                              |                               | 261                             | 96  | 0                        |
| 256                              |                               | 62                              | 7   | 1                        |
| 277                              |                               | 63                              |   | 24                       |
|                                  |                               | 64                              |   | 4                        |
| 5                                |                               | 265                             | 100   | 44                       |
| 20                               |                               | 6                               | 101   | 4                        |
| 26                               |                               | 7                               | 102   | 46                       |
| 2                                |                               | 68                              | 103   | 47                       |
| 26                               |                               | 6                               | 104   | 248                      |
| 264                              |                               | 0                               | 107 †   | 24                       |
|                                  |                               | 1                               | "   | 0                        |
|                                  |                               | 12                              | 10  | 51                       |
| 67                               |                               | 21                              | 107   | -                        |
| 8                                |                               | 214                             | 108   |                          |
| 99                               |                               | 15                              | 10  | 4                        |
| 210                              |                               | 76                              | 110   | 5                        |
| 71                               |                               | 77                              | 111   | -                        |
| 7                                |                               | 218                             | 11  | 7                        |
| 27                               |                               | 79                              | 11  | 25                       |
| 1                                |                               | 0                               | 114   |                          |
| 7                                |                               | 1                               | 11  | 60                       |

शे शे न्यायो नोप \*

† —को ९३ ९ ९५ ियाः ए या

‡ - मभ्यः शेयोः न्यायद्वयं सू  
शे सू

## V

From the Concordance it will be seen that chapters 190, 194, 196, 199, 201, 202, 205, 206 of the Principal Text did (So the Recension) copy themselves by themselves. No other Recension deals much with the copy of the South Recension. The chapter how ever, printed in the Kumbhako Edition of the Mahabharata published by Mr. T. R. Krishnaiah. I have done Mr. Krishnaiah point out that the chapter was printed by himself. Manuscript dated to Pandurang Recension copy written in Telugu Script of palm-leaf. The chapter highly significant. Vedraj the lead author of the country Lakshminarayana Pratiksha from the chapter, pointing out that they are the chapters of the South Recension. We have to try to bring together the original manuscript of Ramadasya. We have a deal with Manuscript of Sita Pavanabeta Tnjondra. We have to try to bring together the manuscript collection of the above chapters. The omission of the chapter from our manuscript represents the South Recension of the chapter by Vedraj in the Mahabharata.

co t o r' t p o b f r c h'  
 ' p o t c t o M h a b h t T t - t r d' t' o M o  
 t h' ' t h t v o u - V o u X V w h' h c o p l t  
 h S t' P a r v .

## VI

I g d t o t l t h o t h P v o f t h  
 M h b h r t , w h v b b o c h o o M  
 c' p t s t h o u h y r p r t t' v o f t h S o t h  
 R c ' o d w' t t ' y S o t h I d'  
 c' p t p o ' b ' . G n h , M y d  
 T l u g I t h c o f t h S t' P v a h o w v  
 o u t t p t t o g t t r ' b l m u c r i p t w' t t  
 T l g S c r i p t h v o f r p o v d f r i t . A l  
 t h M c' p t o t h S t i P a v w' t t e i t h  
 T l u g u c r i p t d v ' b t t h f o u -  
 c' p t l' b r ' t M a d d T a j o w  
 t h o s e b e o g' g t o s e v l p r' v t e p r t' .  
 v a' b l y r e p r t t' v o f t h N o h R c ' o  
 f r o o r p o i t o f v' w . W h v t h r f o r b  
 f o c d t o e d' t h' P r v w' t h t h ' d o r p t  
 t' v n d ' a b l a c' p t w' t t ' n G t h  
 c r i p t o . T h u c' p t o f t h T' v d r  
 P c , t h o g h w r' t ' T ' - G t h ' f'  
 p r t t' v o t h M a l y t d' t' o ' b -  
 l o g t o a c o ' d f ' y o f n u c r i p o  
 M l y S c r i p t

## VII

A o g th cr'ic pp tu v' bl fo  
 fi' g the T t-t ad't'o o th M h bh t  
 cco d' g to th North r or South r R ce 'o  
 co t t r d th 'r co t r'e o the m h  
 bh rat a bound to p y port t o . Th  
 or ot -wo thy of th tio d b ow

- (1) V d'r ja' th a thor of Lak la k which  
 f vo r th So th Rec s'on H ay  
 b 'g d to th th'rt nth c tury A. D.
- (2) Va' ' p ya ' th uthor of a T'k d'  
 f r r d to by V'm l bodha and Nā ay n  
 th autho of N'guḍ th bodh'
- (3) Dev bodha ' th utho of T tpa y d'p'k  
 know so s Jn ad'p'k H y b  
 a 'gn d to th m'dde o the fourt th  
 c ntury A. D.
- (4) V'ma bodh ' th thor of Durgh ṭ rtha  
 pr k H q ote Devabodha.
- (5) Sarv jnan y ṇa th a thor of Bh ra  
 t th prak's . H y be assig ed to th  
 fiftee th c t y A D.
- (6) Ar'u m' 'r th author of D'p'k , know  
 o a Arth d'p'k H quot - S rv jna  
 nā yan



(7) N' k ṅṭh ' th thor of Bh v d'p . H  
y b ' n d to th ' t th c y  
A D.

O th bov tho w h v at t o  
k owl dg of th ' r co p t'v cho o gy.  
Th re oth o who o d fin't  
' for t'o g d'g th ir g ' o f  
v ' l b . Of th l tt t'o y b  
d o h fo ow' g.

(8) C turbh ja 'sr ' th uthor of T tp y -  
pr k 'n'. B r l t'o - L k ṅ  
k ow al o - S ṅḍ'ly Lak ṅ h  
tho of P k s . C bh j 'sr d  
Lak m ṅ r 'd t'cal d ot d'ff r t  
p o g .

(9) An d pu ṅ ' th uthor of R t v  
H ' lok ow Vdy gr .

(10) N da c ry ' th thor of D'p'ka.

(11) R t g bh ' th tho of Akut c d 'k

(12) Y g y ṅ ' th th of V'v ṅ

(13) P n d Bh ṭṭ c ry ' th utho o  
M't bh 'ṅ'.

(14) Sr'n'v th pup'l o Pu bodh ' th  
tho of Bh v v'v

(15) Rākr̥ṇ̥ṭh author of V'odh th  
bh j

Of the above commentaries on the text of  
N'kr̥ṇ̥ṭh (No. 7) the valuable first part.  
Although the original copy is much  
corrected over the original 'Ind'. I  
offer introduction to Vo XV which completes the  
Sant'Pv work proposed for the chronology of  
the fifth century to find the time of their  
composition to the fixing of the T-t date of  
the Mahābhārata.

## VI I

Besides the list of chapter 190 194 196  
199 201 202 205 and 206 of the P'nc'pa T x  
dated (So the R c 'o ) the North R  
c 'o om't chpt 195 of the South  
R c 'on where Bh' r t to Yudh' th'  
the devic given to N d by Sr'n r y t  
what to hold do o th p p o ch o d th.

The Pr id cy Coll g , }  
M dr . }  
10 19 . }

P. P. S. SASTRI

Ed'tor



गिरस्तु

मह भारतस्य श तिर्प णि द्विर्त्तौ भाग

## १ यानुक्र णि

### आपद्धर्मप

| व्य :   | टम् |
|---|-----|
| २ ाधिं भी ति स धा त् े र                      |     |
| २२ ापद्धेन र र े व्यस्य निरु म् ...           | ६६२ |
| क्षेषु रा ती थ थञ्चित् - धनम्                 | ६६३ |
| भिः नि णस्य ता रूपाणम् ...                    | ५   |
| २२ ा िः ा थत् गोशस्य ेः व्य ा नम् ..          | ६६६ |
| गोर े पर प णस्य ाधु ेतिः                      | ८   |
| २ दोपाख्य नम् ...                             | ६६९ |
| दु रि रि ारम गनिरूप म् ...                    |     |
| २५ च्य रि तोप े श ती रणि रः ती .              |     |
| पु क्षे प्र ि न                               | ... |
| २६ जिः े रिपू ाय निरूपाणम् ...                | ६५  |
| २ दिवि छ े रि तस्योपाख्य तय                   |     |
| रूपाणम्                                       | ... |
| त्स्या ख्यान धन                               | ... |
| २८ धिर्त्ते राज्ञेन व्रु शमानेन व्यः ...      | ६   |
| ।। मूर्त्ति वृत्ता े व्रु ा धि धाननिरू णम्... | ६८  |
| मूर्त्तेन ा रात् णर म् ...                    | ६३  |



## शान्तिपर्वविषय नुक्रमणिका

| ध्यायः                            | पुटम् |
|-----------------------------------|-------|
| ३ वि मि पच वादः                   | ३     |
| ३२ रा भिः धाँ े बुदि चिन्त्य थनम् | ...   |
| स्पतिनीति थनम्                    | २     |
| थनम्                              | ३     |
| द दु नि पू ि पिपालनविधानम्        | ...   |
| ३३ तोतं पाख्यानम्                 | ५     |
| शुक्रेण मुचु ति तोतोपाख्य नम्     | ६     |
| व्य धस्य दुर थनम्                 | ...   |
| धे प्रा शर र म्                   | ८     |
| ३ तो प ि रशोचनम्                  | ९     |
| तोत्य ा प्रा व्या कृत गा ि द      | ...   |
| रस्स दक्षण गोदनम्                 | ५     |
| तो न व्य धा ि प्रदानप्रि ज्ञानम्  | ...   |
| व्या प्रति र्द शीत ा ाः परि ाय ि  | ...   |
| प्रज्व गोदनम्                     | ५३    |
| तो व्याधस्य शिवृत्त्य ि तनम्      | ७५    |
| व्य पो ि ि विलपनम्                | ५५    |
| तोत्य प ि शः                      | ५     |
| तो न तोत्य ि म्                   | ५     |
| थेनाप्यग्नि प्रेशेन ि द पा सह     | ...   |
| नम्                               | ५८    |
| ३५ ने ब्रह्महत्याप्राप्त थनम्     | ...   |
| ने जनमे ि णम्                     | ...   |
| जनमे ि परि म्                     | ३     |
| ने स्य ब्रह्महत्याप ाङ्गी रणम्    | ...   |
| शै य ति ध पूव हत्या               | ...   |
| तोदाया धय म्                      | ..    |
| राज िः                            | ...   |

|  | टम् |
|--|-----|
| ३ गृध्रज बुक वादः                          | ... |
| गृध्रि गरे नि श्मि                         | ... |
| मुपनी रोदनम्                               | ... |
| ध्रेण रणद्रुहि न्नि श्मि परित्या           | ... |
| नम्  | २   |
| जम्बुके पु न्नि थ पू न्म तृ                | ... |
| पितृदिग णम्                                | ३   |
| गृध्रेण तापि रै नि ना                      | ... |
| र म्                                       | ... |
| जम्बुके तव कै पि रै ति गृ न ना             | ... |
| दर नम्                                     | ६   |
| गृध्रे नि पुनरु व धनम्                     | ... |
| जम्बुकेन चन गोरपि पुन नि न                 | ... |
| दनम्                                       | ८   |
| गृ पुनरु बुकवा दर धनम्                     | ... |
| सृतबालयाः म तापि निः श्मशानानि नि जम्बुकेन | ... |
| नि धनम्                                    | ८   |
| गृध्रेण नरपि नि दरक म्                     | ... |
| पुल्लै नि नि दि र धू नि                    | ... |
| नि म् नि न्नि प्रति द धनम्                 | ८३  |
| नि देन धु नि यासु नि नि म्                 | ८४  |
| ४७ लमलि रि थ म्                            | ... |
| रदशास्त्रे लं दः                           | ... |
| रदेन नि द्वि नि नम्                        | ८८  |
| रदेन यु न न लम् धिपः                       | ८९  |
| नारदेन यु नि म युक्त धिप थ म्              | ९   |
| युन नि प्रति निपेन द्व नि द म्             | ९   |
| लमलि नि नि पवचनम्                          | ... |

|                                | पुटम् |
|--------------------------------|-------|
| ३ शाब्दनायुतिोचितेनस्वेन       |       |
| म्                             | ९२    |
| लम्बलिनयोः राभवप्राप्तिः       | ९     |
| ३८ शोदीपाहेतुधनम्              | ९१    |
| शोभदितिः तस्य                  | ९     |
| शोभदिगिगृहणम्                  | ९     |
| शोभरिनिरायशिष्टेः              | ९     |
| शोभितः परमोक्तसु               | ९     |
| शिशिष्टानप्रदर्शनम्            | ९९    |
| ३९ तनेवानर्थोतिरूपणम्          | ८     |
| स्योपनिदानरूपणम्               | ८२    |
| दमस्यकण्यदिद्वगुसदायरूपवधनम्   | ८३    |
| दामार्ददुगुणानयधिरय            |       |
| धनम्                           | ८     |
| निभिरप्रदनम्                   | ८     |
| निख्यस्य                       | ८     |
| पण्यस्य                        | ८     |
| नम्                            | ८     |
| ४२ सत्यस्यसवर्णधातलक्षणादिधनम् | ८९    |
| त्यस्योदरधनम्                  | ८     |
| ३ प्राणिदेशानशब्दानेन          |       |
| यनिरूपम्                       | ८१२   |
| नैदीदशादिनिरसधनम्              | ८४    |
| नृशदिधनम्                      | ८५    |
| त्रियः शिभ्यत्रभ्यएयगद्रव्यादि |       |
| पादनयिमधनम्                    | ८५    |
| क्षितिः ब्रह्मपनीयति           | ८८    |
| ह्यणानादतुवधनम्                | ८८    |



| अध्यायः                              | श्लोकः  | पुटम् |
|--------------------------------------|---------|-------|
| यज्ञानाधक रि वि                      | ... ८९  | ८९    |
| पञ्चानामनृताना यि शो क यऽभ्यनु तनम्  | ... ८२  | ८२    |
| पापविशे ण विशेषनिरूप म्              | ... ८२२ | ८२२   |
| पापविशे यद्वि दि शेषनि णम्           | ... ८२३ | ८२३   |
| ५ षोडश ति शः                         | ... ८२६ | ८२६   |
| ी सिस्समुत्पत्ति ा धनायादः स्या नि - | ...     | ...   |
| पणम्                                 | ... ८२८ | ८२८   |
| - सिना गो रेव गो रक्षणार्थ रणेन      | ...     | ...   |
| - णि तनपर पानुवर्णनम्                | ... ८२  | ८२    |
| स्य क्रमेण तृक धिष्टि थ              | ... ८३६ | ८३६   |
| इस्य न दि थ म्                       | ...     | ...   |
| इस्य म्                              | ...     | ...   |
| खड्ग श्रवण म्                        | ... ८२  | ८२    |
| ६ युि ण दि दुर जुनर्भ न्ना मि        | ...     | ...   |
| म धनचोदनम्                           | ... ८३  | ८३    |
| प्रशसनम्                             | ... ८३  | ८३    |
| सनम्                                 | ...     | ...   |
| प्रश म्                              | ... ८   | ८     |
| प्रशसनम्                             | ... ८४  | ८४    |
| प्रशसनम्                             | ... ८४३ | ८४३   |
| पुरु णकथनम्                          | ... ८४  | ८४    |
| यपुरुषल थनम्                         | ... ८८  | ८८    |
| ८ कृतत्रोपाख्या धनपू तमकथाकथनम्      | ... ८५  | ८५    |
| चि ह्यणेन लिः द ाम शः                | ...     | ...   |
| चिह्नयुना थः दा म्                   | ...     | ...   |
| गोरवृत्ये नम्                        | ...     | ...   |
| द्वा वृत्ति णम्                      | ... ८५३ | ८५३   |
| मेन णिनि द्र मनम्                    | ... ८५  | ८५    |

## शतितर्पणेषु मणि ।

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| ८ व | १० गोतमन णिजो दि चिद्ध -<br>स्य मूले ापः                  | पुटम्   |
|     | र धर्मै न वकन वृत्ता नपू गातम-<br>र रणम्                  | ... ८५६ |
|     | तमेन राजप्रमाणं प्रति वृत्ता निवेदनम्                     | ... ८५  |
|     | रा धमच दनया गाँ धन ा विरूपाक्षना गो-<br>नगर नम्           | ... ८५८ |
|     | विरूपा ना रा सत् तो नम्                                   | ... ८५९ |
|     | राक्षसेन गै स रे परिचि तनम्                               | ... ८६  |
|     | राक्षसेन वि विधदानपू वि ह्यण<br>रदशा गै पि सुवर्णभारपरि : | ... ८६  |
|     | धं णा गू तसु भारेण इभः                                    | ... ८६३ |
|     | ग या ाप र तो नम्  | ...     |
|     | न पा र न पू क ासं गमनम्                                   | ... ८६  |
|     | वि पा प्रिय कराज पुत्रचोदनम्                              | ...     |
|     | वि क्षेण दि पिरीतप चनम्                                   | ... ८६५ |
|     | दि ा हननम्  | ...     |
|     | गै ह स्य रा री तो भरु ाद य विरूप<br>ि प्रदशनम्            | ...     |
|     | गै रदशने पुत्रमि दिना<br>ि पा दनम्                        | ...     |
|     | गै स्य तय तो स दिर :                                      | ... ८६६ |
|     | षडशो रि पि पक्ष्यादि<br>रपि दनशनम्                        | ...     |
|     | चि तोपि स्व ाजस्य सुरा मुी म्                             | ...     |
|     | द्वेण तो ापि म्   | ... ६८  |
|     | इ रा शाप थ म्   | ... ८६९ |
|     | भी पिन क्षया निष्कृ ा नम्                                 | ...     |

## शान्तिपरिषयनु णि

| अध्यायः                   | मोक्षधर्म         | पुटम्   |
|---------------------------|-------------------|---------|
| १ उच्छ्रित्वा ख्यातो      | :                 |         |
| ५ रदेने द्वितीये क्षयमाणे | पथासः             | ... ८२  |
| ५ पुत्रे चिद्धे           | वि                |         |
| ५ तिनित्वा                | ना                | ... ८३  |
| प्रतिपादम्                |                   | .. ८    |
| १५२ निवृत्तित्वा          | पथ्यना            |         |
| पग नचोदनम्                |                   | .. ८    |
| ५३ ह्यणेन कृताधि          | धर्मजिज्ञासा      |         |
| गमनम्                     |                   | ... ८९  |
| ५ नागदशनाय                | ति                | ... ८८  |
| ब्राह्मणेन दीपुत्सवे      | गद                |         |
| गमम्                      |                   | ... ८८२ |
| ५५ ह्यणस्य निरा           | तर्पणैः           | ... ८३  |
| ह्यणेन ऽस्य धिनिर्देशे    | नग                |         |
| पथ्यना                    | नम्               | .. ८    |
| ५६ पथ्यना                 | धनम्              |         |
| नुष्ठित्वि                | धनम्              | ... ८६  |
| १५ नावृत्तित्वा           | नरेषाम्           | ... ८८  |
| गपयन्ना                   | रोपशमनम्          | ... ८८  |
| ननेन                      | धनम्              | ... ८८९ |
| १५८ गोस्त्रापः            |                   | .. ८९   |
| ब्राह्मणे                 | धनम्              | ... ८९२ |
| १५९ सुयम                  | रवृत्ति           |         |
| नम्                       |                   | .. ८३   |
| ६ नावृत्तित्वा            | द्विश्यसुर्योक्ते |         |
| धनम्                      |                   | ... ८९५ |

| ध्या :                                   | पुटम् |
|--|-------|
| ६ अग्नत्रिदिष्टपूरणान                    |       |
| नियमनम्                                  | ९     |
| णेन तस्मिन् श्रमनो थपू नपूर्वमि -        |       |
| देशगमनम्                                 | ८९९   |
| ६२ उच्छ्वान्तब्राह्मणोपाख्यानम्          | ८९९   |
| २ पुत्रमिदिनागो ज्य धनम्                 | ९     |
| विसेनजिगोः दनम्                          | ...   |
| तः दीनि धनम्                             | ९२    |
| गो दिस्थान धनम्                          | ९५    |
| पङ्कलो षम्                               | ९     |
| ६ गीघ्रगमि रपि श्रेः प्राप्तयापतुषु -    |       |
| दा देन व शिष्यस्य य धम्                  | ९९    |
| तितुषु. दः                               | ...   |
| १६५ शम्भ्या गीयाः नम्                    | ९५    |
| दारि सु नम्                              | ९६    |
| ध त्वस्या रि नथहेतव धनम्                 | ९     |
| १६६ वैर दी न्त्यदि र धनम्                | ९९    |
| गी थ                                     | ९२    |
| गोय षक नम्                               | ९२६   |
| ६ द्वाद जगर द्वेन प्रप नित्य नपूर्व षि - |       |
| स्यैव सु धन नम्                          | ९१    |
| १६८ इ द्व इथ न प्र ष्यः धन धनम्          | ९३    |
| सुग व षे ष्यप प्रि निदवचनम्              | ९३    |
| सुग धे द्वे बहुमि ररि तु णः              |       |
| व धनम्                                   | ९३    |
| इ द्वेण काश्यप प्रा प्राणपरि गो नम्      | ९३    |
| इ द्वे सुग नम्                           | ९२९   |

|       |                             |     |
|-------|-----------------------------|-----|
| ज्य : |                             | म्  |
| ६९    | विः गि द त थ म् ...         | ९   |
|       | न गि गु नुभव थ म् ...       | ९२  |
|       | पोद नादि कर्मण सु नम् ...   | ९३  |
|       | रि र भृगु रद्वाज द नम् ...  | ९   |
|       | रद्वा ग :                   | ... |
|       | भृगु : सुप्र नम् ...        | ९५  |
|       | गगनमारु लादश न म् ...       | ९६  |
|       | : सुद्धि र थनम्             | ९८  |
|       | दभूम्य सु म्                | ९   |
| २     | भूत व्दन थनम्               | ५२  |
|       | पि त् ि न चै                |     |
|       | नम्                         | ९५३ |
|       | पृि दी दि नम् ...           | ९५५ |
| ३     | ि दीन ि स्थि द थनम् ...     | ९५८ |
|       | ि पोपयो स्व म् ...          | ९५९ |
|       | ः गि ि पो नैर म् ...        | ९६  |
| ५     | ि स्व णादि तिस्तिक नि प     |     |
|       | पूव दि थ म् ...             | ९२  |
|       | दी ि थनम् ...               | ९६  |
|       | वैः ि ह्यण वि पि ि          |     |
|       | इय ति िः ...                | ९६८ |
|       | हि णनम् ...                 | ९९  |
|       | ह्यण दिल थनम् ...           | ९   |
|       | इद्र नि पू के पो धन नम् ... | ९   |
|       | भृगुणा पूव नृ स्या ह म् ... | ९२  |
|       | सु सुखस्यानित्य ि नम् ...   | ९३  |
|       | सु हे ि शङ्क म् ...         | ९   |
|       | : ि ि ति दुः म् ...         | ... |

|    |                                      |       |
|----|--------------------------------------|-------|
| :  |                                      | पुटम् |
| ८  | ने नित्यसुखस्य धनम् ..               | ९५    |
|    | नरे नि दुः नम् ...                   |       |
|    | भूर्म दुः इ धनम् ...                 |       |
|    | भिः देन भू विपरि नम् ...             |       |
| ७९ | चतुष्पा धमस.क्षण निर्देशः ...        |       |
|    | ह्यच रि । । । क्यपरिप । वश्य । नम् ९ |       |
|    | गृहस्थ नम् ...                       |       |
|    | नप्रस्थ म् ...                       | ९८    |
|    | यस्यावश्यक । नम् ...                 |       |
|    | स णा मुदायो धनम् ...                 | ९९    |
|    | न नामा । धनम् ...                    | ९     |
|    | न मा इ धनम् ...                      | ९८    |
|    | द्वि इत्तरप ल गतुल्यतया सुकृि        |       |
|    | प्य धनम् ...                         | ९८२   |
|    | भूलोके ः भाशुभ भरे भ भफलप्राप्तिः    | ९८३   |
| ८  | सदाचाराणां वि रेण म् ...             | ९८५   |
|    | पवृत्तस्य निगू पि दयेन धान नम् .     | ८८    |
| ८२ | व्यात्मनि प सृ थादिनिरूपणम् ...      | ९८९   |
|    | शमद ।दिप्राप्तिकार नि पणम् ...       | ९९    |
|    | गि निरूपणम् ...                      | ९९२   |
|    | सत् रजस्तम ि ।यभेदनिरूपणम् ...       | ९९३   |
|    | प्र णपरो विपया ।स ।नग । नम् ..       | ९९५   |
|    | दा ल धस्य र ि पुरु नस्य ...          |       |
|    | सर्वप पो रणहेत धन ..                 | ९९६   |
| ८३ | चतु ियानयोग थ म् ...                 | ९९    |
| ८  | प प्रति ः ।रण थ म् ...               |       |
|    | ।न ध थ म् ...                        |       |
| ८५ | प णोपाख ।न थ म् ...                  |       |

|     |  | टम् |
|-----|--|-----|
| ५   | न े निर े थ म् ...                     |     |
|     | पस्याहङ्कारादिदोषत् े रि णि धनम् ...   |     |
| १८६ | द्वादिस दे ानास्थ ादानं गवः            |     |
|     | ो णे ऽत्यन् हे नि तुल्य म् ...         | ६   |
|     | ो क्षणन्ि पणम् ...                     |     |
| ८   | ो े दे दः ...                          |     |
|     | वि ादः ...                             |     |
|     | िद ...                                 |     |
|     | ालम्ब सव द- ...                        |     |
|     | ा े ुभ्यां दानवि े पर प्रदशनम् ...     | २   |
|     | णेनेक्ष े म् ...                       | ५   |
|     | ेक्ष्वाकु प्रति र ग्यर्षा पादनम् ...   | ८   |
|     | ावरूपविकृतयोः इ ु ादः ...              | ९   |
|     | धनम् ...                               | २५  |
|     | े णेः न्दशन देवादी ा गमः ...           | २६  |
|     | े ुभ्य ाण र धनपू य नि ादि रणम् ...     | २   |
|     | णेक्ष ुभ्य ाँ ेने ा ा करणम् ...        | २८  |
|     | ति ठनफल नम् ...                        | २९  |
| ८९  | पि देन ो नम् ...                       | ३   |
|     | ज्ञान णेगि रूपणम् ...                  |     |
|     | ो म् ...                               | ३२  |
|     | ान मँ णेः र पर े म् ...                | ३३  |
|     | ाव्य ान ाशुभक जन् थ म् ...             | ३   |
|     | स्य ब्रह्मणो र नम् ...                 | ५   |
|     | निवृत्तशब्द दि े व परब्रह्मणो न म् ... | ३६  |

|    |                                      |       |
|----|--------------------------------------|-------|
| :  |                                      | पुटम् |
| ८९ | इ द्रया गोचर थनम्                    | ३     |
|    | जीव : त्वाविनाश्य दि थनम्            |       |
|    | मना ज्ञ नाद्युपलवि र म्              | ३     |
|    | नसद त्वा वि नम्                      |       |
|    | पि ९ वि थनम्                         | ४५    |
|    | व्यानय गेन नम्                       |       |
|    | : ति वि युक्तव थनम्                  |       |
|    | तत्तच्छरीरकृतकर्मणां तत्तच्छरीर थनम् | ८     |
|    | नकमफलाना परिणामनिरूपणम्              | ९     |
|    | भूत छिनिरूप म्                       |       |
|    | भग रणानरूपणम्                        |       |
|    | नव्यात्तध म्                         |       |
|    | कर्मयुक्त पुरुष त्वे १०८             |       |
|    | वि नम्                               | ५     |
|    | त भा वि नम्                          |       |
|    | प १० ेदनप्रि धकनि पणम्               |       |
|    | प ब्रह्मप्रतिपत्तिसा नि पणम्         | ५     |
|    | योग निबन् सवादेन सारस्य गहनान्       |       |
|    | रवनिरूपणम्                           | ५३    |
|    | ग वि नम्                             | ५५    |
|    | सार नि पणम्                          | ५     |
|    | वदनु त्वा वि रि : निवृत्ति म्        |       |
|    | ता गीदशनम्                           | ५     |
|    | दद े मुखात् वि चित्तपुरु िपति        |       |
|    | नार े वि प्रि ज्ञत : ...             | ५८    |



| श्रुतः                              | पुटम् |
|-------------------------------------|-------|
| १ आ आ वप्रि ऋ यजुस्त इ वकथनम्       | ५८    |
| रदेन तुत्यभि दनपुरस भग : आ          |       |
| त्कर म् ...                         | ५९    |
| गव रदप्र भक्ते शयनि ।               |       |
| नि नम् ...                          | ६     |
| भगवद श्रयणस्य लस सारि दुः नि रि पूव |       |
| पर युज्यप्रा र क नम् ...            | ६     |
| १ गव : ि ल ग र थनम्                 | ६२    |
| चतु त्पत्ति नम्                     | ६३    |
| मधुसुदनन निवचनम्                    | ..    |
| पत्ति णनम् ...                      |       |
| र र थनम् ...                        | ५     |
| ब्राह्मण दिष्टि नम् ...             |       |
| द्रादिष्टि थनम् ...                 |       |
| ए ित्तम थनम् ...                    |       |
| १२ ब्रह्मपुत्र नम् ...              | ६८    |
| दिग्गतस िनामकथनम् ...               |       |
| दक्षिणदि िना थनम् ...               |       |
| दि गतम िना थनम् ...                 | २     |
| उद दिग्गत िना थनम्                  |       |
| १३ िभ वर ि निरु म् ...              |       |
| ये भग िवराह र र निरु म् ...         |       |
| ी गवता र पिणा दनवम म् ...           | ५     |
| न् ि गवतो र प्रदशनपूव               |       |
| ः ...                               | ६     |

|   |          |
|---|----------|
| । :   | पुटम्    |
| ९ ि र नो :  | ८        |
| ि गव नार प्रि स्वस्वरूपप्रदशनपूः<br>नै धिगम्य नम्                           | ...      |
| नारदन भग ति िोगप्रश्नः  | ... १ ९  |
| िभगवता नारद प्रति ेपेण ज्ञा मुपदिश्य<br>स्य ती द्वये दुवचप्रभा थनम्         | ... ८    |
| न रदेन भ्राभगव ति बृहवान त्यगोचरप्रश्नः                                     | ... १    |
| िभगव । । र. त्य विज्ञानेन स्वज्ञानसम्भ -<br>थनपूथ तनम्                      | ...      |
| न ेन विदित त्वयाथाथ्ये तत्त्वजिज्ञ सया धि<br>येजो िक िदि िपगमनम्            | ... ८    |
| नारदेन त्वज्ञ न य ब्रह्मसमीपगमनम्   | ... ८    |
| ब्रह्मण नारद प्रि तत्त्वदि िनाथ िभगवत्सन्निधि-<br>ग चादनम्                  | ... ८    |
| न रदेन न दगापु े त्वविवि ि भगव :<br>शरणवरणम्                                | ...      |
| श्रीभग ता नारद प्रति िनितरसाधारणपर र .<br>थ पूवक तज्ज्ञाना दिव्यज्ञानोपदेशः | ... १ ८८ |
| िण युधरि प्रति िवष्णुतत्त्वमुपदिश्य द श्र-<br>यणादिनियमनम्                  | ... १ ८९ |
| १५ श्रीभगवता नारद प्रति श्रीभगवदनु ि कार थनम्                               | ९        |
| नारदेन िभगवतः चरणारि दयोः प्रपत्यनु िन-<br>पूः त्स्तुति रणम्                | ... १ ९१ |
| नारदेन श्री गवतः शरणवरणेन सवपापविनिर्मा -<br>साधननिर नु प्राथनम्            | ... १ ९३ |

|                                  | पुटम् |
|----------------------------------|-------|
| १५ रं ति ति तो थं दनक णम् ...    | १५    |
| भगवता रद नि नि ।                 |       |
| धन                               | ९     |
| र ति श्रो                        |       |
| ता वे जे तु प                    |       |
| थ म्                             | ...   |
| ध्रिभग ति ःपदम तो णा             |       |
| रि मि म्                         | १८    |
| ति ग न्वप्रभ                     | १९    |
| १ रं ति ति श्रभग णनम् ...        |       |
| भग तो गरु न तिपाद                | २     |
| भगवतः                            | ...   |
| १ रं ति कगुरुशि य ादः            | ९     |
| गुरुण शिष्य ल्यभ्य त्म र तो देशः | ...   |
| ति ति ादन सु धनम्                | ...   |
| देवेदाङ्गाद तुक्र णम्            | ...   |
| दुच्यहङ्क ादी स्ति निरूप म्      | २     |
| पुरु व्दनि नम्                   | ३     |
| ति ादि र स्वभावादि नम्           | ...   |
| जीवत्त तिपादनम्                  | ६     |
| जी ादिसम् म्                     | ...   |
| स र त वद्ध नम्                   | ८     |
| ग दो ादि ञनम्                    | ९     |
| ब्रह्मचर्यो यप्रा पादनम्         | २     |
| तो सा प्रति ादनम्                | २६    |

|     |   |                      |                        |        |
|-----|---|----------------------|------------------------|--------|
|     | : |                      |                        | पुटम्  |
| १   | १ | देवगु                | गोरासुरगु वस्य         | नम् ३२ |
|     |   | प्रवृत्ति ि          | ादिक म् ...            |        |
|     |   | पो ण                 | पूवक ा तिप्रा थनम् ... | ३      |
|     |   | सार पुन वृत्तिल      | पूव िभग                |        |
|     |   | १ १ पुन वृ           | थनम् ...               | १ ३६   |
| १८  |   | शि                   | नम् ...                | ३८     |
| १९  |   | शिख                  | ानु ादः ...            |        |
| २   |   | जनकपञ्च              | ाद थनम् ...            | ५      |
|     |   | त्तदिनि              | ाय दशनम् ...           | ५२     |
|     |   | १                    | क्षण ा म् ...          | ५      |
| २   |   | गोपा                 | नम् ..                 | ५      |
|     |   | णजन                  | ादः ...                | ५९     |
| २ २ |   | सुवर्च               | ि ेतुपाख्यानम् ...     | ६२     |
| २ ३ |   | द स म्               | ... १ ६                |        |
|     |   | दा ण                 | नम् ...                |        |
| २   |   | गोनिरू               | ... ९                  |        |
|     |   | उप निरूप म्          | ...                    |        |
|     |   | ब्राह्मणनां गोजनादान | थनम् ...               |        |
|     |   | पितृभ्यो िवोद        | ाशना म् ...            | १      |
| २ ५ |   | ऋ ः ारण १ ि          | णम् ...                | ८२     |
|     |   | परगोः                | प भा ादि म् ...        | ८६     |
| २   |   | पशब्दस्य न           | १ नम् ...              | ८      |
|     |   | प ब्द ाना            | ध म् ...               | ९      |
| सु  |   | ेतु रि               | ादेन ानस्य िक्ष        |        |
|     |   | ाधनत्र थनम्          | ... ९१                 |        |

| ध्यायः                                       | पुटम् |
|--|-------|
| २ द्रप्र वादेन स्य श्रयस्साधनं पिपदनम्       | .     |
| नि कर्मप्रत्योः गमनं तृत्वबुद्धिं पू         |       |
| गमां निरूपणम्                                | ...   |
| प्राधिकशुभाशुभफलानुभवस्य नश्वरं धम्          | ...   |
| ः ि णविचनपू धनं धम्                          | ...   |
| २ द्रब्रसवादः                                | ...   |
| इद्रे ति भवनम्                               | ...   |
| ि द्राधि चनम्                                | ...   |
| २९ इ द्रब्रति देन वस्येरे रति यत्रप्रतिपदनम् | ...   |
| स्य ललितेन ति ताया यथ्य धनम्                 | ...   |
| हाभ्यप्रतिपदनम्                              | ...   |
| २ गिदेव्ये निगने द्र । त्कार पू              |       |
| तोत्तदः                                      | ...   |
| श्रियस्त्रस्य नचतु वा धनम्                   | ...   |
| इ द्रब्रति तदः                               | ...   |
| २ द्रन ति देनापदि शोकत्यागपू भिगा-           |       |
| द्यानादेः त चोदनम्                           | ...   |
| शो स्थाने तु कथनम्                           | ...   |
| पुरुषेण सप्तानु नु :                         | ...   |
| दिपव र खदः गोस्समिनेन                        |       |
| विकृतति धनम्                                 | ...   |
| २१२ इ द्रसि देन पिपदि ल नस्य सु साध-         |       |
| नत्तदपादनम्                                  | ...   |
| वस्य ल इत्येन लस्य तु रत्त धनम्              | ...   |
| २ द्रपदस्या द्वि द्र धनम्                    | ...   |

|   |       |
|---|-------|
| ध्य :   | पुटम् |
| २ पृथ दी ।त्मन मैश्वर्य ।वादिक नम् .          | २२८   |
| लिे द्रग ।न सनम् ..                           | २३    |
| लिन रा नम्                                    | २३    |
| ।लस्य सवनिय म धनम् ...                        | २२१   |
| इ द्रेणाि स्य का नि नम् ...                   | २३३   |
| इ दे ि ि पा िे िे निरूपणम् ...                | १२२५  |
| इ िे गे सुखेनावस्थ नम् ...                    | २३    |
| २ २ इ द्रना दाभ गङ्गायं ।ग .                  | १२३   |
| ि । इ द दस दशनम् ..                           | २३९   |
| इ द्रल ि :                                    | ...   |
| लक्ष्या । स्थल विशेषनिरू णम् ...              | २४    |
| या । । ि बहुधा निरूपणम् ...                   | २     |
| क्ष्या ि प्रव स्थ निरूपणम् ...                | २४३   |
| क्ष्य ि ध्रविरूपणम् ...                       | २४    |
| २१ सि जैगि वादे र ग्यपूर्व भगवज ।न            |       |
| श्रेयस्साधनः धनम् ...                         | १२५   |
| ।मनं शीलादिप्रशसनम् ...                       | २५    |
| २१५ गव । सवजन शी रणे तुन रदसङ्गुणप्रं सनम्... | २५    |
| २ ।सशुक ।देन सधसि स्थिति रप्रति पादनम्        | ...   |
| सेन तत् स्य वि रे निरूपणम् ...                | २५८   |
| ।ने कृतादियुगध ि दनम् ...                     | १२५९  |
| २ धासेन सृ थादिप्रि पादनम् ...                | ६२    |
| श्री एव वसृष्टयादि ।रणः नम् ...               | २६२   |
| ज नि ज मनि तत्तत्कमानुगुणसृष्टयादिविध नम् .   | २६    |
| सृ थादि ि भेने भदकथनम्                        |       |

२ तप षया मणि ।

|     |                     |                    |                  |
|-----|---------------------|--------------------|------------------|
|     | :                   |                    | टम्              |
| २   | सु यादौ वेदप्र      | म्                 | .. २६५           |
|     | दियुगक्रमेण         | दिवृद्धि           | .. २६६           |
| २८  | र णनम्              |                    | .. २६८           |
|     | परमात्              | प्रलयवर्णनम्       | .. २             |
| २   | ह्यणधर्म धनम्       |                    | ...              |
|     | दिभ्यो              | शक्तिदाननियमनम्    | .. २२            |
|     | दिभ्यः              | रदा दृष्टा थ       | ..               |
|     |                     | नम्                | ..               |
| २२  | वेदवेदा             | भ्ययनपूर्व तु      | त्व नम् २५       |
|     | नस्य                | नुष्ठानद्वारा      | तो द थनम् ... २६ |
|     | दिपर्यायाद्यात्     | :                  | नम् ... २        |
| २२  | श्रेयस्साधनत्       | प्रपञ्चनम्         | ... २८           |
|     | ज्ञानस्य तो         | म्                 | .. २             |
| २२२ | भूताना भेदस्वभावादि | नपू तज्ज्ञ श्रे    |                  |
|     | त्वक                | नम्                | २८६              |
|     | नस्य                | दिगोचर तद्         | म् .. २८८        |
| २२  | ज्ञानादी            | दन विधिरूप         | म् ... २९        |
|     | कृतयु               | आशस्त्यवर्णनम्     | ..               |
|     | य                   | ण                  | नम् .. २९        |
|     | द्वाप               | दान थ म्           | ...              |
|     | दिकाना              | ि चारादी           | मूलो ति नम्      |
|     | प्रति               | दान विर्भा धनम्    | ...              |
| २२  | इन्द्रियनि          | दीन ब्रह्मज्ञान धन | नम् ... २९२      |
|     | भू                  | निरूपणपू           | दिनिरूपणम् ...   |
|     | प आत्म :            | न्द्रियि धनपूर्व   | व्यापि थनम् २९   |

| श्लोकः   | पुटम् |
|--|-------|
| २२ परमात्तुः दुर्ज्ञेयं च पूज्यं मन्त्रितुं शक्यम् ... | २९५   |
| २२५ योगो दिव्यः ...                                    | २९    |
| गिक्त्यन्तरूपणम् ...                                   | २९८   |
| गोविन्दो नाम दिव्यरूपणम् ...                           | ३     |
| पञ्चकृत्यस्य गोविन्दः सिद्धिं यनम् ...                 | ३१    |
| २२६ गोविन्दो दिव्यः ...                                | ३२    |
| गोविन्दः नजः पारः ...                                  | ३     |
| गोविन्दः पुनरावृत्तिं गोविन्देति नम् ...               |       |
| २२७ गोविन्दो यनम् ...                                  | ३६    |
| गोविन्दः गुरुद्वयं दिव्ययनम् ...                       | ३     |
| २२८ गुरुपादानम् ...                                    | ३९    |
| गुरुपादानं दिव्यं नित्यं ...                           | २     |
| गुरुपादानं यनम् ...                                    | ३२    |
| २२९ गुरुपादानं ...                                     | २३    |
| गुरुपादानं यनं गोविन्दो नित्यं नम् ...                 |       |
| गुरुपादानं नित्यं यनम् ...                             | ३     |
| गुरुपादानं भगवन्स्य धर्मपारत्या यनम् ...               | २६    |
| गुरुपादानं कृत्यन्तरूपणम् ...                          |       |
| २३० गुरुपादानं दिव्यं रूपणम् ...                       | ३८    |
| गुरुपादानं दिव्यं : गुरुपादानं नम् ...                 | ३२    |
| गुरुपादानं दिव्यं यनम् ...                             |       |
| २३१ गुरुपादानं गुरुपादानं यनम् ...                     | ३२    |
| गुरुपादानं गुरुपादानं यनम् ...                         | ३२    |
| २३२ गुरुपादानं यनम् ...                                | ३२    |
| २३३ गुरुपादानं द्वयं कृत्यन्तरूपं पूज्यं यनम् ...      | ३२    |



| श्लोकः                                     | पुटम् |
|--|-------|
| २२२ सत्त्वगुणैर्निरूपणम्                   | १३३२  |
| २२२ निनाऽऽनप्रकरथम्                        | २२    |
| २३५ इन्द्रियनिश्चयपरमात्मनश्च धनम्         | २३९   |
| २३६ आनप्रमाधनम्                            | २     |
| २३६ आयुषायचित्तनम्                         | ३३    |
| २३६ आयुषाप्रतिपादनम्                       | २५    |
| २३३ ज्ञाननिवृत्त्युपाधयनम्                 | ३६    |
| २३८ त्रिकयोगानां शसनम्                     | ३५    |
| २३९ अस्मिन्नुत्तरधनम्                      | २५२   |
| २३९ अस्मिन्नुत्तरधनम्                      | १२५   |
| २ भूतपञ्चकगुणप्रतिपादनम्                   | ३५६   |
| २ धिरेत्युगोचरविधयः                        | ३५८   |
| २ भीष्मात्काकपनसवादधनम्                    | ३५९   |
| ब्रह्मणा त्रयदहनम्                         | १३६   |
| ब्रह्मणेवै प्रतिपादनम्                     | २६    |
| २ ब्रह्मणा जगत्कारणधनम्                    | २६२   |
| ब्रह्मणे प्रतिपादनात् विराधम्              | २     |
| ब्रह्मणासारायत्युदेयजनम्                   | १३५३  |
| ३ त्र्युदेव्यप्रतिपादनम्                   | २६५   |
| ब्रह्मणा त्र्युदेयप्रतिपादनानुष्ठाननियमनम् | ३६६   |
| ब्रह्मवचनात् त्र्युदेव्यप्रतिपादनात्       | २     |
| धर्मस्य विद्वान्दिकपूजप्रशसनम्             | २२    |
| २५ धर्मदेशकालाद्यगुणैर्नियततामायोपः        | २६    |
| धर्मस्य सङ्ग्रेणनिर्घनम्                   | २     |

|     |   |       |
|-----|---|-------|
|     |   | पुटम् |
| २६  | जतिचरित्त धनम्                            | २९    |
|     | जालिना तुलारसमप नम्                       | ३८    |
| २७  | तुला जा वृत्ता धनम्                       | ३८६   |
|     | धरे जाजलये नम्                            | ३८    |
| २८  | सुकृ क फलप्रतिपादनपू प्रश म्              | ३९    |
|     | लितु धर दः                                | १३९   |
| २९  | जाजलिनःऽऽहूतपिभिः जलये तिचनम्             | ३९९   |
|     | तु रज लिस दः                              | ..    |
| २९  | वि युर्गताकथनपूर्वक ररे विन धमचरण-        |       |
|     | नि मनम्                                   | ...   |
| ५   | रि रि ती ध्यानम्                          | ...   |
|     | तित्व रि । त्व व धनम्                     | ...   |
|     | तुर्गौरवप्र नम्                           | ९     |
|     | तुरेव परदेव त नम्                         | ...   |
|     | त्रि व्य धनम्                             | ४५    |
| २५२ | मत् दि प्रजार प्र र धनम्                  | ६     |
|     | धुमसत्य त्सवादः                           | ४     |
| २५२ | लिस्यूमरश्मि दे यज्ञार्दन फला देशेन       |       |
|     | तव्यवप्रतिपादनम्                          | १४२१  |
|     | पि स्यूमरश्मि दः                          | ४२२   |
| २५४ | स्यूमरश्मि लि व दः                        | १४२   |
| २५५ | गा पि वादः                                | २६    |
| २५६ | धार रित्तकथनेन धमरथैव व्य यस्वप्रतिपाद म् | १२    |
|     | ण्ड र दि दः                               | १४५   |
|     | धरस्य धम एव रिः                           | ४६    |

२ शांतिप षयानु मणि

| अध्याय : |                         | पुटम्  |
|----------|-------------------------|--------|
| २५       | यज्ञस्य वि मूलं नम्     | ५      |
| २५८      | दिदो प हेतु चनम्        | ... ५३ |
|          | श्रे थनम्               | ... ५५ |
| २५९      | गोपायस्य वि थनम्        | ... ५  |
| २        | भू सृष्टि ति रादिक पू ल |        |
|          | रदस दः                  | .. ६   |
|          | नारदसवादः               | ...    |


हाभारतम्

१२ शान्तिपर्व २

द्वितीयसम् दम्



## शान्तपर्वण द्वितीयसम्पुटम्



### एकविंशत्यधिकशत अध्याय

( पत्र )

भूति विधि तिा दिा वै त्यागे ाप्य नोर  
नम्

धिरिः

|  |   |
|--|---|
| क्षाणस्य दर्घसूत्र सनुक्रेशस्य वयुषु           |   |
| परिशङ्कितमुख्यस्य दुष्टमन्त्र भरत              | १ |
| रिक्तरज्यपार निर्द्वयनिचय च                    |   |
| <sup>1</sup> अस भवितमन्त्रस्य भिामत्यस्य सर्वत | २ |
| परच अभियतस्य दुर्बल लयसा                       |   |
| अपचेतसो ब्रूहि किं र्यम शि यते                 | ३ |

श्रेद्विजिगापुस्य द्धर्मार्थकुशलश्शुचि

\* तृ सु ाो पत्र र भ राजधम इते दृश्यत  
णि सृ पद्ध प इति पृथ नि शि -  
स्ति ि :

1. अा भाग

- जनेन सन्धिर्वीत पूव पूव विमोक्षयेत् ४  
 अत्मनः सिरोधेन धतेन पिरेचयेत्  
 अपस्य रजधना रेदयेन ऽऽपदम्  
 तद्भ्रमवो याणि जीवन् पुनर्पार्जयेत् ५  
 यातुस्यु ल्यगाच क्यारितुपद  
 कस्तत्राधिकत्मानसन्त्यजेदर्धधर्मवित् ६  
 अपरधाञ्जगुसेत सपनेद  
 नत्वेत्तप्रदतय शक्येसतिथन  
 बुद्धिः  
 अभ्यतरेचपितेबोचोपनिर्णीते  
 क्षीणे श्लेशे श्रते त्रेके ऽर्यम शियते ८  
 क्षिप्रवा सधिकमस्यत् क्षिप्रतीक्ष्ण  
 प्रतापनय क्षिम् एतद्वै सा परायिम् ९  
 अनुरक्तेन पुष्टेन हृष्टेन जगतीपति  
 अल्पेनापि स्वसैयेन भूमजयति भूमिप १  
 हते दिमरेहेद्धाव स्वमादेत्  
 युद्धे हि सत्यजन् प्राणञ्जु शस्यैतिसले तम् ११  
 सर्वलो ऽगस त्वमृदुत्वं गतुमे च

१२२] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपव ६ ३

आश्वास द्वि य यात् सञ्ज द्वा प्युप नहौ २

अपचङ्कमिषु क्षिप्र सेनां ं परिस त् ेत्  
विलित च त्रेण स्वयमु क्रमेत् १३

इति तिमहाभारते सहस्रिकाया हिताया वैयासि  
शान्ति पर्वणि ए विंशत्यधि तो : २  
आपद्धर्मपर्वणि तोऽध्यायः  
अस्मिन्नध्याये ३ श्लोकाः

### द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः



१ े ि द्वि ापदि र सायुजन रे  
णापि द्र रणीय तोक्तिः

यु ि :

हीने परमे धम सर्ले तिल ने  
सर्वस्मिन् दस्युस द्रूते पृथि यामुपर्ज ने १

केन खिद्र णे ज वेज् जघये ल अ गते  
अस त्यजन् पुत्रपौत्र न् अनुक्रोश त् पित म २

ः

वि नबल स्थ य जावित य तदा वेत्  
स स ष र्थमे दम् अस थ न ि न ३



|   |    |
|---|----|
| साधुभ्यो र्थमाद साधुभ्यस् प्र च ति      |    |
| अ त न सङ्गम कृत् । कृत् धर्मकृदेव स     | ४  |
| रेषेण त नो र जन् राष्ट्रे स्थितिम ेपयन् |    |
| अद य दद त भ्र तुर्विक्त ममेति व         | ५  |
| ेज्ञ पूते ये र्ते निदिते वपि            |    |
| वृत्तविज्ञानान् धीर कस्त क्तमिह र्हीति  | ६  |
| येषां बहुमत बुद्धिस् तेष म या न रेचते   |    |
| तेजस ते र्ते बलवन्ते युधिर              |    |
| यदे म त श स्तदनु र्ते                   |    |
| तदै से ते मे र्ी चाऽयथेत्तरम्           | ८  |
| ऋति क रेहिताचर्यस् सत्कृतैरपि सत् ता    |    |
| न णन् यजयीत दोषन् प्रा ेति यजयन्        | ९  |
| एतत् प्रमाण लो चक्रिरे तत् सनातनम्      |    |
| तत्प्र णेऽवगाहेत तेन तत् स ध्वसाधु      | १  |
| बहो म्मा य दोषन् ब्रूयु परस्परम्        |    |
| ते वचनाद्र ज सत्कुर्यद्भू तयेत          | ११ |
| न य परिवादो वै न श्रोत य थ न            |    |
| णै पिधा यै ग य व ततोऽयत                 | २  |



यथ तेन पथा ग य यु  
र त्तमे दू ए गच्छ युधि र २२

इति गीमहाभा े शतसह ाथा ङि वैयासिक्या

े पर्वणि द्वाविंशत्यधि ाोऽध्य २२

८ पर्वणि े ाो ष्य : २

[ रि े २२ श्लोका. ]

त्रये े त्य शततमोऽध्य य



धिष्ठि तिरज्ञा थ थङि ेशवृ : तव्य कि  
२ दस्युभिर पद्यपि साव े ा ाोक्तिः २

भी :

रष्ट्रात् परराष्ट्र ेश स नये प  
कोश द्वि र्म े तेय र ज्यमूल प्रवर्त े १

त त् सञ्जनयन् ेश सत्कृत्य परिपालयन्  
परिप ल्यानुगृह्णाय दू एष धम सना न २

स कोशश् द्वभ वेन न नृशस्येन जायते  
यम प.म ेशसङ्ग्रहण चरेत् ३

बल त े ेशस्य ते बलम्  
व ते राज्यम् राज्ये श्रा तो भेत् ४

उच्चैस्ते श्रियो हानिर् यथ रण तथ  
 त् श बल मित्र थ रज वि र्धयेत् ५

ी श हि रज नम् अ म य शत्रव  
 न च ल्पेन तु ि णा<sup>१</sup> युत्सह<sup>१</sup> ति च ६

श्रिये हि रण रजा सति यां लभते पराम्  
 गूहति पापानि व स प पमिव स्त्रिय

बुद्धि तु यै र ि कृत नर  
 स ल वृ इवासस्त्र जि िंस्नेव विन्दति ८

ईदृश कुतो र ० सुख भर सत्त ८

दे न लायेद् उद्यमो वैव पैरुषम्  
 अप्यपर्णि भज्येत नमेतेह चित् ९

यरण्य समाश्रि चरेद् युगणै सह  
 न त्वेवे द्विक्तमर्य दैर् द युभिस्सहित रेत्

द यूनां लभा सेना रैद्र र्म भरत  
 एका तते मर्य द त् सर्व उ द्विजते जन ११

द े प्यनुशङ्कते निरनुक्रोशक रिण १२

पयेदेव म दां जनचित्तप्रस दिनीम्  
 अल्प र्थेषु मर्य ा ले भ ति पूजित १३

1. युत्स युत्सु । इ

|  |    |
|--|----|
| नाय लोको न पर इति यवसितो जन                  |    |
| नाल ग तुमिह श्व स नास्तित्रयभयशङ्कितै        | १४ |
| यथ सद्भे पर द नम् अहिंसा दस्युभिस्तथा        |    |
| अनुरञ्जि भूत नि समय देषु द यु                | १५ |
| अयुध्यम न द न द रामर्श कृत त                 |    |
| ब्रह्मवित्तस्य चाद न निशेषकरण तथ             | १६ |
| य मोष पथि स्थान ाधु वे विगर्हितम्            |    |
| सशेष ए भवति द युरे <sup>१</sup> त नि र्जयेत् | १  |
| भिस दघते ये च विनाश । भरत                    |    |
| सशेषमेवोपलभ्य न वन्ति त्वनि यम्              | १८ |
| तस्मात् सशेष कर्त य ाधानमपि द युभि           |    |
| बलस्थोऽहमस्मीति नृशसानि स चरेत्              | १९ |
| सशेषकारिण । शेष पश्यति सर्श                  |    |
| निशेष रिणो नित्य निशेष रणाद्भयम्             | २  |
| इति श्रीम र्े सहि ाय ि ाय                    |    |
| शा ि वणि गो शत्यधि श गोऽध्यायः २३            |    |
| ८ ापद्धमपर्वणि तु े गोऽध्यायः ३              |    |
| [ ि िय े २ श्लोकः ]                          |    |

1 ा जयेत् . -व विना  
ति नि

## चतुर्विंश अधकशततमोऽध्याय



श्लेषेण युधिष्ठिरं प्रति काम दवचन वादरू बलप्रशसनम्  
पापं तत्परिहारोपायं नम् २

|   |   |
|---|---|
| अत्र प्युदाहरं तं मम् इतिह स पुर तनम्         |   |
| अत्र <sup>१</sup> क म दवचनं कीर्तयति पुराविद् | १ |
| लक्षं देव धर्मं शै क्षत्रियस्य विजानत         | १ |
| तौ तु न य धत यै परोक्षा धर्मयातना             |   |
| अधर्मो म इत्येतद् यथ वृकपद तथा                | २ |
| धम धर्मफले जातु न ददर्शह कश्चन                |   |
| बुभूषेद्वलमेवैतत् स बलवतो वशे                 | ३ |
| श्रिय बलमम त्याश्च बलव निह वि दति             |   |
| ये नाढ्यस्स पतितस् तदुच्छि यदल्प म्           | ४ |
| व पत्ये बलवति न के ज्ञयते भयात्               |   |
| उभौ सत्य वि रौ षै त्रायेते मते भयात्          | ५ |
| अति धर्मद्वल म ये बलद्धर्म प्रवर्ते           |   |
| बले प्रतिष्ठितो धर्मो धर यामिव जङ्गम          | ६ |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| धूमो योरि शे बल धो नु र्ते           |    |
| श्वरे बल धो द्रम ि सश्रित            |    |
| श्यो बलवतां धस् ख भोगवत ि            |    |
| न यसान्य ल स ल जे म्                 | ८  |
| दुराच र क्षीणबल परिमण ग छति          |    |
| अथ स्मादु द्विजते सर्वले े वृ दि     | ९  |
| अपध्व े ते दु ख जा ति जा ि           |    |
| जा ि यदधिक्षि यथैव मरण था            | १  |
| यदेनमाहु प पेन च रित्रेण विव क्षितम् |    |
| सुभृश त ये तेन कृशल्येन परिक्षत      | ११ |
| अत्रै द हुर च र्या पापस्य रिमेक्षणे  |    |
| त्रय वि ि निषे े तथेप ित च द्विज न्  | १२ |
| स दये धुरय व च चा यथ र्मण            |    |
| महामनाश्चै भवेद् विवहे मह ले         | १३ |
| इत्य ि देदेव परेष ि र्तियेद्गुणान्   |    |
| जपेदुद शील स्य त् पेशलो न तिजल्प     | १४ |
| क्ष स प्रविशेद् हु कृत्व सुदुष्कृतम् |    |
| उच्यमाने ऽपि लोकेन बहु तत्त चि तयन्  | १५ |

१२५] शान्तिपवणि आपद्धर्मपर्व ६ १

उपप्राप्त्यै म च र क्षिप्र बहुमते भवेत्  
ख च त्त भुञ्जी वृत्तेनैकेन गोपयन् १६

अपि तेभ्यो मृगन् नयेच्च सतत ने १

ये न प्रतिगृहीत द युभोजनश या  
ले च लभे पूजां परत्र च महत् फलम् १८

इति गीम भरौ सहस्रिकाय हितार्था यारि  
र्वी विशत्यधि गोऽभ्यः २  
८ णि णिऽभ्याय  
[ स्मिन्नभ्याये ८ । १० ]

### वश्यक मोऽऽयाय



ने णि णि दस् णेऽपि तद णिः  
गे णि णि प यचरि णिप थासः

अत्र युद हर तीमम् इतिहास पुरातनम्  
थ द युस्समर्यदे द युत् त् सिद्धिमा वान् १

अर ये साय पूर्वाहे मृगयूथप्रकोपिता  
णि मृगयूथ नं निपात नं च केविद २



- सर्वं ननदेशज्ञ पारियत्रचरसद  
 सबज्ञसर्णानाम् अमोघेपुर्हृढायुध ३
- अयने शतां सेनम् एक एव जिगयस  
 स वृद्धववपितरौ महारयेऽभ्यपूजयत् ४
- धुमसैर्मूलफलैरुन्नैश्चोचैरपि  
 सत्यभोजयमससयक्परिचचरह ५
- आरयकन्प्रजितन्णान्परिपलयन्  
 अपि तेभ्यो मृगान् हत्वा निनाय सततने ६
- येऽस्म प्रतिगृहितदस्युभेजनशया  
 तेषामसद्यगेहे एक एव स गच्छति  
 तबहूनि सहस्राणि मणीत्वेऽभिवारे  
 निमर्यादानि दस्यूनं निरनुशवर्तिनाम् ८
- दस्युः  
 हूर्तदेशलप्राशशूरोढयुध  
 णर्भनेमुख्यस्सर्वेषमेसित ९
- यथयथाक्षयसिनकरियमथातथ  
 पायान् यथान्यययथमातयथपित १

दस्युः

|  |    |
|--|----|
| म धिष्ट ि य र्भ रू म शिशु म तपस्विनम्<br>युध्यान्ते हन्त ये न च बलात् ि          | ११ |
| सर्वथा ि न ह त । सर्वस वेपु बुध्यत<br>नित्य गो णे ि योद्ध य च तदर्थत             | १२ |
| सत्य च नोपह त य सरवि च मा कृथ<br>पूज्यन्ते य दे ।श्च पितरेऽतिथ श्र ह             | १३ |
| सर्वभूते वपि रे णो मोक्षमर्हति<br>र्य चापचितिस्तेषां स र्वेन पि भा येत्          | १४ |
| त्वेते स दु सू तस्य वि त् पराभवम्<br>४ तस्य त्रिषु लोकेषु त्र भवति कश्चन         | १५ |
| यो ह्याण न् परिभवेद् विन श ऽपि रे चयेत्<br>सूर्योदय इ श्यं ध्रु त पराभव          | १६ |
| इहैव फलमासीन प्रत्याक ड्क्षेत सवश<br>ये न प्रदा ति िंस्तान् सेनाऽभिय स्यति       | १  |
| शिक्ष थ विहिते द ो न धाथ ि र्ध यते<br>ये च शिष्टान् प्रवाध ते ध र्यस्तेषां वध सृ | १८ |

1.

2. त्य

. स ि

4

नास्ति

- हि र ष्ट्रोपरोधेन वृत्ति कुवति केचन  
ने ।तु ि येरस्ते णप ि मये थ १९
- ये नर्धर्मश ेण तेरि ह द व  
अपि ते दस्य े भूत्व क्षिप्र सिद्धिमवा यु २
- त् सर् मनुचु स्ते ।प य नुशासनम्  
वृत्ति च छे भिरे प पेभ्यश्च युप रमन् २१
- प य र्मण तेन महता सिद्धिमा ।न्  
स धून म वहन् क्षेम दस्यून् प प ि वर्तयन् २२
- द ।प यचरित ये नित्यमनुकातयेत्  
नार येभ्यस्स भूतेभ्ये भयमृ छेत् थ न २३
- भय तस्य र्तेभ्यो न मर्त्येभ्य थञ्चन  
न स े नासते र जन् स र येषु गोप ि २४
- इति ।रते शतसहस्रिकाय सहिता  
शातिपर्वणि ि ि गोऽः २५
- ८ ।पद्ध णि गोऽभ्य : ५  
हि न्य े २ क्षे .]

## विं त्यधिकशततमो ध्याय

युधिष्ठि प्रति गेशवृच्च पहायान धनविचनम्

भी :

- अत्र गथ ब्रह्मर्गीत त्रितयति पुराविद  
 येन मर्गेण राजान कोश स यन्त्यु १
- न ज्ञश ल ना हर्यै दे मे च  
 दस्यूनां नि यणा च क्षत्रियो हर्तु हति २
- इमा प्रज क्षत्रियण रक्षया ह य भरत  
 धन हे क्षत्रियस्येह द्वितीयस्य न विद्यते ३
- द स्य द्बलाथ व न यज्ञ थमेव  
 अभो धारि त्व भोज्य एव भ त्युत ४
- ये वै न दे न् न पितन् न मर्त्यन् हविषाऽर्चति  
 अनर्थिकां तद्धि तम् आहुधर्मविदो जन ५
- हरेत्तद्द्विण राजन् धर्मिक पृथिवीपति ५
- न हि न प्रीणयेल्लोकान् न लोके गर्हते नृपम्  
 अस धुभे निर द य स धुभ्ये य प्रयच् ति ६
- अत्मन सङ्गम कृत्व मये धर्म दे स

आङ्घ्रिज्ज जन्तो यद्वच् ८ व चो यथातथा

निष्ठत स भ तित तथ यज्ञ प्रज यते

८

यथै दशमश यथा कीटापिपीलिकम्

सै वृत्तिरयेषु यथा धर्मो िधीयते

९

था कस्म द्भवति भूमौ पांसुस्तृणोलपम् !

तथैवैह भवेद्धमस् सूक्ष्मस्सूक्ष्मतरस् मृत

१

इति िहाभारते सहस्रिकाया ि वैयासिक्य

शा पत्रणि षड् शत्यधि िऽभ्याः २६

पद्धर्मपत्र िऽभ्यायः ६

[ ि च्छभ्य ये ि १ ]

### वशत्यधिकश िऽयाय



भी ि युधिरि प्र ि िग पत् तिवि िने द्वा ततय ि-  
प न धनम्

अत्रै चेदम यग्र शृ व ख्य नमनुत्तमम्

दार्धसूत्रमुपाश्रित्य िर्याकार्यविनि ये

१

न ति ग धे जलस्थाने कुशल सुदस्त्रय

भूतमत्स्ये कै तेय वभूवुस्सहच रिण

२

त्रै प्र कालज्ञो दार्घर्शं थ ऽपर  
द्विघसूत्रस्तथ चैकस् त्रय णा जलचारिणम् ३

द चित्तजल ान मत्स्यव ध सम तत  
नि यामा रथो ने षु वि धैमुखै ४

क्षीयमाण तद्बद्धा जल ान भयागे  
अ वाहाघदर्शं तु तावुभौ सुद्वै तदा ५

द्वैद्वै

इयमापत् समुत्पन्न सवषां स लिलैकसाम्  
शीघ्रम य गच्छम पथा यव शु.यति ६

अनागतमनर्थं हि सुनयैर्य प्रबोधते  
न स सशयमा ेति तथाऽ यत्र प्रय महे

:

द्विघसूत्र तु यस्तत्र सोऽ ित् स गु यताम्  
तु त वत् त्वर कार्या इति मे निश्चि । म् ८

अथ प्रतिपत्तिज्ञस् त द्विघदर्शनम् ८

प्रा लङ्गः

प्रे लिले न मे ि य त परिहा ते ९

:

एवमुक्तो निराक्रमद् द्विघदर्शं मह मति  
जगाम ो सै न ग भीर सलिल शयम् १

- तत प्रसृततोय समक्ष्य सलिलशम्  
 बबन्धुर्विवैर्यैर्गैर्मत्स्यन्मत्स्येपर्जविन ११
- लिलोड्यमने तस्मिन्तु तत्त जलशये  
 अग द्रहण तत्र दीर्घसूत्रसहापरै १२
- दानक्रियमाणच मत्स्यनां क्ष्यरज्जुभि  
 प्रविश्य तर येषाम् असत् प्रतिपत्तिमान् १३
- स्तमे तदुदानगृहव तत्तथा तु स  
 सर्वानेव तु तां ते दुर्ग्रथित इति १४
- तत प्रक्षल्यमनेषु सर्वेषु विमले जले  
 त्यक्त रज्जु<sup>१</sup> मुक्तोऽसौ शत्रुस प्रतिपत्तिन् १५
- दीर्घसूत्र तु म दत्तम हीनबुद्धिरचेतन  
 रणप्रप्तान् सूत्सु तथैवोपदेति य १६
- एवं प्रतमकलयो होहा बुध्ये  
 स विनश्यति वै क्षिप्रदीर्घसूत्रो यथ ज्ञ १७
- आदौ न कुरुते श्रेय कुशलेऽस्मीति य न्  
 स हि सशय इति यथा स प्रतिपत्तिमन् १८
- अनाग विघ्न तु ये नर कुरुते क्षमम्  
 श्रेय प्राप्तेति सैऽत्य त दीर्घदर्श यथ सै १९

|   |    |
|---|----|
| कला का मुहूर्ता दिनरत्र्य क्षणाल        |    |
| पक्षा मसा षडतव काल सवत्सराणि च          | २  |
| थिर्व देश इयुक्तस् स च कालो न दृश ते    |    |
| अभिप्रे र्थसि थ दूरते यत थ              | २१ |
| ए धर्म र्थशेषु मेक्षशेषु चर्षिभि        |    |
| धनति निर्दिता तौ मे च भिमतौ नृणम्       | २२ |
| परिक्ष्यार युक्तस्तु स स यगुपप दयेत्    |    |
| दे कलावभिप्रेतौ ताभ्यां फलमवायुत्       | २  |
| इति शान्तिपर्वणि सहस्रिकाया ित्या वया ि |    |
| शान्तिपर्वणि शत्यधिकशततोऽप्यः           | २  |
| ८ आपद्धमपर्वणि सतोऽप्यायः               |    |
| [सि न्याये २३ श्लोकः]                   |    |

### आवश्यकशततमोऽध्याय



भर्तृधरि ति अपदि वृणो ि करणविषये ।  
त जारमूषि चरि धनम्

युक्तिर

सर्वत्र बुद्धि कथित श्रेष्ठ ते भर षभ  
अनग तथेत्पत्रा दीर्घसूत्र िनाशिन १



|  |   |
|--|---|
| दे मे पर बुद्धिं गो भरतसत्त                                |   |
| यथ राजन् <sup>१</sup> मुच्ये शत्रुभि परिपीत                | २ |
| धार्थि शल प्र स <sup>१</sup> विश रदम्                      |   |
| मि तं कुरुश्रेष्ठ मे याख्य तुमर्हसि                        | ३ |
| शत्रुभिर्वहुभि <sup>१</sup> गो यथ मुच्ये पार्थिव           |   |
| एतदिच्छा यह श्रोतु स <sup>१</sup> मेव यथ विधि              | ४ |
| विषमस्थ हे र जान शत्र परिपथिन                              |   |
| बहवो <sup>१</sup> कमुद्धर्तु यत ते पूर्वत पित              | ५ |
| सर्व धर्ममानेन दुर्बलेन म <sup>२</sup> बलै                 |   |
| ए <sup>१</sup> नैव सह येन शक्य स्थातु कथ भवेत्             | ६ |
| थ मित्रम रं चापि वि देत भरतर्षभ                            |   |
| चेष्टित यं थ चात्र शत्रोर्मित्रस्य चा तरे                  |   |
| अज लक्षणे रज मित्रे मित्रतं गते                            |   |
| थ तु पुरुष र्यात् किं कृत्वा सुखं भवेत्                    | ८ |
| विप्रह <sup>१</sup> ेन कुर्यात् संधि <sup>१</sup> ेन जयेत् |   |
| थ वा त्रुमध्यस्थो वर्तेत बलव नपि                           | ९ |
| एतद्वै स <sup>१</sup> कृत्यानां पर कृत्य नराधिप            |   |
| नैतस्य श्विद्वक्त ऽस्ति श्रोत वाऽपि सुदुर्लभ               | १ |

|  |    |
|--|----|
| ते पित हाङ्गी त् सत्यस धाजिते द्वयत्               |    |
| तद गिक् महावाहे सर्वमेतद्वर्ष हे न                 | ११ |
| त्व कोऽयमनु श्रे युधिष्ठिर गुणे दय                 |    |
| शृणु मे पुत्र त्स्न्येन गु पत्सु भरत               | १२ |
| अमित्रे मित्रत य ते मित्र चापि प्रदु यति           |    |
| मर्त्ययेगत् क र्यणम् अनित्या हे सद गी              | १३ |
| तस्म द्विश्वसित य च वि ह च <sup>१</sup> सम दिशेत्  | १३ |
| देश त् च विज्ञ य र्य र्थे निर्णये                  |    |
| स घात य बुधैर्नित्य स्य च हितार्थिभि               | १  |
| मित्रैरपि स धेय ण रक्षया हि भरत                    | १५ |
| ये मित्रैर्नित्य न दध्य दपि त                      |    |
| न <sup>२</sup> थ यात् किं त् फला यपि च भर          | १६ |
| य त्वमित्रेण स घत्ते मित्रेण च <sup>३</sup> रुध्ये |    |
| अर्थयुक्ते सम लेन्य सु हि दते फलम्                 | १  |
| त्र युदाहर त मम् इतिहास पुर नम्                    |    |
| म जारस्य च स दं य <sup>४</sup> धे मूषि च           | १८ |
| ने मह ति कस्मिंश्चि यन्नोधस्सुमह भूत्              |    |
| लत ज लप्रतिच्छ ो न न द्विजगण युत                   | १९ |

|   |    |
|---|----|
| स्कन्धान् े क्काश शा ये मनोर<br>वैराज्यमभितो जातस् तद्व्यालमृगायुत                  | २  |
| तस्य मूलमुपाश्रित्य त्व शतमुख बिलम्<br>सिंस् हाप्रज्ञ पलिते इम मूर्क                | २१ |
| श श्रित्य वसति सुख तद्<br>रे गो म मार्जारस् सर्प वावसादक                            | २२ |
| तत्र त गत्य च लो वैराज्यकृतकेतन<br>युयोज यन् मु थ नित्यमस्तङ्गते रवौ                | २३ |
| तत्र आयुमयन् पशन् यथा त् सविध य च<br>गृह गत्व सुख शेते प्रभातमेति वरम्              | २४ |
| त नित्य बध ते नक्त ह्रुविध मृग<br>द चित्तत्र मर्जारस् <sup>१</sup> स प्रमत्तो बध्यत | २५ |
| तस्मिन् वद्धे म् प्र शत्रौ नित्य ततायिनि<br>त ल पलिते ज्ञत्वा विचचार सुनिर्भय       | २६ |
| तेन नुचर तस्मिन् वने विश्व चरिणा<br>भक्ष्य मृगयमणेन न दृष्ट मृष्टम मिषम्            | २  |
| स त मथमरु द मिषमभक्षयत्   |    |

1. प्रवृत्तो बुध

प्रवृत्तो ह्यबुध्य

ध—अ

ति

१२८] शान्तिपर्वणि आपद्धमपर्व ६८३

तस्येपरि सपन्नस्य द्व स हसन् २८

आमिषेषु प्र क्तस्स कद चिदवले यन्  
अपश्यदपर घोरम् आत् रेपुमागतम् २९

शरप्रसूनस श महीवि र यिनम्  
नकुल हरि नाम चपल म्रलोचनम् ३

तेन मूषि गन्धेन त्वरम ण पागमत्  
भक्षाय लेलिहन् क्कं भूम वूर्ध्वमुखस्थित ३१

श खाग रिं च यम् अपश्यत् कोटराल म्  
उल्लूक च द्रक न म वक्रतु दुर सदम् २

गतस्य विषय तस्य न लोल्लूकयेस्तये  
अथास्यासीदिय चि त तत् प्र तस्य महद्भयम् ३३

अ प पि सु यं मरणे समुपस्थिते  
स त द्भय त्पे र्य वै नाषिण ३४

स तथ सर्वते रुद्धस् सर्वत्र भयकर्षित  
अभवद्भ स त्रस्तस् च्चेमां परां मतिम् ३५

मूर्ति

अ प द्विन शमूषिष्ठ शङ्कनाय हि जीवितम्  
सम त त् सशय सेऽयं अस्मां वदुपस्थित ३६

गत ६ सहस भूम नकुलो म मव य त्

|   |    |
|---|----|
| उल्लूकैर्ह तिष्ठ मार्जरे व सम यत्                           | ३  |
| न ते द्विध प्र सृ स मेह गन्तुमर्हते                         |    |
| करि ये जीति ते य या दुच्छासिर्नहत्                          | ३८ |
| न हि बु ऽऽ त ज्ञा नीतिश िश रदा                              |    |
| स भ्र त्यापद ाय महतोऽर्थ वप्य ा                             | ३९ |
| न त या मेह मर्जार दू गतिं <sup>१</sup> प्र स्य मि सा प्रतम् |    |
| िषमस्थो य जन्तु कृत्य चस्य मह या                            | ४  |
| ज ि त र्थी थ त्व प्रथितश्शत्रुभि ि भि                       |    |
| णहेतोरे मित्र मर्जर सश्रय मि वै                             | ४१ |
| अत्रैव खलु मर्जरे जावित स प्रतिष्ठितम्                      |    |
| तोऽस्मै स प्रवक्ष्यामि हेतुमात्माभिरक्षणे                   | ४२ |
| क्षत्रवि िं सम श्रित्य हित त्रोपध रये                       |    |
| येने शत्रुसङ्घा मित्रपूर्वेण <sup>४</sup> ये                | ४३ |
| अयमत्यन्तशत्रुर्मे वैषम्य परम गत                            |    |
| मूढे ाहयि ा थ सङ्गत्य यदि शक्ये                             | ४४ |
| दाचि सन प्र य सधि र्या मय सह                                | ४  |

1. पश्य सि

2. - पद ि बुस्सङ्ग ि ती ेत् [ ि : : ]

3. ि न ि

4. येत्

१२८] शान्तिप ण आपद्धर्मपर्व ६८५

लिन सति कृष्टस्य शत्रोरपि परि ह  
य इत्य हुराचाय यसने जाति तार्थिन ४५

श्रेयन् हि पि तश्शत्रु न हि मित्रमपि म्  
अप दानमय शत्रुस् सङ्गत्या पि ते भवेत् ४६  
ततेऽ स प्र क्ष्यामि हेतुमत्माभिरक्षणे ४

० :

ततोऽर्थमतित ज्ञस् सन्धिविहकालि त्  
स त पूर्णमिद वक्ष्य जरं मूषि षोऽ त् ८  
मूर्ति :

सौ देनाभिभाषे त्वां मि मर्जार जीवसे  
जिवित हि तवेच्छ मि श्रेयस्स धारण हि नै ४९

न ते सै य भय र्यं जीवि यसि यथा पुरम्  
अह त्व मुद्धरे य मि प्राणाञ्ज िं कृते तव ५

अस्ति श्विदुप योऽत्र पुष्कल तिभ ति माम्  
येन शक्यस्त्वय मोक्ष प्रप्तु े था मया ५१

युपये श्रोऽय विचर्य हितमात्मन  
अत्मथ च त दथ च श्रेय साधार हि नौ ५२

इद इह न लेल्ल पपबुद्ध हि सस्थि म्

|   |    |
|---|----|
| न धर्ति मर्जार तेन मे स्वस्ति स प्रतम्        | ५३ |
| रू पलनेत्रोऽय शैशिके मां निरीक्षते            |    |
| नगश खाग िष्टस् त ह भृशमुद्विजे                | ५४ |
| सत साप्तपद मित्र <sup>१</sup> स स मेऽसि पिडित |    |
| स असक करि य मे नास्ति ते प्रणते भयम्          | ५५ |
| न हि शेषे मर्जार पाश छेत्त मय विना            |    |
| अह छेत्स्य मे ते पश यि मां त्व न हिं सि       | ५६ |
| त माश्रितो द्रुमस्य प्र मूल वहमुप श्रित       |    |
| चिरोषितावुभ वावां क्षेऽस्मिन् िदित हि तत्     | ५७ |
| यस्मि श्वासते श्रिद् यश्च नाश्वसते क्वचित्    |    |
| न तौ धीरा प्रशंसति नित्यमुद्विग्नचेतसौ        | ५८ |
| त द्विवर्धतां प्रीतिस् सत्य सङ्गतमस्तु नौ     |    |
| काल तीत मेथ दि न प्रशंसति पित                 | ५९ |
| अर्धयुक्तिमिमां । द् यथाभूतां निश मय          |    |
| जिवितमि छामि त्व ममे छसि जिवितम्              | ६० |
| कश्चित्तरति काष्ठेन सुग भीरां महानर्दम्       |    |
| स तारयति तत् ष्ट स च कष्टेन त र्यते           | ६१ |
| ईदृशे न िय योगे भवि यति सुवि र                |    |

१२८] न्तिप णि आपद्धर्मपर्व ६८

ह त्व तरयि य मि मां च त तरि सि ६२  
भी

ए मुक्त तु पलितस् तमर्थमुभ ैर्हितम्  
हेतुमद्रहणीय च काल पेक्ष यति त ६३

अथ व्य ुत तस्य श्रुत् शत्रु चक्षण  
हेतुमद्रहण याथ जारो ाक्यम ित् ६४

बुद्धि न् वाक्यस प स् तद्व क्यमनुवर्तयन्  
मवस्थां ताक्ष्यायां स ैव प्रत्यपूजयत् ६५

तस्त क्षण दशनो वैद्वयमणिलेचन  
मूषिक म दमुद्वाक्ष्य जारो वाक्य व्रवात् ६६

रः

न द ै सै भद्र ते यो मा जवितुमि छसि  
श्रेय यदि जानी े क्रियतं विचारय ६

अय हि दृढम प स् त्वमाप तरे या  
येर प योस्सिधि ियतं म विच रय ६८

विधत् प्र प्तक ल यत् काय सिध्यतु चावये  
मयि कृ छ् द्विनिमुक्ते न विनश्यति ते तम् ६९

त्यक् म नोऽस्मि भक्तेऽस्मि शि य त्वद्धितकृत् तथ  
थ निदे ि च भ त शरण गत ७



:

इत्येवमुक्त पलितो जार वशम गतम्  
 इत्य हितमु च्चेदम् अभिज त र्थमर्थवित् १

मूषिकः

उद र यद्भव न ह नैत चित्र भवद्विधे  
 विहिते यस्तु मार्गे मे हित थ शृविद म २  
 अह त्वाऽनुप्रवेक्ष्यामि नकुल मे हृद्भयम्  
 त्रय मां म वधी शक्तोऽस्मि तव मोक्षणे ३

उल्लुका पि मा रक्ष क्षु प्रथय इह माम्  
 अह छे मि ते पाश न् सखे सत्येन ते शपे

भष्मः

तद्वच सङ्गत श्रुत्वा लोमशे युक्तमथ त्  
 हर्ष दुद्वीक्ष्य पलित गतेनाभ पूजयत् ५  
 त म्पूज्य थ पलित मार्जार सौदे स्थितम्  
 स विचि त्य वाद्धीर प्रतस्त्वरित ए च ६

ारः

क्षिप्रम ग भद्र ते त्व मे प्र णसमस्सखा  
 त प्र स द द्वि प्रिय ।स्य मि जितम्  
 य दे ज्ञतेन च शक्य कतु मय

१२८] शान्तिपर्णि अपद्धर्मपर्व ६८९.

तदा पय कत सिद्धिरेवा तु नै सखे ८

अ सशय मुक्तस् स मित्रगणवा धव  
सर्कयाणि तं ऽहं प्रियाणि च हित नि च ९

मुक्तश्च यस्य दस्म त् याहमपि  
प्रीतिमुत्पादयेऽह च प्रतिकतु च श ाम् ८

भी :

ए मश्च सिते द्वि न् मार्जरेण स मूषिक  
प्रवेश सुवि धस् स यगङ्गाचकर ह ८१

हयित तु त थ मार्जरं मूषि दा  
मर्जारोरसि वि धस् सु व प पितृम तृ त् ८२

निलानं तस्य गात्रेषु मर्जारस्य थ मूषिकम्  
त द न लोलूकौ निर शौ ज मतुर्गृह न् ८३

लान स तस्य गात्रेषु पलितो देशकाल वित्  
चे छेद प श पते कालक ड्क्ष शनैश्शनै ८४

अथ व धपरिक्षि रो मर्जारो िक्ष्य मूषिकम्  
दि द त तद प श न् अत्वरन् र वि ८५

तमत्वर त पलित पाशानां छेदने तद  
ेदयितुमारम्भे मर्जारो मूषिक तत ८६

ज्वारः

|   |    |
|---|----|
| सौ य नाभित्वरसे कृतार्थेऽवमयसे<br>छिपशममि पुरश्वपच एति          | ८  |
| इत्युक्तस्तरतऽने मतिमन्पलितेऽत्<br>मर्जारमततथ्यमात्महितच        | ८८ |
| सूक्तिः<br>तूणाभवन्तेसौयत्वरायन्सम<br>यमेकालाकालपरिहस्यते       | ८९ |
| अलेत्यरधकर्तुर्थल्पते<br>तदेवलअरधहतेऽर्थायल्पते                 | ९  |
| अलेमित्रमुक्तमेवएभेद्भयम्<br>तस्मात्तलप्रतीक्षामिति त्वरसेसखे   | ९१ |
| यावत्पश्यमिचलम्अयतशपाणिनम्<br>ततश्छेदितेपाशप्राप्तेसधारणेभये    | ९२ |
| तस्मिन्लेप्रमुक्तारुमेधिरोक्ष्यसे<br>नहितेजवितादयत्किन्त्यवियति | ९३ |
| तस्मिन्लेऽपिचतथदिवाकार्तिभयादित<br>ममनहणेशक्तपलयनपरयण           | ९४ |

१२८] शान्तिपवणि आपद्धर्मपव ६९१

तो भव पान्ते स्ते भीते च लुधत्  
अहं बिलं प्रवेक्ष्यामि भवाञ्छाखा गमि यति ९५

भीष्मः

एवमुक्त तु मजरो मूषिकेणात्मगो हितम्  
वचं वक्ष्यतस्त्वर्जीवितर्थं महमति ९६

अथात्मकृत्यत्वरिस्स यक्प्रणितमचरन्  
उवाच रे वक् मूषिकं चिरकारिणम् ९

तः

न मे मित्रर्याणि प्रत्यङ्गितस ९

यथ त्वमोक्षितश्छूत् त्वरमणेन मय  
तथ हितरमणेन तया र्यमिद ९८

त्न कुरु ह प्रज्ञयथ त्ववये भवेत् ९९

अथ व पूर्ववैर त्वस्मरन् त्वजिह्विर्षसि  
पश्य दुःकृतकम त्वयक्तमयुक्षयो मम १

यदि किं मया ज्ञानं त्वपुराद्विद्य कृतम्  
न तं मनसि कर्तव्यं क्षमयेत्तं प्रसीद मे ११

तमेव दिवं प्रशास्त्रविद्वद्धिसत्तम  
उवाचेद्वचश्श्रेष्ठमर्जरमूषिकस्तत १२

मूषिकः

श्रुत मे तर्जार स्वमथ परिगृह्ण  
यमित्र भ त त् ।ध्य यस्मिन् मित्रे भय हितम् १ ३

आरक्षित तत य पाणि सर्पमुखादिव १ ३

त्वा बल त सधिम आत्मान यो न रक्षति  
आमिष हि यथा युक्त तस्य नर्थय लपते १ ४ १

न कश्चित् स्यचिमित्र न कश्चित् स्यचिद्रिपु  
अर्थत तु निबध्य ते मित्राणि रिपवस्तथ १ ५

अर्थैरर्थ निवय ते गजैरेव म गजा  
न च श्वित् कृते कार्ये कर्तारं समवेक्षते १ ६

तस्म त् स िणि कायाणि स वशेषाणि रयेत् १

छि तु त तुव हुल्य त तुरेकेऽवशेषित  
छेत्स्या यह तमप्य शु निर्वृतो भव रोमश १ ८

ति :

तयो सवदतारे द्वयोरप येस्तदा  
क्ष जग स रत्रा रोमशं च ग द्वयम् १ ९

तत प्रभातस ये विकट णपिङ्ग

1. - नधगिव डुक्त

२. ीदम म्

१२८] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ६९३

- थूलस्फि नतो रूक्ष श्वयूथपरि रित ११
- शङ्क ौ मह खनित्र ेरदर्शन  
परिघे न म च लश श प णिरदृश्यत १११
- त ा य दूःख माज्जर चे  
उव च पलित भ त किमिद न करि यसि ११२
- थैव च सुस त्र ौ त दृष्ट्वा घोरदर्शनम्  
क्षणेन न लेलूकौ नैराश्यमुपज मतु ११३
- बि नै मी च सङ्घात चाध्युप गतौ  
अश यौ सुनय तस्म त् स प्र षयितुं ब त् ११४
- र्यथ सन्धी तै दृष्ट्वा मर्जरमूषिकै  
लूकनकु ौ तूण ज मतुः लयम् ११५
- त श्चिच्छेद त त तु मर्जरस्य मूषिक  
प्रमुक्तेऽथ मर्जरस् तमेवाभ्यपत हूमम् ११६
- स्म त् भ्रम मुक्ते मु े घेरेण शत्रुणा  
विल ेश पलित शाखां लेभे स लोमश ११
- माथम युप द य च ोऽक्ष सर्वश  
विह नाश क्षणेनै त देश दप क्र त् ११८
- जग म च स्वभवन च लो भरतषभ ११८

- तस्तद्भयान्मुक्तो दुर्लभं प्राप्य जीवितम्  
 विपदपात्रस्थपतिरेशोऽवीत् १९
- अत्र  
 मित्रभेगसमेति हिमानेपसपसि १२
- कृत्वा हि पूजयित्वा मित्राणि यथा श्रियाभिहिते  
 नसमित्राणि लभतेच्छस्वपत्सु दुर्मते १२१
- सत्कृतोऽहं यत्र समर्थदातवस्तु  
 मां मित्रत्वमाप्युपभोक्तवमर्हसि १२२
- यानि मे सन्निमित्ताणि ये च मे सति बधवा  
 वत्तं पूजयित्वा शिष्यश्च गुरुप्रियम् १२३
- अहं च पूजयेद्यत्त्वा समित्रगणबधवम्  
 जीवितस्य प्रदत्तारकृतकेन पूजयेत् १२४
- ईश्वरो मे भवानस्तु रीरस्य गृह्य च  
 अर्थानां च सर्वेषाम् अनुशस्ता च मे भव १२५
- अमत्ये मे भव प्राज्ञपितृवेह प्रशयि मम्  
 न तेऽभिभयमस्वत्तो जीवितेनात् नशपे १२६
- बुद्ध्वा तमुशनसाक्षद्वलैस्त्वधिकृतवयम्  
 त्वमत्रवल्युक्ते हि दद्य विजयमे मे १२
- मः  
 एवमुक्तपरसत्तजरीरेणसमूषि

१२८] शांति पर्वणि आपद्धर्मपर्व ६९५

उव च परार्थं श्लक्ष्णमत् हितं च १२८

मूषिकः

यद्भव नाह तत् स मया ते रोमश श्रुतम्  
मापि ता द्रवत शृणु यत् प्रतिभाति मम् १२९

वेदि यानि मित्राणि वेद्ध यापि शत्रु  
तस्मात् सुसूक्ष्म लोऽस्मिँक्ष्णं ते प्रासमत्तै १३०

शत्रुरूपं हि सुदो मित्ररूपा शत्रु  
सात्ति तस्ते न बुध्यते रागलोभवशत १३१

येषां सै यानि मित्राणि धेनश्चैव त्र  
सात्ति तस्ते न बुध्यन्ते रागलोभवशत १३२

नास्ति जल्य रिपुर्नम मित्रना न विद्यते  
समर्थ्यये गाज्जयते मित्राणि रिपवथ १३३

मि च शत्रुतमेति स्मिञ्चित् लपर्यये  
शत्रुश्च मित्रतामेति र्थो हि बलवत्तर १३४

यो विश्वसिति मित्रेषु न विश्वसिति शत्रुषु  
अर्थयुक्तिमविज्ञाय चलित तस्य जितम् १३५

अर्थयुक्तिमवि ययश्शुभे रुते मन  
मित्रे व यदि वा शत्रौ तस्यापि चलित मति ३६

1. एतत् 2. इतोऽपि इदं नित



|  |     |
|--|-----|
| न विश्वसेद विश्वे विश्वस्ते नातिविश्वसेत्<br>विश्वासा यमुत्प म् अपि मूलानि कृन्तति | १३७ |
| र्थयु हे दृश्यन्ते पिता त सु स्तथा<br>तु गिनेया थ स ि ब धव                         | १३८ |
| पुत्र हि पि रै त्यजत पतित प्रियम्<br>आत्म न रक्षते लो पश्य स्व र्थस्य सारताम्      | १३९ |
| न्ये निकृ तिप्रै यो मोक्ष त् प्रत्यन् रम्<br>त्य मृग ते कर्तुं स्वै प यमसशयम्      | १४  |
| त ि लय ए च यम्रेध द प तित<br>पूर्व ि विप्रमुन्माथ चपलत्व दबुद्धवान्                | १४१ |
| अ त नश्चपले नास्ति तोऽ येषं भविष्यति<br>तस्म त् स िणि िर्याणि चपलो ह त्यसशयम्      | १४२ |
| वा षि मधुर यच्च प्रियो मे हे भव निति<br>त भिध्याक रणं सव विस्तरेण दि मे शृणु       | १४३ |
| रण त् प्रिय मेति द्वे यो भवति िरणात्<br>अर्थाथा जावलोकेऽय न क ि त् स्यचित् प्रिय   | १४४ |
| सख्य से दर्यये भ्रं त्रोरू द पत्ये परस्परम्<br>स्य ि िभिजान मि प्र तं नि कारण दिह  | १४५ |

१२८] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ६९

यद्यपि भ्रतर क्रुद्ध भार्य । क रणा तरे  
स्वभवतस्ते प्रीय ते नेतर प्र ते जन १४६

प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन च पर  
म होमजपैर य कार्यार्थे प्र ते जन १४

उत्प । रणात् प्रीतिर् आसी । कारणेतरम्  
प्रध्वस्ते क रणस्थ ने सा प्र तिर्नाभि धते १४८

किं नु तत् कारण ये येन ह भवत प्रिय  
अ यत्र भयवह रार्थत् त पि च बुधा वयम् १४९

कले हेतु वि रुते । र्थस्तमनुव ते  
स्वाथ । ज्ञ विज नति प्राज्ञ न् लोकोऽनुव ते १५

न हीन्शं त्वया वाच्यं विद्यते । र्थपि त १५

अकले हि समर्थस्य हे हे रय तव  
तस्मा । ह चले । र्थत् स्थित स धविग्रहे १५१

अभ्र णामिव रूपाणि विकुर्वति पदे पदे  
अद्यैव हि रिपुर्भूत् पुनरद्यै सौहृदम् १५२

पुनश्च रिपुरद्यैव युक्तं पश्य च पलम् १५३

असी मैत्री तु त । य वद्धेतुरभूत् पुरा  
स गता सह तेनैव ल्युक्ते हेतुना १५४

1. युक्त . 2. .

|   |      |
|---|------|
| त्व हे ऽ ल्य इशत्रुस् सा ध्यात्रि गत        | १५४  |
| सोऽहमे प्रमणानि त शा णितर त                 |      |
| प्रशिये थ पश्च त्वत् त तद्रव हे मे          | १५५। |
| वद्वार्येण मुक्तोऽह मर्द्वार्येण तथ भवन्    |      |
| अ यो यानु दे वृत्ते न स्ति भूय सम गम        | १५६  |
| व हे सा य थोऽद्य निवृत्तार्थास्तथ म्        |      |
| न तेऽस्त्यद्य मया कृत्य ि द यत्र भक्षणत्    | १५   |
| अहम भवन् भोक्ता दुर्वलोऽह भवान् बर्ल        |      |
| वयेर्विद्यते सधिर वियुक्ते विषमे बले        | १५८  |
| स म येऽह त प्रज्ञां य मेक्षात् प्रत्यन तरम् |      |
| भक्ष्य मृगयसे नून खोप यमसशयम्               | १५९  |
| भक्षर्यां व सु यक्ते विमुक्त प्रसृत क्षुध   |      |
| शा बुद्धिमास्थ य प्रातराशमिहेच्छसि          | १६   |
| ज न मि क्षुधि च त्वाम् आहारसमय ते           |      |
| स त्व म मभिस धाय भक्षं मृगयसे पुन           | १६१  |
| च त्रद रार्थं यद्वाणा सृजसे यि              |      |
| क्षुश्रू नर्हसे तु सखे म न त् क्षमम्        | १६२  |
| त य मा सहित दृष्ट्वा प्रिय भ र्या सुतश्च ये |      |

१२८] शान्तिपर्वणि आपद्धमपव ६९९

|   |     |
|---|-----|
| तेनै खादेयुस् स्पृष्ट्व प्रणयिनि त्वयि        | १६३ |
| नाह त य समेष्य मि वृत्ते हेतुसमागमे           |     |
| शि ध्य यस्व तत्रस्थस् सुकृत स्मरसे यदि        | १६  |
| शोर ाद्यभूतस् न िस्य क्षुधित च                |     |
| क्षय मृगयम णस्य ज्ञे विषय व्रजेत्             | १६५ |
| स्वस्ति तेऽ तु गमि यामि दूरादपि त ोद्विजे     |     |
| नाह त्वय समे यामि निवृत्तो भव रेमश            | १६६ |
| व वत् सिको र्नि न दाचित् शस्यते               |     |
| प्रश तदपि हि प्र ज्ञाद् भेत यं वलिभि स        | १६  |
| यदि त्वर्थेन ते क य ब्रूहि किं करवाणि ते      |     |
| मि प्रदास्यामि न त्वात्म न थ न                | १६८ |
| अ त्मर्थे सन्ततिस्त्य ज्य राज्यं रत्न धनानि च |     |
| अपि सर्वस्वमुत्सृज्य रक्षेद त्म नमात्मवान्    | १६९ |
| ऐश्वर्यधनरत्न ि प्रत्यमित्रेऽपि र्त्तम्       |     |
| दृष्ट हि पुनर वृत्तिर् जीवत मि ते नश्श्रुतम्  | १७  |
| न त त न स प्रद न धनरत्न द्वि शि यते           |     |
| अ त्म हि सर्वथा रक्ष्यो दारैरपि धनैरपि        | १ १ |

- 
- |    |        |    |      |
|----|--------|----|------|
| 1. | स्व त् | 2. |      |
| 3. | स सृज् | 4. | ष्टे |

आत्मरक्षण तन्त्राणा सुपरिक्षितारिणाम्  
आपदे नोपपद्यन्ते पुरुषाणां ते ज १ २

शत्रुसंयगादि विप्रियो बलायस  
शङ्कनीयस सर्वत्र प्रिययाचरन् दा १ ३

लजनासु मित्राणां धार्मिणां महत्सनाम्  
न तेषां च ल्यते बुद्धिश्चाशार्थकृतनिश्चया १ ४

इत्यभिक्तमेवै पलितेन पहासित  
मर्जरैर्दीडितो भूत्वा मूर्खवक्यं १ ५

परः

स मयेऽहं तव प्रज्ञां यत्त्वममहिते र  
उक्तवानर्थतत्त्वेन मया संभ्रन्नदर्शन १ ६

न तु मयथासाधे त्वग्रहातुमिहर्हसि १ ७

प्राणप्रदं न जत्त्वत्तो मये साहसगतम्  
धर्मेऽस्मि गुणज्ञेऽस्मि कृतज्ञेऽस्मि विशेषत १ ८

मित्रेषु वत्सलस्मि त्वद्भक्तश्च विशेषत  
मे गते धेनो चयितुर्हसि १ ९

|   |     |
|---|-----|
| इति स नूयम नोऽपि म र्जरेण स मूषिक<br>मनस भ वग भीर म र्ज रमिदमत्रवात्                        | १८  |
| स धुभे ान् कृतार्थेऽस्मि िये च न च विश्वसे<br>सस्तवैर्व धनौघैर्व नाहं शक्य त्वया पुन        | १८१ |
| न मि श यात् प्रज्ञ निष्करण से<br>अि र्थे च गाथे द्वे निवोधोशनस कृते                         | १८२ |
| शत्रुस्स धरणे कृत्ये कृत्व सिंधि बल यसा<br>समाहितश्चरेद्बुद्ध्या कृत र्थश्च न विश्वसेत्     | १८३ |
| न विश्वसेद विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्<br>नित्य विश्वासयेद यान् परेषां तु न विश्वसेत् | १८४ |
| तस्म त् स स्विवस्थासु रक्षेज्जीवितम त्मन<br>द्र य णि स ततिश्चै सव भवति जावताम्              | १८५ |
| सङ्क्षेपे नीतिशा णाम् अविश्व स परो मत<br>नृषु तस्म दविश्व स पुष्कल हितमात्मन                | १८६ |

1 - याऽप च्यमानोऽ प्र न्  
अधकशब्दो ि दृष्टो द्वे न्ति  
न धम त्वज्ञ न इति

|  |     |
|--|-----|
| न्य ते न विश्वस्त शत्रुभिर्दुर्बल अपि<br>विश्वस्त ध्यने ल तोऽपि शत्रुभि      | १८  |
| द्वेधेभ्ये मया रक्ष्यो मर्जार सर्वदा<br>रक्ष्ये च त्मान च डालाज्जित्किंलिषत् | १८८ |

भेषः

|  |     |
|--|-----|
| स तस्य ब्रवत त्वेव स त्र साज्जातस ध्वस<br>था हेतु जवेनाशु मार्जार प्रययौ तदा     | १८९ |
| ततश्शतथत्तज्ञो बुद्धिसमर्थमत्मन<br>विश्राय पलित प्राज्ञो विलमयज्जगमह             | १९  |
| ए प्रज्ञवत बुद्ध्यदुर्बले बलीयस<br>एकेन बहवोऽमित्रा पलितेन तिसिधता               | १९१ |
| <sup>१</sup> अरिणऽयसमर्थेन सन्धिर्वीतपित<br>मूषिकश्च विडालश्च मुक्तवयो यसश्रयात् | १९२ |
| इत्येक्षत्रर्धस्य मया मार्गो नेदर्शित<br>विस्तरेण मर्पालसङ्क्षेपेण पुनश्शृणु     | १९३ |
| अयेयत्यवतैतैजमतुप्रीतिमुत्तमम्<br>अयेयमभिसधतुम् अभूच्चैव तयोमति                  | १९४ |

1. अरिपिन 2. तुः

3. बभूः

१२८] शान्तपि आपद्धमपव

|  |     |
|--|-----|
| अ प्रज्ञोऽभिस धत्ते यग्बुद्धिवलाश्रयात्<br>थाऽसि सध्यते ।ज्ञ प्रमादादपि च बुधै | १९५ |
| त ।द तवद्भु विश्व दविश्वसेत्<br>न मत्त लते चलिते । नश्यति                      | १९६ |
| ले हे रि ण सधि काले त्रिणे णि ग्रह<br>र्य इत्येव च प्रहुर्नित्य युधिष्ठिर      | १९  |
| एव च महाराज शार्थ भिगम्य च<br>अभियुक्तेऽप्र त्तश्च प्रा भय द्भितवचरेत्         | १९८ |
| भात त् हित कार्य प्रतिसिधस्तथैव च<br>भय दुत्प ते बुद्धिर् अप्रमत्ताभियोगज      | १९९ |
| न भय जयते रजन् भातस्यानागते भये<br>अभा तु भात् सुमहज्जयते भयम्                 | २   |
| न भीरुरिति चात्य मत्रो देय कथ न<br>अविज्ञ द्वि वि ने ग छेद पददर्शनम्           | २ १ |
| त ।दभातवद्भूतो विश्व वदविश्वसन्<br>णां गुरुतां बुद्ध ना त किं दाचरेत्          | २ २ |
| एवमेतन्म प्रेक्तम् इतिहास युधिष्ठिर<br>श्रुत् त्व सुहृदां ध्ये यथावत् समुदाचर  | २ ३ |
| उपलभ्य मर्ते च त्रयम् अरि मित्र तर तथ  |     |



|  |     |
|--|-----|
| सन्धिर्विहक लौ च मोक्षे पाय तथाऽऽपदि     | २ ४ |
| शत्रुसाधरणे कृत्ये कृत्व सर्धि बर्लीयस   |     |
| सम हित रेद्वद्ध्या कृत र्थ न विश्वेत्    | २ ५ |
| अविरुद्ध त्रिवेण नीतिमेता युधिष्ठिर      |     |
| अभ्युत्ति श्रुत्त द् भूयस्संरञ्जयन् प्रज | २ ६ |
| ह्यणैश्चै ते सार्धं यात्रा भवतु पा व     |     |
| ब्राह्मण द्वि पर श्रेय इह लो परत्र च     | २   |
| एते धम वेत्तार त स्सतत प्रभे             |     |
| पूजिताश्शुभ तर पूजयनाञ्जन धिप            | २ ८ |
| र य श्रेय पर राजन् यशश्च महद् स्यसे      |     |
| ल च स तिं चैव करि यि सुपूजिता            | २ ९ |

श्रुत च ते भरत सन्धिर्विहक

विभावित बुद्धि विशेषक रितम्

तथ त्ववेक्ष्य क्षितिपेन सर्द

निषे य नृप शत्रुम लम्

२१

इति भारते सहस्रिकाया । वैया

शा प णि । शत्यधि । न्यायः २८

८ । पद्ध पर्वणि । ८

ि २ श्लोकः]

## एकोनात्रशदाधकशततमोऽध्याय

ॐ धि र ति पूजनीब्रह्मदत्तसवादानुवादः

युधिष्ठिर

|   |   |
|---|---|
| क्तो म त्रो महरज न विश्वासेऽ शत्रुपु    |   |
| थ हे रजा तेत यदि सर्वत्र नाश्वेत्       | १ |
| श्च साद्धि पर राजन् राज्ञ मुत्प ते भयम् |   |
| थ वै नाश्वसन् राज शत्रू यति प र्थिव     | २ |
| एत मे सशय छिन्धि मने मे स प्रमु ते      |   |
| अविश्व से कथामेत म् उप श्रित्य पितामह   | ३ |
| ः                                       |   |
| शृणु कौ तेय यो वृत्तो ह्यदत्तनिशने      |   |
| पूजन्य सह स ादे ब्रह्मदत्तस्य १धर्मत    |   |
| क िपत्ये दत्तस्य अ त पुरनिवासिन         |   |
| पूजनी नाम श निरू दार्धक ल खेषि          | ५ |
| रुतज्ञा सर्वभूत नां तथ वै ज वजावि ।     |   |
| स र्ज्ञा स धर्म । तिर्य यो न गत ऽपि     | ६ |
| अभिप्रज ता स तत्र पुत्रमेकं वर्च म्     |   |

|   |    |
|---|----|
| समालचराऽपि देया त्रो यजात                     |    |
| समुत्तरसगत्व अजहार फलयम्                      |    |
| पुत्रस्य रजपुत्रस्य चैव हि                    |    |
| फलमे सुताय दाद् रज्ञ पुत्राय चापरम्           | ८  |
| मृतसदृश बलतेजे भिवर्धनम्                      |    |
| त गत् परं <sup>१</sup> वृद्ध रजपुत्र फलशनात्  | ९  |
| धात्र्या ह गत पि तेन पक्षिण                   | १  |
| शून्ये तमुपदाय पक्षिण समजतम्                  |    |
| हत्वा तत राजे द्रघ्न्य हस्तमुपगमत्            | ११ |
| अथ स शर्न राजागत तत्र भामिना                  |    |
| अपश्य हत पुत्रं तेन बलेन भूपते                | १२ |
| वपपूणमुखी दीना दृ तपतित तम्                   |    |
| पूजन दु सत रुदती वक्यमवत्                     | १३ |
| पू न  |    |
| त्रिये सङ्गतिर्नस्ति न प्र तिर्न च सौहृदम्    |    |
| कारणे स त्वयन्त्येते कृतार्थं स त्यजन्ति च    | १४ |
| क्षत्रियेषु न विश्वस्यस्स <sup>१</sup> राधिषु |    |
| अपकृत्य पि सतत स त यति निरर्थम्               | १५ |

१२९] न्तिर्पर्वणि आपद्धर्मपव

इयमद्य रेभ्यस्य सदृशा वैरयातनम्  
तस्य नृशस नित्यं च सघातिन १६

सहज तस्य वृद्धस्य शैव सभेजिन  
शरयस्य धश्रैव त्रिविध तस्य किलिपम् १

इत्युक्त्वा चरणाभ्यां तु नेत्रे नृपसुत च  
६ चै । वरस्थेद पूजनी क्यमत्रवत्  
पूजनी १८

इच्छेह तपस एवोपसर्पति  
कृतं तेषां नश्यति शुभशुभम् १९

पप ० ि ० इ यदि तन् न ०  
निपात्यते स्य त्रेषु पौत्रेषु च नष्टु २

अस्ति ते कृतमस्माभिर अस्ति प्रति तत्वय  
भयत् समभूत स पूजनि मगम  
पूजनी २१

सकृत् कृतापरधस्य तत्रै परिल्लवत  
न दुग्ध शसि श्रेयस्तत्र पसर्पणम् २२

सत्वे युक्ते विवृते वैरे चैव न विश्वसेत्  
क्षिप्रसहयते मूढो हि वैरं प्रशासति २३

- अन्ये यकृतवैरणं पुत्रपैत्रं नियच्छति  
पौत्रे ि े तु परलोक निय छति २४
- ेष कृतवैरणाम् अविश्वास सुखाव  
एकान े न विश्व स यो विश्व सघ े २५
- न विश्वसेद विश्वस्ते विश्वेऽपि न विश्वसेत्  
म विश्व सयेद यन् परेषं तु न विश्वसेत् २६
- म त पिता बान्ध वानां रिष्टौ  
भ र्या क्षेत्र बीजम त्र तु पुत्र  
भ्र त शत्रु ि पाणिर्वय  
अ त्मा ेकसुखदु खस्य भेक्त २७
- अन्यो यकृतवरणां न सधिरुपपद्यते  
च हे रतिक्रान्ते यदर्थमहम वसम् २८
- पूजि स्याथम न भ्यां स्य त्त पूर्वाप िरिण  
दय भ त्यविश्वस्त कर्म त्रासयते बल त् २९
- पूव स म नन यत्र पश्चाच्चैव विम नन  
ज त्त बुद्धिमान् व स स म नित विमानित ३
- षिताऽस्मि त्त गारे दीर्घक लमहिंसिता  
तदिद वरमुत्प सुखमास्त्व ज यहम् ३१

कृते प्रति र्याद्वै न स तत्र प'राध्रुते  
अनृणस्तेन भ ति स पूजने मा ग ३२

पूजनी

न कृत न कर्तुं सख्य स धायते न  
हृदय तत्र जा ति तुश्चैव च ३३

ब्रह्मदत्तः

तस्य चै तुश्च सख्य ध यते पुन  
वैरस्ये पशमो ष पाप नोप श्रते पुन ३४

पूजनी

न स्ति वैरम तिका त स त्वते ऽस्मा ति नाश्वसेत्  
श्चि स द्वाध्यते लोकस् तस्माच्छ्रेयो दर्शनम् ३५

तरस ये न शक्य ते शैस्सुनि शितैरपि  
सा तेऽपि निगृ ते गज इव रेणुभि ३६

ब्रह्मदत्तः

स साज्जायते हे जीविता त रे वपि  
यो यस्य च िश्वास श्वानश्चपचयेरिव ३

अ यो यकृतवैराणां सवासा मृदुतां गतम्

1. राधुयात् 2. विज ति  
3. ख स्याद्दुध्यते वै लोकस् ि वासाद्दुय्ये

ना ति ति तद्वैर ष्करस्थमिवेदकम् ३८

वैर प समुत्थान बुध्यन्ते त्र पति त  
ीकृत स्तुज ज सप पराधजम् ३९

त्र न हन्त य क्षियेण विशेष  
प्रक ऽप्र श बुद्ध देषबलाव म्  
पू नी

प पे न विश्वास र्थित ह सुद्यपि  
प्र छन्न ति ते वैर गूढोऽि रिव द र्षु ४१

न तेन न पारु यैर् न च सा त्वेन च श्रु  
वैर शि यते र जन् निमग्नोऽि रिव र्णवे ४२

न हे रिरुद्धूत च पराधजम्  
अद ध्व श यते नणा वि तरक्षयात् ४३

सत् स्य र्थम न भ्यं तत्र <sup>१</sup>स <sup>१</sup>पकारिण  
नै शितर्न विश्व स कर्मणा जायते बल त् ४४

नै ापकारे कांसश्चिद् अह त ये तथ न्  
उषितौ ऽपि चितं नेद ना विश्वस हम् ५

दत्तः

क लेन यते र्थं तथैव विविध ि य

१२९] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व १

लेनैव प्रवर्तते कस्येत्यपरमं ध्यति ४६

तुल्यचोभे प्रतौ मरणजन्मच हे  
कर्यते चैकालेन तन्मिच्छन् च जीवति ४

वध्यन्ते युगपत् किंचिद् एवाचारं तथ ४

पूजनं

नस्ति वैरस्य विश्वासस्य तस्मिन् तास्मीति न शक्यते  
विश्वसाद्ध्यते तन्मिच्छन् मेऽदर्शनं परम् ४८

ब्रह्मदत्तः

लोदहति भूतानि सप्रतिस्मिन्निरेवेधनम् ४९

नाहं प्रणनैव त्वमजयो यकारणभे  
लो नित्यमुपादत्ते सुखदुःखच देहिनम् ५

एतेह संहयथा महसि  
यत्तते मयक्षान्तत्वचैक्ष्मपूजनि ५१

पूजनं

यदि लप्रमणते नैरकचिद्भवेत्  
दपचातयति वधवाधवे हते ५२

स्माद्देवासुरा सर्वे अयो यमभिजिरे ५२

यदि कालेन नियाण सुदुःखे भभवौ



|   |      |
|---|------|
| ि जो भषज कर्तुं दि छति रोगिणे           | ५३   |
| यदि लिन प यन्ते भेषजै क योजनम्          | ५    |
| प्रलापस्सुमहान् ।त् ि यते शोकमूर्च्छितै |      |
| दि ल प्रम ण ते कस्म द्धमाऽि र्दृषु      | ५५   |
| त पुत्रो ममापत्य हत न् हसितो म          |      |
| अन तर ं या चाहं बाधित य मह पते          | ५६   |
| ह हे शोकेन कृतपापा तवात्मजे             |      |
| य ं य प्रहर्त य मयि तन्व च मे शृणु      | ५    |
| भक्ष र्थं का नथ व नर इ छि पक्षिण        |      |
| वृताये नास्ति सयोगे ध ध दृते क्षम       | ५८   |
| धव धमय दे मोक्षत त्रमुपाश्रिता          |      |
| जन मरणज दु खम् इत्याहुर्विदुषो जना      | ५९   |
| सस्य दयिता प्र ण स् सर्वस्य दयितास्सुता |      |
| दु दु द्विजते सर्वं सर्वस्य सुखमीसितम्  | ६    |
| दु ख जरं ह्यदत्त दु खमर्थविपर्यय        |      |
| दु ख चानिष्टसव सो दु खमिष्टवियोगजम्     | ६१   |
| ैरव ध त दु ख कृत सहज तथ                 |      |
| दु ख दु खेन सतत विवर्धति नरा धिप        | ६२   |
| न दु ख परदु ख वै केचिद् दुरबुद्धय       | ६२ । |

|  |    |
|--|----|
| यो दुःखं न भिज्जाति न जल्पति महाजने                  |    |
| यस्तु शोचति दुःखं स तथ क्लमुत्सरेत्                  | ६३ |
| रसज्ञस्तस्य दुःखं यथाऽऽत्मनि तथा परे                 | ६४ |
| भि । श्लिष्टं न शन्यन्ते शब्दैस्सुनिशितैरपि          |    |
| स । तेऽपि निगृते गजा इव करेणुभि                      | ६५ |
| यत् त ते मया राजसूया च मम यत्                        | म् |
| न तद्वर्षशतैश्शक्य यपोहितुमरिदम                      | ६६ |
| आये कृतमये यतस्य सन्धिर्न विद्यते                    |    |
| <sup>१</sup> नेश्वयश्चाथशस्त्रेषु न विश्वं सस्सुखेदय | ६  |
| उशना वथ गथे द्वे प्रहादय वीत्पुरा                    | ६  |
| ये रैरिणश्श्रद्धधते सत्ये सत्येतरे पि वा             |    |
| वध्यन्ते श्रद्धधनं इह मधु कर्तृणैरि                  | ६८ |
| अपकृत्य हि वैरिणोऽसत्त्वयित्तराधिप                   |    |
| अथैनं तिहिसति पूर्णं घटमिव श्मनि                     | ६९ |
| सदं न विश्वसेद्रे जन्मपपत्वे चित्                    |    |

- 
1. तं विपुलं वैरिणं  
 वैरितकमासः तेषु कर्तुमिच्छति  
 मृष्टं ह्येभिन्नस्य सन्धिर्न विद्यते [ ६३ ]
2. हि वैरिणां शास्त्रे वादशमं द्युगात्  
 विपुमान् [ धिकः ]

त्य परेष हि विश्व स खमा ते

न विश्व िनेत्यथ न च पाह् १ न

भयाच्चैक र मित्र कृत त्या भ न्ति हे १

पूजनी

यस्ये णितौ पादौ पद्भ्य च परिधा त

क्षि येते तस्य तौ पाद सुगुप्तमपि ध वत २

नेत्र भ्यां सरुजाभ्यां य प्रतिव तमुर्द क्षते

युरुजा नित्य नेत्रयोर्भवति ध्रुवम् ३

दुष्ट प थानम स द्य ये मेहाद भिपद्यते

अ त्मने बलम त्वा तदन्त स्य जीवितम् ४

य तु र्ष विज्ञाय क्षेत्र कर्षति म नव

हीन पुरुषकारेण तस्य वै नाप्रते फलम् ७५

यस्तु िक्त ष य दु वा मधुर हितम्

अ हार रुते नित्य सेऽमृत वाय कल्पते ६

पथ्य भुक्त् नरे योऽ योभादश्च ति भोजनम्

1

2. ि- ि

3 णिते पूजये

4. क्षुणे

|   |    |
|---|----|
| रे ममविज्ञाय द त जीवितम्                    |    |
| द पुरुषकार ि ताव ो यस यत्                   |    |
| दात्त कर्म वै तत्र दैव छीवा उप सते          | ८  |
| म च त्महित र्यै तीक्ष्ण यदि मृदु            |    |
| गृ ते शील सदाऽनर्थैरि न                     | ९  |
| तस्म त् स धयित येऽर्थे कार्य ए पर क्रम      |    |
| सर् मपि स त्य य र्यमात्महित नरै             | ८  |
| विद्य शौच च द क्ष्य च बल शैर्यं च पञ्चमम्   |    |
| मि णि सहजा यादुर् तय ताह यैर्बुध            | ८१ |
| नेशन च य च भ र्या क्षेत्र हृज्जनम्          |    |
| एत युपचित न्य हुस् सर् तो लभते पुम न्       | ८२ |
| सर्वत्र रमे प्र र्स् सर्वत्र च विरोचते      |    |
| न च भीषयते किञ्चिद् भीषिते न विभेति च       | ८३ |
| नित्य बुद्धिमतो र्थस् ल्पकोऽपि वि र्धते     |    |
| द क्षयेण कुर्वतां कर्म सयमात् प्रति तिष्ठति | ८४ |
| गृह ेह ववद्ध नां नर णामल्पमेघसाम्           |    |
| ी खादति मांसानि मघम से गवामि                | ८५ |
| गृह क्षेत्राणि ि त्र णि ेश इति च परे        |    |

|   |    |
|---|----|
| इत्ये मव .ति नर बुद्धिा पर्यये  | ८६ |
| उत् थाच्च विमान देश दुर्भिक्षपीा तात्<br>अन्यत्र सात ग छेद् वसेद्वा नित्यम नित            | ८७ |
| द त्र यास्य ि तु ाहोसहे<br>मेतदनाह य त पुत्रेण पार्थि                                     | ८८ |
| भाय च पुत्र च र जान कुसौदम्<br>कुदेश च स व ध दूरत परिवर्जयेत्                             | ८९ |
| मित्रे न ि िश्वास भ र्यय ते रति<br>कुर जि धृतिनास्ति कुदेशे न प्रज वति                    | ९० |
| कुपुत्रे ाद न स्ति नित्यमस्थिरसौहृदे<br>अवम न स व धे त्यथविपर्यये                         | ९१ |
| स भार्य या प्रि ब्रूते स पुत्रो त्र निर्वृति<br>तन्मित्र यत्र विश्वासस् स देशो यत्र ज वति | ९२ |
| यत्र ास्ति बल रस् स र जा तात्रश सन<br>स च यैन भिस व धो य जनोऽपि बुभूषति                   | ९३ |
| भाया देशेऽथ मित्राणि पुत्रस ब धिवा धवा<br>एते व गुण ति धर्मेनेत्रे मर्ह पतौ               | ९४ |
| अ ि स्य िषये प्रज नश्यति निग्रहात्  | ९५ |

१२९] शान्तिपवणि आपद्धर्मपव १

राज मूल त्रिवर्ग अ मत्तोऽनुप लयन्  
बलिषड्भ गमुद्रत्य फल तदुपये जयेत् ९६

न रक्षते प्रजास्सम्यक् सं च पार्थि तस्कर ९६

दत्त्वाऽभय य राज

न तत् प्रमाणं रुतेऽर्थलेभात्

स धर्मोपादुपलभ्य प पम्

अधर्मबुद्धिर्निरय प्रय ति ९७

दत्त्वाऽभय य राज प्रमाणं रुते यदा

स सब सुखमा गेति प्रजा धर्मेण पालयन् ९८

पित भ्र ता गुरुशस्ता वह्निर्वैश्र णो यम

स र जगुणाने न् मनुराह प्रज पति ९९

पित हे र जा लोकस्य प्रजानां योऽनुकृपिता

तस्मिन् मिऽय पनीते हे तिर्यग् भवति मानव १

स भा यति म तेव दीनमभ्यवपद्यते

दहत्यग्निरिवा निष्ठान् द यत्यहितांस्तदा १ १

इष्टेषु विसृजत्यर्थान् कुबेर इव क म

गुरुधर्मोपदेशेन गोत्र च परिप लनात् १ २

य तु र यते राज पै रजानपद न् गुणै

|  |     |
|--|-----|
| न तस्य भ्रश्यते र य गुणधम नुपालनात्      | १ ३ |
| य क् तेगृणाति पौरज नपद जनम्              |     |
| स सुख पश्यते र ज इह लो परत्र च           | १   |
| नित्ये द्विमा प्रजा यस्य रभारप्रर्ष डे । |     |
| ि लुप्यन्त्य र्थैर्हे स ग छति पराभवम्    | १ ५ |
| प्रजा यस्य च वर्धन्ते सरसीव महत्पलम्     |     |
| स राज र्वसु दस् स्वर्गलके मह यते         | १ ६ |
| बलिन िग्रहे र जन् न द चित् प्रशस्यते     |     |
| बिन नर्ही त तो र य कुते रति              | १ ७ |
| सै मुक्त्व श निका दत्त नर धिपम्          |     |
| र ज न समनु । य जगामार्भीसित दिशम्        | १ ८ |
| एतत्ते दत्तस्य पूज या सह भाषितम्         |     |
| मयोक्त भरतश्रेष्ठ किम यच्छ्रोतुमिच्छसि   | १ ९ |

इति तिस्रः भारतेऽंशः स ि त्रय ि त्रयं ष्यासि  
 ि ि षो नर् दधि शत गोऽन्यायः २९  
 ८ अपद्ध प ि ष्यः ९  
 ि न्नभ्या ९ ो िः]

## त्रिंशदधिकशततमोऽध्याय



भी वि ति तु द्वा गोक्ताप तुवादः

युधेष्टिरः

युगक्षयात् परिक्षीणे मे लेके च भारत  
द युभि प ड्यम ने च थ स्थेय पित मह १

ह त े वर्तयेष्य मि न तिम पत्सु भारत  
सृज्य पि घृणां काले तथ वर्तेत भूमिप २

अत्र प्युदाहर त मम् इतिहास पुरा नम्  
भ रद्वाजस्य स इ र शत्र तपस्य च ३

राज शत्र तपे नाम वैराणां मह रथ  
कणिङ्कमुपस पप्र छाथविनिश्चयम् ४

तु पः

अल धस्य थ लिप्सा ल ध े न विवर्धते  
र्धित पाल्यते केन पालितं प्रणयेत् कथम् ५

ति .

तस्मै विनिश्चित र्थय परि श्रोऽर्थनिश्चयम्  
व च मतिम न् व क्रयम् इद हेतुमदुत्तरम् ६

ण :

नित्यमुद्यतद स्याति य विवृतपैरुष



|  |    |
|--|----|
| अि छद्रश्छद्रदर्शी च परेषा विवर नुग<br>नित्यमुद्य . स्य भृश द्विजते जन<br>तस्म त् सर्वणि भूतानि द डेनैव प्रस धयेत् | ८  |
| ए मेव प्रशसति बुध ये तत्त्वदर्शिन<br>तस्माच्चतुष्टये तस्मिन् प्रध नो द उच्यते                                      | ९  |
| छिन्नमूले धिष्ठ ने र्वे तर्ज्विनो हता<br>कथ हि श खाि ेयुश छिन्नमूले वन पतौ   | १  |
| मूलमेवादितश्छिन्द्याद् अरिपक्षस्य पति त<br>तत सह य न् पक्ष च सर्वमेव नुशा येत्                                     | ११ |
| सुमित्रित सुविक्र सुयुद्ध सुपल यितम्<br>अ पद गमकाले तु र्वीत न विचारयेत्   | १२ |
| इमात्रेण विनातस्य द्वादयेन क्षुरोपम<br>श्लक्ष्णपूर्वभि षि च क मक्रोधौ विवर्जयेत्                                   | १३ |
| सपत्नसदि रये कृत्व स ध न विश्वसेत्<br>अपक्रामेत्ततश्शी तकार्ये विचक्षण   | १४ |
| शत्रु च मित्र पूर्वेण सान्त्वेनैवानुस त येत्<br>नित्यशश्चोद्विजेत् त् सर्पाद्वेश्मगत दि                            | १५ |
| य बुद्धं परिभवेत् त तीतेन स त येत्<br>अ गतेन दु प्रज्ञ प्रत्युत्पेन पणि म्   | १६ |

|   |     |
|---|-----|
| अ लिशपथ सान् शिरस प दव दनम्<br>अशुप्रपातन चै य भूतिमिच्छ                                  | १   |
| हिदमित्र स्कन्धेन य दर्शस्य ल मनम्<br>अथनमागते ले भिन्द्याद्धटमिव शमनि                    | १८. |
| मुहूतमि र जे द्र ति दुकालात ७ लेत्<br>मा तुष रि व न चिर् धूमायेत नरश्चिरम्                | १९. |
| नानर्थकं र्थवल तप्नेन समाचरेत्<br>यर्थं शक्यते भोक्तु कृत ार्योऽवम यते                    | २   |
| ात् सर्वाणि र्याणि सावशेषाणि कारयेत्  | २   |
| िलस्य राहस्य मेरोश्शू यस्य वैशमन<br>यालस्य भक्तचित्तस्य <sup>१</sup> यच्छेयस्तत् समाचरेत् | २१  |
| त्थायोत्थाय गच्छे नित्ययुक्ते रिपोर्गृहम्<br>शल तस्य पृ छेत यद्य य शल मत्                 | २२  |
| न लस प्र प्रुव त्यर्थन् न ह्नीव नातिम नित<br>न च ले रवाद्धी न च शश्वत् पराक्षिण           | २३  |
| न रि द्र परो वि द् विद्या छिद्र परस्य तु<br>गूहेत् कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मन      | २४  |
| ब वच्चि तयेदर्थन् सिंहवच्च पराक्रमेत्   |     |

- वच्च बलु पेत शश िनि पतेत् २५
- प नमक्ष थ ार्ये मृगया गीतव दितम्  
एत नि युक्त्य सेवेत प्रसङ्गो त्र दोष न् २६
- र्यात्तणमय पाश शया मृगशायि म्  
अन्व ाद धवेलायां धिर्यमपि सश्रयेत् २
- देश ल सम स िक्रमेत विचक्षण  
देशक ल यत ते हि वि गो विफले भवेत् २८
- ला लौ स प्रघ र्य बल बलमथ त्म  
पर च बल ज्ञ त्वा थाऽऽत्म न नियोजयेत् २९
- द ने पनत शत्र यो रज न नियच ति  
स मृत्यु पगूहेत गर्भमश्वतर यथ ३
- सुपुपित स्य दफल फ ान् स्य ररुह  
अ मस्यत् प स शो न च शर्येत चित् ३१
- आशां ाल ता र्यात् कल विघ्नेन ेजयेत्  
ि निमित्तते ब्रूय ि मित्त चापि हेतुमत् ३२
- भीत त् िघात य यावद्भयमन ग म्  
आगत तु भय द्वा प्रहर्त यमभात त् ३३
- न स हस न रु नरो भद्र णि प्रश्यति  
सशय नर रु य ि जी ति पश्यति ३४

१३ ] शान्तिपर्वणे आपद्धर्मपर्व २३

अन गत विजानाय त् लजेद्भयमुपागतम्  
पु बुद्धिक्षय त् किं द् अतिवृत्त निशामयेत् ३५

त्युपस्थितालस्य सुखस्य परिवजनम्  
अनागतसुखाशा च नैष बुद्धिमि नय ३६

येऽरिण सह स धायि श्च स्वपते सुखम्  
स वृक्षे प्रसुप्तो ऽपतित तिवुध्यते ३७

र्मण येन केनेह मृदुना द रुणेन वा  
उद्धरेति त्मान स र्थो धर्ममाचरेत् ३८

ये सपत्ना पानां सर्वा ननुवर्तयेत्  
त्मान पि बोद्ध यश चार स्सुप्रहित परै ३९

चारस्सुहित र्थ आत्मनोऽथ परस्य च  
पषण्यैरविज्ञतैर् विदित्वा रिं शनैत् ४

श्च सयित् तु पर तत्त्वभूतेन हेतुन  
अथा हरेत् काले किं त् प्रचलिते पदे १

अशङ्क्यमपि शङ्केत नित्य शङ्केत शङ्कितान्  
भय ह्यशङ्कितान्ज त समूलमपि कृन्तति ४२

अ धानेन मौनेन काषायेण जटाजिनै  
विश्वसयित् ऽद्वेषारम् अवलुपेद्यथ वृ ४३

पुत्रो व यदि वा भ्रत पिता व यदि ऽसुत्

|   |    |
|---|----|
| अर्थस्य ि ण ह त या भूति छता   | ४४ |
| गुरेर यवलिप्तस्य र्या र्यमज नत<br>त्पथ प्रतिप स्य क य भवति शासनम्                         | ४५ |
| प्रत्युत्थ न भिवाद भ्यं स दानेन ेनचित्<br>प्रपूजयि घ ती स्य त् ताक्षणतु इव द्विज          | ४६ |
| ना ि त्व परमर्माणि न कृत्व र्म द रुणम्<br>न हत्वा मत्स्यघ तीव प्रा ोति परमां श्रियम्      | ४  |
| नास्ति जात्या रिपुर्न म मित्र न म न विद्यते<br>सामर्थ्ययोग ज्ञ य ते मित्र णि रिपव था      | ४८ |
| न विमुञ्चेत दाय द वद त करुण बहु<br>न दु ख तत्र कर्त य ह य त् पूर्वापक रिणम्               | ४९ |
| सङ्ग्रह नुत्रे य स् सदा कार्ये विजानत<br>निग्रहश्चापि र्त यो यत्नेन हितमिच्छता            | ५  |
| प्रहरि यन् प्रिय ूय त् प्रहृत्यापि प्रियोत्तरम्<br>अपि च स्य शिरश्छित्वा शे चेत च रुदेत च | ५१ |
| निमन्त्रयेत स त्वेन सम्म नेन तितिक्षया<br>अ श करण मित्येतत् कर्त य भूतिमिच्छता            | ५२ |
| न शु क्वैर र्वात न वाहुभ्यां नदा तरेत्  | ५३ |

१३ ] शान्तिपर्वणि ।पद्मपर्व २५

- र्थक ।यु गो विषाणस्य भक्षणम्  
दन्ताश्च परिमृद्यन्ते रस पि न लभ्यते ५
- त्रिवग त्रिधि र्प नुव थै च  
अनुबन्ध था पा ां ज्ञ त्व ि द्वि न् नयेत् ५५
- ऋणशो च मिशेष शत्रुशो थैव च  
न पुन प्रवर्ध ते त िच्छेष न कारयेत् ५६
- ऋ शेष विवर्ध ते परिभूत शत्रव  
आवह त्यनय तीव्र य धयश्च प्युपेक्षिता ५
- स य री स्य दू अ त्त सद भवेत्  
कण्टो पि हि दुश्छे विकर रु चिरम् ५८
- वधेन च मनुष्याणां मागणां दूषणेन च  
अ राणं विन शैश्च पररष्ट्र िन शयेत् ५९
- गृ दृष्टिर्बक लीनश श्वचेष्टस्सिह विक्रम  
अनुद्विग्न क शङ्क भुजङ्गचरि चरेत् ६
- श्रेण ख्येपज पेषु लव नुनये च  
अम त्यान् परिरक्षेत भेदसङ्घ तयोरपि ६१
- मृदुरित्यवज नति ताक्षण स्युद्विजति च  
तीक्षण ले च त क्षणस्य मृदुक ले मृदुर्भवेत् ६२

मृदुना हि मृदु हति मृदुना हति दारुणम्  
नासध्य मृदुना केत् त्तीक्ष्णतरो मृदु ६३

ले मृदुया भवति कले भति दारुण  
स यानि शत्रूश्चै धिति ते ६

पितेन विरुद्ध तु दूरस्थेऽस्मीति नाश्वसेत्  
दीर्घं बुद्धिमो ह्यभ्यां हिंसति ह ६५

न तत्तरे स्य न परमु रे  
तद्धरेद्यत् पुनर हरेत् पर  
न तत् नेद्य नमूल द्वरे  
त हरे शिरे न पतयेत् ६६

इतीदमुक्त वृजिनाभिसहित  
न चतदेव रुष मचरेत्  
परप्रयु स्तु कथ भवयेद्  
अमेयैक्त भवतो हे र्थिन ६

भी

थ दुक्त च हित  
निशम्य विप्रेण रिराष्ट्रप

थ ऽकरोद्वाक्यमदीनचेतनश्च

त्रिय च दत्ता बुभुजे सवान्धव

६८

इति तिमहाभ सहास्रिक या द्वि सिक्यां

शान्तिर्विंशदधिकोऽध्यायः ३

८ पद्धमपवणि दशोऽध्यायः

अस्मि ६८ श्लोकाः

### एकत्रिंशदाधकशततमोऽध्यायः



भीष्मेण युधिष्ठिर इति अपरं क्षयभक्षणेनाप्यात्मर

१ द्वि त्रिंशत्तमं दानु दः

युधिष्ठिरः

हृत्ते परमके धर्मे सवलोकावलङ्घिते

धर्म मृतं ते धर्मे च धर्मिणो गे

१

मर्यादा प्रभि सुक्षुभिते लोकनि ये

राजभि पातिते लोके चौरैः पिशां पते

२

संमूढेषु कर्मसूपहते च

मो मेह भय पश्यत भरत

३

अविश्वस्तेषु स तु नित्य भूतेषु भारत

त्य च ह यमाने व यत् परपरम्



- प्रदं च स ये च भिप ॥  
 अ ॥ च पज ॥ मिथो भेदे मुत्थिते ५
- संस्मिन् दस्यु द्रुते थिव्य पजी ने  
 के ॥ द्रु ह्मणे ज वेजू जघये ॥ आगते ६
- अतिक्षु पैत्रन् तु ॥ रधिप  
 पदि वतत मे ॥ हे पित मह  
 थ च रज ॥ ले ॥ कलुषत गते  
 थ र्थाच्च धर्मा न हीये परन्तप ८
- भीष्मः  
 राजमूल हर ज योगक्षेम सुवृष्टय  
 प्रज धय ॥ मरण च भय नि च ९
- कृत ॥ ता द्व पर च ॥ ले भरतर्षभ  
 रजमूल इति तिरु मम नास्यत्र सशय १
- तरि ॥ भ्यागते काले ज नां दोषकारे  
 ि बलम य जी ॥ त य तदा भवेत् ११
- अ युद हर तीमम् इतिह स पुर तनम्  
 ॥ श्वाभिन्नस्य स ॥ द च ॥ लस्य च प ॥ णे १२
- त्रेत द्व परयेस्स धै पुर दैव यति मत्  
 वृ ॥ रमूढे रा लेके द्वादश ि ॥ १३

|   |    |
|---|----|
| प्रजान मभिवृद्ध ना युगान्ते पयु स्थिते      |    |
| त्रेताया मोक्षसमये परप्रि दने               | १  |
| न वर्ष ९ क्ष तिलोमेऽभ द्रु                  |    |
| जग दक्षिण र्ग सोमो य वृ म ल                 | १५ |
| ना इ येऽपि र त्र्य ते कुत भ्रराजय           |    |
| नद्य सङ्क्षिप्तते यौघ चिदन् र्गता भ न्      | १६ |
| सरांसि सरितश्चै कूपा प्रस्र ण नि च          |    |
| हत रि द्रक यदृश्यन्त निसर्गात् पूर्वं रि त् | १  |
| भूमिश्शु कजलस्थ न विनिवृत्तसभ प्रपा         |    |
| निवृत्तयज्ञ ाध्याया निवषट्कार झला           | १८ |
| उत्स कृषिगौरक्षा निवृत्तविपण पणा            |    |
| निवृत्तपूगस या स प्रनष्टमहेत्सव             | १९ |
| अ कङ्कालसङ्कार्ण हाह भूतनर ला               |    |
| शून्यभूयिष्ठनगरा द ध - मने शन               | २  |
| चिच्चोर चि छुरै चिद्र जभिरा रै              |    |
| पर परभय चै शून्यभूयिष्ठनिर्ज                | २१ |
| गत वैवतस ेगा वृद्धबालविनाकृता               |    |
| गोज रि ६ र्हीना पर परपर हत                  | २२ |
| ह विप्रा हतारक्षा प्रनष्टेत्स स या          |    |

## हाभारतम्

[अ]

|   |    |
|---|----|
| शवभू नरप्र य बभूव ध तदा                         | २३ |
| ति न् प्रतिभये ले क्षी णधम युधिष्ठिर            |    |
| <sup>1</sup> बभूवु क्षुधिता पुस ख दम ना पर परम् | २४ |
| ऋषयो निय ं त्यक्त परित्यक्ता दे ता              |    |
| श्र न् स परित्यज्य पर्य ि तस्तत                 | २५ |
| विश्वामित्रोऽपि भगव न् मह र्षि रनिे तन          |    |
| परिगो र्ध न् स तात् पर्धा                       | २६ |
| द चित् परिपतञ् श्वपचानां केतनम्                 |    |
| ाह णं णिव तानाम् आसस द ने चित्                  | २७ |
| विभि कलशार्कण घमांसेन च दूषितम्                 |    |
| वराहखरभ स्थि पालघटसङ्कलम्                       | २८ |
| मृतचेलपरिस्तीर्ण िर्माल्यक्षतभूषणम्             |    |
| पनिर्मोकमाल भि तचि टीमुखम्                      | २९ |
| उलूकपक्षध जिभिरू दे ायतनैवृतम्                  |    |
| लोहघ ट परि ार श्वयूथपरि रितम्                   | ३  |
| तत् प्रविश्य ध विे गाधिपुत्रो हानृषि            |    |
| आह र वेषणे यु पर य ं सम स्थित                   | ३१ |

---

1 बभ्रमुः 2. मत्यः  
3. इ : द् पादा 4. कृत

१३१] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ३१

|   |    |
|---|----|
| च क्वचिदविन्दत् स भिक्षम णोऽप षैशिक       |    |
| ।स फल मूलम् अ यद् तत्र केश्वन             | ३२ |
| अहो च्छू या प्राप्तम् इति निश्चित्य षैशिक |    |
| पपात भूमौ विवल्यात् सिंश्च लपक्वणे        | ३३ |
| स चिन्तयाम स मुनि ि नु मे सुकृत भेत्      |    |
| कथ वृथा न मृत्यु स्याद् इति प र्थिवसत्तम  | ३४ |
| स ददर्श श्रमांसस्य तत्र पतितां मुनि       |    |
| चण लस्य गृहे राजन् दशस्रह                 | ३५ |
| स चिन् याम स द स्तेय कार्यमिते मया        |    |
| न ह दानं मुपाये ऽ यो विद्यते प्राणधारणे   | ३६ |
| अ पत्सु विहित ेयं विशिष्टसमर्हन्          |    |
| पर सम्भवे पूर्वम् अ स्थेयमिति निश्चय      | ३  |
| हानादादेय दद्यात् सम द्वा त न तरम्        |    |
| अस भवे त ददित विशि दपि ध र्मिकात्         | ३८ |
| सोऽहमन्तावस न नं हरमाण परिग्रहात्         |    |
| न स्तेयदेष पश्यामि हरि या येतदामिषम्      | ३९ |
| एतां बुद्धं समास्थ य विश्वामित्रो महातपा  |    |
| तस्मिन् देशे स सुष्वाप पतितो यत्र भ रत    | ४  |

स विगाढ निशा दृष्ट्वा सुप्ते च लपक्कणे  
शनैरुत्थाय भगान् प्रविवेश कुट मुखम् ४१

सुप्तं पितृचालं श्लेमापि हितलोचन  
परिभेरो रूक्षं प्रेचाप्रियदर्शन ४२

कुतत्र घट्टय सुप्ते च लपणे  
जागर्मिन् सुप्तो हते सीति च दारुण ४३

विश्वमित्रेऽहमित्ये सहस्रमुवच ह  
सहस्रऽभ्यगतो भूयस् सौद्वेगेन र्मण ४४

चणलस्तद्वचश्श्रुत्वा हर्षेर्भावि तन  
शनदुपस भ्रान्त इयेषेत्पतितु तत ४५

सुयश्रुनेत्रं ह्यह्यमानात् कृतञ्जलि  
उचकैशिरत्रौ ब्रह्मन् एकते चित्तम् ४६

विश्वमिस्तु मातङ्गम् उचपरिसान्त्तयन् ४६

विश्वामि :

तो निर्गतप्रणोरियमिश्वजाघनीम् ४

असीदति मे णस्मृतिर्मे नश्यति क्षुधा  
सो धर्मबुध्यमानोऽपि हरियमिश्वजाघनीम् ४८

यद्भैक्षं न विदमि युष्मद्महामालये  
दबुद्धे कृतपपे हरिष्यामि श्वजाघनाम् ९

१३१] शान्तिपवणि आपद्धर्मपर्व ३३

|   |    |
|---|----|
| तृषित लुष प तान्नास्ति भारशना र्थिन                   |    |
| स्तुद्धम न शयत्यत्र हरे यामि श्वज घनाम्               | ५  |
| अग्निमुख पुरे ध श्र देवानां <sup>१</sup> शुचिष द्विभु |    |
| था च सर्वभुगग्रह्य तथा मां विद्धि सवत                 | ५१ |
| भी :  |    |
| मुव च स च ड लो महर्षे शृणु मे च                       |    |
| श्रत्व थ समातिष्ठ यथ धर्म हीयसे                       | ५२ |
| मृगाणामधम श्वान प्र दित मनीषिण                        |    |
| स्य प्यधम उद्देश शरारस्य तु जाघर्न                    | ५३ |
| नेद स य य सितं महप र्म वैदिकम् ।                      |    |
| च तलस्वस्य हरणम् अभक्ष्यस्य विशेषत                    | ५  |
| साध्वन्यमनुपश्य त्म् उपाय प्राणधारणे                  |    |
| धम सलोभा पसे न शस्ते न्महामुने                        | ५५ |
| जा ता िहितो मर्गो र्यो धर्मसङ्कर                      |    |
| धर्म परित्यार्क्षस् त्व हि र्मा दु                    | ५६ |
| ि श्व मित्र ते राजित्यु ते भर षभ                      |    |
| धार्त यु चेदं पुनरे म्मामुनि                          | ५  |
| वि गामन्नः  |    |
| निर ह रस्य सुमहान् मम क लो यध वत                      |    |
| वि ते ु प यश्च कश्चि त्प्र णधारणे                     | ५८ |

1. शुचि ग् । द धम्

|             |                                |    |
|-------------|--------------------------------|----|
| तेन विशेषेण | णा येने नचित्                  |    |
| ि हाष       | दम नस् समर्थो धर्ममाचरेत्      | ५९ |
| ऐ द्रे ध    | क्ष त्रियाणं ह्यणानामथ         |    |
| वह्निर्मम   | बल भोक्ष्य मि श यन् क्षुधम्    | ६  |
| यथा यथै     | जी त त् त यमल लय               |    |
| ी त मरण     | ये र्ज न् धर्ममवा यात्         | ६१ |
| ेऽह र्ज     | ितम ड्क्ष भक्ष्यस्यापि भक्षणम् |    |
| य स्ये      | बुद्धिपूर्व वै तद्भानुमन्यताम् | ६२ |
| जी न् धर्म  | चरि य मि प्रणेत् । यशुभ नि च   |    |
| तपेभिर्वि   | य चैव योर्त षेव महत्तम         | ६३ |

नैतत्त्वदन् प्र स्यसे प्राणमद्य

नायुर्दीर्घं नामृतस्येव तृप्तिम्

भिक्ष म यां भिक्ष म ते रुचि तु

द्यभक्षणे श्व भक्ष्यो द्विजानम्

६४

ि ति

न दुर्भिक्षे सुलभ मांसमन्यच्

छप क मन्ये च न वेद्मि ति त्तम्

ध ० ॥हमगतिर्निश चर

श्वजाघन षड् । साधु मन्ये ६५.

शि । ० ॥रण धर्मे द्रुत्तमनुवर्तये

परा मेध्याशनेत्येतां भक्ष्या म ये श्वज घनीम् ६६

श्वपचः

असद्भिर्द्ये समार्चिणो स धर्म सन तन

<sup>1</sup>अनार्यमिह य । म लेनाशुभ थ ६

विश्वाः :

न प तक न वमतम् ऋषिस्सन् तुमर्हति

समै च श्वमृगै मन्ये तस्माद्भक्ष्या श्वज घना ६८

:

पञ्चनखा भक्ष्य ह्यक्षत्रस्य वै द्विज

दि श प्रमाण ते माऽभक्ष्ये वै मन कृथ ६९

िश्वाभित्तः

ग ल्येन सुरो भुक्तो ।त पि क्षुधिते न वै

अहमापद्रत क्षु धो भक्षयि ये श्वजाघर्नम् ७

श्वपचः

भिक्ष म य माहरेति न च तत्कर्तुमर्हसि

त न र्यमेतद्वै हरतेमां श्वज घनीम् १

|    |             |    |         |      |
|----|-------------|----|---------|------|
| 1. | ।           | 2  | भित्तेन | धिने |
| 3. | द्वय नास्ति | 4. | ि सि    |      |



द्राह्मणार्थे कृतमर्थितेन

तेनर्षेण तदभक्ष्य न ामात्

स वै धर्मो न पापमर्ति

सर्वैरुप यैर्गुरो भिरक्ष्या

२

मे च मे ण यमत्

प्रियञ्च मे पूज्यतम ले

द्वोक्तुका ऽहमिमा जि र्षे

नृशंसानामाद्दश ि हि विभ्ये

३

काम नर जीवित स त्यजति

च भक्ष्ये प्रतिकुर्त्तु बुद्धिम्

स मान् प्रा ताति बुद्ध्वा

स्वर्गं गत् सहितार क्षुध ये

विश्वामित्रः

ने भेत् शय प्रेत्यभा

स्तिश कर्मणं च पि श

अह पुनर्त नत्य शय त्म

मूल रक्षन् क्षयि य भक्ष्यम्

५

बुद्ध्यात्मके क्तम ि तुष्टे  
 मेक्षात्मके त्वं यथ शिश्रचक्षु  
 यद्यप्येतत् दाहर मि  
 ह भवि यामि यथ त्वमात्थ

७६

:

यापन यमिद दु खम् इि ती ि  
 दु कृ त ि ण स तं यस्तु महमुपालभे

७

विश्वाति :

पि त्येवेदक गावो म दूकेपु रुवत्स्वपि  
 न तेऽधि रे धर्मेऽस्ति मा भूर त्मप्रशसक

८

:

द्वुवाऽनुशे चे वां कृपा हे त यि मे द्विज  
 दे श्रे अ धत्स्व म लेभे चेत अ दधा

९

दि मित्रः

सुहृत्स्व चेदि छसि त्वम् आपदो मां सुद्वर  
 नेऽह धर्मतो त्म नम् उत्सृजेमां धजाघनीम्

८

:

नैवेत्सहे भवतो द तुमेतां

नोपेक्षितु ि यमाण स्वम म्

उभौ स्य व श्रमलेनानुलि ि

दाता चाह त्वं च विप्र त च्छन्

८१

ि  
 अद्य े द्वजिन र्म  
 जी रियामि मह पवित्रम्  
 स पूजित त्म धर्ममे ि पत्  
 यदे योगु न द्र हि

८२

<sup>1</sup>आत्मव साक्ष किल्ल धर्ममाहुस्  
 त् ज न ि यदत्र दुष् म्  
 योऽभ्यर्थयेद्भक्ष िति श्रमं स  
 म ये त ि िवर्जन यम्

८३

दि मित्रः

प दाने िदने ऽ यदेष  
 य य ये नित्यमत्राप द  
 िहंस न नृते क्यलेशे  
 क्षयक्रिय न द्रर

८४

पच

यद्येष हे खादने त्  
 े द रण  
 क्ष भ णे द्विजे द्र  
 देष पश्य ि दथ त्थ

८५

विश्वामि :

न पात भक्षणमस्य दृष्ट

सुरा पत्व प त ति ब्द

ये य र्याणि था थै

लेशम त्रेण त हिनस्ति

८६

अस्थानते दानत कुत्ति ताद्व

द्वे अस व घते धु वृत्तम्

श्वान पुनय लभेऽभिषत्वात्

तेन पि द डस्स हित य एव

८

ति :

एवमुक्त्वे नि वृते मातङ्ग शै द

विश्व मित्रो जहरै कृतबुद्धिश्चजाघर्नम्

८८

ते जत्राह स श्वाङ्ग ज विताथ हामुनि

द र त्वथ च ह्य ने भेक्तुमियेष स

८९

एति ले तु प्रव र्षाथ सव

। यन् ज सर्ा जनयामास चैषधी

९

विश्वामित्रोऽपि भग ांस् तप द धवि त्विष

लेन हत सिद्धिम् इयेष परमाद्भुतम्

९१

ए द्विनदनत्मा यस स्थे जिर्जिवि  
सवपयैरुप गो दानमत्तमनुद्धरेत् १२

एतां बुद्धसमस्थयजीवितयसदाभेत्  
जान्पुयमवतेपुरुगोभद्रमश्रुते १३

इत्तौदुषाधर्मधर्मविनिश्चये  
बुद्धिमास्थायलोकेऽस्मिन्तेतयकृतत्मना १४

इति श्रीमहासहस्रिकायाम्हातायासिक्व  
न्तिपर्वणि एतदधिकशतोऽंशः  
पद्धपर्वणि एतदशाध्यायः  
[सिद्ध्यर्थे ९ श्लोः]

### द्वात्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

अर्धप्रतिरात्राजदन्तजलनक  
दः

युधिष्ठिरः

यदिदधेरमुद्दिष्टम्अश्रद्धेयमेवानृतम्  
अस्विद्युमर्यादायामयपरिवर्जयेत् १

मुमिषिषादामिधर्मोऽयशित्थिलीकृत  
उद्यमनाधिगच्छमिकुत्रचित्परिचितयन् २

३२] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व

|                           |                      |   |
|---------------------------|----------------------|---|
| नैतच्छ्रद्धागमादे         | धनुश सनम्            | २ |
| भी :                      |                      |   |
| ज्ञ समभिहारेऽय            | भिस्सम्भृत मधु       |   |
| बहु विविधा                | प्रज्ञा राज्ञ तस्तत  |   |
| बहुशाखेन धमण यत्रैष       | सिध्यते              |   |
| बुद्धिसञ्जनन र ज्ञं       | धर्ममाचरतां          |   |
| क्षयो भवति हौर य सद       | तद्विरेव च           | ५ |
| बुद्धिश्रेष्ठ हे राजाने   | भ वि विजयैषिण        |   |
| धर्म प्रतिविध त यो        | बुद्ध्या रा तस्त     | ६ |
| नै श खेन धर्मेण र         | ो धर्मो विधीयते      |   |
| अवलस्य तत प्र             | पुरस्तादनुद ता       |   |
| अद्वैध तिद्वैधैस्         | सशय प्रु महति        |   |
| बुद्धिद्वैध ि धात य       | पुरस्तादे भरत        | ८ |
| पार्श्वत करण र            | ो विपूच्य त्वापगा इव |   |
| जन तू रित धम ि ज न त्य    | यथाऽ यथ              | ९ |
| यदि ज्ञ नित केचि मिध्य वि | निनेऽपरे             |   |
| द्वै थ यथ बुद्ध           | ज्ञानम ददते सताम्    | १ |
| परिमु णति श               | णि धर्मस्य परिप िथन  |   |

|   |    |
|---|----|
| वैषम्यमपि विद्यानां निरर्था ख्यापयति    | ११ |
| अ जिजीविष विद्यां यश कामास्समन्तत       |    |
| ते सर्वे नरपापिष्ठ धर्मस्य परिपथिन      | १२ |
| अप मतयो म दा न जानन्ति यथातथम्          | १२ |
| प्रगृ श शलास् सर्वत्रापरिनि ता          |    |
| परिमुष्णति श णि श दोषानुदर्शिन          | १३ |
| विज्ञानमथ विद्यानां न यगिति तैते        |    |
| निन्दया परवि णन विद्यां ख्यापयन्ति ते   | १४ |
| व गच्छ वि नीताश्च दुग्धविद्याफला २व     |    |
| न् विद्यावणिजो विद्धि राक्षसानि भ रत    | १५ |
| य जेन त विहितो धर्मस्ते परिह ते         |    |
| न धर्म चन चा न बुद्ध्य चेति नश्श्रुतम्  | १६ |
| इति बार्ह पत्यविज्ञान प्रोवाच मघ स्वयम् | १  |
| न त्वेव वच किं दू अनिमित्तमिहोच्यते     |    |
| स्व वि नीतेन श ख्येण अध्य स्य त चापरे   | १८ |
| लोकय त्र मिहै तु धम दुर्मनीषिण          |    |
| समुद्दि क धर्म यमूहे प त                | १९ |
| अ र्षाच्छा स मोह दू अनिमित्तादिहे च्यते |    |

|           |                                      |    |
|-----------|--------------------------------------|----|
| १३२]      | न्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व              | ४  |
| शा        | प्राज्ञस्य दत्तस् समूहे यात्यदर्शनम् | २  |
| आगम       | गतय बुद्ध्य चनेन प्रशस्यते           |    |
| अज्ञा     | ज्ञानहेतु इद् चन साधु मन्            | २१ |
| अनुपागतमे | नेद् शास्त्रमनर्थकम्                 |    |
| दै        | यानुशन प्राह सशयच्छेदने पुर          | २२ |
| नम        | यपदेश्य हि यथा न सि थै तत्           |    |
| तेन       | ञ्छि मूलेन कस्तोषयि भिच्छति          | २३ |
| पु        | र्ये सित ये व ने, वाक्यमुप श्रुयात्  |    |
| उ         | चैव हि सृष्टेऽसि कर्ण र्मक्षसे       | २४ |
| अ         | मनेक्ष रजन् योऽय बुभूषते             |    |
| यथ        | प्र च्यते र्थो दर्थं च प्रमोदते      | २५ |
| अजोऽश्च   | त्रमितेतत् स ब्रह्मण म्              |    |
| त         | तैश् झूतानं यत्र कचित् सिद्ध्यति     | २६ |
| य         | य धे देषस् स ध्यस्य वधे मृत          |    |
| एष        | तु र्याद् यमय परिवर्जेत्             | २  |
| तस्म      | त् तीक्ष्ण प्रजा रजा धर्मे पयत्यु    |    |
| अन्ये     | य भक्षयतो हि प्रचरेयुवृक इ           | २८ |

1. नथकम्

२. उ चै हि इऽसि ँ ि ऽि



|   |    |
|---|----|
| द युगणा राष्ट्रे षड्भिक्षा मत्स्य लादि<br>विहरति परस्व नि स १ क्षि पां न          | २९ |
| लानान् चिान् कृत वेदविद्य समि तान्<br>शाधि थिर्वी र जन् जा धर्मेण पालयन्          | ३  |
| विहं जन्म माण य प्रगृते भूमिप<br>उभयस्याविशे ज्ञस् तद्वै क्षत्र नपुसकम्           | ३१ |
| १ गोत्र नैव च तुत्र धर्मेणेह प्रश ते<br>भय ते मदे उग्रो भूत् । मृदुर्भव           | ३२ |
| क्षत्रिय म् १५ य १६ द ये यत् स्थितम्<br>प्रे कम णि सृ १५ सि तस्म द्राय प्रशाधि वै | ३३ |
| अरु स्यचि जिन् एवमेव स चर<br>अशिष्टनिद्रहो नित्य शिष्टस्य परिपालनम्               | ३३ |
| ए श १५ व द्वीमान् आपत्सु भरतं भ<br>युधिष्ठि                                       | ३४ |
| त्तं चै मह व हो या भ्यं नातिल येत्<br>पृच्छ १ सतां श्रे त मे ब्रूहि पितामह        | ३५ |

ह्यणाने सेत १ च वृद्धंस्तपोधनान्

१३३] शान्तिपवणि आपद्धर्मपर्व ४५

शु चारित्रवृत्ताढ्य न् पवि ह्येतदुत्तमम् ३६

श्रूष तु महाराज सान्त्व िप्रे नि दा  
द्वैर्हि विप्रै र्मणि नि बहुध नृप ३

तेषां प्रात्य यशे मुख्यम् अप्रीत्या रम भ म्  
त्य मृत द्विप्र क्रद्धश्चै यथोरगा ३८

इति र शतसहस्रिकायां हिताय वैयासिक्या  
शा ि द्वा त्शद शत मोऽभ्य : ३२  
८ पद्ध पर्वणि दशो : २  
[ सि ३८ श्लोकाः ]

### या शदधिकशततमेऽध्याय

धिष्टिर ति णागतर सुचुक्त्वा िोक्त  
व्य धकपोतोपाख्यानात्तु तदारम्भः ये महावृष्टिनिपीडि  
चिद्धाधन पपी याऽधः परि काञ्चन तो िप य  
प चि म क्षस्याधोदे शयनम् २

छिरः

पितामह मह सर्शास्त्र शि रद  
शरण गत प लय ते ये ध वीहि मे १

मह न् ध महारज शरणाग लने

अहं प्रष्टुं त्रै प्रश्नं भरतसत्त २

<sup>१</sup>नृगप्रभृ रजन् राज नशरण गतान्  
परिपाल्य मत्मानस् साद्ध परमा ग ३

श्रुते हि कपोते शत्रुशरणम गत  
पूजितं यथा मसैर्नित्यमतित ४

धिः :

कथं पोतेन पुर शत्रुशरणम गत  
सैर्भोजि च गत लेभे स भ र ५

भी :

शृणु रजन् धमेतं सर्वपापप्रचेनीम्  
नृपेर्मुचुद कथितां भर्गेण ह ६

इममथ पुरा पार्थे मुचुन्दे नरधिप  
भार्गये प्रणत रुषर्षभ

तैश्शुश्रूषणाय भर्गवो धयत् धाम्  
इयं यथ कपोतेन सिद्धिं प्राजधिप ८

उशन

र्मनि सयुक्तां कामार्थसहितां धम्  
शृणु वा हितो रजन् गदते मे महाभुज ९

1. शि 2. पारपप्रच्छ

१३३] शान्तिपर्वणि आ दर्मपव ४

कित् क्षुद्रस चर थि यां कालसिभ  
चचार पृथिवपाल ोरश निलु क १

किल इव णङ्गो रुक्ष पप माहि  
मध्य शिवो ह्रस्वपादे म हनु ११

नै स्य हत् ि स बन्ध न व  
बान्धवै स परित्यक्तस् तेन रद्रेण कमणा १२

स वै क्षारकमा य ने हत् च पक्षिण  
चार ि य तेषां पतङ्गानां नर धिप १३

ए तु र्त नस्य तस्य वृत्तिं दुरात्मन  
अगमत् सुमहन् लो नैष धर्ममबुध्यत १४

स्य भ र्यसह यस्य रमम णस्य शाश्वतम्  
द योगे विमूढ ना य वृत्तिररोच १५

तत कद चित् त थ वनस्थस्य समुद्रत  
पात त्रिव वृक्षांस्त न् सुमहन् वातसम्भ्रम १६

मेघसङ्कुलम श विद्युन्म लमि ७तम्  
स लं तु मुद्रतन नौसार्थेनेव सागर ॥ १७

रिधारासहस्रैश्च स प्रहृष्टशतक्रतु  
क्षणेन पूरय मास सलिलेन वसु धर म् १८

|  |    |
|--|----|
| धर ले ले सेऽभ प्रचे न                              | १८ |
| शीतार्तं द्वन सर्वम् अ लेनान् रत्मना               |    |
| ने स्थल वऽपि ोऽवि दत्त विहं हा                     | १९ |
| पूरितो हे जलैघेन मार्गस्तस्य नस्य                  | २  |
| पक्षिणो वर्षवेगेन शाखाल ना तु <sup>१</sup> प दप न् |    |
| मृगसिंह राहश्च ये चा ये तत्र वर्तिन                | २१ |
| मह ा षण त्रसि ा वनौ स                              |    |
| भ र्तश्च क्षुध र्तश्च बभ्रमु सहित ने               | २२ |
| स हतैर्गत्रैर् जग मै न स्थिवान्                    | २२ |
| ेऽपश्यद्वनष ेऽस्मिन् मेघर्नल नस्पतिम्              |    |
| सुम ार ार ळ्यम् अकाश निर्मल च ह                    | २३ |
| ेधै क्त नभे दृष्ट लु ध श त ल                       |    |
| दि े िलोकयाम स वेलं च सुदुरात्मव न्                | २४ |
| दूरे ऋ मवेश स्मत् स्थ न दिति प्रभे                 |    |
| तबुद्धिर्वने तान् तु ा रजन तदा                     | २५ |
| ो ळ णत कृत्व क ह न पतिम्                           |    |
| शरण यामि न्यस्मिन् दै तानाह भ रत                   | २६ |

स शिलया शिरस्त्वपर्णान्याः भूतले  
दुःखेन महत्सुविप्रसू ततस्सुध्वापपक्षिहा २

इति श्री ह्यभारतसहास्रकायासंहिता वैयासि

तपर्वणि यस्मिं दधि श्री ३३

८ - अप - देशोऽध्यायः ३

[ रि १ २ श्लोकाः ]

### चतुस्त्रिंशदाधकशततमोऽध्याय

निःसिनापेनाहारागत्यांनिजप १  
गतानुवणनपूर्वतांप्रियोनम्भर्तुश्रतवत्या  
व्याधपञ्जरस्थयपोत्याधर्मोपयासपूर्वपंअियाधस  
दान २ ॥ दतेनपतेनशुष्कपः पावर्दयाधस्य  
शत्यापनादनपूर्वः तर्ति ३  
वृत्तिप्राथम्येफलादिप्यलभमनेनपे तर्दय  
परिजिहीयाम्पास्यवह्निप्रेशद  
तपलपू प्राणविमणायानशनादि शरीरशाषणा  
ः ५ तृशास्यपचरुणविप्यः ६  
गोतानारोगतोः कपागोसुखेनचिरावह  
धेवतानस्थयर्दशनम् ८ तेष्व्यधेनदाशरीरनेन  
गगमनम् ९

शन

अथ वृक्षशखयां हि हङ्गसंज्ञन

दलोषितेरजसू तत्र चित्रतनूरुह

त त्वं गत भार्यं चरितुं नाभ्य तं  
प्र तं च रजना दृष्ट्वा स पक्षी पयं प्यत २

ततः

तवष महच्चार्सन्नं चागच्छति मे प्रिय  
तं नु तत्करणेन सऽद्यापि न निवर्तते  
अपि स्ति भवेत् तं प्रियया मम नने ३

तय हि रहितं हीदं शून्यम गृहं मम ४  
यदि सा रक्तनेत्रा ता चित्रङ्गी मधुर र

न भ्येति मे क ता न काय जीवितेन मे ५

पतिधर्मव्रता स 'र्वं प्राणेभ्योऽपि गरियस  
सा हि श्रा त क्षुध त च जानीते मां तपस्विनी ६

अनुरक्त हितं चै विधा चैव पतिव्रता

यस्य त दृशी भार्यं धन्यस्त मनुजो भुवि

भर्या हि परमो नाथ पुरुषस्येह<sup>१</sup> पश्यते

असहय लोकेऽस्मिं यत्रासहयिनी ८

अथ मे भिभूतस्य नित्यं कृच्छ्रगतस्य च

<sup>२</sup> अस्ति भार्यसम मित्रं नरस्यार्तस्य भेषजम् ९

1. दृश्ये पश्य :

2 - दमम्

१३ ] शान्तिपर्वणि ३.५.१५.१ ५१

अस्ति भायसो बन्धुर नास्ति भायासमा गति

भर्यासमे लोके सहायो धमशसने १

उश

एव विलपतस्य द्विजस्यस्य तदा

गृहीताग्निनेन भर्याश्राभाराम् । ११

गोती

हिंसाया यस्याभर्तुतुयति

सिद्धिप्येतद्भर्ता हि शरणं परम् १२

उशन

इति सिलदुर्तभरिदुखिततदा

पोतलुकेनथ हृतचनमत्रवात् १३

गोती

हृदयमि ते श्रेयश्श्रुत्वा तु कुरुत्तथा

शरणागतसत्रातभान्विशेषत १

एषनिश्चेते तव वससमश्रित

तार्तश्चक्षुधार्तश्च पूजामस्मै प्रयोजय १५

ये हि कश्चिद्विजहयाद्गं लोकस्य मतरम्

शरणगतचयोऽयत्तुल्यतेषां हि पातकम् १६

याऽस्माकं विहितवृत्ति कापोती धर्मतपुर

1. नन्दमधम्



|  |    |
|--|----|
| सा यद्या भव नित्यं द्विधेऽनुर्ते म्      | १  |
| यतु धर्मं यथाशक्ति गृहस्थे नुर्ते        |    |
| स प्रेत्य लभते लोकं अक्षयनिति शुभ        | १८ |
| स सत वानघ पु व नपि च द्विज               |    |
| त्व देहे दयां त्यक्त्व धर्मार्थं परिगृ च | १९ |
| पूज मस्मै प्रयुक्ष प्रीयेत स्य मनो य     | १९ |
| उशना                                     |    |
| इति सा शिः न्य प रस्य तपि नी             |    |
| अतिदुःखावित प्रोक्त भर्तारं मुदै त       | २  |
| स प या वचनं धर्मयुक्तिसमावितम्           |    |
| हर्षेण महता युक्तेऽप याकुललेचन           | २१ |
| स शनि दृष्ट्वि धिदृष्टेन र्मणा           |    |
| पूजयाम स युक्तेन स पक्षि पक्षिर्जितम्    | २२ |
| उ च गत तेऽतु ही करवाणि ते                |    |
| तप न यस् गृहे वर्तते भ न्                | २३ |
| तितु च भ न् क्षिप्रं कं रे मिच सि        |    |
| प्र मि त्व हे नःशरण गत                   | २४ |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| शरण ग स्य क्त यम् अ तिथ्यमिह त       |    |
| यज्ञप्र तेन गृहस्थेन िशेष            | २५ |
| प ांस्तु ये मेहा रोति गृहाश्रम       |    |
| य न च परो ले ि वि धर्मत              | २६ |
| द्रूहे त्व सुवि धो यत् त व च वदि यसि |    |
| त् करि यम्यह स मा त्व शोके मन कृथ    | २  |
| त तद्वचन श्रुत्वा श नेलु धकोऽब्रवीत् | २८ |
| धः                                   |    |
| व ते खलु मां शात हिमत्र णं विध यताम् | २८ |
| शना                                  |    |
| एव क्त पक्षी पर्णा य ह्य भूतले       |    |
| यथ शुष्कानि यन्नेन उ लन थ द्रतं ययौ  | २९ |
| स गत् । त रकर्म तद् गृह त ि मथागमत्  |    |
| त श्शु ेषु पर्णेषु पाव स ह्यः पयत्   | ३  |
| स सुमहत् त्व मह शरण गतम्             | ३१ |
| गितः                                 |    |
| पय वि धस् स्वगत्रा तेभय              | ३१ |

स तथोक्तस्तथेत्युक्त्वा लु धो गत्रा यत पयत्

ोऽि प्रत्यागतप्र णस् तत प्राह विहङ्गमम् ३२

याधः

दत्तमाहारमि मि त्वय क्षुद्राधते हि माम् ३३

उशन

स तद्वच प्रतिश्रुत्य वाक्यमाह विहङ्गम ३३

तोतः

न मेऽि विभ े येन न शयेय तव क्षुधाम्  
उत्प ेन हि जी ामो वय नित्य नैकस ३४

स े नास्ति च स्म मुनीनामिव नने ३५

उशन

इत्युक्त् । स तद तत्र वि णं दनोऽभ त् ३५

थ नु खलु र्ते यम् इति चि पर दा  
बभूव भरतश्रेष्ठ गर्हयन् तिमत् न ३६

मुहूर्त धस स्तु स पक्ष पक्षिघ त म्  
उ ाच तर्पये य मि मुहूर्त परिप ३

इत्युक्त् शु णैस्त समु ९ हुत शनम्  
ह ेण महताऽऽवि पेत पुनरब्र ीत् ३८

पो .

षीणं देव ानां च पितृणां च मह त्मन म्  
श्रुत पूर् े मय धर्मो महानति थिपूजने ३९

कुरुष्वानुग्रहमेऽसत्यमेद्ब्रवीमि ते  
निश्चिता खलु मे बुद्धिर् अतिथिप्रतिपूजने ४

शना

तत सत्यप्रतिज्ञेऽसास पक्ष प्रहसि व  
तमदिं ि परिक्रम्य विवेश मह मति  
अग्निमध्ये प्रविष्ट त लु धो दृष्ट्वाऽथ पक्षिणम्  
चि य म स म सा किं द नु कृत मय ४२

अहो नृशसस्य गर्हितस्य र्मणा  
अधर्म सुमहन् घोरो भिष्यति न संशय ४३

ए बहुधि भूरि विललपस लु ध  
गर्हयन् नि िणि द्विज दृष्ट्वा तथऽऽगतम् ४

तस्तु लु ध पशन् पयाऽभिपरिप्लुत  
पेत ग्नौ पतित वाक्यं पुनरुचि ह ४५

धिष्णामस्तु दुवुद्धिं सद निकृति यम्  
शुभं कर्म परित्यज्य येऽहं श निलुधक ४६

नृशस माद्ययं प्रत्यादेशे न संशय  
दत्तं मास दहता पोतेन महामना

सोऽहं त्यक्ष्ये प्रियान् प्राणान् पुत्रान् दारान् िस्तुज्य च

|  |    |
|--|----|
| पदिष्टो हि मे धर्मं पतेन त्र धर्मिण      | ८  |
| प्रभृति देह सर्भे गैर्जितम्              |    |
| यथा लपजल त्रि म शेषयि य यह तथा           | ४९ |
| क्षुत्पिप सातपसह कृशे धमनिस त            |    |
| उपव सै हुविधै रि ये परलैकेकम्            | ५  |
| अहो देहप्रद नेन दर्शित ऽतिथिपूजन         |    |
| तस्माद्धम चरि य मि धर्मे हि परमा गति     | ५१ |
| दृशो धम हि धर्मिष्ठे य दृशोऽसौ हि हङ्गमे | ५२ |
| उशन                                      |    |
| ए मुक्त्व निश्चित्य रौद्र मां स लु धक    |    |
| मह प्रस्थ नमाश्रित्य प्रययौ सशितव्रत     | ५३ |
| ततो याष्ट शलाकाश्च क्षारक पञ्जर णि च     |    |
| तां च बद्धां कपोता च स प्रमुच्योत्ससज    | ५४ |
| ततो गते शाकुनिके पोती प्राह दु खिता      |    |
| स मृत्य भर्तारमथै रुदती शेकक र्शिता      | ५५ |
| पोती                                     |    |
| न ह ते विप्रिय त्त कदाचिदपि सस्मरे       | ५५ |
| सर्वाऽपि दु खिता नार बहुपुत्राऽपि वै सद  |    |

१३४] न्तपर्वणि आपद्धर्म वै ५

येभ्यो भवति बन्धूना पतिहान तपस्विना ५६

लितः ऽह त्वय नित्य बहुान ० ता  
चनैर्मधुरि धर स त् सुमनोहरै ५

दरेषु च शानं नदीना निर्झरे च  
द्रमाग्रेषु च रयेषु रमिताऽह त्वया प्रिया ५८

आकाशगमने चैव हितः ऽह तया गत  
रमिताऽस्मि पुरका त तमे नास्त्यत्र वै प्रिय ५९

मित ददति हि पितं भ्रत मित त  
अमितस्य हि दातर भर्तारान पूजयेत् ६

नस्ति भर्तृसंनथे नस्ति भर्तृसमं स्वम्  
विस्मृत्य धनं भत वै शरणं य ६१

कयमिह मेथ ज वितेन तय विन  
पतिहान तुानरं सती ज वितुमुसहेत् ६२

भ

एव विलप्य हुधा रुणं स धुदु खिता  
पतिव्रत स प्रदी विवेश हुताशनम् ६३

त्रङ्गदधर भर्तारः ऽन्वपद्यत  
विन कृतिभि पूज्यमनमत्सुभि ६४

चित्र ल्य वर रसं भरणमूषिम्

|   |    |
|---|----|
| विम नश ेटीभिरू आ त पु यकीर्तिभि             | ६५ |
| त ग गत पक्षा भ यय सह सङ्गत                  |    |
| र्मण पूजित ेन रेमे स सह भ र्यया *           | ६६ |
| िम नस्यौ तौ र जल धके वै ददर्श ह             |    |
| दृष्ट्व स द पती दु ख दू अचि तयत तद्रतिम्    | ६  |
| कीदृशेनेह पस ग ेय परमा गतिम्                |    |
| इति बुद्ध्य विनित्य ग न योपच मे             | ६८ |
| मह प्रस्थ नम श्रित्य त्तम पक्षिजावन         |    |
| स निश्चेष्टो निराहारो निर्ममस्वर्गकाङ्क्ष । | ६९ |
| तत पश्यति विस्तीर्णं ह्यं पद्म विभूतिम्     |    |
| न ना द्विजगणाक ण सरश तजल शुभम्              |    |
| पिपास त ऽपि तद्वद्वा तृप्तस्या त्र सशय      | १  |
| उपवास कृशे ऽत्यर्थं स तु पार्थिव लु ध       |    |
| उप त्य तु तद्वद्व श्व पद ध्युषित नम्        | २  |
| ह तं निश्चय कृत् लु धक प्र ववेश ह           |    |
| प्रवेशेव स न निगृहीत स कण्टकै               | ३  |
| स कण्ट विभिन्नाङ्गो लेहित र्द्रिकृत छवि     |    |

१३४] शां पर्वण आपद्धर्मपर्व ५९

वभ्राम तं न विजने नाद्रमल कुले ४

ततो द्रमाणां पततां पवनेन ने तद्

उत्तिष्ठत सङ्घर्षात् सुमहं ह यव हन ५

द्वन वृक्षस ण लत ट सङ्कुलम्

ददाह पावक द्रो युगान्ता समप्रभ ६

स लै प नोद्धूतैर् फुलिङ्गैस्समन्त

ददाह तद्वन घोरं मृगपक्षिस लम् ७

दा स्वदेमोक्षाथ स प्र घ्रेन चे स

अभ्यधावत वर्ध त पा क लु ध स्तद् ७८

ततस्ते घ्रेन द धे लु धको द धकेल्विष

अ ससाद् परां सिद्धिं तदा भर सत्त ९

त ग मात्मा म् अपश्यद्विग र

यक्ष्मग धर्वसिद्ध नां मध्ये भ्र ज तं त् ८

ए खलु कपोत पेती च पतिव्रता

लु धकेन सह गं गता येन मणा ८१

य ऽ य चैवविध नारी भर्तारमनुवर्तते

विरजति च स क्षि पे व दिवि स्थित ८२

एवमेतत् पुरावृत्त लु ध स्य महत्मन

पोतस्य च धर्मिष्ठा गति पु येन कर्ण ८३



|   |    |
|---|----|
| यश्चेद शृणुय ित्य येद परिक्रियेत्             |    |
| नाशुभ िते त मनवस्य न सशय                      | ८४ |
| श्रै मह नेष ध धर्मभृतां वर                    |    |
| गो पे ित्य निष्कृते पापकर्मण                  | ८५ |
| ने तिर्भवेत्त ये हन्या <sup>१</sup> छरणं गतम् | ८५ |
| इति मह भारे स ित्या तित यासि                  |    |
| ति ति त स्वशदधिकशतत िऽध्याय ३                 |    |
| ि चतु िऽध्यायः ४                              |    |
| [ िस्व ियाये ८५ िकाः ]                        |    |

### ि श्दधिकशततमोऽध्यायं



|  |  |
|--|--|
| ि ति िष्मं प्र ि ि पू ब्र त्याप्रायि       |  |
| ि ने िबुद्धिपू त्याप्र ि कधनपूर्वक ध धन -  |  |
| रम्भः २ िने िद ि णम िो जनसे यस्य म् ३      |  |
| शोनक ि नय दीयब्रह्मह िपनादनाङ्गि म्        |  |
| ि िे िे य िेध िजन दी ह्यहत्य पनोदनपू राज्य |  |
| ि ि म् ५                                   |  |

#### युधिष्ठिर

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| अबुद्धिपू पाप र्थ रतसत्तम     |   |
| मु ते थ त द् एनसस्तद्र िहि मे | १ |

भी :

अत्र ते वतयिष्यामि पुराणमृषिसकृतम्  
इन्द्रोतशशौ को ि प्रो यदा<sup>२</sup> जनमेजयम् २

आसाद्राज महावीर्यं प रिक्षिञ्ज मेजय  
अबुद्धिजा ह्यहत्या मागच्छ मह पतिम् ३

ब्राह्मणा स<sup>१</sup> एवै तत्यजु सपुरोहिता ३

स जग म न र जा द नो दि निशम् ४

स जाभि परित्यक्तश् चकार शल महन्  
अतिबेल पस्तेपे द म स मन्युन ५

तत्रेतिहास वक्ष्यामि धर्मस्य स्ये पबृहणम् ५

मान प पकृत्या जगाम जनमेज  
परक्षम ण इ ोतं शै सशित तम् ६

सम साद्ये पजग्राह प दयो परिर्ष यन्  
तते भी तो महाप्रा ो जगर्हे सु श दा

शौन :

र्त प पस्य महतो भ्रूणहा ि मिहागत ८

कं तवा िसु कर्त य मा ि<sup>१</sup>प्राक्षी कथ  
ग छ ग न ते स्थान िण त्यस्मान्नि ते ब्रुवन् ९

|  |    |
|--|----|
| स्त्री ते ग शू च दर्शनम्<br>अशिश शो मृ जी ि टसि                                | १  |
| अ मृत्युरशुद्धात्म पपे तुचि न्<br>बुध्यसे प्र पिषि वर्त परमे सुखे              | ११ |
| गोधं ते जी ि राजन् परि ष्ट्र च र्ज वसि<br>पपयै हि सृष्टेऽसि र्मणेह यवीयसे      | १२ |
| बहु ल्य णमि च ईह ते पितर न्<br>पसा ते ज्याभिरु <sup>१</sup> व दनेन तितिक्षया   | १३ |
| पितृ शि म पश्य त्वत्कृते निधन गतम्<br>निरर्थं स एवैषाम् अश ब धास्तु द श्रया    | १४ |
| यान् पूजयन्तो ि दित र्ग आयुश्शशिश्रयम्<br>तेषु ते स तत द्वेषो ाह्मणेषु निरर्थं | १५ |
| इम लो ि मुच्य त् म् अव द्भूर्ध पति यसि<br>अश श्वत शशाश्वता सम प पेन र्मण       | १६ |
| खाद्यमाने ज तुशतैस् तीक्ष्णदष्ट्रैरयोमुखै<br>ततोऽति नर त्त त पापयोन गमि यसि    | १  |
| यदे यसे राजन् नायमस्ति त पर  |    |

1. शम

2. -स्तु ति

१३५] णि आपद्धमपर्व ६३

प्रतिस्मारयित र तं दूत यमक्षये\* १८

पम

एव प्रत्यु च त मुनि जनमेजय १८

जने :

गि गर्हं णं गर्हं ति नित्य निन्दि मां भ न्  
धि ण्यं मां धिक्करोते स्मा ।ऽह सादये १९

स ह द सत् कृत मे लाम्यन्न वि हितम् २

यभिस न भिनन्दि मे मन  
प्रा नू भ घोर मया स्व दपि २१

तत्त शल्यमनिहत्य कथ शक्षयामि जीवितुम्  
सर्वं म युं विनि तु मम भि द शौनक २२

ग ता गात ब्राह्मणाना भि य यर्थं न पुन  
अस्तु शेषं कुलस्य स्य म पर भूदिद कुलम् २३

न हि ने श नं शेषं भवितुमहति  
स्तुतीरलभमान नं स वेद वेदनिश्चय त् २४

नि दमानस्त्वम त्म नं भूये वक्ष्यामि स प्रतम् ४

भूयश्चैव भिमथन्ति निर्धर्म निर्जल २

न यज्ञ अमु लेकं प्र प्रवृत्ति कथ न २५

शे न्याय ि श्य

|  |    |
|--|----|
| अव कच प्रपति-यित पुलि दशवरा इ          | २६ |
| अवि यैव मे िं बालस्येव सुपति त         |    |
| न पितेव पुत्रेभ्य प्रीतिम वह शौनक      | २  |
| श                                      |    |
| िमाश्चय यत प्रज्ञो बहुकुर्याद प्रतम्   |    |
| इ वै पणि तो भूत्वा भूतानां को नु त यते | २८ |
| प्रज्ञाप्रसादमरु अशेच्यशोचते जनन्      |    |
| जगतस्थानि त्रिस्थ प्रज्ञय परिपश्यति    | २९ |
| न चोप भते त्र न चश्चर्याणि पश्यति      |    |
| िणि त्मा परोक्ष िधि तस्स स धुषु        | ३  |
| विदित भ य माहात् य चैव च गमे           |    |
| रु हे मह शा ह्य शरणम तु                | ३१ |
| द्वै चरि न गानामकुप्य म्               |    |
| अथ ि यसे पप धर्म चेदनुप यसि            | ३२ |
| अनुत्त ये च प पेन च धम चर यहम्         |    |
| बुभूषे जम न च प्रीति न् भ शौनक         | ३३ |

1. प्रतिवक्ष्यन्ति

2. िपि

१ ५] शान्तिपर्णि आपद्धर्मपर्व ६५

:

हिर द भ च मानं च ितिमिच्छामि ते नृप  
सर्वभूतहिते ि धम वै प्रतिसस्मर ३४

न भया च र्प य लोभत् त्वमुप ये  
१तां मे दे गिर त्यं शृ न्तु । णै सह ३५

सेऽह न केनचिच्चार्थि त्वां च ध दुप ह्वये  
केशतां सर्भूत नां ह ह धिगिति र्वतम् ३६

क्षयित मामधर्मज्ञ त्यक्षयित सुन्दो जन  
चस्सुदशश्रुत् सञ्ज्वरि यि ते भृशम् ३

चिदे महाप्रज्ञ प्रिज्ञास्यित कायाम्  
ज नीहि मे कृत तात ह्यणन् परिते ये ३८

यथ ते सत् त क्षेम लभेर त्व थ कुरु  
तिजानीहि चाद्रोह ब्रा णानं जनाधिप ३९

नै व च न मनस पुनर्जतु न र्मण  
द्रे ध स्मि ह्यणन् विप्र चरणो व ते शे \* ४

1. णि  
\* वा य ण ह

|  |    |
|--|----|
| तस्मिन्ने <sup>१</sup> स प्र क्ष्यामि धर्ममावृतचेतस<br>श्रीमान् म बल तुष्टो यस्तु धर्ममवेक्षसे | ४१ |
| पुरस्त दारुणो भूत्वा सुचित्रतरमेव तत्<br>अनुगृह्णति भूतानि तेन वृत्तेन प र्थे                  | ४२ |
| ते नूनं स सती इति ले षे य स्यति<br>ते तादृशे भूत्वा र्ममद्य तुपश्यसि                           | ४३ |
| दप हिते न पि भोगांश्च प अ स्थि<br>त्ये दपि भूत नाम् अद्भुत जनमेजय                              | ४४ |
| योऽदुर्बले भवे २ कृपणो व तपोधन<br>अनश्च तदित्य हुरु न तदूरे हे वर्ते                           | ५  |
| तप ए हि र्प य सम म मीक्षितम्<br>तेत् सम क्षयै स्याद् भवेत्तस्मि पोगुण                          | ४६ |
| यज्ञे दान दया वेदास् सत्य च पृथिवी पते<br>प त नि पवित्र णि षष्ठ सुचरित तप                      | ४७ |
| तदेव र ज्ञां परम पवित्र जनमेजय<br>तेन स य गृहीतेन श्रेय स धर्ममाप्स्यसि                        | ४८ |
| यदेश भिगमन पवित्र परम मृतम्  |    |

|  |                         |    |
|--|-------------------------|----|
| १३५]   | न्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व | ६  |
| दा र्ण                                       | गाथा गत य िना           | ९  |
| मर्त्य प्रतिपद्येत अ युर्जिन न               |                         |    |
| यज्ञमे                                       | ता तत् न्यस्य प रेत्    | ५  |
| पु य िहु कुरुक्षेत्र रस्वत्या थूद            |                         |    |
| त्रा गाह्य ि त च नै श्वो मरण तपेत्           |                         | ५१ |
| प्रभ स्मेत्त स द्य म नस पुष्कर सर            |                         |    |
| कङ्क ल च पि ग ि ध युर्जिविते पुन             |                         | ५२ |
| रस्वतादृषद्वयौ से तेऽनुसरेत्                 |                         |    |
| ध्य यशाल एते सर्वे वेवमुप पृशेत्             |                         | ५३ |
| गधम पि त्र णं स यास परम ित्                  |                         |    |
| त्रा युद हर िम गाथा सत्य त कृता              |                         | ५४ |
| यथ मार सत्यो वै नै पु यो न प प               |                         |    |
| न स्ति सर्भूतेषु दु खमस्मिन् कुत सुखम्       |                         | ५५ |
| एव प्र तिभूत नां सर्वससगय यिनाम्             |                         |    |
| त्यजतां र्जित प्रायो निवृत्ते पु यपापके      |                         | ५६ |
| यन्वेव र ज्ञे ज्यायिष्ठ कार्य णां तद्वीमि ते |                         | ५६ |
| बलेन स िभ गैश्च जय ग पुनीष्व च               |                         |    |
| य वै बलमोजश्च स धर्मस्य भुर्नर               |                         | ५  |



|  |    |
|--|----|
| ण न सुखाथ त्व पयहि थि ामिम म्<br>यथैवतान् पुर क्षे सीस् तथैवैतान् प्रसादय                | ५८ |
| अपि धिक्क्रियम णेऽपि र्यम नोऽप्यने ध<br>आत्मने दर्शन ि द्वान् न हर्तास्मीति मा ँ ध       | ५९ |
| घटम न काय र्वं श्रेयस परम्   | ६० |
| हिमा ि घेषसदृशे राजा भवति कश्चन<br>लाङ्गल शनि ल्पे वा भवत्यन्य पर प                      | ६१ |
| न निशेषेण ग त यम् अचिकित्ेन ा पुन<br>न ज तु न हम् िति प्रस मस धुषु                       | ६२ |
| वकर्मणा त यमान पादात् पापस्य मुच्यते<br>नैतत् या नरिति द्वितीयत् परिमु यते               | ६३ |
| <sup>१</sup> चरि ये धर्ममेवे ि तृतीयत् परिमु यते<br>शुचि र्था यनुचरन् बहुत् ात् परिमु ते | ६४ |
| कल्य णमेव र्तं य पुरुषेण बुभूष ा   | ६४ |
| सुग िने से ते थाग ध भ ि<br>ये दुर्ग िने ते तथाग धा भ ि ते                                | ६५ |
| तप र्यापर सत्य प पाद्धि परिमु यते  |    |

1. िद म्  
दमर्धम्

१३५] शान्तिपवणि आपद्धर्मपर्व ६९

सवत् र पास्याग्निम् अभिशस्त प्रमुच्यते ६६

णि षा युपास्य भ्रूणहऽपि प्रमुच्यते ६७

मह र पु र णि भासोत्तरमानसम्  
अभ्येत्य ये जनशत भ्रूणह विप्रमुच्ये ६८

य प्राणिनो ह यात् तज्जायान् भ  
मीय णानु मे य प्राणिहा प्रमुच्यते ६९

अपि ऽऽप्सु निमज्जेत त्रिर्जप घर्षणम्  
थाऽश्वमेध भृथम् एतत्त मनुरत्रवात्

क्षिप्र प्रणुदते पप कर लभते तथ

अपि चैन प्रसीद भूत नि जडमू वत् १

बृहस्प देवगुरु पुर सुरास्

समेत्य सर्वे नृपतेऽ वयुञ्जत १

देवः

धर्मो फल हेतुकृते ह

थेतरि रके पापलोक्रये

उभे यस्य सु ते भे

ते द्वयो त्र जयोत्तर स्य त् २

1. विमुच्ये

2. ।

अ चक्षुत् मफल महर्षे

कथं पप नुदते पु यशी

३

रतिः

सकृत् ता पपमबुद्धिपूर्व

पु यानि चेत् रुते बुद्धिपूर्वम्

स तत् पप नुदते पु यशी ले

व सो यथ लिन क्षरयुक्त

४

पप कृत्व ऽभिमान्येत न ह्यमस्मिन्ति पूरुष

चिन्ति देव्यण श्रद्धा नो जितेन्द्रिय

५

न्द्रिणि सनस्ये स धूनां सवृणोति स

य पाप रु कृत् कल्यणमभिपते

७६

अदित्य पुनरुन्तमसव यपोहति

यणमचरे सर्पाप यपोहति

भी

ए मुक्त्तु राजानम् इन्द्रते जनमेजयम्

य जयामस विधिद्वाजिधे शौन

८

तत् राजयनी लम्बश

श्रिययुत प्रज्वलितेऽनुरूप

१३६] शान्तिपर्वणि दुर्मपर्व १

वैश राः स्वमित्रकर्शने  
दिव यथ पूणवपुर्निशाकर १

इति गीमहाभ १ त्रिकार्या द्वितार्या त्रैयारि क्यार्या  
शान्ति वैणि १ शदधिकश गोऽभ्यायः ३५  
आपद्ध १ प ५  
[ १ ि न्याये ९ श्लोकाः ]

### षट् शदधिकशततमोऽध्याय

दशान १ गे १ चिद्ग १ मृ १ नमुपनीय गृ  
वृक चनद्वौ १ म सतया ि सु यदृच्छा  
पा गोदनया मृत जीवितम्

शृणु १थं यथ त्तम् इतिहास पुर तनम्  
१गृ जम्बु सव दं यो वृत्तो व दिशे पुरे १

दु खिता १ चिदादाय बालमप्र प्रयै नम्  
लस स्वभूत १ रुद तशशोकक र्शि १ २

ब ल मृतं गृहीत्वाऽथ श्मश न भिमुख स्थिता  
अङ्केना १ सम य रुदुर्भूतले दा ३

तेषां रुदितश देन गृध्रोऽभ्येत्य वचे १ वीत् ३

गृ :

तेतः मिम ले त्यक्त ग छत । चिरम् ४

इह पुसां सह णि सह णि चैव ह

म ीतानि लेन कं ते वै जातु वा धवा ५

पश्य जगत् सर्वं सुखदु खैरधि म्

योगो विप्रयोग पर्याणैव लक्ष्यते ६

गृहीत ये नु ग छि अनुयति च ये मृत न्

ेऽप्यायुष प्र णे ेत ग छति ज त

अल स्थि इमश नेऽस्मिन् गृ गोम युसङ्कले

कङ्क बहुले घेरे ्र णिभयङ्करे ८

न पु र्जिवित ित् लधर्म पागत

प्रिये वा यदि व द्वे य प्राणिनां गतिरं श ९

सवण खलु मर्त य मर्त्यले े प्रसूय

त तविहिते माग को मृत र्ज यि यति १०

दिश तेष चिते य द् अ गच्छति भा र

ग य ां मधि न ेह ेऽसृज ११

तते गृध्रवचरुः वि ेश स्तद नृप

१३६] शान्तिपर्वाण आपद्धमपव

|  |    |
|--|----|
| बा े भ्यध पुत्रमुत्सृ य भूतले                  | १२ |
| नेि त्यथ च तद स त्यजन्त मात्मजम्               |    |
| निर शा जीि ते मागम रु विष्ठित                  | १३ |
| ध ङ्क्षरूक्षस र्ण तु िलाि स्सृत्य जम्बु        |    |
| गच्छ ानांस्तु ानाह िघृण खलु मानुषा             | १४ |
| आ दिसोऽय स्थितो मूढास् ेह रुत मा भयम्          |    |
| दुरूपे हू ि जीेदपि थ                           | १५ |
| दभान् भूमौ विनिक्षि य पुत्रस्त्रेह विनाकृत     |    |
| श्मशने त्रमुत्सृ स्म द्र छ िघृण                | १६ |
| न ोऽ त्यस्मिन् ते ेहे मधुर भ षेणि प्रिये       |    |
| भ षि मात्रेण प्रसादमुपगच्छत                    | १  |
| न पश् ध े यादृश प पक्षिणाम्                    |    |
| तेषां ध रयेत् श्रिदस्ति फलागम                  | १८ |
| च प त्पक्षिकाट नां प्र णिना ेसङ्गिनाम्         |    |
| परलो गि स्थानं मुनियज्ञि य इ                   | १९ |
| त्रभिर णम् इह ले पर च                          |    |
| गुणे दृश्यते कश्चित् प्रजास्सन्धार ि च         | २  |
| अपश्य ि प्रियान् पुत्र न् ये िं शे ो न तिष्ठति |    |
| न ते पेषणस प्रात म त पितर ए हि                 | २१ |

|  |                       |    |
|--|-----------------------|----|
| नुषाण                                  | हे येषा शोको न िद्यते |    |
| इमं ल र पुत्र त्यक्त                   | नु गमि यथ             | २२ |
| चिर मु त व प च चिर                     | हेन पश्य              |    |
| एव विधानि हीष्टानि दु                  | यज नि विशेषत          | २३ |
| क्षणस्याथा भिशस्त                      | श्मशान भिमुख च        |    |
| धवा यत्र ति                            | त तत्र ये नावति ते    | २४ |
| सं दयि । प्र णास् सर्वस्त्रेह च वि दति |                       |    |
| तिर्य योनि पि सम स्त्रेह पश्यत य शम्   |                       | २५ |
| त्यक्त्व थ ग थेम पद्मले                | यतेक्षणम्             |    |
| यथ न द्वेह त नम ल्य भूषितम्            |                       | २६ |
| ज बुकस्य चश्शु वा पण परिदे त           |                       |    |
| र्त तत सर्वे वा र्थ ते हे नुष          |                       | २  |
| हो धिक् सुनृशसेन जम्बु                 | नाल्पे धस             |    |
| क्षुद्रेणोक्त हानसर                    | नुषा नि तथ            | २८ |
| प भूतपरित्यक्त शु                      | त् गतम्               |    |
| ग्रेचथ िश्चे म् आत्म न                 | न शे चथ               | २९ |
| तप कुरुध वै मुच्यध येन किल्बि त्       |                       |    |
| तपस लभ्यते सर्व विल प                  | के रि य               | ३  |

१३६] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ५

|  |    |
|--|----|
| निश्रानि च भागानि जनी स्व आत्मना         |    |
| येन गतिं बालोऽत्यक्त्व शोकमनुत्तरम्      | ३१ |
| धनं गावस्सुवर्णं च गिरन्नमपि च           |    |
| अपत्यं च तपेमूलं पो योगं लभ्यते          | ३२ |
| यथा च भूतेषु प्रायते सुखदुःखं            |    |
| गृहीतं जयते जन्तुर्दुःखं च सुखानि च      | ३  |
| नर्मणं पितुः पुत्रं पितुः पुत्रकर्मणः    |    |
| मार्गेण येन गतिं बद्धासु दुष्कृतैः       | ३४ |
| धर्मं चरत यत्नेन तथा धर्मं ततः           |    |
| वर्तते च यथाकालं दैवतेषु द्विजेषु च      | ३५ |
| शोकं त्यजत दान्यं च विमुञ्चत             |    |
| त्ययतामयमाशेषं तं शशीनिर्तत              | ३६ |
| यत्नं रोति भूमिं तथ धर्मं दारुणम्        |    |
| तु तैव समश्नते वा धवाना किम              | ३  |
| इह त्यक्तोऽतिष्ठते वा वाधं प्रियम्       |    |
| स्नेहमुत्सृज्य गच्छति वा पपूर्णविलेक्षणं | ३८ |
| ज्ञो वा यदि वा मूर्खस्स सधनो निधनेऽपि    |    |
| सर्वाणि शयति दुःखसमन्ति                  | ३९ |
| करि यथा शोचि मृतं मनुशे चथ               |    |



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| सं हि प्रभु ले धर्म समदर्शन     | ४ |
| यौवन वलांश्च वृद्धान् गर्भग नपि |   |
| वि ते मृत्युर् एव भूतमिदं जगत्  | १ |

जम्बुकः

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| अहे म दा तरे हे गृध्रेणे ल्पवुद्धिन   |    |
| त्रस्नेह भिभूत यु म शे चतां भृशम्     | ४२ |
| मैस्स यक् प्रयुक्तै वचनैर्हेतुदर्शनै  |    |
| मे त् पद्य रुता मा विचार्यताम्        | ४३ |
| द्रच्छथ जलस्थ न े मुत्सृ य दुस्त्यजम् | ४३ |
| हे पुत्रियेगेन मृ शून्ये सेवनात्      |    |
| शे शं व भृश दु ख विवत्स ना गवामिव     | ४४ |
| ो े ज मि मानुषाणं मर्ह तले            |    |
| े ह करुण दृष्ट्व म ाप्यश्रू थ गमन्    | ४५ |
| े हि सतत क र्यस् तते दैवेन युज्यते    |    |
| द पुरुषकर त ेनेपपद्यते                | ४६ |
| नि दस्सद यो निवदाद्धि त खम्           |    |
| य त् यते र्थ स्माद्ग छथ निदय          | ४  |
| त्म ोपवृत्तां च शरीर धमय नुम्         |    |
| पितृणां श र्तर वने त्यक्त्व य स्थथ    | ४८ |

१ ६] शान्तिपवाण आपद्धर्मपर्व

|  |    |
|--|----|
| अथ च गते सूय सन्ध्याकालेऽप्युपस्थिते<br>त ो नेष्यथ पुत्रम् इहस्था वा भविष्यथ | ४९ |
| गृ :   |    |
| अ वर्षसह मे । । मानुषा<br>न च पश्य ि जीव मृत ि पुनपुसकम्                     | ५  |
| मृ गभ जायन्ते जायमाना म्रिय ि च<br>वि िम तो ि य ि च यौवनस्थास्तथ परे         | ५१ |
| अनित्य नि च भ य ि च प त्पक्षिण मपि<br>जङ्गमाजङ्गम नां च ियुरे तिष्ठते        | ५२ |
| इष्टद र ि युक्त त्रशे ि । थ<br>द म नास्म शोकेन गृहान् ग छ ि नित्यद           | ५  |
| अनि िना सह िणि थेषु नं शत नि च<br>उत्सृ येह प्रया । वा भृशदु खि              | ५  |
| त्य यत मेष निस्तेज शून्य िष्टत् िगत  | ५५ |
| अ यदेह ि क्त हे ि शु मुप सथ  | ५५ |
| त्यक्तर्ज वस्य वै व प द्वित न गच्छथ  |    |
| निरर्थको य ि हे नि फल परिश्रम  | ५६ |
| न चक्षुभ्य न ण्भ्यां स शृणो ि स पइ ि   |    |

महाभारतम्

[

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| दिने समुत्सृ स्वगृहान् ग त           | ५  |
| क्ष म श्रितै क्यैर् हेतुमद्भिरनिष्ठै |    |
| गच्छत क्ष मे नेशनम्                  | ५८ |
| ज्ञ यु न बुद्धिस प्रद यिन            |    |
| च श्र वित मुख्य नुष सति र्थ          | ५९ |

|  |    |
|--|----|
| इम नकवणाङ्ग भूषणैस्स लङ्क म्             |    |
| गृ ाक् ात् कथ पुत्र त्यक्ष्यः पितृपि दम् | ६  |
| हस्य विरोधेऽ लि परुदि ा                  |    |
| मृ स्या परित्य गात् तपो ो भवित ध्र म्    | ६१ |
| श्रूयते बुके शूद्रे हते णद र             |    |
| जातिो धर्मस रमात् त्यपरा मात्            | ६२ |
| था श्रैय रजैर् बाले दि ा म ग             |    |
| मुनिना र्मनियेन मृ स िति पुन             | ६  |
| यथा श्रिद्धेत् सिद्ध ऋषिर्वा देवताऽपि    |    |
| पणान तु शै र्यद्वे रुदत मिह              | ६४ |

इ युक्त स्ते न्य र्त शो र्त त्रवत्सला

१३६] शास्त्रिणी आपद्धर्मपर्व ९

शिरस्स षाय रुरुर्बहु रम् ६५

गृध्रः

श्रप तपरिक्लिन्न प णिस्पर्शप्रपीडित

धर्मर जप्रयोग दार्ध्रिा प्रवेशि ६६

पस ऽपि हि सयुक्तो जन ले ह ते

हे स ानाम् इद हि हे तनम् ६

वालवृद्धसह ाणि सद स त्य य बान्धवा

दे सानि च रत्र दु ख िष्टि भूले ६८।

अल निर्व ध ल य शेकस्य परिव रणम्

अप्रत्यय कुतो नरद्येह र्ज वितम् ६९।

नैष जम्बुकव क्रयेन पुन प्र ष्यति जीवितम्

मृत त्सृष्टदेह पुनदहे न िद्ये

न वै मूर्तिप्रदानेन ज बु ानां शतैरपि

ब लस्य र्ज शक्योऽयम् अथ वर्षशतैरपि १

अथ रु, कुमारो वा ब्रह्मा विष्णुरे च

रमस्मै प्रय छति त े जीवेद्य पुन २

नैव बाष्पि िक्षेण न च श्वासकृतेन वै

न र्द र्घरुदितेने पुनर्जीवं गमि यति ७३

अह च क्रोष्टक ै यूयं चैव स्य बा ध ।

- ध । धर्मो गृहीत्वैव सर्वे तामहेऽध नि ४
- अप्रियं परुष चापि परद्रोह परि यम्  
अधर्मनृत चै दूरत् प्रो ि जयेत् ५
- धम सत्य भ य र्य्य हता प्रणिना दयाम्  
अजि मशठं च य परिमार्गत ६
- मातर पितर चै व ध न् सु दस्तथा  
ज ते ये न पश्यन्ति तेषा ध र्य्य ७७
- यो पश्यति चक्षुभ्य नेङ्गते च थ  
निष्ठा स न् रुदन्त रि थ ८
- ति :
- इत्युक्त त त्यक्त् भूमौ शे रिप्लता  
द मन ते हात् प्र युर्वा ध गृह न् ९
- जम्बुकः
- द रुणो र्य्यो य सर्वप्राणि न शन  
इष्टवन्धुि योग तथ ल्प च जी तम् ८
- ब लकमसत्य यि दत् यिवदम्  
इ नर्भव दु खशे ि धनम् ८१
- न मे नु लोकोऽय मुहूतमपि रोचते ८२
- अहे धि गृधवाक्येन स ि त नु

|      |  |    |
|------|--|----|
| १३६] | शान्तिपर्वणि आपद्धं व                      | ८  |
|      | प्रदाता पु शोकेन यथै ।बुद्धयस्तथ           | ८३ |
|      | थ ग छत निर ेह सू सुत ेह विसृः वै           |    |
|      | श्रुत् गृध्रस्य वचन पापस्येह तत् न         | ८  |
|      | स्य न तर दु ख दु खस्यान् र स्वम्           |    |
|      | सुखदु ख विते लोके न े . ख्यमन् म्          | ८५ |
|      | इम क्षितितले त्यक्त्व व ल रूपस िवतम्       |    |
|      | कुलशे हर त्यक्त्वा मृद पुत्र य स्यथ        | ८६ |
|      | रूपयै वनस प े मन े श्रि                    |    |
|      | जीवन् मि पश्यामि स न त्र सशय               | ८  |
|      | विन शेन स्य न े वै सुख प्राप्स्यथ व लिश    |    |
|      | पुत्रशोकाग्निद धान मृतमप्यद्य क्षमम्       | ८८ |
|      | दु खस भा नं त्वा धारयित्वा सुख यम्         |    |
|      | त्यक्त्वा गमिष्यथ ।द्य समुत्सृ य ल्पबुद्धय | ८९ |
|      | शिष्मः                                     |    |
|      | थ धमविरोधेन प्रियमिज्याभिध यिन             |    |
|      | इमश न िसिन नित्य रा त्र मृगयत द            | ९  |
|      | तते ध्यस्थतां नीत चनैरमृतेपमै              |    |
|      | जम्बुकेन स्वकार्यथ व ध । त्र व रित         | ९१ |

गृ :

|  |    |
|--|----|
| अय प्रे सम की यक्षरक्षससेवित<br>द रुण ननेदेश शिकैरभिनादि                           | ९२ |
| भ स्सुघोर थ नीलेष भ<br>अस्मिञ् शव परित्यज्य प्रे का ण्युप                          | ९३ |
| नुय यात्य य विमल दि<br>देन परित्य प्रेत युप सत                                     | ९४ |
| दि प श्येन शि । क्रोशति द रुणम्<br>गे प्रतिनर्दन्ते रविर च ग छति                   | ९५ |
| चि धूमेन नीलेन सर य ते च पादप<br>श्च ने च निर हर प्रतिबुध्यति देहिन                | ९६ |
| सर्वे विक्रा तर्व रश्चा यस्मिन् देशे सुद रुणे<br>यु मन् धर्षये यति विकृत मांसभोजिन | ९  |
| दूर आय वनेदेशो भयमत्र भवि यति<br>त्यज्यत ष्टभूतेऽय मु य जा बु च                    | ९८ |
| यदि ज बु ।क्यानि निष्फल यनृतानि च<br>श्रे यथ ष्टि नास् ततस्सर्वे नशि यथ            | ९९ |

जम्बुक

श्रूयतां न भेत य य त्तपि भ र

१३६] शान्तिपर्वणि पद्मपर्व ८

|   |     |
|---|-----|
| वदन् नो नोद् नोदेन तत                     | १   |
| स्वैर कुरुत वि ष्वास् र हेन पश्य          |     |
| दारुणेऽन् नोदेशे भयो न भविष्यति           | १ १ |
| अय तौ यो वने देशे पितृणां नि र            |     |
| स्थीयता द दित्य क दाम् भितै               | १ २ |
| गृध्रस्य क्य नि तीव्रानि रभ नि च          |     |
| गृह्णात मे हे त्मानस् सुतो न भविष्यति     | १ ३ |
| गृध्रे न स्ति ऽभ्येति तिष्ठे क् च जम्बुक  |     |
| मृत त परिजनम् ऊचतुस्तै क्षुध विवतौ        | १ ४ |
| स्वकायदक्षौ तौ राजन् गृध्रो ज बु एव च     |     |
| क्षुत्पिप सापरिश्रान्तौ शा माल य जल्पत    | १ ५ |
| योर्विज्ञानविदु र् द्वयोर्मृगपतत्रिणे     |     |
| क्यैरमृ कल्पैर्हि ति ते व्रजति च          | १ ६ |
| शोकदै यसम विष्टा रुद त स्थिरे तदा         |     |
| ाय चा ल भ्यां ते स भ्राम्यन्ते च नैपुणान् | १   |
| तथ तयोर्विदतोर आदारमभिक ङ्क्षिणो          |     |
| व धव नां स्थितानां च प्युपातिष्ठत शङ्कर   | १ ८ |



तस्तानाह नुजान् रद्देऽस्मीति शूलभृत्  
ते प्रत्यूचुरिदं वाक्यं दुःखितं प्रणमिस्थिता १९

एकपुत्रविहीनानं सर्वेषां जीवनार्थिनाम्  
पुत्रस्य नैर्जिवितेश्च जिवितं दत्तुं हसि ११

भ

एवमुक्तं स भगवान् वरिपूजान् पाणिनां  
जवत्समैर्मरयप्रदाद्वर्षशतयैः १११

तथ गौतमगृध्राभ्याम् अददत् क्षुत्नाशनम्  
रपिनकं भगवान् सर्वभूतहैरत ११२

ततः प्रणयदेशश्चैर्हर्षसमिता  
कृतकृत्यास्तु श्रुत्वा प्रतिष्ठत दाम्भो ११

अनिन्देन दीर्घेण नियेन ध्रुवेण च  
देवप्रसदाक्षिप्रफलमप्यैः ११

पश्य देवस्य सयोगवधवानां चित्तम्  
पणानां हि रुदता तमश्चुप्रमार्जनम् ११५

पश्य चाल्पेन लेनैरियवेषणे च  
प्रसदं शङ्करत् प्राप्य दुःखितारखमवन् ११६

१३६] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ८५

ते विस्मिता प्रहृत्वा त्रसञ्जी त् न  
बभूवुर्भरतश्रे प्रसदाच्छ रस्य वै ११  
ततस्ते रित राजस् त्यक् शो मघोद्धवम्  
विशु पुत्रमदाय गर हृष्टमानस ११८  
एषा बुद्धि तां चातु र्येन दर्शित ८  
धार्थि क्षसयुक्तम् इति ह स पुरा नम्  
श्रुत्वा मनु यस्सत प्रेत्य चेह च मोदते ११९

इति श्रीमहाभारते सहस्रि त्वां सति त्वां वैयासि  
शांति णि षट्शदधि ऽध्या : २६  
८ अप मर्मपर्वणि षोडशोऽध्याय. ६  
अरि न्यये १९ श्लो :]

### शदधिकशततमो अध्याय

भीमं विद्विषति । रिपुं गोदाद्वैर त्पादितवत् व्य-  
 षिं निदध् श मलि रि धो : । ह ॥  
 हाशालं नारदे तद्वणनम् २ रदेन ॥ प्रति  
 पदिभ ॥ पि युना दीयश या अप्यभ ने र  
 धि ॥ त जने । य रशक्ति थनम् ३ नारदसूचिने  
 । युना ॥ लिमेत्य रे प्रति नम् जेन  
 । स्मि ॥ दागमनात् । नै वशातनपूर्व  
 नम् ५ र गतेन वायुन ॥ त्क  
 स्वबल ज्यत् किः ६

अत्र प्युद् हर ता म् इतिह स पुरातनम्  
 स द भर श्रे शा ले प च १  
 हिम न्त स स हान स द्वन पति  
 र्षपूग भिस द्व श ख मूलपलाशवान् २  
 तत्र मत्त म ज्ञा घम ताश्चमकर्शित  
 विश्र यति मह ब हो थाऽ या मृगजातय ३  
 न म परिणाहो न च ये न पति  
 शु शारि सङ्घु पु प न् फल नपि ४

१३७] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ८

स थक णिजश्चै त पसाश्च ना स  
वसित तत्र गस्थास् रम्ये तरुसत्ते ५  
त । िपुलाशशाखा दृष्ट्व स्कन्ध स श  
अभिगम्या वीदेन नारदो भर षम ६

रदः

अहो नु दशन य त् अहो च सि मनोरम  
प्र हे त्वया नित्य तरुप्र र शाल्मले  
तथै शकुना त मृगा थ था गजा  
वस त दृष्ट मे मनोहरतर थ ८  
त शखा महाशाखा र ध विपु थ  
न भग्न न् पश्यामि म रुतेन कथ न ९

नु ते पवनस्तात प्रातिमानथ हन्  
केन रक्षते ित्य वनेऽस्मिन् प ने ध्रुवम्  
प्रव ति च नस्थानां क्षाणां च ना यपि  
पर्वतानां च शिखर य कालयति ेग न् ११  
शोषयत्ये प त ल हन् ग धवहश्शुचि  
हृद् सरित वैव स गरं थैव स १२  
सरक्षे च पवनस् सखितेन न सशय

1. ग द्

|  |    |
|--|----|
| द्विहु शाखे ऽसि पर्णवन् पु पव नपि              | ३  |
| इदं च रमणीयं ते प्रतिभं वि वनस्पते             |    |
| दि मे िहगा । रम ते मुदि त यि                   | १४ |
| ए थक् नं श्रूय ते धुर गिर                      |    |
| पस मेदने ले वाश ते हरियूथप                     | १५ |
| थे गर्जित नागस् यूथगणशेभित                     |    |
| धम त त सम सा सुख वि दति शा ल ले                | १६ |
| थै मृगजा िभिरू अ भिरुपशेभसे                    |    |
| तथ सार्थाधिव स शे भसे मेरुवद्म                 | १  |
| णैश्च तपस्सिद्धस् तापसैर श्रमैस्तथा            |    |
| त्रिविष्टपसम म ये तवायतनमेव च                  | १८ |
| ब धुत्व दथ सख्य श लले नात्र सशय                |    |
| स्मात् त्वां रक्षते नित्यं भि मस्स त्रिगो ऽनिल | १९ |
| तद्वा व पर येशू शा लले त्वमुप गत               |    |
| बाह िति सद नून सरक्षति द्रम                    | २  |
| त पश्याम्यह क्ष प त वेश्म । दृढम्              |    |
| य न युवलाङ्गन्न पृथि यमिति मे मति              | २१ |
| त पुन कारणनून श ल ले रक्ष्यसे सद               |    |
| युन सपर व रस् तेन तिष्ठस्यसशयम्                | २२ |

१३ ] न्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ८९

शाल्मलिः

मे युस्सख न् ब धुमम नारद  
चिर मे प्रीये येन येन िं रक्षतेऽनिल २३

तेजे बल भ म योरपि नारद  
कलामष्टादशा प्राणैर् न मे ेति रुत २

आगच्छ त् परुषो युर मय विष्टि भतो बल न्  
रुजन् द्रुमान् पर्वतांश्च यच्चा यत् स्थाणुजन्मम् २५

मय बहुशे भग्न प्रभञ्जन् वै प्रभ न  
त । विभ्ये दे र्षे ऋद्धात्पि स र्णिणात् २६

नारदः

शाल्मले ि परात ते दर्शन नात्र सशय  
न हि वाये र्वले न स्ति भूत तुल्यबल क्वचित् २

इन्द्रो यमो श्रवणो वरुणश्च जलेश्वर  
नैतेऽपि तुल्य मरुत किं पुनस्त्व वनस्पते २८

यद्धि किं िपि प्राणी चेष्टते श ल्मले भुवि  
सर्त्र भगव न् आयुश चेष्टाप्राणकर प्रभु २९

एष चेष्टयते स यक् णिनस्स यगायत  
अस गायतो भूयश चेष्टते विकृतं नृपु ३

स त्वमेवविधं वायु र्वसन् भृतां वरम्

|   |    |
|---|----|
| न पूजयसि पूज्य त किम यद्वद्विलावव त्          | ३१ |
| असारश्चापि दुर्बुद्धे ऽवल बहु भ षसे           |    |
| धेदिभिर चि ऽमृष वदसि शाल्मले                  | ३२ |
| मम रोषस्समुत्प स त्व येव स प्रभाषिणि          |    |
| ब्रवीम्यहमिद योस् तव दुर्भाषितं बहु           | ३३ |
| च दनै स्य दन स लैस् सरलैर्देवद रुभि           |    |
| वेतसैर्ध वनश्चै ये चा ये स रवत्तर             | ३४ |
| तै ऽपि नैव दुर्बुद्धे क्षिप्ते वायु कृत त्मभि | ३४ |
| ते हि जानन्ति ऽयोश्च बलम त्मानमेव च           |    |
| तस्म त् ते नावम यते श्वसन द्रुमसत्तमा         | ३५ |
| त तु मेहा ज नीषे व योर्बलमनुत्तमम्            | ३६ |
| ए मुक्त्वा तु र जे द्र शाल्म ल ब्रह्म ित्तम   |    |
| नारद ष ने सध शाल्मलेर्वाक्यमत्र ित्           | ३  |
| नारदः   |    |
| हिमवत्पृष्ठत कश्चिच् ल्मलि परिव रवान्         |    |
| बृह छाखे बृहन्मूलस् स त ऽ योऽवम यते           | ३८ |
| बहूनि क्षेपयुक्तानि त्व म ह चन नि स           |    |

१३७] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ९१

न युक्त नि मया वा शो तानि ८ ये प्रभो ३९

जामि ८ मह यो सर्वप्राणभृ रम्  
विशिष्ट च वरिष्ठ च सर्वश्रेष्ठेश्वर प्रभुम्

भीष्मः

एतत्तु वचन श्रुत्व नारदस्य स रण  
शाल्माल तमुपाग य क्रुद्धो चनमत्रवीत् ४१

युः

शाल्मले रदे यत्तत् ८ येक्त मद्विगर्हणम्  
अह वायु प्रभा ते दर्शये त्वत्माने वलत् २

नाह ८ मभिजानामि विदि त्माऽसि े द्रु  
पित मह प्रजा गे त्वयि विश्र त न् प्रभु ४३

तस्य श्रमणेष सदो कृत  
अभूत्तस्य प्रसदात्वा न भज्यमि द्रुधम ४४

यन्मां त्वमवजनीषे यथाऽय कृतथा  
दशय येनमत्मान यथा ि न वम यसे ५

भीष्मः

ए मुक्तस्तत २ शाल्मलि प्रहसि ४५

शाल्मलिः

प न त्व ने क्रुद्धो दर्शयात्मानमात्मना



मयि मु यतां क्रोध मे क्रुद्ध करिष्यसि ४६  
 न ते विभेमि पवन यद्यपि त्व य प्रभु ४७

भी :

इत्ये मुक्त पव श्व इत्येव ब्रुव द्वच  
 दर्शये यमि ते तेजस् तो रत्रिरुप गमत् ८

थ निश्चित्य मनस श ल्म लैर्वैरधारिणम्  
 पश् स्तदाऽऽत्म नम् असम तरिश्चन ४९

।रदे य मय प्रेक्त पवन त मृषा प्रति  
 असमर्थो ह योर् बलेन बलवान् हे स ५

म रुते बलान् नित्य यथैनं न रदोऽब्रवीत्  
 अह दुर्बलोऽ येभ्ये वृक्षेभ्ये नात्र संशय ५१

१~ तु बुद्ध्या समे नास्ति मम ि द्वन पति  
 तामह बुद्धिम स्थ य भय त्यक्ष्ये समीरण त् ५२

यदि तां बुद्धिम स्थाय चरेयु प्र णिने ने  
 रि स्यु सद क्रुद्ध त् पवन त्र सशय ५३

ते बाल न ज नन्ति तथा नैतान् स रण  
 मी रये सङ्कटो यथा ज ना यह तथा ५४

३ ] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ९

भी :

तते निश्चित्य नस शास्त्रले क्षुभित थ  
श ख धन् प्रशाखाश्च स्वयमेव यश तयत् ५५

स परित्यज्य शाखा पत्राणि सुमने च  
प्रभाते वायुमाया तक्षते न पते ५६

तत क्रद्धश्चसन् यु पातयन् वै मद्द्रुमान्  
आजगामाथ त देशम् आस्ते यत्र स शास्त्रले ५

हं पण पतित ग्रश ख  
विकीर्णपु.पं प्रसमीक्ष्य यु

उवाच वाक्य स्मयमान एव

मुदा युक्त शशास्त्रले रुणशाखम् ५८

। :

अहमये मे तां या वै शास्त्रले मृष  
अत्मन यत् कृत च्छ शाखानामपकर्षणम् ५९

हं नपु पाशाखस्तं विशीणं क्लृप व  
आत्मदुर्मित्रतेनेह मर्द्वै र्यवशगो भ ६

:

ए लुत्व वचो तयोश शास्त्रले तस्तद्

|   |    |
|---|----|
| अप्य च त् नारदे यत्तदाऽ वीत्            | ६१ |
| ए यो राजशर्दूल दु लस्सन् बलीयस          |    |
| रम जते बालस् तप्यते शा लियथ             | ६२ |
| द्विर न दुर्वले ल त्तरे                 |    |
| शोचेत र णे यथा वै श लिस्तथा             | ६३ |
| न हि र महात्म नो विवृ व ल्यप रिषु       |    |
| नश्शनैर्महार ज दर्शयति स्म ते बलम्      | ६४ |
| र न कुर्वी नरो दुर्बुद्धिबु द्विर्जा ना |    |
| बुद्धिर्बुद्धिमतो ते तूलेष्व हुत शन     | ६५ |
| हे बुद्ध्या म श्रिद् िद्यते पुरुषे नृप  |    |
| थ वलेन राजे द्र न समेऽ िति चिन्तयेत्    | ६६ |
| त् क्षमेत लाय ज ाय बधिर य च             |    |
| बल ि य राजे द्र त ष्ट यि शत्रहन्        | ६  |
| अक्षै हे यो ह राज स चैव महाद्युते       |    |
| बले सम रज र्जुनस्य मह त्मन              | ६८ |
| हत श्रै भग्ना पा ेन यशाना               |    |
| चर बलम स्थ य पा शासनिनारणे              | ६९ |

क्तास्त आपद्ध रजधम भारत  
वे रेण मह रज भूय प्र वीमि ते

इति शिमहाभारते शतसहस्रिकाय ित्या यासि  
शान्तिपर्व िंशदधिकशतत गो यः ३

८ आपद्धर्मपवणि सप्तदशाऽध्यायः  
अस्मिन्नध्याये श्लोकाः]

### अष्टात्रशदधिकशततमोऽध्यायः



धिष्ठि प्रति ल र्दनामन हेतुव धनपूर्व द्वाता  
ग णम् धा सङ्गस्य लाभादिजय पायत्त्वमुचन १  
सनपूर्व पूजाविधानम् २

युधिष्ठिर

प पस्य यदधिष्ठ नं यत पाप प्रवर्तते  
एतदिच्छाम्यं श्रोतु तो वै भरतर्षभ १

र्षभः

प पस्य यदधिष्ठान तच्छृणु व राधिप  
ए ते लोभो मह ग्राहो लोभात् प प प्रवर्तते २

अत पापमधर्मश्च तथ दु खमनुत्तमम्  
नि त्य मूलमेतद्वै येन पापकृतो जन ३

लोभे त् ोध प्रभवति लोभात् म वर्तते

|  |    |
|--|----|
| लोभ मोह माय च मानस्त भ पर सुता   | ४  |
| अक्षम ह्यापरित्य ग श्रीनाशे हि धनक्षय<br>अभिध्या प्रज्ञत चै सर्व लोभ त् प्रवर्तते  | ५  |
| अत्याग ते कश्च ि या चैव विकर्मसु<br>लविद्यामद पि रूपैश्वर्यमत् थ   | ६  |
| सवभूते विश्व सस् सर्वभूते वसक्तत<br>हरण परि त्तानां परदारा भिमर्शनम्<br>। वेगो नसो वेगो नि दावेगस्तथैव च<br>उपस्थे रयेवेगे मृत्युवेगश्च दा ण | ८  |
| ई र्यवेगश्च बलवान् मिथ्यावेगश्च दु त्यज<br>र वेग दुर्घार्यश् श्रेत्रवेगश्च दु सह   | ९  |
| स विकल्थ त्सय प प दु कर्मकरि<br>स हसान च सवषम् अकर्याणां ि य थ   | १  |
| ज ते ब ल्ये च कौम रे यैवने वाऽथ मानव<br>न त्यजत्य त्मकर्मै य जायैत ज यत  | ११ |
| ये न पूरयितु शक्यो लोभ प्रत्या थ न<br>नित्य गम्भार ेय भिरू अ पगा भिरिवेद धि  | १२ |
| न ेयति गो लोभै क मैश्वैव न तृ यति<br>ये न दे न ग धर्वैर् न रैर्न महोरगै  | १३ |

१३८] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ९

- यते नृप र्नेन वैर्भूतगणै थ  
लोभ सह मोहेन विजेत ये जित त्मना १४
- द भो द्रोहश्च मोहश्च ने द पै यमत्सरे  
भ ल्येतानि न्तेय लु ध नामकृतात्मनाम् १५
- महान्त्यथ शा णि धारयतो बहुश्रुता  
भेत्तार सशयानां च क्लिश्य तीह ल्पबुद्धय १६
- द्वेषक्रोधप्रसक्ता शिप्राचारवहिष्कृता  
अ त क्षुर ङ्घ्रि वुर कूपाश्छन्ना तृणैरिव १७
- र्मवै सि ा क्षुद्रा मुष्णन्ति ध्वजिने जगत्  
कुर्वते च वहन् म गास् तान् हेतुबलमाश्रिता १८
- सन्मार्गान् विप्रलुम्पति लोभज्ञ नेवधिष्ठिता १८
- ध स्य ह्वियम ण लोभःसैर्दुर त्मभि  
या या ि क्रियते स ततस्स ऽपि पद्यते १९
- दर्प क्रोधो मद हर्षश्शोकोऽविमानि ा  
एतदेव हे ा तेय दृश्य ते लु धबुद्धिपु २
- एत न रिष्टान् बुध्यस्व नित्य लोभसमवितान्  
शिष्टांश्च परिपृच्छेथ यान् वक्ष्य मि शुचि त न् २१

1. र ना

२. प न्य त र थ

|  |    |
|--|----|
| ये त्ति य नास्ति परलोकभय न च<br>मेषेषु च सङ्गे ऽपि न प्रियेऽपि प्रियेषु च                | २२ |
| शिष्टाचार प्रिये येषु दम्ने येषु प्रतिष्ठित<br>सुख दुःख सम येषा सत्य येषां पर गणम्       | २३ |
| दा रो न प्रदो रो दय व तस्तथैव च<br>पितृदेव तिथेय ध्व नित्योद्युक्तास्तथैव च              | २४ |
| सर्वोप रिणो धार सः सर्वधर्मनुप ल ।<br>सर्वभूतहितैव सर्वदे भ रत                           | २५ |
| न ते च लयितु शक्य धर्म याह रारिण<br>न तेषां भिद्यते तं यत् पुरा सायुभि कृतम्             | २६ |
| तत्र साना अचपल न रौद्रास्सत्पथे स्थिता<br>ते से य स्सायुभिर्नित्यम् असाधूंश्च विवर्जयेत् | २७ |
| कामक्रोध यपेता ये निर्ममा निरहङ्कत<br>सुवृत्त रिस्थरमर्याद सः तानुपास्व च पृच्छ च        | २८ |
| न गथ यशोथ वा धर्मस्तोषां युधिष्ठिर<br>अ शक्य र्यमित्येव शरीरस्य क्रिय यथा                | २९ |
| न भय ेधच पत्य न शोकस्तेषु विद्यते<br>न धर्मऽजिनश्चैव न गु किं र श्रिता                   | ३  |
| ये लोभस्तथाऽमोहो ये च सत्य र्जवे रत  |    |

८] शान्तिपर्वणि आपद्धर्ष १९

तेषु कौन्तेय रम्येथ येष्वतन्द्रा नुत्तमा ३१

ये न ह्ययन्ति लाभे नाभे यथैतच्च

निर्ममार्हिरासु सस्था समदर्शिनः ३२

लाभलाभे दुःखे च ततः

प्रियाप्रिये मरणजीतच

समनिषेपं स्थिरक्रमाणां

बुद्ध्वन्तं सत्यपदे स्थितानम् ३३

सुखप्रियंश्चापि महाप्रतपान्

युक्तेऽप्रतप्तश्च समर्थयेथा

दत्तैर्गुणवतो भवति

भाशुभाः क्रमलपायथै ३४

इति श्रीमहाभारते सहस्रिकायाः त्रिंशत्तिस्र्यध्यायः

शान्तिपर्वणि त्रिंशदधिकोऽध्यायः ३८

आपद्धर्षणि दशोऽध्यायः ८

[ त्रिंशत्तिस्र्यध्यायः ३ प्रोक्तः ]



एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय



भीमे युधिष्ठिरस्य ज्ञानलक्षणात्प्रतिपादनम्

धिष्ठिरः

अनर्थान् मघिष्ठानम् उक्ते लोभं पित मह  
अं नमपि रैरयं श्रोतुमिच्छामि तत्र १

पुंसः

करेति पपमं न मनो वेत्ति च क्षमम्  
द्विषते सायुवृत्ताश्च स लोकेत्यैति यतम् २

अज्ञानान्निरयं याति तथाऽङ्गनेन दुर्गतिम्  
अज्ञानात् क्लेशं वेत्ति तथाऽऽपत्सु निमज्जति ३

युधिष्ठिरः

प्रजानामप्रवृत्तिं च तवृद्धिक्षयोदयान्  
मूलस्थानं गच्छेत् कालकारणहेतुमे च ४

श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन यथावदिह पार्थ ४

भीमः

अज्ञानप्रभवहात् यद्दुःखमुपलभते ५

रगो द्वेषश्च मेहो हर्षश्चोकोऽतिमानि

कामो धर्मो दर्पो तद्रूपं लोभमेव च ६

|   |    |
|---|----|
| इच द्वेष था त प पर ह्यपतापि ।                 |    |
| अज्ञ नमेत दिष्ट पापानां च य क्रिया            |    |
| एतस्य य प्रवृत्त च वृद्ध्याद न् यांश्च पश्यते |    |
| िस्तरेण मह रज शृणु त विशां पते                | ८  |
| भ वेतै समफलै समदेषा च भारत                    |    |
| अज्ञान चापि लोभश्च ज्येव जान ह्य १पार्थिव     | ९  |
| लोभप्रभवम न वृद्धेभूय प्रवर्तते               |    |
| स्य ने न क्षये क्षाणम् उपैति विविधां गतिम्    | १  |
| मूल लोभोऽस्य हेतुश्च क रण लोभ एव च            |    |
| तस्या नस्य लोभो हि कामात्मा गतिरेव च          | ११ |
| सर्व देष था लोभ त् तस्मा लोभ विवर्जयेत्       | ११ |
| जनके युवन श्वश्च पदश्च प्रसेनजित्             |    |
| लोभक्षयादिव प्रा ास् तथैवाये जनाधिपा          | १२ |
| छिन्ने छिे तथा लोभे दिव प्राप्ता जनाधिप       | १३ |
| त्यक्ष तु नरश्रेष्ठ त्यजेल्लोभमिहात्मन        |    |
| त्यक्त्वा लोभ सुखी लोके प्रेत्य चेह च मोदते   | ४  |

इति भरते सहस्रि त्वा । तायं या क्वां

वणि ए जेनचत्व िशो भ्या : ३९

८ आपद्ध व ि एकोन िश ध्यायः ९

[ ि ि ि ]

## चत्वारशदधिकशततमोऽध्यायः

दम सनम्

विशिः

- स्वाध्याय तय ाणस्य विशे त  
धमकामस्य धर्मत्तन् क नु श्रेय इहे ज्यते १
- बहुध दर्शने लोके श्रेयो यदिह मयसे  
आँ ो परे चै त ब्रूहि पित मह २
- मह नय धर्मपथो बहुश खश्च भारत  
विस्विदे हे धर्माणाम् अनुष्ठेयतम म म् ३
- धर्मस्य ेतो र जन् बहुशाखस्य तत्त्व  
यन्मूल परम तात त् व ब्रू तद्रित ४
- तत्ते ह स प्र क्ष्यामि येन श्रेय प्रपत् से  
पत् स्मृतमिव प्राज्ञे येन तृो भवि यसि ५
- धमस्य विधयो नैके ते ते प्रेक्त महर्षिभि  
स्व स्व वि ानमाश्रित्य द ेष पर यणम् ६
- द नेश्रेय प्रहुर् वृद्धान िते दशनम्  
ह्यण विशेषेण दमो र्म स तन

१४ ] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ८ ३

नादान्तस्य क्रिय सिद्धि थि दुपलभ्यते  
दमे दान तथ य । अधात चापि वर्तते ८

दमे जो वर्धयति पवित्र च दम परम्  
विपद्मा तेजसा युक्त पुरुषो विन्दते महत् ९

मेन सदृश धर्म न लोकेषु शुश्रुम  
मे हि परमो धर्म प्रशस्तस्सर्क णम् १

प्रेत्य च पि मनुष्ये द्र परम ि दते सुखम्  
दमे हि सदा युक्तो मह त धर्ममश्रुते ११

सुख तत प्रस्वपिति सुख च तिबुध्यते  
सुख पश्यति लोकांश्च मनश्चास्य प्रसादति १२

द त पुरुष क्लेशम् अभाक्षण प्रतिपद्यते  
अनथश्च बहूनन्यन् प्रसृजत्य त्मदोषजान् १३

अश्रमेषु चतुर्ध्वार्हुर धर्ममेवेत्तम दमम्  
दमलिङ्गानि वक्ष्यामि येषां समुदये दम १४

क्षम धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम्  
इन्द्रियाणां जयो दाक्ष्य मर्दव रचापलम् १५

अकार्प यमसर भस् स तोष प्रियव दित  
अवि हस ऽनसूया च येषां समुदये दम १६

1. फलम् २. चतुर्धा

- गुरुपूजा च गौर य सद भूते पैशुनम्  
जनव दमृष वादस्तुतिनि दाि वर्जनम् . १
- । ेध च लोभ च दप द भ विकथनम्  
नमाष् मसूयां च नैतान् दा े निषे ते १८
- निदते क्रमत्मा ल्पेच्छ्वा यलेलु  
समुद्र ल्प स नरे न दाचि पूर्यते १९
- ह ८ ये मयि त्व च माि ते ते चप्यल्म  
पूर्वस बधि सयोग नैतद्दा े निषेवते २
- सर्वा न य स्तथाऽर य याश्च लोके प्रवृत्त  
नेन्दं चै प्रशस च ये न सेत मुच्यते २१
- मैत्रोऽथ शीलस प स् सुसहायपरश्च य  
मुक्तश्च विविधै सङ्गैस् तस्य प्रेत्य मत् फलम् २२
- सद्रूत्तशरीलस पन्न प्रस त्माऽऽत्मविद्वध  
प्राप्यैव लोके सत्कार सुगतिं प्रतिपद्यते २३
- र्म यच्छुभमेवेह सद्द्विराचरित च यत्  
दे ज्ञ नयुक्तस्य मुनेर्वर्त्म न हीयते २४
- निष्क्र य वनम स्थाय ज्ञ नयुक्ते जितेि य  
क ल काङ्क्ष चरेव ह्यभूयाय कल्पते २५

१ ] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ८५

|   |    |
|---|----|
| भय भूतेभ्यो भूताना भय म्<br>देह द्विमुक्त भय नाि न                            | २६ |
| अ चिनोति णि च सम्प्रचिनोति<br>भूतेषु त्रायणगत चरेत्                           | २  |
| श न नामिव शो मत्स्यानामि चोद<br>यथ गतिन दृश्ये तथा न सशय                      | २८ |
| गृह नुत्सृज यो राजन् मोक्षमे भि द्यते<br>गोकास्तेजोमय स्य रूप ते श श्वतीस्स । | २९ |
| सन्यस्य िर्मणि स यस्य विपुल तप<br>य ििधा िद्य स स यस्य चै हि                  | ३  |
| मे चिरना स त्माऽऽत्मविच्छुचि<br>प्रप्यैव लोके सत् । र ग समधिगच्छति            | ३१ |
| पै ह स्थ न ब्रह्मर शिसमुद्भवम्<br>गुहाया निश्चित नित्य तद्दमेनाधिग यते        | ३२ |
| र स्य बुद्ध भूत नुरोधिन<br>न तिभयमस्ती परलो भय त                              | ३३ |
| एक एव दे दोषो द्विियो नोपप<br>देनं द संयुक्तम् अशक्त मयते जन                  | ३४ |

|       |                           |                       |    |
|-------|---------------------------|-----------------------|----|
| ए     | तु मह प्र                 | देषस्य त् सुमहान् गुण |    |
| क्ष   | ल लोके दुर्लभ हे          | हिष्णुता              | ३५ |
| दा    | त किमर येन तथ ऽद          | स्य भारत              |    |
| यत्रै | ने हान् स् तदर य स चाश्रम |                       | ३६ |


|              |              |           |   |
|--------------|--------------|-----------|---|
| एतद्भि       | मस्य चन श्रत | रज युधि र |   |
| <sup>1</sup> | मृतेने तृ    | लृष्ट प   | ३ |

|     |                 |          |   |
|-----|-----------------|----------|---|
| पुन | परिपप्रच्च भि   | धृता रम् |   |
| तप  | प्रति स चोवाच त | सव रू ह  | ८ |

इति श्री र्ने यां ि  
 नि ि ि शि शदि िो ज्य  
 मैपवणि ि शो ज्यायः २  
 [ रि ज्याये २ प्रो : ]

१ १] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व

कचत्वारशदधिकशततमो ध्याय



भी िनिरूपणम्

- सर्मे तपोमूल मुनय स प्रचक्षते  
न नुतप्रतप मूढ ि फलमुपेयिवान् १
- प्रजा तिरिद वै पसै सृजन् प्रभु  
तथै दे ऋषयस् प । पिदेरे २
- पसै त्रुपूयण फलमूल निल शन  
त्रं िस्तपसा सिद्धा पश्येत् सुसम हित ३.
- प्रौषधान्यगद द ि ते ि विद्या  
पसै हे सिद्धान्ते तपोमूल च स धनम् ४
- यु र प दुरान न्य दुर धर्ष दुरुत्सहम्  
त् सर्व पस क तपे हि दुरति म् ५
- सुरापो सम्म दयी भ्रूणहा गुरुतल्पग  
तपसैव तेन नर प पत् प्रमुच्यते ६
- तप गो बहुरूपस्य तै द्वैरै प्र त्त  
निवृत्त्य तैम नस्य तपे नशनात् परम्



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| हिं त्य चन द नमिद्वियनेह            |    |
| एतेभ्यो हि महाराज तपे तनशन त् परम्  | ८  |
| न दुष्करतर दानान्नातिद रम श्रम      |    |
| त्रैभिः पर नास्ति स य स र तप        | ९  |
| इति णाह रक्षित ि पिपितृदे त         |    |
| त दथ च धर्मे च पो न नश त् परम्      | १  |
| ऋषय पितरे दे मानुष प पक्षि ।        |    |
| नि चान्यानि भूत नि स्थ र णि चराणि च | ११ |
| प पर यणा वै सिध्यति तप च ते         |    |
| इत्ये तपस दे महत्त्व च यवु न्       | १२ |
| ए ि भ ग नि फलानि तपस सदा            |    |
| तपस क ते त्पु दे त्वमिति नि य       | १३ |

इ भारते श स्त्रिकाया त्रि ण्या त्रि  
शाः पर्वणि एकचत रिं दधि श णोऽभ्यः १

८ ण्यद् ए वि णो भ्याः २

[ स्त्रि ण्या ३ १ : ]

## द्वचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय

० ती मेण नम्

युधिष्ठिरः

सत्यं प्रश्नं विप्रर्षिपितृदे त  
सत्यमिच्छा यह ज्ञातु तन्मे ब्रूहि पि मह १

सत्यं लक्षणं राजन् कथं तदं ते  
सत्यं च पि भवेत् किं त्वं चैव दुष्कर्म २

भी :

चातुर्वर्ण्यस्य धर्माः संसारे न प्रश्नं ते  
धर्मसंघं त्यक्तैर्गणैर्न रत

सत्यं सत्सु दर्मसु सत्यं न न  
सत्यं मस्ये त्यहि परमं गति

सत्यं मे क्षतपोयोगसु त्य ब्रह्मसना नम्  
सत्यं य परं क्तसु सत्ये धम प्रतिष्ठितम् ५

रूपं यदि सत्यं यथ दनुर्पृथुं श  
लक्षणं च प्रक्ष्याति सत्यस्ये परं म् ६

प्रप्यते च था त्य तं ते तं महसि ६

|                          |                          |    |
|--------------------------|--------------------------|----|
| सत्य त्रयोद              | सर्वलोकेषु भर            |    |
| सत्य च स                 | चैव द श्रैव शय           |    |
| अ सय क्ष च               | ी ति क्षा नसूयत          |    |
| गे नमथ र्ये              | धृ सत र                  | ८  |
| अहिंस चै                 | रजे सत्य र               | १  |
| त्य ना । यय              | ित्यम् विकारि तथै च      |    |
| स रुद्ध च योगे           | तद प्यते                 | १  |
| त तथाऽनिष्टे             | रिपौ च समत या            |    |
| इ षक्षये प्रप्य का       | क्रोधक्षे च स            | ११ |
| द ह नित्य धय गा          | भीर्यमेव च               |    |
| अश दमन                   | नेनै । यते               | २  |
| अमात् य बु               | प्राहुर दाने मे च सयम    |    |
| अ ते लिय च सत्येन        | रि भेत्                  | १३ |
| अक्ष य क्षम य            | प्रियाणि प्रियणि च       |    |
| क्षमते धुस्              | ति स म्                  | १  |
| ल्याण रुते नित्य ह्रीमन् | न श्राम्ये चित्          |    |
| शान् द्यना नित्यं ह्री   | ध दवाप्यते               | १५ |
| १ धर्मर्थहे              | क्षमते तितिक्ष धर्म उक्त |    |

|                       |                             |     |
|-----------------------|-----------------------------|-----|
| १ २]                  | शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व   | ८११ |
| लोकस ह्णाय वै         | भ्यते                       | ६   |
| अनसूया                | गाम्भीय द नेनैतद ाप्यते     | १६  |
| क्तलेह                | यस्त्यागे विषयाणां तथैव च   |     |
| रागद्वेषप्रहीणस्य     | त्य गो भ ति ना यथ           | १   |
| न्यान च शाठ्य         | त्युक्त निनैतद यते          | १८  |
| अ र्यता नाम भूतानां य | रोति प्रयत्नत               |     |
| शुभ कर्म निर कारो     | तिरागत मे च                 | १९  |
| धृतिर्नाम सुखे दु खे  | या न ोि ि यम्               |     |
| भजेत                  | प्राज्ञो य इ छेद्भूतिमात्मन | २   |
| वथा मिणा भा य थ       | सत्यपरेण च                  |     |
| तहर्षभयक्रोधे         | धृति मा ेति प ि त           | २१  |
| अोहस्सर्वभूतेषु       | मण मन ा गिर                 |     |
| नु ह द न च            | धम सन तन                    | २२  |
| सदाऽहसता भा य तथा     | सत्यपरेण च                  |     |
| वीतहर्षभयक्रोधस्      | तदव ेति प ि डत              | २३  |
| एते त्रयोदशाकारा      | थक् त्यैकलक्षण              |     |
| भज ते सत्यमेवेह       | बृहय ि च भ रत               | २४  |
| न शक्ये गुण           | हि कुं सत्यस्य प र्थि       |     |

अ सत्य प्रशस्तिं सपितृदेवता २५

स्ति सत्यात् परो म नानृतत् पत परम्  
धृतिर्हि सत्य धर्मस्य तस्मात् सत्य लोपयेत् २६

पैते सत्य इ न वै तथ य न् सदक्षिणन्  
होत्रे द ये च न्ये धर्मि या २

अश्वमेध ह च सत्य च तुलया धृतम्  
अश्वमेधसह द्वि सत्ये शि यते २८

ति ती र स स्त्रि द्वि ा सि  
नि वैणि द्विच रिशदो षो ६ : २

ति द्वा शोऽभ्य : २२

[ सिन्नभ्याये २८ श्लोकाः ]

चित्त्वारिं दश शततमोऽऽ ।



ति धिष्ठि ति गोभद्र रूपणम् षि  
क्षणादि नम् २

युधिष्ठिरः

प्र षिष्ठि तामे ऽ भरतषभ

शो गोहृत्सि च पर सुत्व थ मद १

द्रे हे त्सर्य ष्या च त्ससू प थ

1. स्थिति 2. शो गो

१३] शान्तिपर्वणि आपद्धमपर्व ८१३

एतत् सर्वं मह प्रा याथ तथ्येन मे द २

भीष्मः

उप सते ह राज स त् पुरुषांस्ति ह  
त्रयोदशैतेऽ<sup>१</sup> लाश शत्र णिना स्मृत ३

एते प्रम रुषम् मत्तास्तुदन्ति च  
वृक २ विलुम्पित दृष्ट्वैव पुरुषेतरान् ४

एभ्य प्रवर्तते दु खम् एभ्य प प प्रवतते  
इति मर्यो विज नाय त् सतत भरतर्षभ ५

ए मुद ान क्षय च पुरुषेत्तम  
ह त ते तयिष्यामि क्षय चोत्पत्तिम दित ६

यथ त्व क्षितिपे तन्मे निगद शृणु  
लोभ त् ेध प्रम ति परदोषैरुद र्यते ६

क्षमया तिष्ठते राजन् क्षमया िनिवर्तते  
ल्पाज्जायते । स् से यमानो ि िते ८

द्यदर्शनाद्व्ये ि त्व । नश्यति  
प्रीतेशो प्रभ ति ि ेगात्तस्य देहिन ८

यदा निरर्थक ेत्ति तदा <sup>१</sup>सद्य प्रणश्यति ९  
नप्रभ े मोह पाप भ्य सात् वर्तते

1. 2. - ।

|  |    |
|--|----|
| विरुद्धानीह शा णि पश्यन्तीहाल्पबुद्धय    | १  |
| त्स जायते स्वात् स वि                    |    |
| यद् प्राज्ञेषु रमते तद् स यक् णश्यति     | ११ |
| पर । धलेभद् अभ्यस र्त्ते                 |    |
| दयय स भूते निवदत् स निवर्तते             | २  |
| सत्यत्य गत्त मात्सर्यम् अहि नि च मे शृणु |    |
| एतत्त क्षायते धून मुपसेवनत्              | १३ |
| ला नात् थैश्वर्यद् द्रोहो भ ति देहिनाम्  |    |
| एतैरे सदा तैरु मद् सद्य प्रणश ति         | १४ |
| ईर्ष्या णामत् भ ति स र्भ भार             |    |
| इतरेषां मर्त्यनं नात् प्राज्ञस्य नश्यति  | १५ |
| विभ्रम वै व णां वै क्रियैर ज्ञतै         |    |
| त्स सञ्ज ते रज पेक्षाभि प्रशान्यति       | १६ |
| प्रतिकर्तुमशक्य य लस्य य प रिणे          |    |
| असूय जायते त । क रुण्याद्विनि र्त्ते     | १  |
| कृपणान् सततं तत सञ्जायते प               |    |
| ध र्निष्ठां यद् ेत्ति दा श यति स प       | १८ |
| एता ये जितान्य हु श तेन त्रयेदश          | १९ |

१ ] न्तिपर्वे आपद्धर्मपर्वे ८१५.

एते हि त्तराष्ट्राण स दे गोदश  
या त्यात्मना नि विजि जेष्यत च ते २

युधिष्ठिरः

नृशस्य विज नामि दर्शनेन िं दा  
नृश न् न वि नामि षे षा च भारत २१

कण्टकान् कूप च वर्जयन्ति नर  
थ नृ स ण वर्जयन्ति र नरम् २२

नृशसो द यक्त े ल्य चेह च भर  
त् ू हे र य स्य धमनि यम् २३  
भ :

हाऽस्यान्तर्ग चै दि र्था च णा  
अ ष्ट श्यते चै बन्धित धे स च २४

दत्त नु र्ति ष क्षुद्रे नैकृत्तिकश् ठ  
अस भोगी च मानी च तथ ज्ञी िकत्थन २५

सर्वतिश ि पुरु बालिश पण थ  
र्गप्रश ि सततम् अश्र द्वेषस री २६

हस ि र सततम् अ शेषगुणागुण  
ब ले न च लु धोऽत्यथ नृशसकृत् २७



|   |    |
|---|----|
| ध शीलं गुणोपै प प इत्यवगच्छि            |    |
| ८ शालोपमने न िश्वसिति कस्यचित्          | २८ |
| परेषां यत्र दो ात् द्र स प्रकाशयेत्     |    |
| मा िपे दोषेषु वृत् र्थ पद्य तयेत्       | २९ |
| तथेपकारिण चै म यते विति परम्            |    |
| दत्तं िपि च धन काले स प युपकारिणे       | ३  |
| भक्ष्य पेयमथे ले यदन् त् स धु भोजनम्    |    |
| ेक्षमाणे येऽर्भय शस इति िदु             | ३१ |
| त्र ह्यणेः दय ि सुद्विस्तहाते           |    |
| स प्रेत्य लभते स्वर्गम् इह चात्यन् मश्र | ३२ |
| एव ि रतश्रेष्ठ नृशंसा परि र्तित         |    |
| द विवर्जन ि पुरुणेण बुभू                | ३३ |

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकाया संहितायां सिक्व्यां

पर्वणि त्रिंशद िः ३

८ प ि िशोऽध्यायः २३

[ रि ि ३३ प्रोकाः ]

## चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमो ध्याय



भीष्मण धिष्ठिरं ति यज्ञाद्यथ म्पादनीयद्रव्यविचेचनम्  
पापविशेषाणां प्रायश्चित्तविशेषकं नम् २

- तर्थे यक्ष्यमणश्च सर्वेदानं ग य  
चार्यपितृभायथ स्वाध्या र्थमथापि १
- एते १ धवो दृष्टा ण र्मभिक्षव  
अस्वेभ्यो देयेतेभ्यो द ेद्य च भारत २
- अ यत्र दक्षि ण्याश्च देयं भरतसत्तम  
अन्येभ्योऽपि बहिर्वेदे न कृता विधीयते ३
- स र णि रजेन्द्र यथाह तिप दयेत्  
ह्यणायैव यज्ञाश्च सहान्न सहदक्षिणा ४
- यस्य त्रै षिकं भक्त पर्यप्त भृत्यवृत्तये  
अधि चापि िद्ये स सोम पातुमर्हति ५
- य ेत् प्रतिबद्धस्य द् अशेनैकेन यज्वन  
ा ण िशेषेण धार्मि सति राजनि ६
- यो वैश्यस्त्याद्रुहुपशुर ह नक्रतुरसोमप

|                                    |                        |    |
|------------------------------------|------------------------|----|
| कुडुम् त्त                         | य थ पर्थि हरेत्        | ७  |
| हरेद्                              | ित् त्म शूद्रस्य ेद नि |    |
| हे श्मनि शूद्र                     | कश्चि रि परिग्रह       | ८  |
| गो नादित् ग्रिद तगुरु अ            | च सह गु                |    |
| योरपि दुम्ब भ्याम् अ हरेदचि च र न् |                        | ९  |
| अदात्भ्यो हरेत्                    | ल ख्य नृपति सद         |    |
| थ चरो                              | नृपतेस्स्याद ल         | १  |
| थ मे भक्ते भक्त नि नश्च            |                        |    |
| अश्व नि भागेन                      | य ह नकर्मण             | ११ |
| त् क्षेत्रादथ गर द् य              | S युपप ते              |    |
| अ ख्य य तस्यैतत् पुर               | पृष्ठतो पि             | १२ |
| न सै धारयेद्दण राज                 | मैण ध वित्             | १२ |
| क्षत्रिय व श्य द्                  | ण श ते क्षु            |    |
| श्रतशी ले समाज्ञ य वृत्ति          | प्र ल्पयेत्            | १३ |
| अथन रिरक्षे पिता                   | त्रमि रैरसम्           | १४ |
| इ श्व नर नित्य निर्वपेद्भ पर्यये   |                        |    |
| अि ल्प र म र्मप लै                 | ल                      | १५ |

१४४] शान्तिपर्वणि द्वर्मपर्व ८ ९

|  |    |
|--|----|
| विश्वै दे यैश्च ाह्णै महर्षिभि           |    |
| अ पत्सु मरणाद्भी र् लि प्रतिनिधि त       | १६ |
| मु प्रथम ल्पस्य योऽनुकल्पे तैते          |    |
| स ना ते फल प्रेत्य चेह च दुर्मति         | १  |
| न ाह्णो वेदर्य किञ्चिद् राजि धर्मात्     |    |
| विद्यो देना द्यात् वीय वीर्य रम्         | १८ |
| तस्म द्र ज द तेजो दुस्सह ब्रह्मवादिन म्  | १८ |
| म श िध च ब्र णो दे उ यते                 |    |
| ति न् ना शल ब्रूय ष्कां गिरमीरयेत्       | १९ |
| क्षत्रि वे वाहु ियण रेदापदमात्मन         |    |
| धनेन श्यश्रु तु जपहोमै य                 | २  |
| कन्या न यु र् नाम त्रो न ब लिश           |    |
| परिष्टे ऽग्निहेत्रस्य भे कृत था          | २१ |
| नरके निपत ल्ये जु ान सवनस्य तत्          |    |
| प्राज पत्यमदन् च अग्न्याधेय दक्षिणाम्    | २२ |
| न हे णि रिति प्रे यते मैदर्शिभि          | २३ |
| पु यान्यन्यानि कु र्ति श्रद्ध जिते प्रिय |    |
| अ दक्षिणैर्यै र् न यजेत थ न              | २४ |

ज पशूः स्वर्ग च ह्यि य ० दक्षिण  
इति याणि यश कर्तिम् आयु निकृन्तति २५

उदक्यय ऽऽसते ये च द्वि । केचिद् य  
कुल च श्रे ० येषां सर्वे ते शूद्र र्मिण २६

उदपाने दके ऋ मे णो वृषलीपि  
षित द्वादश स शूद्र मँ गच्छति २

नाया शयने विभ्र १ ० घन् वृद्धि च वै द्विज  
अ ह्यण मन्य नसू तृणेष्वासीत ष्ट २८

यथ स ६ ते राजञ् शृणु च त्र चे म २८

दे र त्रेण करोति प प

ण वर्ण ० ह्यणस्ते म नः

स्थानासन भ्यां ० हरन् ता स

त्रिभिर्वर्षैश्शमयेद् त्मप पम् २९

न नर्मयुक्तमनृत हिनस्ति

न ० षु राज विव हक ले

ाणायये सर्वध पह रे

नृ याहुरप णि

श्रद् नश्शुभा विद्य ० न दपि समाचरेत् ३१

१ ४] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ८२

सुवर्णं पि चामेध्याद् अ ददीतेति ध रणा ३१

रि दु लाञ्च पि विषादप्यमृत पिबेत्  
अदुष्टनि रि ये र म् आप इत्ये धर्म ३२

गो णहित थ च वर्णानां रेषु च  
वैश्यो गृह्णीत श णि परित्र णाय च त्मन ३३

र पो ब्रह्महा चव गुरुतरूपगत था  
अचिरेण महार ज पतित वै भव त्युत ३४

सुवर्णहरण य विप्राणां चेति पातकम्  
रि हारो मद्यप न चाप्यग य गमने तथ ३५

प तितै स प्रयोगश्च ब्र ह्मणो ये नित था  
अनिर्देश्यानि म यते प्र णा त र्नी ते ध रणा ३६

सवत् रेण प ति पतितेन स चरन्  
य जन ध्य पन र्ना तु यानासन शनात् ३

एतानि च तोऽ य नि निर्देश्यानीति धारण  
निर्देश्येन विधिना कालेना यसनी भवेत् ३८

नुत्तीर्य न हेत य प्रेतकर्म युपाश्रिते  
त्रि प्येषु पूर्वेषु न कुर्वीत विच रणाम् ३९

अम त्यन् व गुरुन् वाऽपि जह्याद्धर्मेण ध र्मिक

- प्र ि अन्यकुर्वाण नैते ण्ति विदम्  
 अध री र्भेण तप हन्ि ि ल्वषम्  
 ु न् स्तेन इ ि स्तेनं तावत् प्राप्नोति किल्बिषम् १  
 अस्तेन ेन इत्युक्त्वा द्विगुण प पमश्रते  
 त्रिभाग हत्याया न्यां प्रा े ि दूि २  
 तु दू यि तस्य श् शेष प्रा ेति किल्बिषम् ३  
 ब्राह्मणायापगुर्येत स्पृष्टे गुरुतर भेत्  
 िणां हि शत प प प्रतिष्ठा नाधिगच्छति ४  
 स चै णा निप त्य नरके सेत्  
 तस्म वापगुर्याद्धि नैव ज तु निपा येत् ५  
 शोणित या त पासून् सङ्गहाति द्विजसत्तमात्  
 िस्स म राजन् नरके परि िते ६  
 भ्रूणह ऽऽहवमध्ये ध ते पाति  
 आत्मान जुहुयाद् े भिद्वे तेन ध्यति ४  
 सुर पो ारुणीमु णं पीत् ा पापात् प्रमुच्ये  
 त स काये निर्द धे मृत्युन ेय शुध ते ८  
 लो ि लभते विप्रो नान्यथ भे हि स ४८

गुरु ल्पमधि य दुर त्मा पापचेतन

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| १ ] | शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व              | ८२३ |
|     | शिला बलन्तीमा मृत्युना शुद्धति         | ४९  |
|     | अथ शिश्र षण दायाञ्जलिना यम्            |     |
|     | नैर्ऋतीं दि मास्थाय निपतेत् स त्वजि    | ५   |
|     | । थऽपि प्राणान् न्यजंस्तेन न्यति       | ५   |
|     | अश्वेधेन ऽपी गोसनाथ न                  |     |
|     | रुत्तोमेन सम्यग् इह प्रेत्य च पूयते    | ५२  |
|     | थै दशसमा पे र्मम चरेत्                 |     |
|     | ए चरेद्भैक्ष म् देहाहरेज्जने           | ५   |
|     | एव च तपस क्तो ह्यह स नी भवेत्          |     |
|     | ए गर्भमिज्ञ म् आत्रेयीं वा निप येत्    | ५   |
|     | द्विगु हत्या वै आया हिंसतो भवेत्       |     |
|     | रपो निय हारो चार पचर                   | ५५  |
|     | ऊर्ध्व त्रिभ्योऽथ षभ्यो यजेताऽऽ परम्   |     |
|     | भैकसह ग दत् द्विमा त्                  | ५६  |
|     | वैश्य हत् । तु वष द्वे ऋषभै शत गा      |     |
|     | शूद्र हत्वाऽ दमैकम् भैकादशाश्च गा      | ५   |
|     | श्वमार्जरखरान् हत्व शूद्रहत्या त चरेत् | ५   |
|     | म डुकच षन लन् । ल्खान् । मूषिकान्      |     |



|  |    |
|--|----|
| उ पशु धे दोषो राजन् प्राणिनिपातनात्                | ५८ |
| अ स्थिकेषु गेमूः प्रणमेक प्रचक्षते                 | ५९ |
| यश्चित्ता यथान्य नि प्रवक्ष्य यनुपूर्वश            | ५९ |
| ल्पे चाप्यन्नचैय च थक् सवत्सर चरेत्                |    |
| त्राणि श्रोत्रियम र्याया परदारे तु द्वे स्मृते     | ६  |
| काले चतुथ भुञ्जाने व्र चारी ती भवेत्               |    |
| ान सनाभ्यां विहरेत् त्रिर ऽभ्युपय प                | ६१ |
| ए मेव चरन् रजस् त त् प पात् प्रमुच्यते             | ६२ |
| त्यजत्यकरण यच्च पितर म तर च ह                      |    |
| पतिस् त् स रै य यथा धर्मेषु निश्चय                 | ६३ |
| ग्रासाच्च नया च शयन ासन तथ                         |    |
| ब्रह्मच रा द्विजेभ्य दत्त्वा प पत् प्रमुच्यते      | ६४ |
| भार्यायां यभिचारि यां निरुद्ध यं विशेषत            |    |
| यत् स परद रेषु तदेनां च रयेद्व्रतम्                | ६५ |
| श्रेयांस शयने हित् ा प पीयांस समृच्च ति            |    |
| श्वि र्दयेद्राजा <sup>१</sup> सुस्थाने बहुसंस्थिते | ६६ |
| पुम स बन्धयेत् प शैश् शयने तप्त आयसे               |    |
| अस्ये दद्यात् स द ह्मणि तत्र द्देत् स प पक्रत्     | ६  |

|   |    |
|---|----|
| एष द ो मह राज णां भर्तृ यतिक्रमे            |    |
| सरोऽभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणे भवेत्       | ६८ |
| तस्य त्रीणि च षाणि चत्वारि ह्येति           |    |
| मार प वर्ष णि चरेद्भक्ष मुनिव्र             | ६९ |
| परि ति परात्त य चैव परिविद्यते              |    |
| पाणिग्राहश्च धर्मेण व ते पतिता य            |    |
| चरेयु स एवैते वारहा यद्रत चरेत्             |    |
| च द्र यण चरे म स कृच्छ्र वा प पशुद्वये      | १  |
| परिवेत्त प्रयच्छेत परिविक्त य तां षाम्      |    |
| येष्टेन त्वभ्यनुज्ञ तो य ाय न् प्रत्यन तरम् | २  |
| एतसो मोक्षमाप्नोति च स चै धमत               | २  |
| अमानुष पु गोवर्जम् अनादि न दु यति           |    |
| अधिष्ठातार म तरं पशूनां पुरुष विदु          | ३  |
| परिघाये ध्वंवाल च पात्रमादाय मृन्मयम्       |    |
| चरेत् सप्तगृह न् भैक्ष स्वकर्म परि र्तयन्   | ७४ |
| तथैव ल धभोज स द् द्व दश ह त् स शुध्या       |    |
| चरेत् वत्सर चापि तद्वत्त यि राकृति          | ५  |
| भवेत्तु मानुषीष्वेव प्रायश्चित्तमनुत्तमम्   | ६  |

द मे ९ येत् ६

राह मृगाणा च स्वर च  
मांस मू पुरीषं प्राश् सस्कारमर्ह

ब्राह्मणस्तु राप गन् माघ्रा सोमप  
अपस्त्र्यह पिबेदुष्णास् यत ८ जिते य ८

पात्व ९ वायुभक्षे भवेत् यहम् ९

त् द्विष्टं प्रायि त्तानषेवणम्  
विशेषे यद ९ न जायते ८

इति श्रीमहाभार शतसहस्रिकार्या संहितायां वैयासिक्यां  
शान्तिपर्वणि चतु र्दशदधि १०

८७ णि चतुर् १० २

अस्मिन्नध्याये ८ श्लोकाः ]

श्रुचत्वारिंशदधिकशततमो ध्याय



प्रश्नात् १० पत्तिक नम्

वैशम्पा

थान्तर थ खङ्गयुद्ध विश रद

नकुलशरतल्पस्थम् इदमाह पि हम्

नकुलः

नु प्रहरण श्रेष्ठम् इति । द पितामह  
मतस् मम धर्म एव शित २

न्ने च मुके राजन् िणे शरेषु च  
खङ्गे शक्यते िद्धम् िन परिरक्षितुम् ३

शर रां च गद शक्तिधरांस्तद  
एक ख रो धरस् थे प्रतियोधितुम्

अत्र मे सशय<sup>२</sup> तूहलम<sup>१</sup> व च  
किंस्वित् प्रहरण श्रेष्ठ स<sup>१</sup> युद्धे प र्थि ५

थ चेत्प दित खङ्ग<sup>२</sup> च र्थय केन ।  
पूर्चय च ख वीहि िमह ६

:

स्य चन श्रुत् म द्रीपुत्र र्ध त  
स्वर शैलसयुक्त सूक्ष्मचित्र र्थ त् सु म्  
त गोत्तर क्य र णोपप दितम्  
शिक्ष धर्मोपप<sup>१</sup> च द्रोणशि या छते ८

च र्वधर्मज्ञो धनुर्वेदस्य पारग  
शरतल्पगते भीष्मो नकुल य मह त्मने ९

भी :

|  |    |
|--|----|
| तत्त्व शृणु द्रेय यथैतत् परिपृच्छा<br>बेधितो स्मि भवता सानुमानि पर्वत                        | १  |
| सलिलैर्कार्ण त त पुर सर्वमभूदिदम्<br>ज्ञातमनाकाशम् अनेदेश्यमहीतलम्                           | ११ |
| तम स पर्शम् अतिग भीरदर्शनम्<br>निशश ५ चा मेय च तत्र जज्ञे पितामह                             | १२ |
| सोऽसृजद्रायुम च भास्कर च पि र्यिवान्<br>आकाशमसृजच्चोर्ध्वम् अधो भूम च <sup>१</sup> नैर्ऋतिम् | १३ |
| त स्सचन्द्रतार च नक्षत्राणि ग्रहां था<br>स त्सर नहोरात्रान् ऋतूनथ ल न् क्षणान्               | १४ |
| त शरार ले स्थापयित्व पितामह<br>जनय मा भगवान् पुत्रानुत्तमतेजस                                | १५ |
| मरीचं भृगुम त्र च पुल त्य पुञ्ज तुम्<br>सिष्टान्त्रिसौ चोभै भरद्व ज तथैव च                   | १६ |
| प्रज पतिस्तथा दक्ष क य षष्टिमजीजनत्<br>तश्च ह्यऋषिन् स िन् प्रजार्थं प्रतिपेदिरे             | १  |
| ।भ्यो विश्वानि भूतानि देवा पितृगणास्तथा  |    |

१४५] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ८२९

ग धर्वा सरसश्चैव रक्षासि िधिने च १८

पतत्रिमृगमीनाश्च ग वश्चैव महोरग

नानाकृतिवलाश्चा ये जलक्षिति चारिण १९

उद्भिजास्वेजश्चैव स डज जर युजा

जज्ञे तात जगत् सव ततस्थ रजङ्गमम् २

तत सर्गमिम त्वा सर्वले पितामह

श श्वत वेदपठि धम च जुजुपे पुन २१

तस्मिन् धर्मे स्थित देव स सह च र्यपुरोहित

आदित्य सवो रुद्रास् ससाध्य मरुश्चिन २२

भृग्वयङ्गिरसस्तिद्ध काश्यपश्च तपोधन

सिष्ठगौतमागस्त्यास् तथा नारदपर्वतै २३

ऋषये वालखिल्याश्च प्रभासासि इस्तथा

घृताच्य सै य वाय य ख नसमर चिपा २४

करुषाश्चैव हसाश्च ऋषयोऽथ म्रियोनेजा

म षप्रस्थ पृश्नयश्च स्थित ब्रह्मानुशासने २५

द ेद्र त्वतिक्रम्य तत् पितामहशासनम्

धर्मस्यापनय चक्रु क्रोधलेभसम वित २६

हिर यकशिपुश्चैव हिर यक्षो विरोचन

श वरे िप्रचित्तिश्च प्रलादां नमुचिर्वलि २

|                                |                         |    |
|--------------------------------|-------------------------|----|
| एते च ये च बहू स्              | ण दत्तदान               |    |
| धेतुमि                         | रेमिरे                  | २८ |
| सर्वे स्म ल्यजा                | देवा थ यम्              |    |
| त्येवं हेतुम                   | पर्थ । महर्षिभि         | २९ |
| प्रिय नाप्यनु शि च भूरे        | भ रत                    |    |
| त्रीनुपाय नति                  | रुरुधु ज                | ३  |
| जगमुस् दि द तै                 | दर्पयु महा र            | ३  |
| अ वै ग न्                      | सर्वलोकनम त             |    |
| त हिमवत पृष्ठे                 | रम्ये प रके             | ३१ |
| श योजन स्तारे                  | णिमुक्ताचयाि ते         |    |
| स्मिन् गिरिवरे पु              | ष्पितद्रु ने            | ३२ |
| स विबु श्रेष्ठे                | ब्रह्मा लेकार्थ सिद्धये | ३३ |
| तो र्षसहान्ते                  | नम रोत् मु              |    |
| विधिन ल्पद्म्रेण               | थो नेपपादि म्           | ३४ |
| ऋषिभिर्य पटुभिरू               | यथावत् कर्म र्त्तुभि    |    |
| रुद्धि परिस र्ण द् यम नैश्च पा |                         | ३५ |
| नैर्य ण                        | जिष्णुभिरलङ्कृतम्       |    |
| त दे गणै व                     | भौ यज्ञमण लम्           | ३६ |

|  |    |
|--|----|
| षिभिश्चै सदस्यैरुपशोभितम्              |    |
| घोरतर म् गीणा मे परि म्                | ३  |
| चन्द्रो^ योम भ्युदिततार म्             |    |
| वि.ार्य थाभूतम् उत्थि ू ते त           | ३८ |
| नीलोत्प सवर्णा तीक्ष्णदष्ट् निरुदरम्   |    |
| प्राशु षणं चापि तथै प्रमितौजसम्        | ३९ |
| अस्मि त्पद्य ने च प्रचचाल सुन्धर       |    |
| र्मिसलिलावतश् चु मे च होदधि            | ४  |
| पेतु हेत्पा इत्वा मृदुर्द्रमा          |    |
| अ स दिशस्स ि प नश्च शिवो               | ४१ |
| मुहुर्मुहुश्च भूत नि प्रा थन् भयात्तथा | ४१ |
| तस्तु मुल दृष्ट्वा द्रूत स पितम्       |    |
| महर्षि रग धर्वान् चेद पि मह            | ४२ |
| यैतच् चि त भूतम् असि मैष िर्य न्       |    |
| रक्षण र्थं च लोकस्य वध य च सुरि षाम्   | ४३ |
| :                                      |    |
| त द्रूपमुत्सृज् बभौ नि स्त्रश एव स     |    |
| मिल िक्ष्णधर च ल इवोद्य म्             | ४  |
| त नील ठा रु ियर्षभे तवे                |    |



|   |    |
|---|----|
| ह्या ददा स दी म् अधमप्रि ारणम्<br>तस्स भगव न् क्रद्धो ब्रह्मर्षिगणयूजित                     | ४५ |
| प्रगृ सिममेयात्म रूपम य कार ह   | ४६ |
| चतुर्बाहुस् शन् मूर्ध्न भूमिष्ठे ऽपि दिशे दश<br>ऊर्ध्वं दृष्टिर्मह ब हुर् मुखा । समुत्सृजन् | ४७ |
| वि र्वन् बहुधा कीर्णन् नीलपा रलोहितान्<br>बिभ्रत् कृ ण जिनं वासे हेमप्रवरत रकम्             | ४८ |
| नेत्रं चै ललाटस्थ भास्करप्रतिम महत्<br>शुशुभाते सुविमले द्वे नेत्रे कृ ण पिङ्गले            | ४९ |
| तो दे ो मह दे श शूलप णिभगाक्षिहा<br>स प्रगृ स नास्त्रश काल कानल र्वसम्                      | ५० |
| त्रिकूट चर्म चोद्यम्य सविद्युतमिव म्बुदम्<br>चच र विविधान् मार्गान् द त्वा तचिर्क र्षया     | ५१ |
| विधु सिमाक शे तद युद्धचिकीर्षया   | ५२ |
| तस्य नादान् विन तो महाहास च मु त<br>बभौ प्रतिभय रूप तदा रुद्रस्य भारत                       | ५३ |
| तद्रूप ारिण रुद्र रौद्रकर्मचिक षया<br>नेश य दान त्सर्वे । समभिदुद्रुवु                      | ५४ |
| अश्मभि भ्यवर्षे सम्प्रदीप्तैस्तथे मुकै  |    |

१४५] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ८ ३

घोर प्रहरणै न्यै क्षुरधारैर स्मयै ५५

तत्र तद् दान ना स णेतृकमच्युत  
रुद्रखङ्गवल धूत प्रचचाल मुमोह च ५६

चित्र शीघ्रपदत्वाच्च चरन् मसिप णि म्  
मे मसुरा सर्वे सह मिति ेनेरे ५

छिन्दन् भिन्दन् रुजन् कृन्तन् दारयन् प्रमथ पि  
अचरदैत्यसङ्घेषु नामि रिव कक्षग ५८

असिवेगप्ररुणा छे व रूवक्षस  
उत्तमाङ्गप्रकृत्ताश्च पेतुरु र्या महासुर ५९

अपरे द नवा भग्ना खङ्गधार पडित  
अ ये यमभिनद णो दिश स प्रतिपेदिरे ६

भूमै केचित् विविशु पर्वत नां गुह स्तथा  
अपरे ज मुर ाशम् अपरेऽ भ माविशन् ६१

तस्मिन् महति निर्वृत्ते समरे भृश ारुणे  
वभै भूमि प्रतिभय त् तदा रुधिरकर्दम ६२

द नवानां शरीरैश्च महद्भिः शोणितोक्षितै  
समाकीर्णा महाबाहो शैलै रिव स कशुकै ६२

1. ेऽ रिव रुद्रो रिव  
मि 3. रु प्रतिभया दा

|   |    |
|---|----|
| धिरेण परिच्छि बभौ वसु तद                |    |
| रक्तद्रं ना श्य ारी दं                  | ६४ |
| रुो द नव न् हत्व र घं त्तर गत्          |    |
| रौद्रं रूपमथाक्षि चक्रे रूप शि शि       | ६५ |
| महषयस् दे गण द                          |    |
| जयेन ह्युतकल्पेन देवदे मथ स्तुवन्       | ६६ |
| स्स भगवान् रुद्रे दान तजो क्षतम्        |    |
| स धर्मस्य षोत्तार ददौ सत्कृत्य विष्णवे  | ६  |
| ष्णुर्मराचये प्राद न्मराचिर्भागं तम्    |    |
| हर्षिभ्यो ददौ ज्ञम् यो ा च              | ६८ |
| हेन्द्रो लो पं भ्यो ले पा स्तु पुत्रक   |    |
| सूर्यपुत्राय ददु सुविस्तरम्             | ६९ |
| ऊचु न तथ मानुष ा त्वर्म श्वर            |    |
| सि ा धं गभण पाल जा शि                   |    |
| र्मसे मं क्रान्त स् धूलसूक्ष्माथकारण त् |    |
| भज्य द रक्ष्या युर् धर्मो न दृच्छय      | १  |
| दु च निद्रहो दो हिर य हुल थ             |    |
| ज्ञता च शर र वं ल्प कारण त्             | २  |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| अरे नि रूप णि दु ग द नि निर्दिशेत्    |    |
| अरे ण नि परमाण भ्यि त्                |    |
| अभिषिच्याथ त्र प्रज न धिप तत          |    |
| मनु प्रजानं र थ पाय दावसिम्           | ४  |
| क्षुपाज्जग्राह चेक्ष र इक्ष पुरुरवा   |    |
| यु तस्मात्त लेभे नहुष तो विमु         | ५  |
| ययाति हुषाच्च पि पूरुस्त ल ध न्       |    |
| धूर्तश्च ग त् तो भूमिशयो नृप          | ६  |
| भरत ापि दौ यन्तिर लेभे भूि सिम्       |    |
| तस्माल्लेभे च धमज्ञे राजत्रै          |    |
| त स्त्वै लेभे धु धुारे जनेश्वर        |    |
| धु धुमाराच्च काम्भोजे चुकुन्द थ ऽभजत् | ८  |
| मुचु न्दान्मरुत्त मरुत्त दपि रैवत     |    |
| र ाद्युवनाश्वश्च यु नश्च त् थ र्यु    | ९  |
| इक्ष ा ज ाद्धरिणाश्वो मह रथ           |    |
| हरि ाश्वात्ततो लेभे इशुन दपि          | ८  |
| उ नरो पि धर्मत्स तस्म द्भोज सयाद्     |    |
| यदुभश्च शिबिलेभ शिवे पि तर्दन         | ८१ |

|  |      |
|--|------|
| तर्दनादुष्टकस्तु रुशदश्वोष्ट्रकादपि    |      |
| रुशदश्व दूर जो द्रोण स्मात् पस्तत      | ८२   |
| तस्त्व भ्रातृभिस्स ध पर च सिमव प्र न्  | ८२ । |
| कृत्ति क्षत्रम् असेरि दैवतम्           |      |
| रोहि यो गोत्रमस्याथ रुद्रश्च गुरुसत्तम | ८३ । |
| सेरश्रौ च नामानि रहस्य नि निवोध मे     |      |
| पा ेय सदा य नि ैँल्लभते जयम्           | ८४ । |
| सिर्विशसन झस् तीक्ष्णचर्म दुरासद       |      |
| गीगभ विजयश्रौ धर्मपालस्तथैव च          | ८५ . |
| अत्र्य प्रहरण ना च खङ्गे भुवि परिश्रुत |      |
| महेश्वरप्रण तश्च पुर णे निश्चय गत      | ८६ । |
| एत नि चैव नामानि पुर णे निश्चितानि वै  | ८७   |
| पृथुस्तूप दयामास धनुराद्यमरि दम        |      |
| तेनेय शिर्व पूव वै येन परिरक्षिता      | ८८   |
| देतदेवं म द्रेय प्रम णं कर्तुमर्हसि    |      |
| असेश्च पूजा र्त य सः। युद्धविशारदै     | ८९   |
| इत्येष प्रथम कल्पे मया ते थित पुन      |      |
| एवमेवासिसर्गोऽय यथावद्भूरतर्षभ         | ९ .  |

वथ तमिह ८ इत्यागममुत्तमम्  
लभते पुरुष तं प्रेत्य <sup>१</sup>चानदमश्रुते ९१

इत १भारते सहस्रिकयां द्विताया यासिक्या  
शां वैणि वारिंशदधिकशततमो भ्याय. ५  
८ पर्वणि पद्धिभ्यः २.  
स्मि ज्याये ९ प्रे :

### षट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽयाय

अभिमतं यथा यच्चैदं विदुराशुनः १  
दित्तेषु धित्तिण क्षप्र सनम्

इत्युक्तं विभामे तु तूणीम्भूते युधिष्ठिर  
पचवसथगवाभ्रतन्विदुरपमान् १

युधिष्ठिरः

धम चार्थे चामे च लोकवृत्तिमहित  
तेषां गरीयान् तमे मयमल्लयुश्चक २

करिंश्चात्मा नियन्त यस्त्रिवर्गविजयाय वै  
स्पृष्टनैष्टिवक्ययथावद्वक्तमर्हथ ३

वशम्पायनः

त ेऽर्थगति र ज्ञ प्रथम तिभ नवान्  
जगाद् विदुरो व क्य धर्मशास्त्रमनुस्सरन् ४

विदुरः

बहुश्रुत तपस्त्यागश श्रद्धा यज्ञ क्रिय क्षम  
भावशुद्धिर्दया सत्य सयमश्च त्मस पद ५

एतदे ऽभिपद्यस्व मा ते भूच्चलितं मन  
एतन्मूलौ हि मार्यैवेतदे पद हितम् ६

धर्मेणैवर्षयस्तीर्णा धर्मे लोका प्रतिष्ठित  
धर्मेण देव दिवि च धर्मे च र्थ सम हित

धर्मो राजन् कुरुश्रेष्ठ ध्यमो र्थ उच्यते  
कामो यीयानि च प्रवर्ति मनीषिण ८

त द्विर्मप्रधानेन भवित य यतात्मन  
तथा च सर्वभूतेषु र्ति त य यत त्मना ९

शम्पयनः

सम त्वचने त् न् भीमकर्म धनञ्जय  
तेऽर्थगतितर ज्ञो जगौ ऽक्यं प्रचोदित १

जुनः

अर्थस्य वय वेता धर्मकाम वि ति मृति

१४६] शान्तिपवणि आपद्धर्मपर्व ८३९

अर्थसिद्धयः ऽभिनिवृत्तावुभवेतौ भिष्यत ११

उद्धूतं यद् हि पुरुषं विशिष्टं रयोनय  
ब्रह्मणामि भूतानि सततं पर्युपसते १२

जटाजिनधरं दत्तापङ्कजिधाजितेन्द्रिया  
मुण्डनिस्तवश्चपि सत्यार्थार्थिनं यक् १३

कषायवसनश्च ये श्मश्रुला हि सुसूयत  
विद्वांसश्चैव दातश्च मुक्तासं परिग्रहैः १४

अर्थार्थिनस्यैतन्नित्यं परितप्यन्ति कर्मभिः  
कर्मभूमिरियं राज्ञो ह्यवार्ता प्रशस्यते १५

कृषिवणिः यगोरक्ष्यः शिल्पनिविविधनि च  
अर्थ इत्येव सर्वेषां कर्मणामध्युपक्रम १६

निहतेऽर्थे निवतते धर्मकामवैतिश्रुति  
विपहेतयवान् धर्मम् आराधयितुमुत्तमम् १

कर्मचचरितुं शक्ते दुष्प्रपमकृतत्सभिः  
अर्थार्थिनस्सन्ति केचिद् अपरे र्गक्षिण १८

कुलप्रत्यगतश्चैव स्वधर्ममनुष्ठित १८

अस्ति नस्तिश्चैव नियतासमेपरे  
अप्रज्ञानतमेभूतप्रज्ञानतुप्रकाशत १९



|  |    |
|--|----|
| भृत्यन् भोगैर्द्विषो दैर्यो जयति सोऽर्थवन्   | २  |
| एतन्मति ता श्रेष्ठमतमम यथ तथम्               |    |
| अनयोस्तु निबोध त्ववचनशुक्रकण्वये             | २१ |
| वैशम्पायनः                                   |    |
| तथा धर्मार्थं शलौ मद्रूपुत्रवनन्तरम्         |    |
| नकुलस्सहदेवश्च वाक्यमूचतुरुत्तमम्            | २२ |
| ॐ वै   |    |
| आस नश्च शयानश्च विचर पि च स्थित              |    |
| अथयोग दृढ कुर्यद् योगैरुच्चवचैरपि            | २३ |
| तास्मस्तु वै सुनिर्वृत्ते दुर्लभे परमप्रिये  |    |
| इह काम न प्रीति प्रत्यक्ष नात्र सशय          | २  |
| योऽर्थो धर्मेण सयुक्तो धर्मो यश्चार्थसयुत    |    |
| ध्वि मृतसंसृष्ट तस्मात् मताविह               | २५ |
| अनर्थं न मेऽस्ति तथोऽर्थोऽधर्मिण कृत         |    |
| तस्मादुद्विजते लोके धर्मार्थाभ्यां बहि कृतत् | २६ |
| स्मद्धर्मप्रधानेन से योऽर्थस्सयतात्मन        |    |
| विद्वेषु च भूतेषु लभ्यते सव एव च             | २७ |
| धम समाचरेत् पूव ततोऽर्थं धर्मसहितम्          |    |
| तत म चरेत् पश्चात् सिद्धाथस्य हि तत् फलम्    | २८ |

वैशम्पायनः

|   |            |    |
|---|------------|----|
| रिरेमतुस्तु तद्वाक्यम् उक्तं            | श्विनोस्तु |    |
| भीमसेनस्ततो वाक्यम् इदं वक्तुं प्रच मे  |            | २९ |
| भी :                                    |            |    |
| न म मयत्यथ नाकामे धर्ममिच्छति           |            |    |
| नाक म मयानोऽपि त त् मे विशिष्यते        |            | ३  |
| कामेन युक्त ऋषयस् पस्येव सम हित         |            |    |
| पलाश इशाकमूल शा ण्युभक्षास्तुसयता       |            | ३१ |
| वेदोपदे परे युक्त स्वाध्य पारगा         |            |    |
| श्राद्धे यज्ञिय यां च तथ णप्रतिग्रहे    |            | ३२ |
| णिज र्पे गोपा कर शिशुलिपिनस्तथा         |            |    |
| देशधर्म तश्चैव युक्ता कामेन र्मसु       |            | ३३ |
| समुद्र च विशन्त्यन्ये नरा कामेन सयुता   |            |    |
| क मो हि विविधाकरस् सव कामेन स ततम्      |            | ३  |
| नस्ति नासीन्न भवित भूत मसृ परम्         |            |    |
| एतत् सर ह राज धर्मर्थ सश्रितौ           |            | ३५ |
| न नीतं यथा दध्नस् तथा क मेऽर्थधर्मत     |            |    |
| श्रेयै ल न पि याके घृत श्रेयेऽ युदश्वित |            | ३६ |
| श्रेय पु पफल काष्ठात् मो धम र्थयेर्वर   |            |    |
| पु पतो धिव पर ण्मात् ज्ञायते सुखम्      |            | ३  |

चारुवेषा रल ताभिर्  
 मदोत्कटभि प्रियवादिनाभि  
 रम येषिद्धिरुपेत्य कम  
 कामो हे र जन् परमाभिराम ३८

माम्द्विराम व रजपुत्र  
 १स त हे सद्धिरफल्गुसारम्  
 सम क्रय परमानृश म्  
 मर्थ मा स्त ेव से ३९

ो कभक्तस्त नरो जघ ये  
 द्वयो तु सक्त प्र दित ध्यमम्  
 स उत्तमो ये निरता वग  
 भिभ्य ल परिसेवमान ४

पायनः

प्राज्ञस्सु दनसार लिपे  
 चित्रम ल्याभरणैरुपेत  
 वचस्सङ्गहवि-हेण  
 ेक्त्व स भूमै विरर म र जन् ४१

1. सा हे ।  
परमेव

ततो मुहतादथ धर्माजो

वाक्यानि तेषां नुचिन्त्य यक्

उवच । चाऽपि यन्व

वदुते धर्मभृतां रिष्ट

२

युधिष्ठिरः

सशान्तिं निश्चितं सशास्त्रात्

भक्तो विदितप्रमणा

ज्ञानतुल्यमस्य ममेह वक्तव्यम्

उक्तं यद्वै नैष्ठिकं कृतं मे

४३

इह नुवशं गतं ममापि

। क्यन्निवोधध्वमनन्यभवा

भूतानि जार्तमरणानि

जराविकारैश्च समवितानि

४

भूयश्च तैस्तरुपसेवितानि

मोक्षप्रशंसितततश्च विद्म

४४

यो वै नपपे निरतो नपुये

नार्थे न धर्मे निरतो न कमे

- विमु शीषस्तमफल्गुसारै  
 विमुच्यते दु खसुखात् स सिद्ध ४५
- हेन बद्धस्य न सति तानि  
 चैव यन्मूर्धगवानु च  
 वे य नि णपर भ ि  
 स्म र्यत् प्रियमप्रिय । ६
- ए मुख्य न तु मकारे  
 यथा नियुक्तेऽस्मि तथ रोमि  
 भूत नि सर् णि विधिर्नियुञ्ज्याद्  
 विधिर्वलीयानिति विद्म सर्वे ४
- न र्मणाऽऽत्यनवाप्यमथ  
 यद्भावि सर्वं भवतीति विद्म  
 त्रिवर्गह ेऽपि हे प्र तेऽर्थ  
 तस्मादिद लो क्ति य गु म् ४८
- त्यनः  
 दृश्यबुद्धे चन मनोनुगं  
 समस्तमाज्ञ य तथा हि हेतुमत्  
 दा प्रणेमुर्जह पुस्तथैव  
 रूप राय च चक्रिरेऽञ्जलेम् ४९

सुचारुवर्णाक्षरशब्दभूषितं

मनोनुगां ननर्गत क्यकण्ट म्

निश य ता प र्थिवभाषितां गिर

पार्थस्य स प्रण बभूवु

५

थै राज प्रशशस वीर्यवान्

पुन पप्रच्छ सरिद्धरासु म्

धर्मार्थक मेपु विनि यज्ञ

त पर धममहीन सत्त्वम्

५१

इति तिमहाभा े शतसहस्रिकाया द्वितीय वैयासिक्यां

शां पर्वणि दृच १ रशदधि शत ऽध्यायः ४

८ आपद्ध प णि षड् वंशोऽध्यायः २६

[ सि ध्या ५ ोकः ]

## चत्वारिंशदधिकशत ेऽध्याय



धेयं युधि धिया धेयपुरु क्षणक नम्

युधि हि .

पित मह महाप्र कुरुणां <sup>१</sup>प्रीतिवर्धन  
प्रश्न ित् क्ष्यामि त मे य ख्य तुमर्हसि १

ि शा नव से य कै प्रीति परमा भेत्  
अ यत्या च तदात्वे च क्षमां न् प्रवर्वाहि मे २

न हि तत्र धन फीत न च स वधि व ध  
तिष्ठति यत्र सुदस् तिष्ठ िति मतिर्मम ३

दुर्लभे हि सुद श्रोता दुर्लभ िहि य सुत्  
एतद्धर्मभृतां श्रेः सव याख्य तुमर्हसि ४

र्भ

स धेय न् पुरुषान् र जन्नस धेयांश्च तत्त्वत  
वदते मे निवेध त्व निखिलेन युधिष्ठिर ५

लु घ ूरे धर्मिष्ठो निकृतश्शठ एव च  
क्षुद्र प पसमाचारस् सर्वशङ्की तथाऽलस ६

|  |                             |     |
|--|-----------------------------|-----|
| दीर्घसूत्रोऽनृजु                                 | गो गुरुद रप्रध <sup>१</sup> |     |
| व्य ने य परित्य गी दुर त्म निरप प                |                             |     |
| सर्व प पदर्श <sup>१</sup> च स्तिको वे,नि दक      |                             |     |
| स प्रक र्णो द्वि गो लोके य मनिरत रेत्            |                             | ८.  |
| <sup>१</sup> असा यो लोका द्विप्रस् समये च नवस्थि |                             |     |
| पिशुनेऽथाकृ                                      | ो मत्सरा पापनि य            | ९.  |
| दु खर्श लोऽनृत त                                 | च नृशस कितवस्तथ             |     |
| मित्रैरर्थकृती नित्यम् आदत्तेऽथ धनेत्सय          |                             | १   |
| दत्तेन च यथ शक्ति यो न तुप्यति म दधा             |                             |     |
| अधुर्य पि यो युङ्क्ते सदा मित्र नरा म            |                             | ११  |
| अस्थान ेधनो यश्च अकस्म विरज्यते                  |                             |     |
| न्दश्चै कल्या ण नाशु त्यजति किल्बिषी             |                             | १२. |
| अल्पेऽप्यप ते चैव सस्मरति यत् कृतम्              |                             |     |
| समेत्य चैव रिपुषु मित्रद्वेषी नर धिप             |                             | १३  |
| शत्रुमित्रमुखो यश्च जिह्वप्रेक्ष विलोचन          |                             |     |
| न तुप्यति च कल्याणे य त्यजेत्त न्श नरम्          |                             | १४  |
| पानपो द्वेषण क्रूरे निर्घृण परुपस्तथा            |                             |     |
| पर पकर विप्रद्विद्रू तथ प्राणिवधे रत             |                             | १५. |



|   |    |
|---|----|
| त मो लो न स धेय कथ न                          |    |
| मित्रद्वेषी न स धेयस् स धेयानपि मे शृणु       | १६ |
| ल ना व क्रयस प । ज्ञ नविज्ञ न ेविदा           |    |
| मित्र कृतज्ञश्च धर्मज्ञ लोभवर्जिता            | १७ |
| म धुयगुणस प स् सर्वलक्षणपूजिता                |    |
| य यामश ला सतत भृत्यपुत्र कुलोद्गता            | १८ |
| कृपाव ते गुणोपेतास् तथा िद्य समविता           |    |
| देषैर्विमुक्ता प्रथित स् ते ाह्या प र्थिवेन ह | १९ |
| यथाशक्ति समाचार स् स तस्तु यति च प्रभो        | १९ |
| न स्थ ने ोपव तश्च न चाकस्म द्विरा गिण         |    |
| विरक्ताश्च न द् य ते मनसाऽ र्थकोविदा          | २  |
| अ त्मन र्प यित्व ऽपि सुेत्कार्यपरायण          |    |
| न विरज्यन्ति मित्रेभ्ये वासो रक्तमि िधिकम्    | २१ |
| देषां लेभ ेहादीन् अर्थेषु यु ताषु च           |    |
| न दर्शयन्ति सुेदे विश्व वन्धु .त्सला          | २२ |
| लोष्टक नतुल्यार्थास् सुेत्स्वशठबुद्धय         |    |
| ये चर त्यनभीमान निमृष्ट र्थविभूषण             | २३ |
| सङ्गत परिजन भ त्युत्तमपूरुषा                  | २४ |
| ईदृशै पुरुषश्रेष्ठैस् साध स्म स्ते नृप        |    |

१ ] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ८४९

तस्य वि विर्यते राज्य ज्योः ग्रहपतेरि २५

स्व ते जितक्रोधा बलव तो रण प्रिया  
क्ष - शशीलगुणेपेत स् स धेया पुरुषोत्त २६

ये च देषसमायुक्त नर प्रोक्ता मया नघ  
तेषाम.यधमे राजन् तो मित्रघ तक २७

त्य यास्तुदुराच रास् सौष मिति निश्चय २

इति श्री ा रते तसह ि ं हिता वैयासिक्यं

शां पर्वणि स च ा शदि तत गो ष

८ ा द्व र ि स ि तोऽ २

[ सि न्य र ि ः

## अष्टचत्वारिंशदधिकशततमो अध्याय

१५ तान् भिक्षुं युधिष्ठिरं प्रि द्विलक्षण-  
 धनाय दत्त्वा तथैतमथाथनारः । ह्यणाधमेन  
 विद्वेजेन धनजनाय दस्युः । २ केनाचहस्युवरे  
 त्वरितनारीसपणादिनसत्कृतनगांत दसवृत्त्योपज्वनम्  
 ३ कदाचन धनाजनाय प्रस्थितवत गांसमुत् प्रतिच्छा  
 वणिकैर्धनसहगमनम् गजांपद्रुतवणिकसार्थपरिष्टेन तेमेन  
 विद्विद्यधिमूले चैतपः ५ सा तेन रा  
 नाराजनस्य ६ ६ तेन गौतमेन गोदन  
 सुहृदो विरूपाक्षनाम्न रास्यन प्रतिमनम् गौ  
 स्वस्थानं जानापि विरूपाक्षेण बकरजगौरवात् दत्त्वा रमुदूह  
 साय पुनः काल्यगनम् ८ तत्र परेः भजगमिणा  
 तेन पाथेया राकवधनिर्धरणम् ९ गौतमे र  
 १० १० सपृष्ठ प्रस्थानम् प  
 कस्या गतस्य विवादाशङ्किना विरूपाक्षेण दृष्टिज्ञास  
 स्वपुत्रस्य नियमनम् पितृानंगा परिवारे विरूपाक्षसुतेन  
 ११ हननम् २ विरूपाक्षेण शरीरस्य विराणम् ३  
 १२ ख्वानधेनु तफेनपातेन विरूपाक्षेण १३  
 धनय इद्रे पुनरुचितस्य गौस्य गनम् १५

युधिष्ठिरः

विरेणार्थसंबधश्रोतुमिच्छामि पार्थि

मित्रद्रोही कृतश्च य प्रोक्त च ८

भी :

ह त ते तयिष्येऽहम् इहास पुर नम्  
उदीच्यां दिशि यद्वृत्तं लेच्छेयु मनुजाधिप २

त्रा णे मध्यदेशाय कृष्णङ्गो वर्जित  
अम दस्युगण कर्णं प्र विशद्धनतृ णया ३

त्र दस्युर्धनयुतस् स<sup>१</sup> णं विशेषवित्  
ह्यण्य सत्यस ध त्ने च निरतेऽभ न् ४

तस्य क्ष मुपाग य ततो भिक्षामयाचत  
प्रश्रय च अस थ भिक्षां चैवाथ पिकम् ५

तस्मै स भिक्ष मदात् वस्त्रं च सुन्द नवम्  
नारा च यै वनपेतां भर्त्र विरहितां तद् ६

एतत् स प्रा य हृष्टात्मा गौतमोऽथ द्विजस्तथ  
स्मिन् गृहवरे राजस् तथा रेमे स गौतम

दु वाथ च दस्योश्च जाहाग्यमकरो द्विज  
सेऽ सद्वर्षमेकं<sup>२</sup> समृद्धे शबर लये ८

व ण धे पर यत्र अकरोद् गौतमे नृप ८

२ काङ्गह रह स्तु सर्वतो वाणगेचरे

1. कम् ऽि कम्  
2. र । सतु नित्यं । ङांस्तु सान

|   |    |
|---|----|
| जघान गौतमो रजन् यथा दस्युजन थ             | ९  |
| हिंसापरो घृणाहानस् सदा प्राणिवधे र        |    |
| गौ मस् े षेण . यूनां ससमोऽभवत्            | १  |
| वसतस्तस्य दस्युग्रामे सुख तद्             |    |
| अगच्छन् बर् े मासा निघ्नत पक्षिणो ब्रहून् | ११ |
| तत कद् चिदपरो द्विजस्त देशमागमत्          |    |
| जटाचीराजिनधरस् ध्या निरतश्शुचि            | १२ |
| विनीतो वेद ेपु ेदान्त नां च पारग          |    |
| अदृश्यत ततस्तस्य स तस्यैव तु ेज           | १३ |
| दस्यु मगमद् यत्रासौ गौतमोऽभवत्            | १  |
| तु दस्युगृह न्वर्ष शूद्रा परिवर्जन        |    |
| दस्युसमार्कण यचरत् र्व े द्विज            | १५ |
| त स्त गौ मगृह प्रविवेश ेजेत्तम            |    |
| गत श्वापि स प्राप्तस् त ोऽय सम गतौ        | १६ |
| <sup>1</sup> झहारहस्त त धनु पाणिम स्थितम् |    |
| रुधिरेणा सिक्ताङ्ग गृहद्व रमुपस्थितम्     | १  |
| त दृष्ट्व पुरुष द भम् अपध्वस्त क्षय गतम्  |    |
| अभिज्ञाय द्विजे लम् अगमद्वाक् मह च        | १८ |

द्विजः

किमिदं रुं मूढं विप्रस्त्व ॐ कुलोद्भू  
मध्यदेशपरि तो दस्युभाव गत कथम् १९

पूर्वान् र ॐ जाग्रयास्तान् प्रख्यातान् ॐ  
येषां ॐ भिज तस्त्वम् इदृश २

अवबुध्यात्मनऽत्मान स शीलं दम शमम्  
नु ॐ च ॐ त्यज वा मि द्विज २१

भीष्मः

ए च्छस्स हृद तेन तत्र हितैषिणा  
प्रत्यु च ॐ राजन् विनिश्च दऽ त् २२

अधनोऽस्मि द्विजश्रेष्ठ च वेदविदप्यहम्  
वृत्त्यथमिह स प्राप्त ॐ द्वि ॐ द्विज २३

त्वदर्शनात्त ॐ प्रथ तार्थश्चार यह द्विज  
अध न सह य स्य ॐ श्रो ॐ श्राद्य शर्वरीम् २४

भी :

ॐ रज यां युष्ठायां गते तस्मिन् द्विजर्षे  
निष्क्र य गौतमेऽगच्छद् धनार्थं विचचार ह २५

- |            |           |
|------------|-----------|
| 1. श्रुतम् | १. तदाऽने |
| 3. नि      | 4. नि     |

|   |    |
|---|----|
| समुद्रगान् स णिजस् ेऽपश्यद्विज पथि<br>स तेन सह स र्थेन प्रय । सागर प्रति            | २६ |
| स तु स थ मह राज कस्मि द्विरिगह्वरे<br>मत्तेन द्विरदेनाथ निहत प्रायशेऽभवन्           | २७ |
| स यश्चित्तथा । त् तते मु तो िजस्तद<br>कान्दि भूतो जी ताथ प्रदुद्र वेत्तरां दिशम्    | २८ |
| स्तु स परिभ्रष्टस् सार्थत्तस्मात् तथाऽथत<br>एक क यभ्रमत्त वने कापुरुषो यथ           | २९ |
| स पन्थान म स मुद्राभिमुखस्तथ<br>आस द न र य महत् पुष्पितपादपम्                       | ३  |
| सर्वर्तुकैर वणै पुष्टि तैरुपशोभितम्<br>न दनेद्देशसमित यक्षकिन्नरसेवितम्             | ३१ |
| सा त लघ श्वत्थप्लक्ष गुरुवनैस्तथा<br>च दनस्य च ख्य पादपैरुपशोभितम्                  | ३२ |
| गिरिप्रस्थेषु सर्वेषु सुखेषु ससुगन्धिषु<br>सम ततो द्विजश्रेष्ठा वल्गु कूजति तत्र वै | ३३ |
| मनुष्यवदनाश्च ये भ रु इति विश्रुता<br>उद्रताश्शकुनश्चा ये स मुद्र स्स तोऽभ न्       | ३  |
| स त यतिमनोज्ञ नि विहग नां रुतानि ५  |    |

१. ८] शान्तिपर्वणि द्वर्मपर्व ८५५

|  |    |
|--|----|
| शृ वन् रमणीयानि प्रोऽगच्छ गौतम         | ५  |
| ततोऽपश्यत् र ये तु वर्णसिक् चित्ते     |    |
| देशभागे समे चित्रे गौदेश प्रे          | ३६ |
| श्रिया युक् हा क्ष य गोध परिमण्डलम्    |    |
| श स्वाभिरनु कूल भिस् सवृत त्रसन्निभ    | ३  |
| तस्य मूलं च सि रचन्दनवारिणा            |    |
| दि यपु पाति त श्रीमन् पित हसदेपमम्     | ३८ |
| त द गौतम प्रतो मन मनुत्तमम्            |    |
| मेध्य सुरगृहप्रख्य पुपितै पादपैर्वृतम् | ९  |
| तमासाद्य मुद यु स् तस्याधस्तादुप विशत् | ३९ |
| तत्रा निस्य र य गौतमस्य नराधिप         |    |
| पुष्पाणि स प श्य प्र त्वनि इशुचि       |    |
| ह्लादय स्य गत्राणि गौतमस्य तद नृप      | ४१ |
| स तु स्पृष्ट परिश्रान्तो ि पुण्येन युन |    |
| सुखमास सुष्पि भस् रश्चास्तमभ्ययात्     | २  |
| ततोऽस्त भा रे प्रे स ध्याकाल उपस्थिते  |    |
| आजगाम भवन ब्रह्मलोकात् खगेत्तम         | ४३ |
| न लीज . २ ति ख्य ते दयिते ब्र ण सदा    |    |



|   |    |
|---|----|
| हराज प्र श्यपस्यात्म                    | ४  |
| राजधर्मेति ख्ये बभूव मे भु              |    |
| दे सु श्रीमान् द्वान् दे समप्रभ         | ५  |
| मृष्टहाट सञ्छन्नो भूणैर सभि             |    |
| भूषि स्सर्वग दे गर्भश्रय वलन्           | ६  |
| त ग खग दृष्ट्वा विस्मितो गौतमेऽभवत्     |    |
| त्पिप स परीत त्म हसार्थं चैनमक्ष        | ४  |
| ग भ तो प्र दि या प्राप्तोऽ गृहान्       |    |
| अस्तं च विता य स् स ध्येय मुपस्थिता     | ४८ |
| म त निलय प्राप्त प्रिय तिथिरनु म        |    |
| पूजि ते यास्यसि विधि न र्मणा            | ४९ |
| ति                                      |    |
| गिर तां मधुरं श्रुत्व विस्मितो गौतमस्तद |    |
| कौतूहलान्वितो र जन् र जधर्म णमैक्षत     | ५  |
| ।                                       |    |
| भो काश्यप पुत्रोऽह म ता द क्षायणी मम    |    |
| सखित्व गुणेपे स् गत ते द्विजर्षभ        | ५१ |

भीष्मः

|  |    |
|--|----|
| तस्मै द । त्कार विधिदृष्टेन मेणा               |    |
| सालपुष्पमया दि यां समुपकल्पयत्                 | ५२ |
| भगीरथरथा न्तदेशान् ग निषेवितान्                |    |
| ये चरन्ति महामानास् तस्योपकल्पयत्              | ५३ |
| चैव सुसन्द मी पीवरान्                          |    |
| स गौतमायातिथये तदाऽ मुपकल्प त्                 | ५४ |
| त स्तृ च विप्र प्रीतात्मान ह मन                |    |
| पनयनाथ <sup>१</sup> स पक्षाभ्यामभ्यवीजयत्      | ५५ |
| त ते विश्रा तमा गोत्रवृत्तमपृच्छत              |    |
| सेऽब्रवीद्गौतमेऽस्मीं ब्राह्मणोऽस्मीत्युद हरत् | ५६ |
| तस्मै पर्णमय दि य दिव्यपुष्पा धिव सितम्        |    |
| गन्ध ह्य शयन प्रादात् स शिश्ये तत्र वै सुखम्   | ५  |
| अथेपविष्ट शयने गौतम वाक्यवित्तम                |    |
| पप्रच्छ श्यपो किमा मनमित्युत                   | ५८ |
| ततोऽ द्वौतमस्त दरिद्रो ह महामे                 |    |
| मुद्रगमनाकाङ्क्षि द्र य र्थमिति भर             | ५९ |
| त काश्यपोऽब्रूत् प्रीत्य नेत् ठां ईसि          |    |

|   |    |
|---|----|
| त य द्विजश्रेष्ठ द्रव्यो यास्यसे गृहान्     | ६  |
| चतुर्विधा र्थगतिर बृहस्पतिम यथ              |    |
| मित्र विद्या हिर य च बुद्धि र्ति बुधेप्सिता | ६१ |
| प्रादुर्भूतोऽसि ते मित्र सुत्त्व च हत्तरम्  |    |
| ेऽह तथा यतिष्यामि भिष्यसि यथ ऽर्थव न्       | ६२ |
| त भातसमये सुख पृष्ठा वीदिदम्                | ६२ |
| गच्छ सौम्य पथाऽनेन तक्ते भिष्यसि            | ६३ |
| इतस्त्रियोजन गत्वा रक्षसाधिपतिर्महान्       |    |
| विरूपक्ष इति ख्यातस् सख म ह बल              | ६४ |
| त ग द्विजमुख्य त्व मम व क्रयप्रचोदित        |    |
| म नभीसितांस्तुभ्यं दा । त्र सशय             | ६५ |
| इत्युक्त प्रययौ राजन् गौतमो विग म           |    |
| फल यमृतकल्प ने भक्ष ने यथेष्टत              | ६६ |
| चन्दनागरुमुख्य ने यत्र च वनानि च            |    |
| स्मिन् पथि मह राज सेवम ने द्रत ययौ          | ६  |
| तते मनुव्रज नाम नगर शैल रेरणम्              |    |
| शैलप्रारवप्र च शलय त्र गल तद                | ६८ |

विदितश्चाभवत्त राक्षसेन्द्र धीमत  
 हे स्सुहृदा राजन् प्रीयतां प्रियोऽतिथि ६९

ततस्तु राक्षसे द्रश्च सहायान् व युधिष्ठिर  
 गौतमो नगरद्वाराच्च नायतामिति  
 तस्मत् पुरवरात्तूण पुरुषाश्चेत श्रुत्वा  
 गौ मेत्यभिभाषन्त पुरद्वारमथागमन् १  
 तमूर्चुर्महाराज रजप्रेष्यस्तदा द्वेजम् १

राजप्रेष्याः

८ रस्व तूर्णमागच्छ रज ८ द्रष्टुमिच्छति  
 राक्षसधिपतिश्श्रमान् रजधर्मेण प्रेषि २  
 दधमिहान् द्रष्टुं तक्षिसविधयाम् ३

विष्मः

प्रद्रद्विप्रोऽपि याद्विगतम  
 गौतमपरमर्द्धितां पश्यन् परमवि ७४  
 तरे सहिते रागे वेश्म तूर्णमुपाद्रवत्  
 दर्शनराक्षसे द्रस्य काङ्क्षमाणे द्वेजस्तदा\* ५  
 तसोदितो राजप्रिश्यगमुत्तमम्  
 पूजिते राक्षसे द्रेण निषसादासनेत्तमे ६

\* तेषु तैवाभ्यसति दृश्य

पृष्ठश्च गोत्रचरण स्वाध्याय ब्रह्मचारिकम्  
 पृष्ठो र स ना सीद् गोत्रमात्रमथ वीत्  
 तत व्याजह रा यद् गो तद द्विज  
 र्च हीन ाध्याया िगत च  
 गोत्रमत्रविदो राज निव स पृच्छत ८

ते निवास कल्याण गोत्र ाह्वर्ण च  
 तत्र ूहे न भी का विश्रमस्व यथासुखम् ९

मध्यदेशप्रसूतोऽह गो बरालये  
 शूद्र पुनर्भूर्भा सत्यमे द्रवीमि ते ८  
 भीष्मः

तते राज विममृशे थ कार्यमिद भवेत्  
 कथ सुकृत े स्याद् ई बु ंवचिन्तयत् ८१  
 राक्षसः

अय ज मन िप्रस् ृत्त मह त्मन  
 े ि तेनाय काश्यपेन हात्मना ८२

प्रि रिष्य मि स हि मामाश्रित सद  
 भ्राता े ण्ध ा स चैव प्रियो ८३

१४८] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ८६१

तिक्व्यामथ भोक्त्वारस् हस्र मे द्विजोत्त  
तत्रायमि भोक्तु दे मस्मै च मे धनम् ८

भीष्म

विप्राणां विदुषां समलङ्कृतम्

तानामनुलिनाम् अहतक्षौमवात् ८१

नागान् द्विजश्रेष्ठान् वेरुपाक्षे विशां पते  
यथै प्रीजिधिदृष्टे कर्मण ८६

वृत्तेषां तु स राक्षसेद्रशसनात्  
भूमौ वरशास्तीर्णप्रेष्यैर्भरसत्तम ८

तासु ते पूजिरज्ञानिषणद्विजज्ञवा  
यराजन्त महाराज नक्षत्रपतये यथ ८८

तो जाम्बूनदपात्रीरुजाङ्कामलारभा  
वरान्नपूर्णविप्रेभ्यः प्रादाद्दधिघृतप्लुता ८९

त नित्यमस्य आषाढ्यां बहवो द्विजा  
ईतभोजनश्रेणलभन्ते सत्कृततथ ९

शिशेषस्तु तिक्व्यां द्विजेभ्यस्स प्रयच्छति  
शरपाये रत्नानि पौर्णमिति ९१

सुवर्णं रजतचै मणीनथ च मौक्तिकम्

- आन् महाध श्चैव दूयाजिनराङ्गव न् १२  
 रत्न च पात्राणि दक्षिणाथ हायशा  
 दत्त्व प्राह द्विजश्रे न् रूपाक्षे महायश १३  
 गृहीत रत्नान्येत नि यथो स ह यथेष्टत १४  
 येषु ये च भाणे मुक्तवन्तो द्विजोत्तमा  
 न्येव द य गच्छष्व विशमानीति भारत १५  
 इत्युक्तवचने स्मिन् राक्षसेन्द्रे महात्मनि  
 यथे ानि र ि जगृह्वर्वाङ्घ्रिणास्तद १६  
 त गो हाहँस्तैस्तेन रत्नैरभ्यर्चिताश्च भै  
 ब्राह्मण मृष्टवसनास् प्रीता समुदेऽभवन् १७  
 ततस्त न् रक्षे द्रस्तु द्विजानाह पुनर्वच  
 नान देश गत न् राजा ह्यणाननुमान्य १८  
 वरू  
 अद्यै दि स ि प्रा न वेऽस्तीह भय क्वचिन्  
 रक्षसेभ्य प्रमोदध्वम् इष्टते य त म चिरम् १९  
 तत प्रदुह्वुस्सर्वे ि प्रसङ्गास्सम तत १९  
 गौतमेऽपि णस्य भ रमादाय सत्वर

१८] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ८६३

कृच्छ्रात् द्रव्यं भरयेध समुपगमत् १

न्यषीद परिश्रान्तं क्लान्तं धितं १ १

ततस्तमभ्यगं जन् राजघर्मां स्वगोत्तम

गतेनाभं न द गौतम मित्रवत् ल १ २

पक्षा विक्षेपै म यपनयद्व

पूजां च करोद्धीमन् भोजनं च थाधि १ ३

त गौ संविदं तं स्वगोद्रद्विजसत्तमै

गौतमश्च तय मास रात्रौ स्य सर्मापत १ ४

ह कस्याभिरूपस्य भारोऽयं सुमहान् या

गृहीतो लोभमोहद्वैतं दूरं च गमनं १ ५

चास्ति पथि भोक्तयं प्रणस्य धारणं चित्

त्वा हि स्याद् २ति चिन्तय परोऽभवत् १ ६

तस्य पथि भोक्तयं पश्यमाने न किञ्चन

तं पुंषयात्र मनसेदमचिन्त १

गा

अयं व पति पश्चै संसरश्चितो महान्

इमं हत्वा हीत्वं ऽस्य यस्ये मांसमिति प्रभो



भो :

अथ तत्र महार्चिष्मन् अनले वायु रथि  
स्या विदूरे रक्षाथ गेन्द्रेण कृतो भवत् १ ९

स चापि पाश्व सुह प विश्वस्ते बकराद् तदा  
स दुष्टत्मा त जिघांसुरजागरत् ११

तते लतेन दीप्तेन सु निजघानम्  
निह च मुद युक्तस् अनुबध न दृष्ट न् १११

स त्पक्षरोमाण कृत्वाऽग्नावपचत् तद  
ग्रहीत्व वण च ययौ दूरतर द्विज ११२

दक्षायणीपुत्र नाग तु भारत  
रूप श्रिन्तयन् दये विदूयता ११३

ततेऽन्यस्मिन् गतेऽयं विरूपाऽत् तम् ११३

त :

न पश्ये रजधर्माणम् अद्य पुत्र खगोत्तमम्  
स पूः स ध्यां ण न्दितु याति नित्यद ११४

मा चादृष्ट्वा कदचित् स न गच्छति खगोत्त  
द्विरत्रमुभयो स ध्येर नाभ्यगच्छ मालम् ११५

तस्म ते भागे म स ज्ञायतां हत् ११६

ध्यायेन युक्तो हि र्चस जि

१८] शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्व ८६५.

|   |              |       |
|---|--------------|-------|
| गतस्तत्र                                | यात् द्विजाघ | १     |
| दुराचार स दुर्बुद्धिर् इङ्गितैलक्षि मया |              |       |
| निष्क्रियो दारुणाकार ष्णो दस्युरिवाधम   |              | ११८   |
| गातमस्स गतस्तत्र तेनोद्विभ्र मनो मम     |              | ११८ १ |
| पुत्र शाग्रमि गत्वा राजघम निवेशनम्      |              |       |
| झायतं स विशुद्धत्मा यदि जावति । चिरम्   |              | ११९   |
| मीष्मः                                  |              |       |
| स एवमुक्तस्त्वरि रक्षो भिस्सहिते ययौ    |              |       |
| न्यग्रोधे राजधर्मणम् अपश्य ह तत         |              | १२    |
| रुदित्वा बहुशस्तस्मै विलय च स राक्षस    |              |       |
| ते रोषसम विष्टे गा ग्रहणाय              |              | १२१   |
| गृही गौतम पापो रक्षोभि धर्मू तै         |              |       |
| राजधर्मशरै र ल चा यथोद्धतम्             |              | १२२   |
| मनु ज नगरं यातु नास्ततो गता             |              |       |
| धरकेषु घोरा गौतमस्य धे धृता             |              | १२३   |
| पि यस्त कङ्कले रजधर्मण                  |              |       |
| त दृष्ट्वा विस्मन राजा मात्य सगणोऽभवत्  |              | १२४   |
| आर्तनादो ब्रह्मनासीद् गृहे तस्य महत्मान |              |       |
| सङ्घस्य र जन् निहते काश्यपात्मजे        |              | १२५   |

रज चैवा वीत् पुत्रं पपो य वध्यतामिति १२६

राक्षसाः

अस्य मांस वय स्वादिष्य मस्समागता  
पाप त् पापकर्मा च पापात्म पापम त १२

हत ए हि प पात्मा कृ त्रो त्र सशय १२

विरूपाक्षः

कृत पापकर्मणं न भक्षयितुमुत्सहे  
द भ्यो दीयत मेव मित्रघ्नक् पुरुषाधम १२८

भी :

द सास्स सम हूत यातुधानास्तथ परे  
ने छित कृत त दितु पुरुषोत्त १२९

शिरोभिश्च गत भूमिं महाराज न नो बलान्  
मानार्थं ज तु निर्वन्ध किल्व दातुमर्हसि १३

यातुधान नृपेणोक्ता प पकमा विशस्यताम्  
भक्षयतां त्ययतां वाऽयं दर्शनान्मेऽपनायत म् १३१

ततस्ते रुषिता द साश शूलप सपाणय  
ख शे विकृत ९८ याद्ध्ये ह्यददस्तदा १३२

क्र याद स्त्वपि राजेन्द्र नेच्छन्ति पिशित शन  
मृतानपि हे यादा तान् नोपभुञ्जते १३३

१८] शान्तपर्वणि आपद्धर्मपर्व ८६

|   |     |
|---|-----|
| ब्रह्मस्वहरणे चरे ब्रह्मघ्ने गुरुतल्पगे   |     |
| निः तिर्विहिता द्वि तन्ने नास्ति निष्कृति | ३   |
| मित्रद्रह कृत च नृशस च नराधमम्            |     |
| याद य न स्वादनि कदाचन                     | १३५ |
| विद्वान् रय मास पार्थिवो र मिणम्          |     |
| गन्धर्वहुभिर यत्रो दाहयामा द्विजम्        | १३६ |
| द धे राक्ष राजेन खगराजे प्रत पिना         |     |
| चिताया पश्चतो दो सुरभिजा यच्च तम्         | १३  |
| तस्य व यु के ते दुग्धम त्रस्तद ऽनघ        |     |
| समीरणातो त चितां तां राजधर्मण             | १३८ |
| राजस्तत प्राप्तो वि पाक्षपुर दा           | १३९ |
| रूपाक्षेऽपि तं शक्रम् अयाचत पुन न         |     |
| श्यपस्य सुते दे भ्राता जा मिति            | १   |
| शैशिकस्त्वब्रवीत् स प्रियमाण न पुन        | १४  |
| इ दः                                      |     |
| ब्रह्मणा याहते रेपाद् राजधर्म कदाचन       | ४१  |
| यस्म त्व न गतो द्रष्टु मम नित्य सभामिम म् |     |
| तस्म द्व गृहे ह त त्र ण पापत्र धन         | १४२ |

1 यच्चन

श्लेषु तैवाभ्यायसमाहि श्ये

|   |     |
|---|-----|
| बद्धो भवतु घोरैश्च पाशैर्नागमयैर्भृशम्  | २   |
| इन्द्रः                                 |     |
| एतच्छ्रुत्व सभामध्ये तद्वाक् नारदेरितम् |     |
| याऽपि त राजे द्र यथावदनुवर्णितम्        | १ ३ |
| देवस्य चनाद् स्वर्गोऽय वकराडिह          |     |
| तेनै ऽमृतस्मि क्त पुन स िवतां वक्       | १४४ |
| भी                                      |     |
| राजधर्माऽपि त ाह सह ऽक्षमरिन्दम         | १४५ |
| गौर ऽ ह्यण सै मुञ्च मत्प्रिय सखा        | १४५ |
| वाक्य म ज्ञाय क शिकस्सुरसत्तम           |     |
| गै तम ं भ्यनु य प्रातोऽथ गमनोत्सु       | १४६ |
| प्रातित स गत सौम्य राजधर्मा स्वम लयम्   | १४  |
| नृशसो गै तमो मुक्ते मित्र क् रुषाधम     |     |
| भ ेप रो यातस् तत्तदा शबरालयम्           | १४८ |
| त्रा ि शबर गोहे प्रसूते निरयोपमे        | १ ८ |
| एष श पो महास्त्र मुक् स्सुरगणै था       |     |
| रूप क्षमुवाचेदम् ईश्वर प कश सन          | १ ९ |

इन्द्रः

य हृतो रोषाद् राजधमा कदाचन ५

ब्रह्मा—

त्त्व नागतो द्रष्ट नित्यमिमां भाम्  
तस्माद्भक्तो न् भावी र्मज्ञाल परत्मवित् ५१

आगमिष्यति े व स कद् चित् पापकर्मकृत्  
शवराव गो े कृत े वृषलीपा १५२

निह गौ मो मे स् तद् भावीत्युवाच तम् ५२

इन्द्रः

दे गे लोक ब्रह्मण परेष्ठिन  
स च पि निरय त्तो दुष्कृते लपांसन १५३

एतच्छ्रुत्व हृद्व क्य मध्ये नारदेरितम्  
मय ऽपि राजेन्द्र यथावदनु रितम् ५४

ब्रह्मणे च रापे च चोरे भग्न ते था  
निष्कृतिरिहे द्वि े न े निष्कृति १५५

यश तस्थान सुखम्  
श्रद्धेय कृत े हि कृतने नास्ति निष्कृति १५६

मे द्रोहो न कर् य पुरुषेण े शेषत

- 
1. द निह गो े  
2. राजन् 3. अ द्वयं ा

|  |     |
|--|-----|
| मित्रघ्नं निरय घेरं अनत प्रतिप ते          | १५  |
| १कृत नस यं मित्रभावेन चानघ                 |     |
| मित्र तत्प्रभवे स मित्रमन्यदिति स्मृतम्    | १५८ |
| अर्थाद् मित्रलाभाद्वा मित्रलभे िशयते       |     |
| सुलभे मित्रतोऽर्थं तु मित्रेण यतितु क्षमम् | १५९ |
| मित्र च भिमत स्निग्ध फल च पि स ां फलम्     |     |
| त्कारैस्त्वजनेपेत पूजयेत िचक्षण            | १६  |
| परित्याज्ये बुधै पाप कदर्यं कुलपांस        |     |
| मित्रद्रोहं कुलाङ्गार पापकमा नराधिप        | ६१  |
| थावच्च सभामध्ये प्रज्ञ प्रोक्ता मयाऽनघ     |     |
| मित्रद्रहि ते च । भूयश्श्रोतुमिच्छसि       | १६२ |

वंशम्पायनः

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| ए छुत्वा ततो क्य भष्मेणेत्त महात्मना |     |
| युधि र प्रीत ना बभूव जनमेजय          | १६३ |

ति िमहाभारे शतसहस्रिकायां संहिताया वैयासिक्यं  
शा ि चत्वार दधि िोऽध्यायः

८ ापद्धमपत्रि िोऽध्याय २ .

[ स्निग्धध्याय ६३ श्लोकाः ]

सप्तम्

## एकोनपञ्चाशदधिकशततमोऽध्याय



ध्मेण युधिष्ठिरं प्रति उच्छ्वृत्युपाह्णोपोद्घातकथनम्

(मोक्षधर्मपर्व)

युधिष्ठिरः

|  |   |
|--|---|
| धर्मा पितामहेनोक्ता राजधमाश्रि इशुभ        |   |
| धर्माश्रमिण श्रेष्ठ वक्तुमर्हति भारत       | १ |
| विष्मः                                     |   |
| सर्वत्र विहितो धर्मस्व स्वग्यस्सत्यफलोदय   |   |
| बहुद्वरस्य धमस्य नेहास्ति फला या           | २ |
| यस्मिन् यास्मस्तु विषये यो ये याति विनि म् |   |
| भिजानानि नान्य भरत त्त                     | ३ |
| यथा य च पर्ये लोकतन्त्रमसारवत्             |   |
| य तथ रागोऽजयते नुजाधि                      |   |
| एव यि ते लेके बहुदोषे युधि र               |   |
| अत्ममोक्षमिच्छं यद् यतेत मतिमान् नर        | ५ |
| अपि च त्व नर या श्रोतुमर्हसि मे कथम्       |   |
| पुर श यितो न रदे महर्षिणा                  | ६ |

1. ऽन

2. धच नारि चतुर्दि शदधानि ि



रर्षिर्नारदे राजन् सिद्धलोक्यसम्मत  
 पर्येति क्रमशो लोकान् स कदाचिन्महामुनि  
 देवराजालय ग प्रत्या तेऽभवत्  
 कृतक्षणमा निन पयपृच्छच्छचीपति

८

इन्द्रः

किञ्चिदाश्चर्यम् अस्ति त्वयाऽनघ

८

वद त्वमपि र्षे त्रैलोक्यं संचराचरम्  
 जातकौतूहलो नित्य सिद्धश्चरि िक्षिवत्

९

वेदित ॥ दे ॥ तव ॥

७ ऽप्यनुभूत दृष्ट यस्व मे

१

भीष्मः

राजन् सुरेन्द्राय नरदे दं र

आसी योप य प्रोक्तवान् विपुलां थाम्

११

यथ े च त्वेन स द्विजसन्तम

कथां थित न् प्रस् तथा त पि मे शृणु

१२

इति े सहस्रिकार्या ाहतार्या ैया  
 शान्तिपर्वणि एकानपञ्चाशदधिकशत तोऽध्यायः ४९

८८ तो धर्मपवणि प्रथ

[ २ प्रोकाः ]

1. —वायुरन्याहतो य 2. त्म म्

दाचि वास ेवर िलयङ्गतः

सत् व

पाठः]

## पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः

हापन्नपुरवारि विप्रेणातिथिं प्रति तरपूर्वकं

भी :

अ ीत् किल रुश्रेष्ठ महापद्मे पुरोत्तमे  
गङ्गाया दक्षिणे कूले कश्चिद्विप्रस्समाहित १

सोमो यो देवो ध्वलि सशय  
धर्मिनो जितो नित्यवृत्तो जितेन्द्रिय २

अहसानिरतो नित्यसन्नत्सल  
यायप्राप्तेन चित्तेन शालेन चान्वित ३

ज्ञातिसम्बन्धिविपुले पुत्रपौत्रान्विते  
कुले महतर्विख्यातेशिष्टां वृत्तिमास्थि

पुत्रान् बहुलान् दृष्ट्वा विपुले कर्मणि  
लेश्रितो राजन् धर्मचर्यामनात् ५

धर्मवेदोक्तधर्मलोक्तमेव च  
शिष्टचीर्णं च धर्मो त्रिधधत्तचेतसा ६

1 यान्वे गो जितो जितो भृगुः [ अन्तरम् ]

3. गान्वे जितो जितो भृगुः [ अन्तरम् ]

किं नु मे च्छुभ कृत्वा किं क्षम परायणम्  
इत्येव भिद्यते नित्यं न च निश्चयम्

तस्यै विद्यमा धर्मे परमके स्थित

द चिदतिथिं प्राप्तो ब्राह्मणस्सुसम हित

८

स तस्म सति या चक्रे यायुक्तेन हेतुना

श्रात चैनम् इदं चनमब्रवीत्

९

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रायाम् संहितायां वैयासिक्यां

शान्तिपर्वणि दशमोऽध्यायः ५

८८ पर्वणि द्वितीयेऽध्यायः २

[स्मिन्नध्याये ९ तः]

### एकपञ्चाशदाधकशततमोऽध्यायः



पृथग्विना ब्रह्मणा न तस्मात्प्रादशानपूर्वक  
शयनेति

ब्राह्मणः

समुत्पन्नाभिमतोऽपि ब्रह्माधुर्येण तेऽनघ

मित्रता भिपन्नस्तु किं द्रक्ष्यसि कृष्ण

१

गृहस्थधर्मं विप्रे द्रष्टव्यं धर्मगतस्त्वहम्

1. ग—धर्म प—पि :

2. विधाने स्मिन्

|   |   |
|---|---|
| क्या को हि मागा भवेद्दिज  | २ |
| हमात् नमात्मस्थम् एक एवात्मनि स्थित<br>ष्टमिच्छन् न पश्यात् बद्धसाधारणैर्गुणै   | ३ |
| यावदे नतीत मे पुत्रफलाश्रितम्<br>त्वदिच्छ मि पाथेयम् आदातु पारलौकिकम्   | ४ |
| न् हि श्रेकसत्कारे पर पारमभीप्सत<br>त्प मे मरिय तो धर्ममय पुत्र   | ५ |
| समू मानानि निश म्य लोके<br>निरुच्यमान नि च साधकानि<br>दृष्ट च धर्मध्वजकेतुम लां<br>र्य ण मुपरि प्रजानाम्              | ६ |
| न मनो रज्जति भोगर गैर्<br>दृष्ट्वा गं प्रार्थयत परत्र<br>तेनाथेर्वुद्धिबलाश्रयेण<br>धर्मेण धर्मन् विनियुङ्क्ष म त्वम् |   |

पिष्मः

सोऽतिथिर्वचनं तस्य श्रुत्वा धर्मभिलाषिण  
वैव च वचनं श्लक्ष्णं प्राज्ञो मधुरय गिरा

1. -एकार्थे पथि नितम्  
क कङ्कामि नेच्छामि

धिः

अह यत्र मु ॐ मम प्ये नोरथ

1 निश्चय यामि हुद्वारे ऽत्र तिष्ठति १

केचिन् ेक्ष प्रशसति केचि ज्जफल द्विज

3 नप्र श्र केचिद् गार्हस्थ्य केचिदाश्रित १

राजधर्माश्रया ेचित् ेचिदात्मफल श्रय

गुरुचर्याश्रया केचित् ेचि द्व क्रयसम श्रया १

मातर पि र ेचिच छुश्रूषणो दिव ग ।

या परे स्वग सत्येन च तथाऽपरे १२

आह ेऽभिमुखा केचिन्निहत े दि गत

ेचिदुच्छ्रवतै ेसद्भास् स्वर्ग ग यपाश्रिता १३

केचिदध्ययने युक्त ेद पराश भा

बुद्धिमन्तो ग स्वर्ग तुष्टात्माने जितेन्द्रिया १४

र्ज्वेन परे युक् । नेह न जवैर्जनै

ऋजवो न पृष्टे े शुद्धात् न प्रतिष्ठिता १५

1. सच्चि

2. त्तिविष्टे

. ग बुद्धि गो ग स्थ

4. ष्टितम्

5. —नास्तीदमर्धम्

बहुविधैर्लोकै द्वारैरनावृ

ममापि तिराविद्ध षलेस्त्रेव त्रयुना

१६

इति श्रामहामारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्य

शान्तिप णि एकपञ्चाशदधिकशततमो

५

लोक्षधर्मपर्वणि तृतीयो

३

[ सिद्धध्याये ६ प्रोक्ताः ]

द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽध्याय



तेधिना

ति श्रयस्साधनावगमना

पद्माख्यनाग-

पिपगमन तौदना

अतिथिः

उपदेश विप्रर्षे करिष्येऽह यथ गमम्

गुरुणा मे यथाख्यातम् अर्थत मे शृणु

त्र पूवा तिसर्गेण धर्मे चक्रं प्रति तम्

नैमिशे गोमतीतारे त्र नागालय महत्

२

म ि दशैर्यत्र इ साद् द्विजर्षभ

त्रेन्द्रा ि च मे ध ता रजसत्तम

३

कृता ि वासो धर्मात्म तत्र चक्षुश्च महान्

1. धूमरे

|  |    |
|--|----|
| हापद्मो महाभाग प इत्ये वि त              | ४  |
| स च र्मण चै मनस च द्विजर्षभ              |    |
| सादयति भूत नि त्रिविधे र्नि स्थित        | ५  |
| साम्ना दनेन भेदेन दनेनेते चतुर्विधे      |    |
| िषयस्थ जन च यथ ययेन रक्षति               | ६  |
| मुपक्रम विधिना प्रष्टमर्हसि ङ्क्षितम्    | ६  |
| स ते परमकान् धर्मान् न मिथ्य दर्शयिष्यति |    |
| स हि सव तिथिर्नगो बुद्धिशा विश रद        |    |
| गुणैरनवमैर्यु स् स सौराभिकागि कै         |    |
| प्रकृत्या ित्यसफलो नित्यमध्ययने रत       | ८  |
| पे दमाभ्यां सयुक्तो वृत्तेनानुपमेन च     |    |
| वा दान चि क्षान्तो वृत्ते च परमे स्थित   | ९  |
| सत्यव गनसूयुश्च शालव निति वि तु          | १  |
| शेष भोक्त वचनानुकूले                     |    |
| हितो ज ित्सृष्टकृताकृतज्ञ                |    |
| अवैरकृद्भूतहितेऽभियुक्ते                 |    |
| गङ्गा दा भोऽभिजनोपप                      | ११ |
| इ श्रीमद्भागवतेश सहि या हिता वैयारि      |    |
| नि पर्वणि द्विप- द्वादधिकश िऽध्यायः ५२   |    |
| ८८ प ि चतुर्थोऽध्ययः ।                   |    |

## त्रिपञ्चाशदधिकशततमो ध्याय

द्विषणेन धर्मावगतये प्रति गमनम् ।

|   |   |
|---|---|
| अतिभारोद्यतस्येव भ रापनयन महत्            |   |
| पर्याश्व र वाक्यम् इद मे भ श्रुतम्        | १ |
| अध्वकान्तस्य शयन स्थानकान्तस्य चासनम्     |   |
| तृषित े प न य धित े भोजनम्                | २ |
| ईप्सितस्ये स प्राप्तिरु अर्थ समेऽतिथे     |   |
| ए े तमजे ाले वृद्धस्ये सुतोद्भव           | ३ |
| न चिन्ति स्ये ाति धस्य दर्शनम्            |   |
| प्रदयि े ाक्य भव यदुदीरितम्               | ४ |
| दत्तचक्षुरिव शे पश्यामि ि मृश मि च        |   |
| ज्ञ नवचनाद्योऽयम् उपदेशो हि े त           | ५ |
| वाढमेव करिष्य मि यथा म भाषते भवान्        |   |
| इहेमां रजन साधो निवस या सह                | ६ |
| प्रभ ते य स्यति भवान् पर्याश्वस्त सुखेषित |   |
| असौ हि भग ान् सूर्ये म दरश्मि र ङ्खु      |   |

1. ग ाो ध मन्तः े द्वस्ये सुतां धा [ पाठा रम्



भीष्मः

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| स्तेन तातिथ्यस् सो तिथिशत्रुसूद    |    |
| स िल ां रात्र सह तेन द्विजेन       | ८  |
| त्त धर्सयुक् ये कथयतो द            |    |
| यतीत स नि त्त्व सु दे सोप          | ९  |
| प्रभाते यया तिथिस्तेन पूजित        |    |
| ह्यणेन यथाशक्त्या धर्ममभिकाङ्क्षता | १  |
| स्स िप्र कृतधर्मनिश्च              |    |
| कृताभ्यनुज्ञस्त्वजनेन धर्मवित्     |    |
| ेपदि भुजगेः स                      |    |
| जगाम ले तैकनि                      | ११ |

इति श्रीमहामार े शतसहस्रकाया संहिताय वैयासिक्य  
शान्ि धणि त्रिपञ्चाशदधिकश ऽभ्य . ५३

८८ धर्मपर्वणि िोऽध्यायः ५

[अरि षोकाः]

## चतुश्चाशदधिकशततमोऽ

ब्राह्मणेन नागा प्रति प्रवासि गो स्वगामननिषेदननिदेश  
पूर्वकं नदीपुलिनं प्रति म्

भी :

स वनानि चित्राणि तीर्थानि च रांसि च  
भिगच्च न्मेणाय मुनिमुपस्थित १

स तेन यथोद्दिष्ट ग विप्रेण वै द्विज  
पर्यपृच्छ थन्या तु च जगाम स २

सोऽभिग य यथ ख्या न गायतन र्थित्  
गो नहमस्मां भौशश दाल च ३

चश्शुत्व रूपिणी धत्सल  
द यामास विप्र नागपत्नी पतिव्रत ४

सा तस्मै धिवत् पूजा चक्रे धर्मपरायण  
गतेनासन दत्त किं करे च ५

:

विभ्यर्चित भवत्या श्लक्ष्णय गिरा  
श्रच्छि भवति तदे नागसत्तमम् ६

एतद्धि परमं कार्यम् एत मे फलमीप्सितम्

अनेनार्थेन चास्म्यद्य म्प्राप्त पन्नगालयम्

।

आय सूयथ ेहु गतोऽर्यो मे सद रक

ष्टभिर्दिनैर्वि दश यिष्यत्यसशयम्

८

ए िदितम र्य वि ासे ारण म

भर्तुर्भवति किञ्चान्यत् क्रियतां तद्वद मे

९

:

अनेन नि येन ह स ध्वि स प्राप्तवानिह

ीक्ष ागम देवि त्स्याम्यस्मिन् महा ने

१

प्राप्तस्यै चा यग्रम् आ ेऽहमि ऋत

भिगमन प्र े वाच चन त्वया

११

अहमप्यत्र े ामि गोमत्य पुलिने भे

ल परि िताह रो यथोक्त परिपालयन्

१२

भी :

स्स विप्रस्तां नागा सम धाय पुन पुन

तदे पुलिन नद्य प्रयय ाह्वणर्षभ

१३

इति े ाभारे तसहरिकाया द्विताया वैयाहि

ितपर्वणि चतुःपञ्चाशदधिकशत िोऽध्यायः ५

८८ ाक्षधमपर्वि िो ायः ६

[ े ३ . : ]

## प आशुदधिकशततमोऽध्याय



पुत्रि सिन फलाद्याहार थ गीथानाम  
वधिनिर्देशपूर्व प्रतिनि तन्म

भोष्मः

अथ तेन नरश्रेष्ठ ब्राह्मणेन पस्विना  
निराहारेण वसता दु खितास्ते भुज मा  
सव सम्भूय हितास् त न गस्य वान्ध  
भ्रा रस्तनय भार्या ययुस्त ाह्वण प्रति २

तेऽपश्यन् लिने तत्र ि के नियतव्रतम्  
म सीनं निर हार द्विज जप्यपरायणम्

ते सर्वे सम भिक्रम्य विप्रमभ्यर्च्य चासकृत्  
ऊचुवाक्यमसन्दि धम् आतिथेयस्य वान्धवा ४

नागाः

ष े हि दि सस्तेऽद्य प्राप्तस्येह तपे धन  
न चाभिलषसे ि श्चिद् आहार धर्मवत्सल ५

अस्मान भिगतश्चासि वय च त्वामुपस्थित  
कार्यं चातिथ्यमस्माभिरू य सर्वे कुटुम्बिन ६

मूल फल पर्ण व <sup>१</sup>पयो द्विज त्तम  
आहारहेतोर व भोक्तुमर्हसि ब्राह्मण ७

1. ग । याह

|   |                |
|---|----------------|
| त्यक्ताहारेण भवतः ने निवसतः सतः<br>बालवृद्धमिदं स पीड्यते 'सङ्करात्   | ८              |
| <sup>1</sup> नुप्रहाथमं कम् आह र तुर्मर्हसि<br>अनश्नं त्वयि न् ग ेम नरक वयम्<br>हि नो भ्रूणहं श्विद् राज ध्येऽनृतेऽपि<br>पूर्व कुले स्मिन् दे तातिथिव धुषु<br>ब्राह्मणः   | ९              |
| पदेशेन युष्माकम् आहारोऽयं मया त<br>द्विरून दशरात्र वै नागस्यागमनं प्रति<br>द्यष्टरात्रे निर्यां नागमिष्यति प ग<br>दाऽऽहर रिष्यामि मित्तमिह म्<br>तं ये च स तापे ग यतां च यथागतम्<br>तं मित्तं व्रतं बद्धं तं द्भेत्तुमिहार्हतं<br>तेन ते स नुज्ञात ह्यणेन भुजङ्गम<br>मे भवनं ज मुरं अकृतं र्था नरर्षभ<br>इति महाभारते सहस्रिकायां वैयासिक्य<br>शान्तिपर्वणि शदाथ ऽध्यायः ५५<br>८८ । धर्मपर्वणि ऽध्यायः<br>[ अरि ] | ११<br>१२<br>१३ |

## षट्पञ्चाशदधिकशततमोऽः

नागपत् सादाग िरं प्रति ब्राह्मणवचननिवेदनम्

मीष्मः

- अथ काले बहुतिथे पूर्णे मुजङ्गम  
द भ्यनु वेद ि १
- त भार्य समभिक्रामत् पादशाचा दि भर्गुणै  
पासीन च तां स ध्व प ग पयष्ट २
- नागः
- अ ि सि कल्याणि देवतातिथिभे जने  
पूषयुक्तेन विधिना का युक्ते मत्समम् ३
- अपि त्वमसि श्रोण ि बुद्ध्वा माद ि  
गेन श्रोणि वियुक्त धर्म तुन ४
- शिष्याणां गुरुशुश्रूषा विप्राणा देधारणम्  
त्यानां मि चन राज्ञ लोकानुपालनम् ५
- स भूतपरित्राण क्षत्रधर्म इहोच्यते  
वैश्य नां यज्ञ त्तिर तिथेयसम ि ता ६

1 -ख खल्वसि कृता वः

. ग क्षत्रियाणं 3. ग ि ति

- विप्रक्षत्रियवैश्यान श्रूषा शूद्रकर्म तत्  
 गृहस्थधर्मो नागेन्द्र सर्वभूतहितैषिता
- नियत ह रत ित्य व्रतचय यथ क्रमम्  
 धर्मो हे धर् स व धाद् इन्द्रियाणां विशेषणात् ८
- अह तो ऽह ा म भवेदि  
 प्रयोजनम िनित्यम् एव मेक्ष श्रो भेत् ९
- पति तात् भार्याय परमो धर् च्यते  
 ेपदेशा गो त तत्त्वेन वेद्मि वै १
- स ऽह धम विजानन्ता िनित्ये त्वयि स्थिते  
 सत्पथ थमुत्सृ यास्यामि िपथेन ११
- दे ननु मह भ ग धर्मचर्यं न ह यते  
 अतिथ न च सत् रे नित्ययुक्ताऽ तद्रित २
- सप्ताष्टदि सास्त् िप्रस्येहागत ११  
 स च र्यं न मे ख्य ति दर्शन १२ ते ३
- गो त्यास्वेष ि े दशन त्सु  
 आसीनो र्तयन् ाह्मण स शि १
- अह त नेन नागे द्र सामपूर्व समाहिता  
 प्रस्थ प्ये त्स ाशं स प्राप्ते भुजगोत्तम १५

१५ ] शान्तिपर्व मोक्षधर्मपर्व ८८

एतच्छ्रुत् महाप्राज्ञ वा ग तुमर्हसि  
दातुमर्हसि दर्शन दर्शनार्थिन १६

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां

शान्तिपर्वणि षट्षपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ५

८८ मोक्षधर्मपर्वणि १०ऽध्यायः

अस्मिन्नध्याये श्लोकाः

### पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः

ह्यणसन्दे वणरुष्टे गेन पत्नीमुवाक्ये रोषत्यागपूर्वकं  
प्रति म्

नागः

थ ह्यणरूपेण त नुपत्र सि  
मानुष केवल विप्र दे ऽथ चिस्मिते १

हे मां नुषत्रशक्तो द्रष्टुकामो यश्चि न  
सन्दर्शनरुचिर्वक्यम् आज्ञापूः दि यति २

रासुरगण नां च देवर्षेण च भ मिनि  
ननु नागा मह र्यस् स रसेयास्तरि न

वन्दनीय रद यमप्यनपायिन  
नुषणां शेषेण धन ६ क्षा इति श्रुति ४



नागो

आर्जवेनाभिजानामि नासौ दे गोऽनिलाशन

एक ८ विज ना भक्तिमान् च रोषण ५

स हि । न्तराकाङ्क्षा जलेप्सु यथ

ष ष प्रिय पक्ष दर्शन काङ्क्षे ६

न हि ८ । द त किञ्चिद् विघ्नितु प्रतिपालयेत्

ल्येऽप्यभिजने ज तो न क्त् पयुप ते

तद्रोष सहज त्यक्त्वा त्वमेन द्रष्टमर्हसि

आश च्छेदेन स्य नात्मान द धुमर्हसि ८

शय भि ानाम् अकृत्व ऽश्रु जनम्

र जा रजपुत्रे भ्रूणहत्यै युज्यते ९

ल्प हि त्वथ पूरयित्वा ऽनिलाशन

र्थनं परम ले श त्र्य समश्नुते १

र्थत र्थाभिहन् ते म भूत् कश्चित् नघ

सामध्य ति नागे द्र नरके स हि मज्जति ११

ने ज्ञाफला र्दनेन च यंशो हत्

1. ग द्विज मि त्त्वित् ेरा : [ म् ]

..... ति मानि ेक्षणे

3. गोजनम्

4. धन्वतुष्टय

—मौन ल सिदानेन [ न रम् ]

१५७] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व ८८२

वाग्मि सत्यव क्येन परत्र च महीयते २

भूमिप्रदानेन मह लभत्याश्रयसम्मिताम्  
नष्टस्यार्थं स प्रप्तिं त्वा<sup>१</sup> लाभमुप श्रुते १३

अभिप्रेताम द्विष्टा कृत्वा कामवत क्रियाम्  
न याति नरक श्रिद् इति धर्मविदो विदु १

:

अभिमानेन मानो मे त्दोषो हि मे मह न्  
रोष स ल्पतस्सि<sup>२</sup> द धे<sup>३</sup> गग्निन त्वया ५

न च रोपाद्दृ<sup>४</sup> ध्वि पश्येयमधि तम  
वै सक्ततां य त्ति विशेषेण भुजङ्गमा १६

रे हि श गत्वा दश ती प्रतापवान्  
तथा शक्रप्रि<sup>५</sup> पर्थी हतो र मेण युगे १

अन्त पुरगत त्स श्रुत्वा र मेण निर्हृतम्  
<sup>६</sup> ध<sup>७</sup> णाद्रोषदि धेन कार्त यस्सुत हत १८

जामदग्न्येन र मेण सहस्रनयनोपम  
सयुगो निहतो रोषात् कार्त यो महा ल १९

<sup>४</sup> थ श तिस्पध रो वशम गत

१. ग गा अश्रमसम्पद

३. ग रोषसंदिग्नाः

२. फलमुपाश्रुते

४. ग—अ

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| मान् ता निह ॑ युद्धे लवणेन तु रक्षस   | २  |
| तदेष तपस शत्रुश श्रेयसा विनिपातक      |    |
| नेगृहीतो मया रोषशु श्रुत्वैव चन       | २१ |
| आत् न च विशेषेण शसाम्यनपायिनि         | २१ |
| अ मे त्व विशाल क्षि भार्य गुणस न्वि । |    |
| एष तत्रव गच्छामि यत्र तिष्ठति स द्विज | २२ |
| स ॑था चोक्तान् काय नाकृत ॑ प्रयास्यति | २३ |

इति महाभारते शतसहस्रिकाय संहिते १ वैयासि क्वा

शान्तिपर्व सप्तपञ्चाशद १ : ५

८८ १० धर्मपर्वणि १०ऽध्यायः ९

[ १० अध्याये २३ श्लोकाः ]

### श्लाघा १०ऽध्याय



ह्यणयोस्सलापः

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| स पन्नगपति त्र प्रययौ ह्यण ति      |   |
| १ नसा ध्यायन् १र्यवक्ता विचिन्तयन् | १ |
| १ नागे १ तिमन् नरेश्वर             |   |

- 
1. ग रसनाम्ना
  2. ग १०मि भद्रे १०
  3. गन्ता वि १रयन्

प्रोवाच मधुर वाक् षमवत्सल २

नागः

भो तो गौम्याभिभाषे त्वां रोष कर्तुम सि  
सि म्प्राप्त किं योजनम्

आभिमुख्यादभिक्रम्य स्नेहात् पृच्छामि ते द्विज  
विविक्ते गोमतीतीरे त्व पर्युप से

धर्मारण हि । विद्धि नाग द्रष्टुं हागत  
पद्मन भं द्विजश्रेष्ठ तत्र मे र्यमाहि म् ५

चेह न स न्निव्य श्रुतानि त ग म्  
आया च प्रताक्षामि पज मिव ६

स्य चाक्लेशकरणे यस न्वितम्  
तैयाम्यमृत योगयुक्ते निर मय

नागः

अहे कल्य णवृत्तस्त्व साधु ज्ञानवत्स  
तमद्य त ह भाग पर हेन पश्यति ८

अह स न गे ि प्रषे यथ मां ि दते भवान्  
अ पय यथास्वैर ि रेभि प्रियं तव ९

भवन् जनाद ि प्राप्तं श्रु निह

|               |                                  |    |
|---------------|----------------------------------|----|
| ततस्त्वा      | इह द्रष्टुमभ्याग द्वेज           | १० |
| म्प्रा        | भ नद्य र्थ प्रतियास्यति          |    |
| विस्र         | द्वेजश्रेष्ठ विषये ये क्तुमर्हसि | ११ |
| वय हि         | वत र्णे गुण ी विशेष              |    |
| यस्त्वमात्महि | त्यक्त्वा मेवेह तुरुन्धसे        | १२ |

:

|           |                                |    |
|-----------|--------------------------------|----|
| आगतोऽ     | महाप्राज्ञ दर्शनल लस           |    |
| कञ्चिदर्थ | न प्रष्टामो भुजङ्गम            | १३ |
| अय        | त्मा मात्मस्थो म र्गते समाग म् |    |
| सार्थिना  | त त्मान चलचित्तमुपा ते         | १४ |
| शितस्त्   | स्वगुणैर यशे गर्भगभ भि         |    |
| शशा कर    | परैर लघैर त्मप्रकाशिभि         | १५ |
| त मे      | भ्रमुत्प म् अद्य ध्यनिल शन     |    |
| प त्      | य दे य मि श्रोतुमह ति मे भ न्  | १६ |

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां सहिताया  
शान्तिपवणि शशदि षोऽध्यायः ५

८८ मोक्षधर्मपर्वणि दशमोऽध्यायः

[ अस्मि ६ श्लो ]

|   |                              |                |
|---|------------------------------|----------------|
| 1 | ममित्तव                      |                |
|   | अहमात्मानम त्मस्थो ग षो गतम् | } [ पाठान्तरम् |
| 3 | सार्थिन प्राज्ञ चलचित्तमुपा  |                |

## एकोनषष्ट्याः ॥ १ ॥ अध्याय



ये प्रायितेन े सुयमण्डे तेत्रोन्तर  
दर्शन नम्

ब्राह्मणः

े गच्छत पर्वयेण  
ोदु भवांस्तं रथमेकचक्रम्  
अ यभूत यदि तत्र किञ्चिद्  
दृष्ट वया शंसितुमर्हसि त्वम् १

आ र्णामनेकानां प्रिष्ठा भगवान् रवि  
यतो भूता प्रजायन्ते े त्रैलोक्यसम्मत् २

रश्मिसहस्रेषु श स्वास्वि विहङ्गम

ेत्य मुनयस् सि दै तैस्सह

यतो एयुँनिस्तृत्य सूर्यरश् याश्रितो मह न्  
िजम्भत्य रे ि किमाश्चर्यम परम् ४

े नाम सित प दो यस्य रिधरेदरै

1

ना

े विशुष्केषु ेत्यमात् प्रिष्ठि :

धि : पाठः

|   |    |
|---|----|
| पयस्सृजति वासु किमाश्चर्यतर त             | ५  |
| ेऽप्रमासाश्चिना रुणेनोज्झित पय            |    |
| पयादत्ते पुन काले किमा र्यतर              | ६  |
| य तेजे नित्य त्म प्रतिष्ठित               |    |
| तो बज मही चेष घ ते सचर चरम्               | ७  |
| यत्र देवो महाबाहुश् शश्व रमोऽक्षर         |    |
| अनादिनिधनो विप्र किमाश्चर्य रं त          | ८  |
| याण मिह श्रयम् इदमेक तु मे शृणु           | ८  |
| मले यन्मया दृष्टम् अबरे सूर्यसश्रय त्     |    |
| रा मध्या स ये लो तपि भ करे                | ९  |
| त्यादित्यप्रता शस् सवत प्रत्यदृश्यत       | १  |
| लोकां जसा स न् भ स भासया                  |    |
| हुत ह तिरिव योतिर् य य तेजो मराचिभि       | ११ |
| अनिदश्येन रूपेण द्वितीय इव भार र          | ११ |
| त भिगमनप्र त्तौ हस्तो दत्तो विवस्वत       |    |
| ेन पे दक्षिणो हस्तो दत्त प्रत्यर्चन र्थिन | १२ |
| े भिरवेव गगन प्रविष्टे रविम लम्           |    |

1. इदम

दित्याभिमु ि गगन पाटयन्नि

दि : पाठः]

१६ ] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व ८९५

एकीभूतं च षेनादित्यता गतम् १

नस्सशयो जातस् योस्तेजस् गमे

अनयो वेत् सूर्यो स्त्रो गोऽ ४

जातसन्देहा पर्यपृच्छामहे रविम्

एष दिवमाक्रम्य गतस्सूर्य इवापर १५

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिच्छ्रयां यासिक्

शान्तिपर्वणि एकोनषष्ट्यधिकशतो ५९

८ मोक्षधर्मपर्वणि एकादशोऽध्याः :

[ अस्मि ५ श्लोकाः ]

### अधिकशततमोऽध्याय



गान प्रति सूर्येण प्रति तद्विम्बं वि उच्छ्रवृत्ति-  
मुनिस्वरूपं तम्

सूर्यः

नैष देवो न गन्धर्वो नासुरो न च पन्नग

उच्छ्रवृत्तिं ते सिद्धो मुनिस्त्वेष दि गत

एष मूलफलाहर शीर्षपर्णाशनस्तथा

अभक्षो आयुभक्षश्च आसीद्विप्रसहित २

ऋचश्चैनं विप्रेण सहितन्तरभिष्टु ।



|  |   |
|--|---|
| गृह्य र तोद्योगो ये सा त्रिदि गत         | ३ |
| धिरनाकाक्ष नित्यमुञ्च सिल शन             |   |
| सर्वभूतहिते युक्तो ह्ये विप्रो भुज       | ४ |
| एष तेन भावेण सम्प्राप्तो निर्मल गतिम्    |   |
| सु तेनास्य यत्नेन स्पृहयन्ते भ द्विधा    | ५ |
| न हि देवा न गन्धर्वा असुरा च प ग         |   |
| प्रभवन्ताह भूतानं प्राप्तानां परमं गतिम् | ६ |

।गः

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ए दे िधं दृष्टम् आश्रय तत्र मे द्विज  | ६ |
| ससिद्धो मानुष कश्चिद् योऽस सि गतिं गत |   |
| सूर्येण सहितो न् थिवा परिवर्तते       | ७ |

इति श्रीमहाभारतेशतसहस्रिकार्यासंहितार्यावैयासिकार्या

ान्तिपर्वणि यधिकशतत गोऽध्यायः ६

८८ गो धर्मपर्वणि द्वादशोऽध्यायः २

स्मि े श्लोकाः]

### एकषष्ट्यधिकशततमोऽध्याय

ब्राह्मणेन गामन्तणपूर्वकमिष्टदेशं प्रति गन्तुम्

- आश्रयं ना दे स् सुप्रीतोऽस्मि मुज  
अन्वर्थे पगतैर्व क्रयै पन्थ न चाि दर्शित १
- स्ति तेऽस्तु गमि यामि ाघो मुजगसत्तम  
रणीयोऽस्मि भवता स प्रेषणनियोजनै २
- नागः
- नुक्त् । मद्रत ायं केदाना प्रस्थितो भ न्  
उच्यता द्विज त् काय यदथ मिहागत ३
- उक्त नुक्ते तु ते कार्ये समाम -य द्विजर्षभ  
या प्रत्यभ्यनु ातस् तो यास्यसि ाह्मण ४
- हे ां केवल दृष्ट्वा त्यक्त्वा प्रणयवानिह  
१ गन्तुमर्हसि ि प्रषे वृक्षमूः गे यथा ५
- त् यि चाह द्विजश्रेष्ठ भ न् यि न सशय  
ोकोऽय भ तस्सि का चि मयि तेऽनघ ६

1. ग ातिरिक्तस्त्वा हस्त्वा ि म्

:

ए ।

वम् एव भुज

[ वि : पाठः ]

. ग - द्व ि

ब्राह्मण.

|                               |                     |         |
|-------------------------------|---------------------|---------|
| एवमेतन्मह                     | नाथ भुजङ्गम         |         |
| निरिक्तास्त्वया दे            | थेह यथ थम्          |         |
| एष चाह ए                      | तम् ए               | भुजङ्गम |
| अह भव भूता                    | वत्रग दा            | ८       |
| अ सात्तु मे भोगिपते सश        | पुण्यस ये           | ८       |
| योऽहमुञ्छ त                   | घो चरिष्ये र्मदाशभि |         |
| एष मे नि य स घो कृत कार वत्तर |                     | ९       |
| अ मन्त्रयामि भद्र ते          | थ स्मि भुजङ्ग       | १       |

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रि संहितार्या वैयासिक्या  
 ण्तिपवाण चि ।। . ६  
 ।। मंपर्वणि ।।द ।। . ३  
 [असि ~ श्लोकाः ]

द्विषष्ट्यधिकशततमोऽध्याय



भीष्मेण युधिष्ठिरं प्रत्युच्छृत्युपाख्यानोपदेशपरम्पराक्रमकथनपूर्वक  
मुच्छ्रुत्तिब्राह्मणस्य धनम्

भीष्मः

- समामन्त्र्योरगश्रेष्ठ तनिश्चय  
दीक्ष इक्ष्णीं राजन् भार्गव्यं न श्रित १
- तेन तसस्कारो धर्ममेवावजह्निवान्  
तत्रैव च कथामेतं राजन् धितवांस्तद २
- भार्गवेणापि राजेन्द्र जनकस्य निवेशने  
कथैषा कथि । पुण्या नारदाय महात् ने  
नारदेनापि राजेन्द्र देवेन्द्रस्य निवेशने  
धित दत्त श्रेष्ठ पृष्टेनाह्लिष्टकम् ४
- देवराजेन च पुरा कथैष धित विभे  
समस्तेभ्य प्रशस्तेभ्यो वसुभ्यो वसुधाधिप ५
- यदा च मम रमेण युद्धमसीत् सुदारुणम्  
सुभि दा राजन् कथेय धिता म ६
- पृच्छम ना तत्त्वेन मय ऽ यद्य भ तव

1. ग मनुभ्यो

ये श्रेयसि पुण्या धर्मभृता र  
 तदेष परमो यन्म पृच्छति भार  
 त्त्रिधिरनाकाङ्क्षी मर्थकरणो नृप

८

स च किल कृतनिश्चयो द्विजातिर्  
 भुजगपतिप्रतिशितार्थ ल्य  
 यमनिय समाहितो वनान्त  
 र्गणितोऽञ्जसिलाशनप्रविष्ट

९

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां सितार्यां वैयसि कर्वा  
 पर्वणि द्विषष्ट्यध्यायः ६२  
 अक्षधर्मपर्वणि चतुर्दशोऽध्यायः  
 [अस्मि ९ श्लोकाः]  
 (उच्छ्वस्त्युपाख्यान समाप्तम्)

## त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्याय



भीष्मेण युधिष्ठिरं प्रति ऽऽ प्रसेनजित्सवादानुवादः  
जितं प्रति पिङ्गलोपाख्यानकथनम्

प्रेषण

युधिष्ठिरः

नष्टे धने । दारे । पुत्रे पितरि वा मृते  
यया बुद्ध्वा नुदेच्छे ता े ब्रूहि पितामह १

भीष्मः

नष्टे धने वा दारे पुत्रे पि रि । मृते  
अहो दु मिति न्य यञ्च ोकस्यापचित चरेत् २

युधिष्ठिरः

1 —धर्माः पितामहेनोक्तार मश्रितास्तुभाः  
धममाश्रमिण श्रेष्ठ वक्तुम सि पा

भी :

विहि तो धर्मस्वर्ग्यसत्यफलोदयः  
बहूद्वारस्य धमस्य ने ऽऽ विफला  
स्मिन् यस्मिंस्तु । इय े यो यातः वेनि म्  
े रि ात ना भरतसत्तम  
य ऽऽ पिप्ये ोकत सारवत्  
थ विरागे े न ऽऽ शयः  
एव व्यव े े े द े धि

ममोक्षनि त्त व ति ऽऽ न्नरः [ अधकः ]

2. धृष्टय ना

J II 16

यथ यथ विपर्येति लोकेत त्रवत्  
तथा तथा विरागोऽत्र जायते न त्र सशय ३

अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहास पुरतम्  
यथ तेनजि विप्र कं दित्यत्र त् सुत् ४

पुत्रशो भिसन्त र जान शोकं ह्वलम्  
विषण्णवदन दृष्ट्वा विप्रो चतम तीत् ५

विप्रः

विं नु मुह्यसि मूढ न् तोच्य किमनुशोचं  
यद् तामपि तोचन्तश तोच्या या न्ति गतिम् ६

त च ह च ये च ये त्वा र जन् र्युपा  
सव गमिष्यामे य श्रैव गता यम्

सेनजित्—

बुद्धिं पो वि समाधि पोधन  
वि ज्ञानं श्रुत ते यत् प्रा य विष दसि ८

:

य तम द त सुखदु खविपयये  
आत्म न नुशोचामो ममैष हृदि सस्थि ९

संभूतां दु खेन यतिषक् ने पश्य

1. ग द्व नां

अहमेको मे कश्चिन्नाहमन्यस्य कस्यचित्

पश्यामि इह पश्यामि  
आत्माऽपि चाय सा पृथिवी

यथा मम यऽन्येषाम् इति चिन्त्य न मे  
एता बुद्धिमह प्राप्य प्र ष्ये व्यये १२

यथा च काष्ठ समेयात् महोदधौ  
समे च यपेयाता तद्वद्भूत मागम १

एव पुत्रा दारा ज्ञातय<sup>४</sup>श्चाथ वा  
तेषु हो न कतठो विप्रयोग तैर्ध्रव

अदर्शनाद पतित नश्चादशन गत  
न ऽतौ वेद त त् मनुशोचसि १५

सुखान्तप्रभव दु दु खान्त सुखम्  
सुखात् ते दु दु त यते सुखम् ६

सुखस्य नन्तर दु दु खान्तर सुखम्  
सुखान्ते दु खमप पुनरापत्स्ये स्वम् १

<sup>५</sup> नित्य लभते दु ख नित्य भते सुखम् १

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. ग—अध्वय नादि | 2. धपद्रक नादि |
| 3. चतुष्टयं ना  | 4. स्सुहृद     |
| 5. -क           | दिमधम्         |



|   |                                  |    |
|---|----------------------------------|----|
| नाल सुखाय                                   | दो नाल दु खाय <sup>1</sup> दुहृद |    |
| च प्रज्ञाऽल यानि नं                         | खानामल धनम्                      | १८ |
| बुद्धिर्धनलाभ                               | न मौह्य मृद्धये                  |    |
| लोकपर्ययवृत्तान्त प्र                       | ो जानाि नेतर                     | १९ |
| बुद्धिम त च मूढ च शूर भ रु काव ज म्         |                                  |    |
| दुर्बल बल                                   | च भ गिन भजते खम्                 | २  |
| धेनुर्वत्स गोपस्य                           | मिनस्तस्करस्य च                  |    |
| प पिबति यस्तस्या धेनु                       | स्येति निश्चय                    | २१ |
| <sup>३</sup> ये च मूढ म लोके ये च बुद्धे    | पर गता                           |    |
| ते नर स्मुखमेध ते क्ति यत्य तरितो जन        |                                  | २२ |
| अन्ते रेि रे धीरा न ते मध्ये रेमिरे         |                                  |    |
| तप्रा सुख प्रादुर दु खम रमन्तयो             |                                  | २३ |
| ख पिति दुर्मेध स् नि कर्मा यचि तयन्         |                                  |    |
| अि ज्ञाने महत बलेनेव सवृत्                  |                                  | २  |
| ये बुद्धि परं प्राप्त द्व द्व त ता विमत्सरा |                                  |    |

---

1. —श : ।दम म्

3 : रिण

गभाधाने बन् ने ति धे

उ य...न नि रे रे

। खर्ष ागम त्तिम्

[ धिकः १० ]

१६३] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व ९५

तान् नैवा<sup>१</sup> न चानर्था यथयन्ति कदा २५

अथ ये द्विमप्राप्ता व्यतिक्रान्ताश्च मूढताम्  
तेऽ<sup>२</sup> विवे प्रहृन्ति सन्तापमुपयान्ति च २६

नित्यं मुदित मूढास् तस्मैयगणा इव  
अवलेपेन महता परितृप्ता विचेतस २

सु दु तमालस्यं दु दक्ष्य सुखोदयम्  
भूतिश्चै प्रिय सार्धं दक्षे सति नालसे २८

सुख वा यदि । दुःख प्रिय । यदि ।ऽप्रियम्  
। त्त प्रा मुपासीत दयेनापराजित २९

शोकस्थानसह । णि भयस्थानशतानि च  
दिवसे दिवसे मूढम् आविशन्ति न पण्डितम् ३

बुद्धिम<sup>३</sup> त ज्ञ श्रुषु मनहङ्कृतम्  
शा त जितेन्द्रिय च पि शोको न शते नरम् ३

एतां बुद्ध समास्थाय शुद्धचित्त रेदुध  
उदयास्तमयज्ञ हे न शोक प्रष्टमहति ३२

यन्निमित्तो भवे छोकस् त्रासे । क्रोध ए वा

1 दिदि दव 2. मनसूयकम्

3 । 4: ग गुप्तचित्त

5. ग—शु कृष्णगतिज्ञ देवासुर<sup>४</sup> निगतम् [ दि . पाठः ]

आ गो । यतो मूः दे ज्ञमपि त्यजेत् ३३

यद्यन्यजति ।नां त् सुख भिपूर्ये  
नुसारा पुरु माननुवि श्यति ३

ख के दि य महत् सुखम्  
तृष्णाक्षयसुखस्यैते न हत षेडश कलाम् ३५

कर्तारमार्जितं म यदि ।ऽशुभम्  
मू च शूर च भजते तादृश नरम् ३६

स्वकर्मणा बलेनै प्रियाण्येवाप्रियाणि च  
ज वे परिवर्ते दु खानि च सुखानि च ३

एतां बुद्ध समास्थ य न वसिदेद्रुणान्वित  
स न कामाञ्जगुप्सेत धे त्व तु पृष्ठत ३८

वृत्त एष हृदि प्रौढो मृत्युरेष मने भव  
क्रोधे नाम शरीरस्थो देहिना प्रोच्यते बुधै ३९

द हरते मान् कूमऽङ्ग नीव स श  
तदऽऽत् ये तिरात् श्रीर आत्मन्येव प्रसीदति ४

दे त्वेन यद भवति कल्पितम्

1. —पूर्वदेहकृ

नि

3. ग—काप

- तदे परितापाय नाशे न्य ते तदा  
 न विभेति यद् चाय यदा विभ्यति  
 यद् नेच्छति द्वेष्टि न्यद्यते तदा २
- उभे सत्यानृते त्यक्त्वा शोकानन्दौ मयामये  
 प्रिया प्रिये परित्य य प्रशान्तात्मा भविष्यति ३
- यद् कुरुते धीरस् स भूते पापकम्  
 कर्मण मनस वा स पद्यते तद्  
 य दुस्त्यज दुर्मिभिर या न जीयति जोर्यत  
 येऽसै प्राणान्ति जे रोगस् तृष्णा जतस्सुखम् ५
- त्र पिङ्गलया गता गाथा शृणु नर धिप  
 कृच्छ्रकालेऽपि लेभे धम न नम् ६
- कदाचित् पिङ्गला वेश्य कान्तेना गी द्विनाकृत  
 अथ कृच्छ्रग शान्तां बुद्धिम स्थापयत्तदा  
 उव च वचन बुद्ध्या स सम्यक्कत निश्चय ८
- पिङ्गला  
 उ-मत्तऽहमनु मत्तं अन्तमन्ववस चिरम्  
 अतिके रमण यान्त नैतमध्यगम पुरा ४९

1. व सस्पृश्यते २ 2 इ ना  
 3. १ 4. ग इदमध नादि

- एकस्थूण नवद्वारम् पिघ स्याम्यगं रकम्  
का ह्यकान्त मेह या कान्त इत्यभिम ते ५
- अ ामा कामरूपेण घूर्ताश्च नररूपिण  
न पुनर्व ये यन्ति प्रतिबुद्ध ऽस्मि जागृि ५
- अनथाऽपि भ त्यथ द त् पूवकृतेन  
सम्बुद्धाऽह निर कारा नाहमद्या जितेि द्रय ५२
- विप्रः
- सुख निराशस्वपिति नैराइ परम खम्  
अ श मन शा कृत् । हि सुख स्वपिति पिङ्गला ५३
- भी :
- एतै । यैश्च ि स्य हेतुमद्भि प्रभाषितै  
पर्यवस्थापिते राजा सेनजिन्मुमुदे सुखम् ५४

इति श्रीमहाभार शतसहस्रिकायां तथा वैयासिक्यां

त्रि प ि यधि िऽध्यायः ६३

८ िऽ पर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ५

[ स्मि े ५ श्लोकाः ]

६४] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व

चतुष्पष्ट्यधिकशततमोऽध्याय



भीष्मेण युधिष्ठिरं प्रति द्रुपतरपातितया  
 ।दनीयतः प्रमाणतया पितृपुत्रसंवादानुवादः ।

युधिष्ठिरः

तिक्रामि कालेऽस्मिन् सर्वभूतक्षय वहे  
 । श्रेय तेष्येत तन्मे ब्रूहि पिताम १

भीष्मः

अत्र प्युदाहर मम इति र नम्  
 । पुत्रेण स दं त नि षेध युधिष्ठिर २

द्विजाते कस्यचित् पाथ ध्यायनिरतस्य वै  
 बभूव पुत्रो मेधा । मेधावा ।म नामत ३

सोऽब्रुवं त् पि र पुत्रस् स्वाध्य यकरणे र म्  
 मोक्षधर्मार्थं शले लोक<sup>१</sup>धमविचक्षण ४

:

धार किंस्वित्तात र्याच्छुभार्थी  
 क्षिप्र युर्भ्रश्यते म नवानाम्  
 पि स्तद चक्ष यथाथ षेग  
 मानुपूः र्याद् येन धम चरेयम् ५

पिता

वेदानर्धं त्वं ब्रह्मचर्येण पुत्र

त्रानिच्छेत् पावना पितॄन्

अग्नौ नाधाय विधिवच्चेष्टयज्ञो

न शिष्याथ मुनिर्बुभूषेत्

६

एवमभ्याहते लोके मन्त्रात् परिवारिते

अमोघासु पतन्तः । धीर इव भवसे

यं भ्याहतो लोकेन परिवारित

अमोघाकापन्तः ह्यनुभाषयसा माम्

८

पुत्रः

मृत्युनाऽहतो लोको जरय परिवारि

अहोरात्रा पतत्येते ननु कस्मिन् बुभूषे

९

पता

यथाऽहमेतज्जमि न मृत्युस्तितीति ह

तेऽहं प्रतीक्षिष्ये जालेनेव वृत्तश्ररन्

१

1. गोघाः सम्पत्तिह

2. रि

3. नास्तादृशम्

4

१ ] शान्तिपर्वणि मोक्षवर्मपर्व १०१

पुस्तः

रा या व्यतीतायाम् आयुरल्पतर यद्  
गाघोदके इव घृा विन्दे को नर ११

यामेव रात्र थमा गमा भजति मातरम्  
तामे रात्र ाति मरणायानिवर्तक १२

रात्र्या यतीताया किञ्चिच्छुभमाचरेत्  
दे वन्ध्य दे म् इति विद्याद्विचक्षण १३

पाणीव चिन्वन्तम् अन्यत्र ग मानसम्  
रणमा मृत्युरादाय ग ति १४

द्य कुरु यच्छ्रेयो मा तं कालेऽत्य ादयम्  
अकृते वेव कार्ये मृत्युर्वै स र्षति १५

श्व यमद्य पूर्वे चापराहिकम्  
न हे प्रत क्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम् १६

हे जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भवि यति  
न मृत्युरामन् यते हर्तुका जगत्प्रभु १

1. रात्र्यां रात्रे प ये ननु व्ये  
या आयुरल्प तदा [पाठ तरम्]
2. चतुष्ट रि
3. विञ्चित् कुरु भम्
4. वैद्वय नारि



|  |    |
|--|----|
| अबुद्ध ए क्रमते मीनान्मीनग्रहे यथा   | १  |
| युवैव धमशील स्याद् अनित्य खलु जीवम्<br>ते धम भवेत् कीर्त्त इह प्रेत्य च वै सुखम् | १८ |
| मोहेन भिस विप्र पुत्रद रार्थमुद्यत<br>ता आयम आय ता तुष्टिमेभ्य प्रयच्छति         | १९ |
| पुत्रपशुस मत्त यासक्तम स नरम्<br>सुप्त यात्र इवा षो मृत्युरादाय ग ति             | २  |
| सञ्चिन्तन का यान्त ताम नामवित्त्वम्<br>या पशुमिवार ये मृत्युरादय गच्छति          | २१ |
| इद तमिद कार्यम् इदमन्यत् कृतम्<br>एवमाहासम युक्त कृता त रुते शे                  | २२ |
| तानां फल प्र कर्मण फलसङ्गिनाम्<br>क्षेत्र पणगृह सक्त तन्त कुरुते वशे             | २३ |
| दुर्बल बल त च शूर भीरु कविं जम्<br>तप्तसि त्माथ मृत्युरादाय गच्छति               | २४ |
| इद मे दिद मे द् इत्ये मनस नरन्   |    |

1 अधद्वयं हि

2. मृत्युरादाय

3 ध्वञ्चतुष्टि त्ति

१६ ] अन्तिपर्वणि क्ष्वर्मपर्व ९

|  |    |
|--|----|
| प्रेषु कामेषु कृतान्त कुरु शे                      | २५ |
| मृत्युर्जर च धि दु चानेककारणम्                     |    |
| अनु क यद् देहे इव तिष्ठसि                          | २६ |
| जातमेव तकोऽन्वे <sup>१</sup> जर चान्वेति देहिनम्   |    |
| अनुषक्ता द्वयेनैते भा रजङ्गम                       | २७ |
| मृत्यो <sup>२</sup> गृहमेतद्धि । मे वसतो रति       |    |
| देवानामेष वै गोष्ठो यदरण्यमिति श्रुति              | २८ |
| निव धन रज्जुरेषा या मे तो रति                      |    |
| छिन् तां सु तो यन्ति ननं छिन्दति दुष्ट त           | २९ |
| १ये हि सयच्छति णान् मनोव कायहेतुभि                 |    |
| जी वित र्थापनयन प्र णिभिर्न स बध्यते               | ३० |
| न मृत्युसेन मायान् । जातु कश्चित् बाधते            |    |
| ऋते सत्यमस त्याज्य सत्ये ह्यमृतमा हितम्            | ३१ |
| स्मात् सत्य ताचारस् सत्ययोगपर यण                   |    |
| सत्यार समो दान्तस् सत्येनै तक् जयेत्               | ३२ |
| अमृत चै मृत्युश्च द्वय देहे प्रति <sup>३</sup> तम् |    |
| मृत्युर पद्यते मेह त् सत्येन पद्यतेऽमृतम्          | ३३ |

१. यः प्राणिः
२. च
३. नारि

तोऽहं हिं सत्यार्थं कामक्रोधबहि कृत  
समदुःखसुखक्षेमा मृत्युं ॥ ३४

शान्तियज्ञरतो दान्ते ज्ञरते मुनि  
वाङ्मन र्मयज्ञश्च भविष्याम्युदगने ॥ ३५

पयैथ हिंश्चैर्मादृशे श्रमर्हति  
अङ्घ्रिह प्राज्ञ क्षुद्रय पिश च त् ॥ ३६

वाङ्मनसी गुप्ते यक् णिहिते भे  
तपस्य गौगश्च ॥ ३७

१। स च रूना १। त्यस बलम्  
ना १। र ग दुःख ना १। त्यागसम सुखम् ॥ ३८

२। अत्मन्ये त्मना ज त आत् न १। प्रजोऽपि ॥  
आत्म येव भविष्य १। न मा १। रयति प्रज ॥ ३९

नतादृश १। णस्यास्ति १। त्त

यथैकत सम सत्य १। च

शाल स्थितिदण्डनिधानमाज

तत गोपरम १। भ्य

1. ग हि बलम्

—अध्वय नागि

3. धम्

वि ते नैर्बान्धवैवा पि किं ते  
 ते दारैर्ब्राह्मण यो मरिष्यसि  
 आत्मानमन्विच्छ गुह प्रविष्टं  
 पित महस्ते गत पिता च

भीष्मः

त्रस्यैतद्वचश्शुत्व ऽकार्षीत् पिता नृ  
 था पि ते सत्यधर्मपरायण २

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां  
 शान्तिपर्वणि चतुष्पष्टयधि ऽध्यायः  
 मोक्षधर्मपर्वणि १० . . ६  
 [अस्मिन्नध्याये २ श्लोकाः]

प यधिकशततमोऽध्याय

॥३॥ युधिधि प्रति दारिद्र्यधनिकत्वयाः क्रमेणार्थानर्थसाधनत्वे  
 गीताय अनु ।द'

युधिष्ठिरः

धनेने ये धन ये च वर्तते तणि  
 सुखदु गमस्तेषा थ वा पितामह १

भी :

अत्र प्युद हरन्तीमम् इतिह स र तनम्

|  |   |
|--|---|
| शम् ेन विमुक्तेन ग त शानि गतेन वै  | २ |
| अ वीमां पुरा श्विद् ाह्णस्य गमास्थित<br>छिद्यमान दारेण कुचेल्लेन बुभुक्षय      | ३ |
| उपन्न ह लो वै ज मप्रभृते म नवम्<br>विविध युपवर्त ते दु ख नि च सुखानि च         | ४ |
| तयोरेकतरो म ग यदेनमुपस मेत्<br>न ख प्र हृष्येन्न दु ख प्राप्य सङ्घरेत्         | ५ |
| वै चरसि यच्छेय आत्मनो । न ईशिषे<br>अका त्म ऽपि हि यद धुरमुद्यम्य चै हि         | ६ |
| <sup>१</sup> अ न परिपतन् सु मास्व दयिष्यसि<br>अ नस्सुख शेते सुख च प्रतिबुध्यते |   |
| आ किञ्चन्य सुख लोके पथ्य शिवमनामयम्<br>नमित्र थो दुलभस्सु भस्स ाम्             | ८ |
| अकिञ्चनस्य शुद्धस्य उपपन्नस्य र्वत<br>अक्षमाण न तुल्यमुपलक्षये                 | ९ |
| आकिञ्चन्य च र य च तुलय समतलयम्<br>अत्यरिच रिद्य र यादपि गुण धिक त्             | १ |
| अ किञ्चन्ये च राज्ये च विशेष सुमहानयम्   |   |

|   |    |
|---|----|
| नित्योद्विग्नो हि धनवान् खोर यथा        | १  |
| नैवास्य िन चादित्यो न च <sup>१</sup>    |    |
| भव ि धन हर्तुम् इतरे यु                 | १२ |
| त वै सदा म रम् अनुपस्तीर्णशायिनम्       |    |
| हूपध न श यन् स्पृहयन्ति दि स            | १  |
| वान् ि श्रेभाभ्याम् अ विष्टो नष्टचेतन   |    |
| तिर्यग्दृष्टिश्च क्मुख पापको भ्र ट्मुख  | १  |
| निर्दश रोष्टं स क्रद्धो दारुणभ पित      |    |
| मि छेत् परिद्रष्टु दातुमि ति चेन्महाम्  | १५ |
| श्रिय ह्यर्भ क्षण स ि ह सविचक्षणम्      |    |
| सोऽ चि ि रिति शारदाभ्र िवानिल           | १६ |
| अथैन रूपमान धनमान विन्दति               |    |
| अभिजातेऽस्मि सिद्धोऽस्मि नास्मि िवलमानु |    |
| इत्येभि रणै त्य त्रिभिः त्त सि ये       | १  |
| स प्रसिक्तमन भेगन् िसृज्य पितृसति तान्  |    |
| परिक्ष ण परस्वानम् आदान बहु यते         | १८ |
| मति िन्तमर्यादम् अ दद नमस प्र म्        |    |

1. दस्य : 2. प्रशसति

3. प्रसा न्यते शस्यते

|  |    |
|--|----|
| प्रतिषेधन्ति राजानो लुब्धा मृगमिवेषुभि           | १९ |
| ते तानि दुःखाणि तानि तानीह मानवम्                |    |
| विविधान्युपवत ते गात्रसम्पर्शजानि च              | २  |
| तेषां परमदुःखं ना बुद्ध्या भैषज्यमाचरेत्         |    |
| श्रेयधर्मं समाज्ञाय णामघ्नवस्सह                  | २१ |
| नात्यक्त्वा सुखमात्मानं नात्यक्त्वा विन्दे परम्  |    |
| नात्यक्त्वा निर्भयश्चेते वै त्यक्त्वा सुखी भवेत् | २२ |
| इत्येतद्वास्तिनपुरे ब्रह्मणेनोपनिर्णीतम्         |    |
| शम्य केन पुरा मह्यं तन्यागं परो                  | २३ |

इति श्रीमहाभारत शतसहस्रिकायां द्वितीयां अस्ति कथां  
 अन्तिपर्वणि यधिकशतं तिस्र्यथा ६५

८८ श्रेयधर्मपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः :

[स्मिन्नध्याये २३ श्लोकाः]

## षट्षष्ट्यधिकशततमोऽध्याय

भीष्मेण धिष्ठिरं प्रति विरक्तेः सुखसाधनतायां  
गीताया अभ्यगी श्रानुवादः

मङ्गि

युधिष्ठिरः

इहमानस्समारम्भान् यदि ना दयेद्ध म्  
धनवृणाभिभूत एक कुर्वन् यात् १

:

सं साम्यमनयासस् सत्यव क्रय च भारत  
निर्वेदं चित्स च स्यात् स सुखं नर २

एतान्ये पदान्याहुः प वृद्धा प्रशान् ये  
एष स्वर्ग्यं धर्मं सुखं चानुत्तमं सताम्

अत्रा युदाहरन्तीमम् इतिह रतनम्  
निर्वेदं न्मिना गीतं तं षोडश्याधुष्टिर

इह नो धनं मरि र्भग्नेह पुन पुन  
नापि धनलेशेन क्रीतं न् दम्यगोयुगम् ५

स बद्ध तु तौ दयौ दमनाया भिनिस्सृतौ

सि नमुष्ट् मध्येन सहसै अभ्यधावताम् ६

तये स प्रपयोरुष्ट् क घदेशममर्षण

1. इ : इ पादा



|   |    |
|---|----|
| उत्थ योत्थ य द यै तौ ससार हाजव                | ७  |
| णि णा तौ य तेनोष्ट्रेण प्रमाथिना              |    |
| म्रियमाणौ तु स प्रेक्ष्य क्लिस्तत्रेदमत्रव त् | ८  |
| मङ्किः  |    |
| न त्वविहि शक्य दक्षेणानु धन चित्              |    |
| युक्तेन श्रद्धया यगू ईह समनुतिष्ठता           | ९  |
| पूर्व यैर्विह युक्तस्य प्यनु तिष्ठत           |    |
| इमं श्यत झ्म्य मं द दुपप्लवम्                 | १  |
| उद्यम्यो य द यै विषमेणैव गच्छत                |    |
| रिक्षप्य काकत यम् उत्पथेनै ज बुक्             | ११ |
| मर्णवोष्ट्रस्य ल वेते प्रियै वत्सतरै मम       |    |
| शुद्ध हि दैवमेवेदम् अ नै िस्ति पौरुषम्        | १२ |
| यदि ऽयुपपद्ये पौरुष नम कर्हिचित्              |    |
| अि मा दपि दैवमे व तिष्ठते                     | १३ |
| स्माि वैद एवेत् ग त य सुखम षत                 |    |
| सुख स्वपिति निर्विण्णो निराशश्च र्थस धने      | १४ |
| अहे स यक् शुकेनेक्त सर्त परिमु यता            |    |
| प्रति नेन र य जनकस्य निेशन त् ।               | १५ |

शुकः

य कामन् । यत् । न् । न् । के । स्त्यजेत्  
 प्रापणात् । वकामनां परित्यगो विशिष्यते १६

नान्तःसर्ववित्तानां गपूर्वोऽसि  
 शरीरे जिते चैव तृष्णा मन्दस्य वधे

मङ्कः

निर्त विविताभ्यः शान्त्यनिर्विद्यमकम्  
 असिनिर्तितो च निर्तितसे मन १८

यदि न हं विनश्ये यद्ये रसे मया  
 ममं ये जयलोभेन वृथ तं चित्तमुक्त १९

सितितित<sup>१</sup> यनष्टतपुनन  
 क्रदविमोक्षयसे मूढधनेहां धनकामु २

अहो नु मम बालिश्येऽहं क्रीनकस्त  
 क्लेशैर्नानिर्धैर्नित्यसयोजयसि निर्घृण २१

को जेतुपुरुषपरेषां प्रेष्यतायात् । २१

नपूर्वेनापरे जातुकमनतमवन्  
 त्यक्तसर्वसमरम्भान्प्रतिबुद्धेऽपि जागृ २२

नूनमेहृदयकामं वज्रसरमयदृढम्  
 यदनथशतविप्रशतधनविद्विषते २३

|   |    |
|---|----|
| त्यजामि । मत्ता चै किञ्चित् प्रिय त       |    |
| ह सुखमन्विच्छन् अत् युपलभे सुखम्          | २४ |
| काम नामि ते मूल सङ्कल्पात् किल जायसे      |    |
| नत्तां स ल्पयिष्य मि समूलो न भि यसि       | २५ |
| ईह धन न ल ध्व चिन्ता च भूय                |    |
| ल धनाशो यथ मृत्युर् लब्ध भवति न ।         | २६ |
| परित्यागे न लभे ततो दु र नु किम्          |    |
| न च ति ल धे भूय एव च मार्गते              | २  |
| अभूतपूर्वे र्थं दु गाङ्गमिवोदकम्          |    |
| द्वे । पने तु प्रतिबुद्धोऽ सन्त्यज        | २८ |
| य इम मा देह भूतग्रा स्समाश्रित            |    |
| स यात्विते यथाकामं सत यथ सुखम्            | २९ |
| न च यु म सु मे प्रीति कामलोभ नुय यिषु     |    |
| तस्म दुत्सृज्य व स न् सत्वमेवाश्रय न्यहम् | ३  |
| सर्वभूतान्यह देहे पश्यन् मनसि च त्मन      |    |
| योगे बुद्धि श्रुते त्व मनो णि ध रयन्      | ३१ |
| विचरि याम्यनासक्तस् सुखी लोक ि रामय       |    |
| यथ पुनर्न म मेव दु खे प्रणिध सि           | ३२ |

- ८ या हि मे प्रणुन्नस्य गतिरन्या न विद्यते  
 तृष्णाशो माणां हि कामप्रभवस्सदा  
 घननाशे हि दुःमन्यसे सुमहत्तरम्  
 तथे वमन्ये मित्राणि च घनाच्छ्रुतम्  
 अवज्ञानसह स्तु देश कष्टतरोऽने  
 ने सुखकलया च स हि दुःखैर्विधीयते ३५  
 धनमस्येति पुरुष पुर निग्नन्ति द  
 राजानो विविधैर्दुःखैर्नित्यमुद्वेजयन्ति च ३६  
 धनलेलुप इति बुद्ध चिरान्मया  
 यद्यदाह से काम त देऽनुरुध्यसे ३  
 अतस्त्वोऽसि लश्च दुःखेषोऽपूरणोऽनल  
 नै त्वं त्वं सुलभ नै त्वं वेत्थ दुर्लभम् ३८  
 पत इव दुष्पूरे मां दुःखैर्योक्तुमिच्छसि  
 न ह्यमद्य समाप्रे शक्य इमं पुन ८ य ३९  
 निर्वेदमहमासाद्य दम्यनाशाद्यह छया  
 निर्वृतिं परमां प्राप्य नाद्य कामन् विचिन् ये ४  
 अतिशं सहार्मह नाह बुद्ध्याम्यबुद्धिमान्  
 निकृते धनन शोन शये सङ्गिविवर ४१

|   |    |
|---|----|
| प्रतिनृत्यामि । म त्वं हेतु । सव मनोगम्<br>न त पुनर्मया म न तेने रंस्यसे            | २  |
| क्षमि ये क्षममा नां हसिष्ये विहंसित<br>द्वेष्यमुक्त प्रिय वक्षाम्यनादृत्य तदप्रियम् | ३  |
| तृप्तस्वस्थेन्द्रिये नित्य यथालभेन तयन्<br>न सकाम रियामि तामह शत्रुमात्मन           | ४४ |
| निर्वेद निर्वृतिं त्वा शान्तिं सत्य दम क्षमाम्<br>वर्मभूतदया च विद्धि मं शरणागतम्   | ५  |
| तस्मात् कामश्च लोभ तृणापयमे च<br>त्यजन्तु । प्रतिष्ठत सत्त्वस्थो वि साम्प्रतम्      | ४६ |
| प्रहाय मलोभचं बोधपारुष्यमे च<br>न लोभवश प्रेदुखस्य यनात्मन                          | ४  |
| यद्यत् त्यजति कामनां तत्सुखस्याभिपूर्यते<br>। अस्य वशगो नित्यदुःखमेव पते            | ४८ |
| कामनपो धुनुते यत् किं त् पुरुषो रज<br>कामक्रोधोद्भवदुःखलोभो ह्यरतिरेव च             | ४९ |
| एष ह्यप्रविशोऽस्मि श्रीधमे शीतमिव दम्<br>शमि परिनिर्वामि सुखमाप्ते च केवलम्         | ५  |

१६६] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व ९२५

कामसुख लोके दि महत् सुखम्  
 तृ ण क्षयसुखस्यैते नार्हतोऽदश कलाम् ५१  
 आत्मना म काम हत्वा शत्रुमिवोत्तमम्  
 प्राप्य वध्य ह्यपुर राजे च साम्यहम् ५२

भी :

एतां बुद्धिं समस्य य द्धिर्नि द गत  
 सर्वान् कामान् परित्यज्य प्य महत् सुखम् ५३  
 द यनाशकृते म र् अमृ त्व ि लागमत्  
 निवृत्त परमां य मा ि प्राप परा गतिम् ५४

अत्रा युदाहरन्तीमम् इतिह स पुरातनम्  
 गीत विदेहराजेन जनकेन प्रश यत ५५

अनन्त ब े वित्त यस्य मे नास्ति ि  
 मिथि यां प्रदंतायां न मे ि न ते ५६

भी :

अत्र युदाहरतीमम् इतिहास पुरातनम्

1. ग च्छिनत् । मूल प्रा पर गतिम्

2. ग अि र्थे र गी शृणु राजन् पुरा

प्रो विदेहराजेन जनकेन प्रश यता

[पाठ र ]

3. ि दा र ि िष्यस्य पद यम्

4. प्रो िपसहितम्

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| नहु पि राजर्षेर् ेध्यस्य पदसञ्चयम्   | ५  |
| दि द् प्रति िन्यस्त नि ो युधिष्ठिर   | ५८ |
| बोध्य शान् मृ ष राजा हु पर्यपृच्छत   | ५८ |
| नहषः                                 |    |
| निर्वेदाच्छान्तिम ं शा प्र नतर्पितम् | ५९ |
| उपदेश महाप्रा शमस्ये पदेशस्व मे      |    |
| ि समनु प्य शान् रसि निर्वृत          | ६  |

तोष्यः

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| उपदे े वत मि नानुशास्मीह            |    |
| लक्षण त वक्ष्येऽ त् य प्रविमृश्य म् | ६१ |
| पिङ्गला कुररस्सर्पस् स र ा वेषण े   |    |
| इषु र मार च षेते गुर े मम           | ६२ |

इत िमहाभार शतसहस्रिकाय साहतायां वैयासिक्यां

ि वृणि षट् ष थधिकशत िऽध्यायः ६६

८८ िक्षत्र पवणि िदशा भ्य यः ८

[ ि न्या ६२ िते :]

1. -रा इदम ि.
2. बुद्धिं समनु न्या
3. प्रति ताम्

## सप्तषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः



शिष्येण धिष्ठिरं प्रति प्रपन्नस्थानित्यत्वादिज्ञानपूर्वकविरः सुख  
हेतुताय प्रमाणतया जगरमुनिसवादानुवादः

युधिष्ठिरः

तेन त् वीतशोकश्चरेन्महीम्  
च वन् नरो लो प्राप्नोति परमां गतिम् १

शिष्यः

अत्राप्युदा रन्तीमम् इतिह स पुरातनम्  
प्रहादस्य च स द मुनेरजगरस्य च २

चरन्त ब्रा ण कश्चित् कलयचित्त नामयम्  
पप्रच्छ राज प्रह दे बुद्धिमान् ज्ञसत्त ३

ह्लादः

<sup>१</sup>स्वस्थशक्ते मृदुर्द तो निर्विवित्सोऽनसूयक  
सु बहुम ो लोके प्रा श्वरसि बालवत् ४

नैव प्रार्थयसे लाभं नालाभे नुशोचसि  
नित्यवृत्त इ ह्यन् न किं दिव म यसे ५

तेतस ह्वियमाण सु प्रज स्वविमना इ ।



|   |    |
|---|----|
| मर्थे कूट इ लक्ष्यसे                              | ६  |
| ननुति सि धमार्थौ न का च पि से                     |    |
| इन्द्रियाथान दृश्य मुक्तश्चरसि स क्षि त्          |    |
| कानु ज्ञा श्रुत कि वृत्तिर्वा नु ने               |    |
| क्षिप्रम चक्षे ब्रह्मञ् श्रेयो यदिह यसे           | ८  |
| भी :  |    |
| नयुक्तस्ते धे पी ले विधनित्                       |    |
| उ च श्लक्ष्णया चा प्रह्लाद <sup>१</sup> मनपार्थया | ९  |
| ब्राह्मणः   |    |
| पश्यन् प्रह्लाः भूतान् म् उत्पत्तिमनिमित्त        |    |
| स वृद्ध विनाश च च व्यथे                           | १  |
| स्वभ दे श्या मा । प्रवृत्तय                       |    |
| म निर । वा तिपाद्य केनचित्                        | ११ |
| पश्यन् प्रह्लाद सयोगन् विप्रयोगपरायणन्            |    |
| स यांश्च विनाशतन्त चिद्विदधे मन                   | १२ |
| अ त न्ति च भूत नि गुणयुक्त नि पश्य                |    |
| उत्पत्तिनिधनज्ञस्य क क र्य वशिष्यते               | १३ |
| जलज नामपि त पर्यायेणोपलक्ष्ये                     |    |

६ ] शान्तिपर्वणि ेधर्मपर्व १२९.

|   |    |
|---|----|
| ह मपि कायाना सूक्ष्माणा च महोदधौ        | १४ |
| जङ्गमस्या राणां च भूतानाम रो            |    |
| पार्थि ाना पि व्यक्त मृत्यु पश्यामि सबश | १५ |
| अ तरे चराणां च द ात्त पक्षिणाम्         |    |
| उत्तिष्ठति यथ ल मृत्युर्वल ामपि         | १६ |
| देि स रम णानि ह्रस्वानि च हाि च         |    |
| यो ापि च यथाकाल पतमानानि लक्ष्ये        | १  |
| इति भूत नि सम्पश्य नु क्तानि मृत्यु     |    |
| सव सम यते विद्वान् त त्यस्तु पे         | १८ |
| सुमहा तमपि अ स असे लब्ध यद्दृच्छया      |    |
| शये पुनरभु ने देि स नि बह्न्यपि         | १९ |
| आ वत्यपि म पु र्वहुगुण बहु              |    |
| पुनरल्पगुण ेक पुनर्नैोपपद्यते           | २  |
| णान् द चित् खादामि पि याकमपि असे        |    |
| भक्ष्ये शालिमंस नि भक्षां ेवावाच न् पुन | २  |
| शये द चित् पर्यङ्के भूम पि पुनश्शये     |    |
| प्रास देि पि मे शय्या दाचिदुपपद्यते     | २२ |
| ध रयामि च र्च र णि शाणक्षै माजिन ति च   |    |
| महार्णाणि च व संसि ध रया यहमेकद्        | २३ |

न निपति धर्म्यम् पमोग यदृच्छया  
प्रत्याचक्षे चाप्येनम् अनु धे सुदुलभम् २४

चलमनिधन तथा विशे

चिमतुल ि दुषां ते निविष्टम्

अ भिमतम ेवित च मू र

व्रतमिदमाजगर चि रामि २५

<sup>1</sup>अचलितमतिरच्युतस्त्वधर्मात्

परिमित वरण परावर

वेगतभवकषायलोभमोहो

तमिद ाजगर चि रामि २६

नियतफलभक्ष्यभोज्यपेयं

धिं रेण विभक्तदेश लम्

हृद् खमसेवित कदरैर्

मिदमाजगर चि रा २७

1.

नियतशयनासनः प्रकृत्या

यमानयम शौचासेद्वियुक्तः

फल : १०

मिदमाजगर चि श्रवा

[ : १० ]

इदमिदमिति तृष्णयाऽभिभूत  
 जनमनव विषीदमानम्  
 निपुणमनुनिशाम्य तत्त्वबुद्ध  
 मिदमाजगर चिञ्चरामि २८

बहुविध नुदृश्य चार्थहेते  
 पणमिहार्यं नार्यमा तम्  
 उपशमरुचिरात्मान् प्रशान्तो  
 मिदमाजगर चिञ्चरामि २९

सु सुखमनर्थमर्थलाभ  
 रमिरतमरणचर्जवितच  
 विधिनियतमेक्ष्य तत्त्वबुद्ध  
 मिदमाजगर चिञ्चरामि ३

अपगतभयरागमोहदप  
 धृतिमतिबुद्धिसमन्वितः प्रशान्तः

- १ -क अपगतभयरागमोहदपौ  
 धृतिमतिबुद्धिसमन्वितः :  
 गतसुखमिगिना निशाम्य  
 मिदमाजगर शुचिरामि [ वि : पाठः ]

२. —लभ

|   |    |
|---|----|
| उपगतफलभोगिनो निशाम्य<br>तमिदमाजगर शुचिश्चरामि   | ३  |
| अनियतशयना न प्रकृत्या<br>द नियमव्रतशौचसत्ययु<br>अपगत फलस य हृष्टो<br>मिदम जगर चि रामि                     | ३२ |
| अभिग म खार्थमीह थैर्<br>उपगतबुद्धिरवेक्ष्य चात्मसस्थ<br>तृषितमनियत मने नियन्तु<br>मिदम जगर शुचिश्चर मि    | ३३ |
| न हृदयमनुरुध्यते मने मे<br>प्रियसुखदुलभत मनित्यतां<br>दुभयमुपलक्ष्या ह<br>तमिदमाजगर शुचिश्चरामि           | ३४ |
| असुलभमुपलभ्य च र्थलाभ<br>धृतिमतिबुद्धिपराक्रमैरुपेतम्<br>बुध नुजनिषेवित मथैर्<br>व्रतमिदम जगर शुचिश्चरामि | ३५ |

बहु श्रेयसिदं बुद्धिमद्भि  
 क्तिभिरपि यद्भिरात्मकीर्तिम्  
 इदमिदमिति तत्तत्  
 परमतैर्गहनवितर्कयद्भिः ३६

दहमनुनिशा विप्रयातं  
 पृथगभिषेहि महाबुधैर्मनुष्य  
 नवसितमनन्तदेषपर  
 नृषु हि हरमि विनातदोषवृष्ण ३

भ :

अजगरचरितं तमहत्मा  
 य इह नरे नुचरेद्विर्नातराग  
 अपगभयमन्युलेभमेह  
 परमस्वहिरेदिमिहारम् ३८

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां  
 शान्तिपर्वणि चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः  
 ८८ मोक्षधर्मपर्वणि एकोनाशोऽध्यायः ९  
 अस्मिन् ३८ श्लोकाः ]

## अष्टषष्ट्यधिकशततमोऽध्याय



भ्रमेण युधिष्ठिरं प्रति इतरान्नेधपूर्वं

ग पसवादानु तदः

## युधिष्ठिर

बा धवा वि वा प्र वेह पितामह  
रस्य प्रतिष्ठ स्याद् एतन् पृष्ठो वद मे १

गिष्मः

प्र प्रतिष्ठा भूता । प्र ल परे  
प्र नैश्श्रेयसी लो प्रज्ञा स्वग्यमनुत्तमम् २

प्र य प्र पितार्थे हे बलिरैश्वर्यसङ्क्षये  
प्रज्ञादे नमुचिर्मद्विस् तस्या विद्यते परम् ३

अत्राप्युद हर ताम् इतिह स पुर तनम्  
इ द्रकाश् पस त्वा द ति बोध युधिष्ठिर ४

वैश्य ि ष ता काश्यप सशितव्रतम्  
रथे प तय मास श्राम न् द प ि नम् ५

अ तं स पतित द्धस् त्यक्तः ५५.मानमथ त् ५

1. स्वर्गो र त्

2. इ द्

मरिष्यान्वधनस्येह जाय विद्यते ६

मीष्मः

१ मुमूर्सासीनम् अकूजन्त मचेतसम्  
इन्द्रस्तृगालरूपेण बभाषे द्विज मम्

इन्द्रः

नु ययोनिमिच्छति वभूतानि वश  
मनुष्यत्वे च विप्रत्व एवामिनन्दति ८

मनुष्यो सि त्वा सि का प  
दुर्लभमवा<sup>१</sup> यैतद् अहो तु त्वमिच्छे ९

सर्वे आसाभिमाना इति सत्या परा श्रुति  
स तोषणीयरूपोऽसि लोभाद्यत्राभिमन्यसे १

अहो सिद्धार्थता ते । येषां सन्तीह पण्य १

पाणिमन्त्रस्प्रृहा स्माक नवद्भ्यो यथ तव  
पाणिलाभादधिके लाभ विद्यते ११

अपणित्वाद्द्वयं न कण्ठोद्धर हे  
जतूनुच्च वचानङ्गे दशतो कषामहे १२

अथ येषां न पणी दे दत्तौ दश क्ली  
उद्धरति क्रिमानङ्गाद् दशमानं पन्ति च १३

1. मचेतनम् २. क्रुद्धानम्

3. यद्वा होऽन्मनुमिच्छसि यै दत्ते तुमिच्छति



|   |    |
|---|----|
| मवर्षातपेभ्य परित्राण ॐ वर्ते             |    |
| चेल शय निवात चोपमुञ्जते                   | १४ |
| धि य च गां ॐ के मुञ्जते । ह्यन्ति च       |    |
| पायर्वहुभि ापि श्यान त्मनि वर्ते          | १५ |
| ये खल्वजिह्वा पणा अल्पप्र ण अपाणय         |    |
| सहन्ते तानि दु खानि दिष्ट्या त न तथ मुने  | १६ |
| दिष्ट्या न सृगालो वा न ि मिर्न च मूषिक    |    |
| न पर्न च हूको न चान्य पापयै निज           | १७ |
| ए ाव ऽपि लाभेन तोष्टमहसि श्यप             |    |
| किं पुनश्चासि त्वानां स षां ह्यणोत्तम     | १८ |
| इ ॐ मां ॐ म ॐ ऽदिति तेष मु रणाय मे        |    |
| नास्ति शक्तिरपाणित्वात् पश्य स्थामिमां मम | १९ |
| अकार्यमिति चैवेम नात्मान स त्यजाम्यहम्    |    |
| न त पापायसा यो न पतेयमपर मिति             | २  |
| ये वै प प ॐ नि तं गाल य मह गत             |    |
| पापीय ॐ बहुतर इतोऽ या पापयोनय             | २१ |
| ज त्य चैके सुखितरास् स त्य ये भृशदु खि    |    |
| नै तं सुखमेह चित् पश्यामि स्यचित्         | २२ |

१६८] शान्तिपर्वणि षोडशधर्मपर्व ९

|  |    |
|--|----|
| मनुष्या आढ्यत ाप्य रा यमिच्छन्त्यत परम्<br>रा याद्देवत्वमिच्छन्ति दे त्वादिन्द्रतामपि    | २३ |
| भवेस्त्व यद्यपि त्व े न राजा न दै म्<br>दे त्व प्राप्य चे त्व नैव येस्तथ ति              | २  |
| न तृि प्रियलाभेऽि तृ ाभैर्न शान्यति<br>प्रज लति भूयस् मिद्भिरि पाव                       | २५ |
| अस्त्येव त्वयि शे े वै हर्षश्चास्ति तथा ा यि<br>सुखदु खे तथ ेभे तत्र परिदे न             | २६ |
| परिच्छिद्यै म नां सर्वेषां चै कर्मणाम्<br>मूल बुद्धीं द्रियग्राम शकुन्त नि पञ्चरे        | २  |
| न त्वप्यरस ाम कचन जायते<br>सस्प ादर्शनाद्वाऽपि श्रवणाद्वाऽपि जायते                       | २८ |
| न त्व रसि व रूप्य १खग नां च न पक्षिणाम्<br>२तेभ्य ाभ्यधिको भक्ष्यो न श्चि द्विद्यते चित् | २९ |
| यानि चान्यानि भूतेषु भक्ष्यभोज्यानि काश् प<br>येष मभुक्तपूर्व णि तेष स्मृतिरेव च         | ३  |
| अप्राशनमसस्पर्शो सन्दर्शनमे च<br>पुरुषस्यैष नियमे म ये श्रेयो न सशय                      | ३१ |

1. दङ्गना

|  |    |
|--|----|
| पाणिमन्तो ि धनिनो वन्तो सशय<br>मनुष्या मानुषैरेव दा त्वमुपपादिता                       | ३२ |
| बन्धपरिक्लेशै ि श्यन्ते च पुन पुन<br>ते खत्वपि रमन्ते च मोदन्ते च हसन्ति च             | ३३ |
| परे बाहुबलिन त् । नस्विन<br>जुगुप्सिता सुकृपणा पापा वृत्तिमुप सते                      | ३४ |
| उत्सहन्ते च े त्तिम् अन्यामप्यु ेवितुम्<br>स्वकर्मणा नियत भवितव्य हि त्तथ              | ३५ |
| न पुल्क ो च ल त्मान त्यक्तमिच्छति<br>या ष्टस्त्रया योन्य मायां प्रेक्ष यादृशाम्        | ३६ |
| दृष्ट्वा कुणीन् पक्षहतान् मनु यानामय विन<br>सुसन्तुष्टस्त्रय योन्या लब्धल भोऽसि काश्यप | ३७ |
| यदि ाह्मणदेहस्ते निरात ो निराम<br>अङ्गानि च सम णे न च ल ेषु धि त                       | ३८ |
| न केनचित् वादेन सत्येनवाप रिणा<br>धर्म योत्तिष्ठ ि र्षे नात्मान त्यक्तमर्हसि           | ३९ |
| यदि ऋ शृणोध्येतच छूधासि च मे वच  |    |

|       |  |     |    |
|-------|--|-----|----|
| मुख्य | प्राप्ति वेदोक्तस्यै                         | र्म |    |
|       | यायमग्निसत्कारम् अप्रमत्ते नुपालय            |     |    |
|       | त्य द च दान च पधिष्ठा मा च केनचित्           |     |    |
|       | ये केचन व्ययन प्राप्ता यजनयाजनम्             |     |    |
|       | ते त शोचेयुर् न्यायेयुर्वा प्यशोभनम्         |     | ४२ |
|       | इच्छन् स्ते विहाराय सु महद यु                |     |    |
|       | येऽनुजातास्सुनक्षत्रे सुतिथौ सुमुहूर्तजा     |     | ४३ |
|       | नक्षत्रेष्वसुरेष्वन्ये दुस्तिथौ दुर्मुहूर्तज |     |    |
|       | पतन्त्यसुर योन ब्रवति जिता                   |     | ४  |
|       | हमा पणि तको हैतुको दनिन्दक                   |     |    |
|       | आन्वीक्षिकीं त विद्याम् अनुरक्ते निरर्थिकाम् |     | ४५ |
|       | हेतुवादान् दि स त्सु हेतुमत्                 |     |    |
|       | गोष्ठा च ति क्त च क्ये वै द्विज              |     | ४६ |
|       | नास्ति वंशङ्की च मूर्खे पि मानि              |     |    |
|       | स्येय फलनिर्वृत्तिस् सृग लत्व म द्विज        |     | ४  |
|       | पि ज तु तथा तत् स्याद् अहोरात्रशतैरपि        |     |    |
|       | यदह मानुष योन सृग ल प्र युयां पुन            |     | ८  |
|       | सन्तुष्टश्चाप्रमत्त यज्ञदानतपैरत             |     |    |

ज्ञे ज्ञात भवेय वै वर्ज्य वर्जयि

९

:

त स मुनिरुत्थ य श्यप मु चि ह

हो तासिं शलो बुद्धि नेति विस्मित

५

सम क्ष विप्रो नदीप्तेन चक्षुषा

दद चै दे ानाम् इन्द्र देव श क्रतुम्

५१

तत स पूजयामा श्यपे हरिवाहनम्

अनुज्ञातस्तु तेनाथ प्रि वेश श्रमम्

५२

इ श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां

शान्ति वीणि यधि षोडश्यायः ६८

८ षोडशधर्मपर्वणि विंशोऽध्यायः २

[ अष्टाध्याये ५२ श्लोकाः ]

## एको त्यधिकशततमो अध्याय



भागे धिष्ठिर षोडानादिसत्कर्मणामपि परम्पर सुख  
साधन कथनम्

युधि :

यद्यस्ति दत्तमिष्ट पस्तं था

गुरुणां ऽपि श्र । मे ह्ये पितामह

मीष्मः

आत्मनाऽनर्थयुक्तेन पापे निविशे मन  
स्वकर्म कलुष लोके कृच्छ्रे विधीयते २

दुर्भिक्षान्ते दुर्भिक्षं क्लेशं त् क्लेशं भयाद्भयम्  
मृत्युभ्यः प्रमृतं यानि दरिद्रा प रिण

उत्सवादुत् यानि त् गं सुखात् सुखम्  
श्रद्धाना दान्ताश्च त्वस्थाश्शुभकारिण ४

याल रदुर्गे पचोरभयेषु च  
ह व पेन गच्छन्ति न स्तिका किमत परम् ५

प्रियदे तिथेया दा । प्रिय धव  
क्षे यम त्मवतां मार्गम् अ स्थिता ह दि णम् ६

पुल इ धान्ये पूत्य इ पक्षि  
तद्विघ्नं तु येषु येषं धर्मं न करणम्

शा मपि न्त ि धानमनुधा ि  
शेते सह शयानेन येन येन यथ तम् ८

उप तिष्ठति तिष्ठ त गच्छन्तमनुगच्छा  
करेति कुर्वत र्म येव ऽनु ि ध यते ९

1. पितृलोके नि ि

. भृते : प्रभृ

|  |    |
|--|----|
| ये येन था यद्यत् र कर्म समाजितम्<br>त्तदे नरो भुङ्क्ते नित्यं वि ह मात्म     | १  |
| फलनिक्षेप विधे नप रिरक्षितम्<br>भूत तामिमि लस् समन् त् परिकर्षति             | ११ |
| अचे मानि यथा पुष्पिणि च फलानि च<br>काल नातिवर्तन्ते था कर्म पुरा कृतम्       | १२ |
| <sup>1</sup> म्म न त्विमानश्च लाभालाभो दयौ<br>वृत्त विवर्तते विधे ते पुन     | १३ |
| आत्मन विहि दु खम् आत्मनैवैपभुञ्जते<br>गर्भशय्य मुपादाय भुञ्जते पैर्वेदेहिकम् | १४ |
| बलो युव च वृद्ध यत् करेति भाशुभम्<br>स्या तस्याम स्थयां भुङ्क्ते जमनि जनि    | १५ |
| यथा धेनुसह वत्से विन्दति मातरम्<br>थ पूर्वकृत म् कर्तारमनुगच्छति             | १६ |
| सस्त्रि नैव पच्छुध्यति वरिणा<br>दुष्कमपि तथा पत् पूयते पुत्रकर्मण            | १  |
| तपस देहस् तपसा विन्दे हत्  |    |

---

1. -व द्वय नास्ति 2. दमधम्  
दिमधम् 4. धइय

] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व १३

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| सप्रतप्ताना दीर्घं सुखमनन्तरम्       | ८  |
| दीर्घकालेन तपस ेवितेन पोवने          |    |
| घमनिधूतपापाना सिद्धन्ते मनोरथा       | १९ |
| शकुनीनामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके   |    |
| पद यथा न हृदये तथा घमविदा गति        | २  |
| अलमन्यैरुपालम्भै कीर्तितै व्यतिक्रमै |    |
| पेशल चानुरूप च यं हितमात्मन          | २१ |

ति िमहाभारते शतसहस्रिकायां संहिताय यासिक्यां  
शान्ति पर्वणि िनसप्तत्यधिकश िोऽध्यायः ६९

८८ िोक्षधर्मपर्वणि विंशति : २  
सि े २ िोकाः ]

## सप्तत्यधिकशततमो ि्याय



युधिष्ठिरेण जगत्सृष्टि । पृष्टन भोष्मेण भारद्वाजाय भृगुदितसृष्टि  
र धनारम्भः भृगुणा भार े इत्तत्त्व दिप पयन्त-  
सृष्टिप्र .ार नम् २ धा ि भूतमेरुस्थन व्र िकृताया  
गे नम् ३

युधिष्ठिरः

त सृष्टमिदं सव जगत् स्थ वरजन्मम्  
प्रलये च ि प्येति त मे ूहि पित ह १



|   |   |
|---|---|
| सस गरस्सगग स् सशल स ल हक<br>सभूमि साि प नो ले ोऽय केन निर्मे        | २ |
| कथ सृष्ट नि भूतानि थ र्णविभक्तय<br>शौच शौच थ तेषां र्माधर्मावथे थम् | ३ |
| कादृशो ज व । जीव व गच्छति ये मृत<br>मु लो मि च पि सव शसतु नो भान्   | ४ |

|  |   |
|--|---|
| अत्राप्युदाहर िम् इतिह स रातनम्<br>भृगुण ऽभिहित श्रेष्ठ भारद्वाज पृच्छते | ५ |
| कैल शिखरे दृष्ट िप्यमानमिवौजसा<br>भृगु महर्षिम सीन भ रद्वाजोऽ वपृच्छ     | ६ |

भारद्वा

|  |   |
|--|---|
| कुतस्त्विद व जगत् स्थ रजङ्गमम्<br>प्रलये च िमयो मे ब्रूहि द्विजोत्तम |   |
| सस गर गग स् सशैल स लाहक<br>सभूमिस्स िपवने लोकोऽय केन निर्मित         | ८ |
| कथ सृष्ट नि भूतानि कथ र्णविभक्तय<br>शौचाशौच थ तेषां धर्मा वथे थम्    | ९ |

- 
1. ध द्वादश नाि
  2. नाि

१ ] शाब्दिकः । मोक्षधर्मपत्र १४५

दृशो जी जी गच्छि ये मृ  
अमु लोकमि च पि शसतु नो भ न् १

भी :

ए स भग न् पृष्टो भारद्वाजेन सशयम्  
षिं शस् व सौ षोऽत्र त् ११

भृगु

नारायणे जगन्मूर्तिर् अन्तर त्म सन तन  
कूटस्थोऽक्षर अ यक्ते निर्लेपे यापक प्रभु १२

ते परते नित्यम् इन्द्रियैर यगोचर  
स सिसृक्षुस्सह शशाद् असृजत् पुरुष प्रभु १३

मानसे ाम विख्य श्रुतपूर्णे महर्षिभि  
अन दिनिघनो दे स् तथ ऽभेद्येऽजरामर १४

अ यक्त इति विख्यातश् श श्वतेऽथाक्षयोऽ यच  
यतस्सृ नि भूत नि ति ि च ि ि च १५

सोऽसृजत् प्रथम दे मह त नाम न मत  
आ शशि ति ि ख्य त सर् भूतधर मु १६

1. एव भगव न् पृ । ारद्वाजेन शयम्  
षिं शस् व सौ षो वीत् [ धि : : ]

भृगुः

। दम न्

|   |    |
|---|----|
| आकशाभ द्वरे सलिलादी मरुतै                     |    |
| अग्निमारुत ये गत् तत समभवन्महा                | १  |
| तत जेमय दे य पद्म सृ - य भुव                  |    |
| तस्मत् पद्मात् समभ इ वेदमयो निधि              | १८ |
| अह र इति ख्यातस् सर्वभूतात्मभूतकृत्           |    |
| वै सुमहातेजा य एते प ध त                      | १९ |
| शैलास्त स्थिसन्ना तु मेदे ांस च मेदिर्न       |    |
| समुद्रा रुधिरम् आकाश दूर तथा                  | २  |
| प नश्चै निश्चासस् तेजे प्रिर्निम्नगारि र      |    |
| दि रश्च से <sup>१</sup> यने त िते             | २१ |
| नभ गोध्व शिर क्षिति पदा भुज दे                |    |
| दु <sup>०</sup> यो नन्तत् इत् सिद्धैरपि न सशय | २२ |
| स एष भग न् विष्णुर् अन इति ित                 |    |
| भूत त्मभूत े दु <sup>०</sup> ज्ञेयो त्मभि     | २३ |
| अहङ्कार य सर्भूते इ य                         |    |
| मभ द्विश्च े ह यदिह त या                      | २  |
| रद्व  |    |
| गगनस्य दिशश्चैव भूजलस्यानिल च                 |    |

१ ] शान्तिपर्वणि ेक्षधर्मपर्व ९

कान्यत्र परिमाणानि सशय छिन्धि ेऽर्थ २५

श्रुतः

अनन्तमेतद् काश सिद्धचरणसेवितम्  
रम्य नानश्रयार्कण यस्यान्ते नाधिगम्यते २६

ऊर्ध्वं गतेरत्त दृश्येते नेन्दुभास्करौ  
तत्र देवा यदीप्तास्सूर्यभासेऽर्चिस २

ते च यन्त न पश्यन्ति नभसथितौजस  
दुर्गमत्वदनन्तत्तद् इति वैद्विषात् २८

पर्युपरितैर्देवैः प्रज्वलद्भिः यम्प्रभै  
निरुद्धैतदाकाशम् अप्रमेसुरैरपि २९

पृथिव्यन्ते समुद्रस्तु समुद्राते स्मृत्  
तमसेऽते जलप्राहुरजलस्यान्तेऽरे च ३

रसालते सलिलजलते पगाधि ।  
तदन्ते पुनराशम् आशा पुनर्जलम् ३

एमतहि नभसप्रमणसलिल च  
अमारुते दुर्घैतैरपि ३२

1. द्रादित्यं दृश्यतः  
न पश्यन्ति गतेः ।
3. तय
4. ग :

- अग्निम रततोयाना ण क्षिति स्य च  
काशसदृश ते भिद्य तेऽतर् दर्शनात् ३३
- पठति चै नयश शेषु विविधेषु च  
त्रैलोक्ये गरे चैव मण विहित थ ३४
- अ श्य त ग य प्रम णमुदाहरेत् ३  
सिद्ध नां दे तानां च द परिमित गति  
तो गौणम न न तेति िश्रुतम् ३५
- नामधेय नुरूपस्य नस महत्मन  
यस्य दि हि तद्रूप ह यते र्धते न च ३६  
ोऽय द्वेदितु शक्ते ये न त् तद्विधोऽपर ३
- तत पुष्करतस्सृष्टस् सर्वज्ञे मूर्तिमन् प्रभु  
ध य पूव प्रजापरिनुत्त ३८
- रद्ध :
- पु राद्यदि सम्भूतो ये भवति पु रम्  
ण पूर्वज च ह भवान् स देह एव मे ३९
- भृगु -
- नसस्येह या मूर्तिर् ह्यत्व समुप गता  
त न ध न र्थ विवा पद्ममुच्यते ४

]

^ °

मोक्षधर्मपर्व

९९

कर्णिका त प मेरुगगन च्छि  
 ध्ये स्थितो न् सृजते जगत प्रभु १

इति श्रीमहाभार शतसहस्रिकाय संहितायां वैयासिक्यां

शांतिर्वेणि सप्तत्यधिसोऽध्यायः

८ अक्षध द्वाविंशोऽध्यायः २२

[ सिद्धध्याये श्लो ]

एकसप्तत्याध्याय



रद्व ति भृगुणा दिभूम्यन्त दि  
 म्

भारद्वाजः

मेरुमध्ये ते ब्रह्मा थ स ससृजे प्रजा  
 एत वमाचक्ष याथ तथ्येन पृच्छत

भृगुः

प्रजावि ग पूर्व हि मान ते मनसः ससृजत्  
 सरक्षण थ भूतान सृष्ट प्रथ ते जलम् २  
 य प्राणस्सर्वभूत ना र्धन्ते येन च प्रज  
 परित्यक्ता इय तेनेद सवम वृतम्  
 थिर्व पर्वता मेघ मूर्तिम तश्च ये परे

1. वि

J II 19

सर्वं तद्वारुण ज्ञेयम् अ पस्तस्तम्भिरे दि ता ४

भारद्वा

कथं सलिलमुत्पत्तं यच्चैर्निमारुतौ  
यच्च मेदिना सृष्टेत्यत्र मे सशयो महान् ५

भृगुः

ह्यकल्पे पुरा ह्यन्वर्षिणां समागमे  
ले सभसदेहसमुत्पत्तौ महत्तनम् ६

तेऽतिष्ठन् ध्यानमालयमौनमास्थयन्निश्चला  
त्यक्ताहरपवनपदियर्षशतद्विजा

तेषां धर्ममयीणां सर्वेषां श्रोत्रमगमत्  
दियां सरतस्तस्य बभूव नमलत् ८

पुरस्तिर्निशशदम् अशमचलेपमम्  
नचन्द्रोपनसि सवभौ ९

ततसलिलमुत्पन्नमसीवपरत  
तस्मात्सलिलोत्पत्तुसमजयतमरुत १

यथभजनमिन्द्रनिशशदमिलक्ष्यते  
तभूपूर्यमाणसशदरुतेऽनिल १

तथलिलसरुद्धे नभसोऽतेनिरतरे

१ १] शान्तिपर्वणि ेक्षधर्मपर्व १५१

भित्त्वं णवतल वायुस् समुत्पतति वेगान् १२

एष चरते वायुर् अर्णोत्पीडसम्भव

आकाश स्थानमासाद्य प्रशान्त नाधिगच्छति १३

तस्मिन् एव वुसर्षे द तेज महाबल

दुर्बभूवोर्ध्वशिख कृत् वितिभिर नभ १४

अपवनसयुक्तं त्मुत्क्षिपते जलम्

अरुतसयेगाद् घनत्मुपपद्यते १५

तशापतितस्हेस्तिष्ठति योऽपर

ससर्गात्तमपेभूमितपगच्छति १६

रसानां सर्वग धानां ेहानां णिना तथा

भूमियानिरेह ज्ञेया यानि स प्रसूयते १

इति श्रामहाभारते सहस्रिकयां ऋग्वेद्यासिक्यां

शान्तिपर्वणि षष्ठ्यधिकशततमोऽध्यायः

८८ तेषां ऋग्वेद्यासिक्यां ऋग्वेद्यासिक्यां

सिद्धिः प्रोक्ताः



## द्विसप्त दशततमोऽध्यायः



रह्मिभृगुणः । दीनः पिबेत् । यदि धनम्

रह्मः :

एधे प ब्रह्म । नः सृजत् पुरः  
अवृत्तैरेमे लोहं ह भूतं भिसृजि १

दः सृजत् सहस्रं णि भूतानां स ह म  
। मे भूतत्वं यः समुपपद्यते २

भृगुः

त न शो भूतं नं यति सम्भवम्  
त ह भूतं शो यमुपपद्यते ३

चे युखमाशम् ऊमः सिल्लि  
पृथि च त्र सङ्घा शररपः भौतिकम् ४

इत्ये प भिर्भूतैर्युक्तं रजङ्गमम्  
व्राण रस प । ष्टिश्रे यस्मि ता ५

रह्मज

भेर्यदि भूतैस्तु युक्तास्थ्या रजङ्गमा  
रणा न दृश्यन्ते शरीरे प धातवः ६

नूष्मणामचेष्टान जडा चैव वंश  
 वृक्षाण नोपलभ्यन्ते शरारे घातव  
 शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरसे दिन  
 न च पश वि नन्ति ते प ॥ ८

त्व दनप्रित इ अभूमत्वादवायुत  
 का स्याप्रमेयत्वाद् णा नास्ति भातिकम् ९

श्रुः

सुखदु ो ऋहणाचू छि च रिरेहणात्  
 र्ज पश्य मि वृ णाम् अचैतन्य न वि १

ऊमतो ये ण कफल पुष्पमेव  
 म्लायते चैव शीतेन स्पर्शे त्र च्यते ११

वाग्वज्रयशाननिष्पेषै फल पुष्प शार्यते  
 श्रोत्रेण गृ श दस् स्माच्छण नि प द १२

वल्ली वे ये र्वत गच्छति  
 न दृष्टे मर्गेऽत् पश्य पादपा १३

पुण्यापु यैस्तथा गन्धैर् धूपै िधैरपि

1  
 . . . . .  
 3 -व

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| १भ लरोग प ळ्य स् तस्माज्जि ित प दपा | १  |
| प दै लिलपान यार्धना चापि दर्शनात्   |    |
| य धिप्रति यत्वा वि ते रसन द्रुमे    | १५ |
| वक्त्रेणोत्पलनालेन यथेऽऽ जल ददेत्   |    |
| थ प नसयुक्त पादै पिवति पादप         | ६  |
| त लमात्तं जरयेदमि हौ                |    |
| हरपरिणम हे वृद्धि जायते             | १  |
| न पि क्षणम् अ शेऽऽ न सशय            |    |
| ते ं पु फलै यि र नित्य समुपलभ ते    | १८ |
| ज ं च सर्वेषां शरीरे प ध            |    |
| प्रत्येकश भिद्य ते शरीरं विचेष्टे   | १९ |
| क् च ंस तथऽ िनि मज्ज आयु प म        |    |
| इत्येतदिह स ंत शरीरे पृथिवीमय       | २  |
| जे ि थ ंघ चक्षुरुष्म तथै च          |    |
| मिर्जरये चापि प ं शशर रत            | २  |

रोगः वि स्स

चतु

दुः तो ह्यण चि रो ित्

पश्यात् णाम् न विद्ये धि : :]

१ २] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपत्र ९५५

श्रवण घ्राणमास्य च दय कोष्ठमेव च  
आकाश त् प्राणिनामेते शर रे धातव २२

श्लेष्म पित्त थ स्वेदो वसा शोणितमेव च  
इत्याप पञ्चध देहे स<sup>०</sup> प्राणिनां द २

प्राणात् प्राण ते प्राणी य नाध्यायच्छते सदा  
गच्छ प नेना िक् च सम नेन समा<sup>०</sup> २४

उ. न दुच्छसिति च वृत्तिभेदा भाषते  
इत्येते वायव रसो ग धश्च भूगुण २५

भूमेर्ग धगुणान् वेत्ति रस चाद्भ्यश्शरीरवान्  
योति पश् ि रूपाणि पश वेत्ति च व युत २६

श द शृणो<sup>०</sup> च तथै िशात्तु शरारव न् २६

ग ध स्पश रसे रूप श द ित्र गुणा मृ ।  
दस्पश च रूप च रसे ग धा भूगुणा । २७

तस्य ग धस्य क्षयमि विस्तराभिहितान् गुणान् २८

इ नि ग धश्च धुर दुक् थ  
निर्हार सहतस्त्रिगधो रूक्षे विशद एव च २९

एव िधे ज्ञेय पार्थि<sup>०</sup> ग ध विस्तर २९

1. धचतुष्टय ना<sup>०</sup>

|   |    |
|---|----|
| द पर्श रूप च र पि गुण स्मृत   | ३  |
| रसान ह्यमि तन्मे िगदतश्शृणु<br>रसो ह्रुविध प्रोक्तस् सूरि थितात्मभि | ३१ |
| धुरे ल णि क्त येऽल दु थ<br>एव षधि रे रो रि यस्मृत                   | ३२ |
| द पर्श रूप च त्रिगुण ये रुच्यते<br>यो श्यति रूप णि रू च हुध स्मृतम् | ३  |
| दीर्घे श थूलश् च त न्<br>ण र णो नील प तोऽरुण थ                      | ३  |
| ए दश रि रे षोऽपि गु स्मृत   | ३  |
| द प य यस् पश बहु  | ३५ |
| उ णश्श स्तु ो दु खस् े द ए च<br>कठिनश्चि णश्शक्ष पि छले दुद रूणै    | ३६ |
| ए द्वद रे व्यो गु उच्यते  | ३६ |
| तत्रैकगुणमा शि श द इत्ये स्मृ<br>द क्ष मि र षं मृतम्                | ३  |
| 1 ज्योतिः पश्यि र्ति युन [ धि : .]                                  |    |
| 2 शब्दःस्प स्तु ति ज्ञेयं द्विगुणो वायुरुच्ये [ धिकः ठः             |    |
| 3. यस्तु गु : : शी बहध [ ठान् म्]                                   |    |

१ २] शान्तिपर्वाण ेक्षधर्मपर्व १५

|  |    |
|--|----|
| षड्जस्त्वृषभगान्धारौ मध्यम               |    |
| धैवतानां प्रैते शब्दजा गुणा              | ८  |
| एष सप्तधैवत शब्द आकाशलक्षण               |    |
| त्रैस्वयण तु सर्वत्र स्थितोऽपि पटहादिषु  | ३९ |
| आशजशदमाहर एभिर्वयुगुणैर्युतम्            |    |
| अव्याहृतैस्तयते न वेदिविषमाहृतै          | ४  |
| आप्याय्यते च ते नित्यधातुस्तैस्तु धातुभि |    |
| अपेऽस्मिन् रतश्च नित्यजानति देहिषु       | ४१ |

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वाण द्वि सत्या षोडशोऽध्यायः २  
[ १ २ ]

- 
- 1 [ १ २ ] मूढारसङ्घस्य [ - धि : ]
  - 2 स्तुर्धद्वयादम्
  - 3 गीदमर्धद्वयम्
  - 4 -व पञ्चभिः

त्यधिकशततमोऽयं



रद्वाज ति भृगुण े प्राणापानादेन ार्यंति षनिरूप म्

र :

प र्थि धातुम श्रि शारीरेऽग्नि थ भेत्  
अवकाश शेषेण थ वर्तयतेऽनि १

भृगुः

ये गि ह न् कार्तयि यमि तेऽनघ  
प्र णिन नले देह न् यथ चेष्टयते बल २

श्रितो मूर्धानमि स्तु शरार परिपालयन्  
प्र णो मूर्धनि च भ्रौ च वर्तम ने विचेष्टते ३

ज तु सवभूत ल्म पुरुषर सन तन  
मने बुद्धिरह ारो भूत नि विषयश्च स ४

ए ति स सर्त्र णेन परिप ल्यते  
े त स नेन ि ा गतिमुपाश्रित ५

वस्तिमूः गुद चैव पाव च समाश्रित  
हन् मूत्र रीष चाप्यप न परिवर्तते ६

प्रय मे मणि बले य ए ि षु वर्तते

उदान इति त प्राहुर् अभ्यत् कुशल जना

न्धिष पि च सि विष्टस्तथाऽनिल

रारे मनुष्यणं यान इत्युपदिश्यते

८

वमिस्तु तिस्रसो नो भिस् मीरित

रन् घातूः दोषा यतिष्ठते

९

अपानप्राणोर्मध्ये णापानसमहित

न्वि समनेन स यक् पचति प

१

अ हि पायुसयुक्तम् अन्ते स्याद्द्रवसञ्ज्ञितम्

तेस्तस्मात् जयते तेतांसि देहिनाम्

११

णानां सपिपासपितप्रजयते

ऊष्मा ऽरिति ज्ञेये योऽपचति देहिनाम्

१२

योगहप्राणो गुदाते तिहते

ऊर्ध्वगम्यसुसमुत्पतिपासु

१३

पशयस्त्वधेनभ्या ऊष्ममाशयस्मृत

नाभिष्येशरस्यसोणास्तदाश्रिता

१

प्रसृष्टदत्तसुतिर्यगूर्ध्वमघथा

हृत्पित्तस्य रसान्नाड्ये दशप्राणप्रचेदित

१५

एषमागऽथयोगानां येन गच्छन्ति तत्पदम्



जितकृमासन धारा मूर्धन्य त्म न इ न् १६

एव सव ि हि प्राणाप नेषु देहिनाम्

त स्मन् शोऽ स्थितो नित्यम् अग्निस्थाल्य ि हि १

ति ि शतसहस्रिकाया ताय िसिक्या

पर्वणि सप्तत्या शोऽध्याय ३

८८ शो ि ि ि २५

[ ि ि ि श्लोकाः ]

### च स्स त्यधिकशततमोऽध्याय



र ि श्रुप्रति युक्तिकं ि ि तिवप ि

भारद्वाजः

यदि प्राणयते युर वायुरे ि चेष्टे

श्व ि िषे चैव स्माज्ज ि निरथ १

यद्वा भ अ ियो वह्निन प ये यदि

अग्निर्जरयते चै त ि ि निरथ २

ज ते प्र ियमण ज ि नै िपलभ्यते

व युरे जहात्येनम् ऊष्मभ नर ति ३

यदि ितेपे ज स सश्लेषे दि युन

यु ल दृश्येद् गच न् स मरुद्गण ४

श्लेषो यदि तेन यदि तस्मात् प्रणश्यति  
महार्ण युक्तत्वाद् अन्यत् लिलभाजनम् ५

यत् क्षिपेत् सलिल कूपे प्रदीप व हु शने  
श्यत्युभ तद्वज्ज् वातानल त्म ६

धरणे ज् शरारे ज् त  
तेषामन्यतरत्यागाच्च चतुष्पा न् सङ्ग्रह

नश्यते नाधाराद् वायुरुच्छासनिह त्  
नश्यते भेदत् खम् अग्निनश्यत्यभोजनत् ८

धि णपरिक्लेशैर् देना चैव शीर्यते  
पायते ि सङ्घाते याति म् ९

न् िपे जीव किमनुघ  
वेदयते ज् शृणो व ते १

एष गौ परले िरयेष्यति मामिति  
ये द् ियते ज तुस् स ग् तरयि यति ११

गौ तिग्रहीत च द ता चै सम यद्  
इहै वि य याति तस्तेषां समागम १२

हगौरुपयु स्य शैला त् पतित

1. लि हत् दी वा तु श  
ि नश्यि थ श्ये थ [ म् ]

|                                 |                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| ना चोपयुक्त                     | तस्सञ्जीवन पुन              | १३ |
| स्य दि वृक्ष                    | न मूल प्रतिरोहते            |    |
| बीजा यस्य प्ररोहति <sup>१</sup> | नरेष्यति                    | १  |
| बीजमत्र पुर                     | प्र यदेतत् परि ते           |    |
| मृत मृता                        | इ व ज द्वाज प्रवते          | १५ |
| इति                             | आ सडस्त्रि िर्या            |    |
|                                 | वैणि तुस्सप्तत्यधि िोऽध्याय |    |
| ८                               | ो घ वैणि िड्व िोऽध्यः २६    |    |
|                                 | [ ि ५ िोकाः ]               |    |

### असप्तत्यधिकशतत ेऽध्याय



|               |                              |               |
|---------------|------------------------------|---------------|
| मृगु          | ति ि तिरिक्त ि               | पू तत्रिरू म् |
| मृगुः         |                              |               |
| ण शेऽ ि       | र्ज न दत्त च तस्य च          |               |
| य ति देहान्तर | र्ण शरीर तु विशीर्यते        | १             |
| शर राश्रिते   | जावस् स्मिन् नष्टे प्रणश्यति |               |
| यथ समित्सु    | द ध णइ ति प                  | २             |

भारद्वाजः

अग्नेर्यथ समिद्धस्य यदि नाशो न विद्यते  
इन्धनस्योपयोगान्ते स चाग्निनापलभ्ये ३

इयतीत्येव जानामि शान्तमग्निनिन्धनम्  
गतिं प्रमाणं वा सस्थानं न दृश्यते ४

भृगुः

जीवे धनेश्च सदनाशो न विद्यते  
सिद्धमुपयोगान्ते सन्नेऽग्निर्न दृश्यते ५

आकाशानुगतत्वाद्धि दुर्ग्रहस्य निरश्रय ५

तथ शरीरस्य गेर्जा आकाशमाश्रित  
न गृह्यते सुसूक्ष्मत्वाद् यथा योनिरानन्धनम् ६

प्राणान् रयते योऽसि स जापधार्यताम्  
वयुधरणेऽग्निर्नश्यत्युच्छ्रसनिहात्

तन् नष्टे शरीरौ शरीरतदचेतनम्  
पतिर्यति भूमित्वम् अयनं तद्विहितं ८

जङ्गलान् चोषंस्थवरणां तथैव च  
अशपवनेऽभ्येति योति मनुगति ९

1. इदमन्

2. गद्यऽप्यशक्ति

|   |    |
|---|----|
| त्रयाणमै त य भूमै प्रति तम्   | १  |
| यत्र तत्र पवनस् तत्र प्रियत्र म रुत<br>अमूर्तयस्ते िज्ञेया अपो मूर्त थ क्षिति | ११ |
| रद्वाजः   |    |
| द्य िरुो भूि म प शरीरेषु<br>जी ंलक्षण एतद् चक्ष्व मेऽनघ                       | १२ |
| प त रतौ वि सयुते<br>शर रे प्राणिनां जीव ेतमिच्छ मि दृशम्                      | १३ |
| शोणितसङ्घ ते मेद िव्यि सञ्चये<br>भिद्यमाने ररेऽत्र जीो नै पलभ्यते             | १४ |
| शृगुः   |    |
| यद्यज रीर तु पञ्चभूत् सन्वि म्<br>श रीरे िनसे दु खे ि वेद े रुजम्             | १५ |
| ृष्यति ध्यति च शोचत्यु द्विजते च<br>इच ति ध्य यति द्वे च िरयते च              | १६ |
| रद्वा :   |    |
| शृणोति थित र्ज णभ्यां न शृणोति तम्<br>ृष नसि यत्रे तस्म जीवे निरथ             | १७ |

पश्यति इ नेयुक्त चक्षुः  
 याकुले तस्मिन् पश्यति पश्यति ८  
 पश्यति न च तूते शृणोति न जिघ्रात  
 च स्पर्शरसै वेत्ति निद्रावशग पुन १९

भृगुः

न प स धारणमत्र च्छिच्  
 छरीरमेको बहते न्तर त्म  
 स वेत्ति ग धं रसाञ् श्रु च  
 पर्श च रूप च गुणा येऽ ये २

पञ्चात्मै पञ्चगुणप्रदर्शी  
 स र्वगात्रानुगोऽन्तरात्मा  
 स वेत्ति दु खानि ख नि चात्र  
 तद्विप्रयोग च न वेत्ति देह २१

द न रूप न पर्शो ने भ श्र प  
 द शा ते रीरौ देह त्यक्त्व न श्या २२  
 अ मय सैवेदम् अपे मूर्तिशरीरिणाम्  
 तत्रात्म मानसे ह्य सर्वभूतेषु लोके त् २३

1. कृष्णैः सयुद्धैः ;  
 तेचते याः तैः ; [ : : ]  
 J II २०

आत् न तु िजनहि त लोक विधायकम्  
स्मिन् स सश्रितो दे िवन्दुरिव ष्करे २४

क्षेत्र त िर्नहि नित्य लोकहितात्मकम्  
तमो रज सर च विद्धि ज्विगुण निमान् २५

सचेतन जी गुण दति  
स चेष्टते चे यते च सर्वम्  
तत पर क्षेत्रविदे दनि  
प्र वर्तय ि भुवन नि २६

जीवन शे ि हि देहनाशे  
मिथ्यै द हुर्मृत इत्यबुद्ध  
जी स्तु देह तरित प्रयाति  
दश र्धतै स्य शरीरभेद २

एव िषु भूतेषु गूढ रति सवृत  
दृश्यते त्वग्र्य बुद्ध्या सूक्ष्मया तत्त्वदर्शिभि २८

त पूर्पररात्रेषु युञ्ज न सतत बुध  
लघ्व हारे विशुद्ध त्म पश्यत्य त्म नमात्मनि २९

चित्तस्य हि प्रस देन हित्व कर्म शुभ शुभम्  
त्त ित्मनि स्थित सुख ययमश्रते

म न ेऽि शशर रेषु जाव इत्यभिधायते  
 स्मि प्रज पतेरेषा भूः ध्यात्मानि निश्चया ३१

इति िमहाभार े सहस्रिकाया संहितायां वैद्यासिक्यां

शान्ति पवणि ि ि िोऽध्यायः ७५

८८ ेक्षधर्मप णि िोऽध्यायः २

[ े ३ प्रेकाः

### षट्सप्तत्यधिकशततमोऽध्याय

भृगुण िरद्वा प्रात वै ि अ ि विोऽपि ि िदिव  
 विभ गस्य ि राच निबन्धनत िक्तिः

भृगुः

असृजद्वाह्यणानेव पूर्वं प्रजापति  
 आत् तेजोभिनिर्वृत्तान् र ि स प्र न् १

त सत्य च धम च पे च श श्वतम्  
 आचार चै शै च च सर्गादौ ि दधे प्रभु २

दे द नवग ध ि दत्या रमहेरगा  
 यक्षर क्षसन गा ि पेश च म नुष थ ३

ण क्षत्रिया ि श्याश् शूद्राश्च द्विजसत्त  
 ये चाथे भूतस ि नां सङ्घातास्तांश्च निर्ममे ४

ब्र ण नं सितो वर्ण क्षत्रियाणां तु लोहित



वैश्यान पीतको वर्णश शूद्राणामसित था ५

:

च ' ' र्णेन यदि र्णो विभज्ये  
षां लु र्णानां दृश्ये र्णसङ्कर ६

क्रोधो भय लेभ शो िन्त धा श्र  
षा न भ ति द्वर्णे विभज्यते

देमूत्रपुरीषाणि श्लेष्मा पित्त सशोणितम्  
ते क्षरति सब क द्वरण विभज्यते ८

ज . नामसङ्घयेयस् स्थ रणां च ज य  
ते ि वि ध र्णानां ते र्णविनिश्चय ९

भृगु

न ि शोऽस्ति र्णानां सर्व ह्यमिद जगत्  
। । पूर्वसृ हि र्मभि र्णतां गत १

। भोगप्रिया िक्ष्ण क्रोधना प्रियसाहसा  
त्यक्तस्वधमा रक्ताङ्गास् ते द्विज क्षत्रतां गता ११

। गेषु त्त धय प कृ युपज िन  
धर्मन् नानुतिष्ठति ते द्विज वैश्यतं गता १२

हस नृतप्रिया लु ध सूर् सर्व िपजीविन

1 ग द्व ना 2 य दोऽन

3 तु ना

१ ६] शान्तिपर्वे मोक्षधर्मपर्वे १६९

कृष्णाश्चाचपरि सू द्विजाश्शूद्रा गता १

इत्येकं कमभिर्द्विजा वणन्तर ग

धर्मो यज्ञक्रिया चेषां नित्य प्रतिषिध्यते १

वर्णाश्रित्व र एते हि येषां ह्यी सर ती

णा पू लोभानतां गत १५

ब्रह्मतत्रस्थासु पक्षेषां नश्यति

ब्रह्म धारयता नित्य तानि नियमास्तथ ६

चैतत्पुरा सृष्टे जानन्ति ते

तेषां बहुविधस्तयास्त्र द्विजातय १

पि चारक्षसप्रेतानि धालेच्छजा य

प्रानिनासुच्छदाचारचेष्टित ८

प्रजा ब्राह्मणस्कारासु कर्म तनि या

ऋग्भिर्न पसुसृज्यन्ते स पर र १९

दिने समुद्भूता मूलोऽक्षयाऽय

सष्टिनिसीन धर्मत परायणा २

इति शान्तिपर्वे मोक्षधर्मपर्वे द्वितीयोऽध्यायः

विंशतिः पञ्चदशोऽध्यायः ६

८८ मोक्षधर्मपर्वे द्वितीयोऽध्यायः २

[स्मिन् २ श्लोः]

## स ल्यधि ेऽध्य



रद्व ज भृगुण दि क्षण धनम् राग्यस्य  
सुति. धन न

रद्व

ण े न भ े क्षत्रियो द्विजेत्तम

श्यश्शूद्र विप्रर्षे तद्रूहि दत्तं र १

भृगुः

ज े दि र्य तु स रै स तश् चि

ेद ध्ययनस प ष षट्सु कम स्थित २

ौच चाररत यग् वि स शा गुरु

ेल्य ल्यपरस् वै ब्र ह्मण उ यते ३

सत्य द न दमोऽद्रेह अ नृशस्य म घृण

प श्ये यत्र स इति मृत ४

क्ष ज से ते तु वेद ध्ययनसम्म

द द नरति ै स वै क्षत्रि उ ते ५

षिगेरक्ष णि े विशत्य श चि

ेद ध्ययनस प स् स ै इति सञ्जित ६


े भक्षरतिर्नित्य सर् म रोऽ चि

|   |    |
|---|----|
| वे . नाचारस् स वै शूद्र इति स्पृ                    |    |
| शूद्रे चै द् द्विजे चैत ते                          |    |
| न वै शूद्रे भवेच्छूद्रो ब्रा णो न च ब्राह्मण        | ८  |
| स पायैर लोभ ोधस्य च विनिग्रह                        |    |
| एतत् पाि ज्ञ त य था चैवात्मसय                       | ९  |
| नित्य ोध च्छ्रिय रक्षेत् तपो रक्षेच्च मत्सर त्      |    |
| िद्यां न वमान भ्याम् आत्ानं तु प्रमादत              | १  |
| यस्य सव मारम्भा निर श र्व धनास्त्वह                 |    |
| त्यागे यस्य हुत स स त्यागी च स बुद्धिमान्           | ११ |
| अहिं सर्वभूतानां मैत्र यणगति रेत्                   |    |
| <sup>१</sup> परिन् परित्य य भवेद्बुद्ध्या जिते द्वय | १२ |
| चल स्थानमा तिष्ठेद् इह च मुत्र चेभये                | १२ |
| तपोनित्येन दा तेन मुनिना सयत त्मना                  |    |
| अजित जेतु िमेन भा य सङ्गे सङ्गिन                    | १३ |
| इि यैर्ग ते यद्यत् तत्तद्व्यक्तमिति स्थिति          |    |
| अ यक्तमिति विज्ञेय लिङ्गप्र ह्यमत द्वयम्            | १  |
| अवि भेण ग त य ि स्भे धारये मन                       |    |

1. घ विक्र भे ग त य विक्रग्भे धारो नः

|  |    |
|--|----|
| न प्राणेन गृह्णात् प्राण ब्रह्मणि धरयेत् | १५ |
| प्राण देहं चित्तं चिन्तयेत्              |    |
| वैश्वानरो स वै तेन धिगच्छति              | १६ |
| पौत्रेण युक्तस् सदचरसमन्ति त             |    |
| नुश्च भूते दिजि लक्षणम्                  | १  |
| इति श्रौतसूत्रिकायां ऋषिसिद्ध्या         |    |
| अन्तिप्राणेषु ऋषिष्यायः                  |    |
| ८८ तेषु एकान्तेषु                        |    |
| [स्मिन्त्येषु                            |    |

## त्योऽथ



|  |  |
|--|--|
| भृगुण इति ऋषिः सुतः तदिदं              |  |
| ऋषिदेवः लक्षणं तस्मिन् भारतद्वयेन दापः |  |
| भृगुणो निरूपणपुत्रः तद्धनतः ति         |  |
| द्विषिणम् २                            |  |

### भृगुः

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| सत्यं तपस्य सत्यं च सृजते प्रज    |   |
| सत्येन र्यते लोकस् गसत्येन गच्छति | १ |
| अनृतं सोरूपं तसनीयते ध            |   |
| मेषु न पश्यति शतसः ऽऽवृत्तम्      | २ |

स्वर्गं श इत्याहुर च

त्यानृताभ्यामुभ प्राप्यते जगतीचरै ३

त्वेवा ध त्तिर लोके सत्यानृताद् भवेत्

धर्माधम । तमो दु सुख तथ

त्र यत् सत्य स धर्मो षो र्मस्स प्रकाशो च प्रकाशस्त

त्सुखमिति तत्र यदनु से योऽधर् यत्

ित्यु यते ५

शारीरम न दु ईस् अपि सुखोदयै

लोकसृष्टिं प्रपश्य तो न न्ति विचक्षण ६

दु िेक्षाथ प्रयतेत िचक्षण

सुख नित्य भूतानाम् इह लोके परत्र च

राहुन स्य सो स्य यथ येत न भ सते

तथा मोभिभूत ना भूत ना भ्रश ते सुखम् ८

तत् खलु द्विविध दु खमुच्यते सुखमेव च शारर मानस

च ९ इह खल्वमुष्मिँह्लेके सर्वार भप्रवृत्तय सुख र्थ भि

धीयन्ते १ न त त्रि गै फलमस्ति विशि तरम् ११

स एष यो गुणविशेषे धर्मार्थये र र भ द्वेतुरस्ये त्पि

सु प्रयेजन र्थ १२

ारणा :

यदेतद्भवताऽभिहित सुखानां परमार्थस्थितिरि  
 गृहीमो न षामृषीणं तपस्विनामप्र य एष गुणविशेषो न  
 चैन भिल ित १३ श्रूयते च भग न् त्रिलोककृद्वा ।  
 प्रभुरेका ति ति १४ चारा न कमसुखे ।त्मान  
 विदध ति १५ अचि भगवान् विश्वेश्वर कामंमति त्तमान  
 नङ्गत्नेन श नयत् १६ त द्रुमे तु महात् भि  
 तिगृहतेऽयमथा षे ता द्विशिष्टो गुण इति १७ ।  
 चै द्भगव न् प्रत्येति भग तोक्तं सुख नां परम र्थस्थितिरिति  
 १८ १ले प्र दोऽप च द्विविध फलोऽय सुकृत तु  
 ख प्यते दु कृताहु खमिति १९

भृगुः

अत्रो यते अनृ त् खलु तम प्रदुर्भूतम् २ तमे  
 अधममेवानुवर्त ते न धर्मम् २१ क्रोधलोभमोहमद  
 दिभिर ि न खल्वस्मिँ े नामुत्र सुख । विति २२  
 विविध य धि णरुजोपत पैरवकार्य ते २३ वधव  
 निरोधपरिक्लेशादिभि क्षु त्पिपासाश्रम तैरुपत पैरुपत यन्ते  
 २४ च वात यु तिशितकृतैश्च प्रतिभयै श रीरदु खै

1

न ेद क्यम्

2

द्व े ि

रूपतप्य ते २५ । धुघनविनाशविप्रयोगकृतश्च मानसैश्शो-  
कैरभिभूय ते २६ जरासृत्युकृतै । यैरिति २

<sup>१</sup>यदैतैश्शारीरमानसैर्दुःखैर्न पृश्यते तत् स्व सवेद्य २८  
नचैते देष स्वर्गे प्रादुर्भवति २९ तत्र खलु भवति ३

सुसु पवनस् ग ग धश्च सुरमिस्तथा  
क्षुत्पिपा । मे नास्ति न जरा न च प प म् ३१

नित्यमे सुख स्वर्गे सुख दुःखमिभयम्  
नरके दुःमेव हुस् सुख पर पदम् ३२

थेव सबभूत नं जनेत्रं तद्विधास्त्रिय  
पु न् प्रज पतिस्तत्र तेजोमयं दुः ३३

इत्येतल्लेकनिर्णयं ह्यणा विहितपुरा  
प्रजा विपरिवर्तते स्वैस्वैर्मभिराता ३४

इति गीमहाभारते शतसहस्रि सति त्रया वैयासिक्यां

शांतिपर्वणि त्र्यधिकोऽध्यायः ८

८८ पवणिर्निशाऽध्यायः ३

[ स्मिन्ने ये प्रोक्ताः २३ । तानि ]

१ 'भवति द्विविधः' : गेदयस्सुकृतत् मव 'दुष्कृत-  
दुःखदुःखे च [ निः ३ः ]



## एकोनाशीत्यधि

शृगु ार तुर म्

|  |   |
|--|---|
| द ~ फल प्रो र्म चरितस्य च<br>पस ाध्याय हु च                                | १ |
| शृगुः<br>हुनेन यते प स्वध्या इ ि रुत्त<br>दनेन भो इत्याहुस् पस युत्        | २ |
| दान द्वि ध प्रहु परत्रार्थमिहै च<br>सद्भ्यो यद्दीयते किं त् तत् परत्रोप ति | ३ |
| असद्भ्यो दीये यत्तु तद्दा ि भुज्ये<br>श द ते दान श फलमु ये <sup>१</sup>    | ४ |
| धर्मचरे युक्ता े भ ति नीि<br>तेषा धर्मफल ि र्येऽ यथ स ि                    | ५ |

1. द्वाजः

.स्य ि रण ि धम क्षणम्  
: क्ति विधो ि न् क्तुम

[ धि : प : ]

2. नरे स्थिति

भारद्वाजः

किं मर्चरण । लणम्  
 धर्म विविधो वाऽपि तद्गन् क महर्षि ६  
 दे र म्य विविहित रा  
 त समाच र यथ वद्वक्तूमर्हसि

भृगुः

पूर्वमेव भगवत ब्रह्मण लोकहितं नुतिता धर्मसंरक्षण  
 ण थमाश्रम तारे निर्दिष्टा ८ त्र गुरुकुलव मेव त्वत्  
 प्रथम मुद हरन्ति ९ सम्यग् त्र शाचस र्नि न नि  
 यमव्रत नीतात् उभे स ध्ये भास्कर विदवत न्युपस्थाय  
 विहय नि स्ये गुरो रभिव द वे भ्यासश्र णपि त्रीकृतान्त  
 रात्म त्रिष णमुपस्पृश्य ब्रह्मचर्यग्निपरिचरणगुरुशुश्रूष नित्यो  
 भैक्षादिसव गुरो नि विदितान्तरत्मा गुरु चन निर्देशा  
 नु ।ऽप्रतिकूले गुरु धस्व ध यफल त् १

भ ति च श्लोक ११

गुरु यस्तु स र ध्य द्विजे वेदम ियात्  
 र्गफला िश ध्यते त मानसम् १२

गार्हस्थ्य खलु द्वित यमाश्र वदति १३ तस्य स य  
 गाच रलक्षण रुव याख्य स्य म १ सम वृत्तानां

सदाराण सहधर्मचर्यं फलार्थिनां गृहश्रमे विधीयते १५  
 धर्मार्थकमवत्यथ. त्रिर्गफलसधनमपेक्ष्य विगर्हितेन मर्ण  
 नायदाय ।ध्याय प्रकर्षेपल धेन वा षिनिर्मिते वा  
 अद्रिस गरगतेन वा हयनियमभ्यासदै तपूजासमधिप्रसाद  
 विध्युपल धेन । धनेन गृहस्थो गर्ह्य प्रयेत् १६  
 द्विसश्रमणां मूलमुदहरित १७ गुरुलनिवासिन  
 परिजयेचान्ये सङ्कल्पितव्रतनियमधर्मनुष्ठायिस्ते  
 यत एभिश्च लिङ्गा प्रर्तते १८

नानां च द्रोपकर इति प्रायशस्ते सध  
 स्सुवृत्तविनयपत्यर्थिन ध्ययप्रसङ्गिनस्त्रिभंगमनदे  
 दर्शनार्थं पृथिवपर्यटित १९ तेषं प्रत्युत्थनभिगमननु  
 नयवाक्प्रद नसमुख्यशयास शरणाभ्यवहरसति यश्चे इति

ते च त्रश्लोक

२१

अतिथिर्यस्य भशो गृहत् प्रतिनिर्तेते

स तस्य दुकृतदरपुयमादयग २२

अपि चात्र यज्ञक्रियाभिर्देता प्रीयते निपेनपिरे  
 वेदाभ्यसशरणेन ऋषय अपत्योत्पन्नेन जपति  
 रिति २३

1. पयटनास्त्र ध्य प्रसङ्गिनः

धून पार्थिनः

श्लोकौ चात्र भ त २४

त्सलास्सर्वभूतानां । याश्चोत्रसुख गिर  
परि द प दै च पारुष्य चात्र गर्हितम् २५

अ ज्ञानमह रो द भश्चै त्र गर्हित  
अहिंस सत्यमक्रोधस् श्रमगत प २६

अपि च त्र म ल्याभरणव झरागेपभोगनृत्तगातवादित्र  
श्रुति खनयन भिरामदर्शनानां प्राप्तिर्भक्ष्यभोज्यले पेयचो या  
णा भ्यवह राणां ि धानामुपभोगस्स्व रस तोष मसुखा  
वा ि रिति २

श्लो ै चा त २८

त्रिवर्गगुणनिर्वृत्तिर यस्य नित्य गृह श्रमे  
स सुखान्यनुभूयेह शि गतिमवु य त् २९

उच्छ्रवृत्तिर्गृहस्थे यस् स्वधर्माचरणे रत  
त्यक्तक मसुख र भस् तस्य गे न दुर्लभ ३

इति े भारे सहसि हताया वैयासिक्यां

ि प णि ए ङेन ि तमोऽध्यायः ९

८८ । ि षुर्का ि ३

[ न्या ३ ० गः । न ६ ]

## अशात्यधिकशततमो ध्याय



भृगुणा ररद्वाज प्रति वानप्रस्थ त्या गोल्लक्षणकथनम्  
हिमवदुत्तरलोक स्वगतुल्यत तपादनपूर्वक सुकृतिप्राप्यत

भृगु

वानप्रस्था ल्वृषिधममनुवर्तन्ते याि तीर्थे नि नदाप्र  
गान्यनुचरन्ति । १ सुवि केष्वर येषु मृगमहि वराहशादूळ  
चमरसृमरगजाकीर्णे पस्यन्तेऽनुस रनि २ त्यक्तप्राप्त्य  
वस्त्राहारे पभोगा वन्यौषाि फलमूलपर्णपरिमितवि चित्रनियत  
ह रा स्थानासनेनो भूमिपाषाणसिकताशर्करावालु भस्मशा  
यिन शकुशचर्मवल्कलसवृत ज्वा केशश्म रोमनखधारिणे  
निय लोपस्पर्शना अ लबलिहे नुष्ट येन समित श  
कुसु गोपहर म्मार्जनहोमान्तलब्ध श्रम शितोष्णपवना नि  
प्रविभि सर्वत्वचे विविधनियमयोगचयाविहितधर्म तु  
तमा शो णितत्वगस्थिभूता घृतिपर त्वयोगाच्छरं राण्यु  
द्वहति ३

भ ि चात्त श्लो

श्रैतां नियत र्थं ब्रह्मर्षिं हे िं चरेत्  
स दहेद् विदोषाञ्ज जयेल्लो िं दुर्जय न् ५

परि जकाना पुनराचर प्रवदामहे धनकलत्रपरिबर्ह  
 द्वेष्वत्मन हपाशानवधूय परिव्रजन्ति शोष्ठाश्म  
 न र्गप्रवृत्ते वार भेष्वसक्तबुद्धयोऽरिमित्रोदा निषु तु  
 दर्शन ।वरजङ्गमाना जरायुजाण जस्वेदजोद्भिज्जानां वाङ्मन  
 भिरनभिद्रोहिणोऽनिकेतना पवत्तपुल्लिनवृक्षमूलदेवतायत  
 न्यनुचरन्तो स सथमुपेयुनगर ।म नगरे पञ्चरत्रिका  
 चकर विश्व च प्राणघरणमत्राथ द्विजातीना  
 भवन यस र्णकर्मणामुपतिष्ठेयु पात्रपति यचितभैक्ष<sup>१</sup>  
 मक्रोधदर्पलेभमेह ।पि दम्भपरि ।दाभिम न हँसानिवृत्त  
 इति ३

भ न्ति चात्र श्ले ।

सर्वभूतेभ्ये दत् । चरति ये मुनि  
 न तस्य सर्वभूतेभ्ये भय पद्ये चित् ४

८ ऽग्निहोत्र ररस

शाररम स्वमुखे जुहेति  
 यो भैक्षचयापगतैर्हवि

चिता कानां ि याति लोकान् ५

मेक्षश्रम य रुते यथो

शुचि सुसङ्कल्पितबुद्धियुक्त

१ ण्ह । [ - हि : पाठः ]

अनिन्धन ज्योतिरे प्रशान्

स लोक श्रयते द्विजाति

६

भारद्वा :

अ श्रो त् परे ले श्रुयते नोपलभ्यते

त ह ज्ञातुमिच्छामि तद्भान् कर्महति

भृगुः

उत्तरे हिमव पश्चे पुण्ये सवगुणान्विते

पु य े य काम्य स परो श्रो यते

८

तत्र पापकर्ण शुचयोऽत्यन्तनिर्मल

लेभमोहपरित्यक्त मनव निरुप

९

स ग दृशे लोकस् स्मिन् युक्ताश् भा गुणा

नात्र मृत्यु प्रभवति स्पृशति व्याधयो च

लोभ परदरे दरनिर े जन

च ेन्यवध ेषु च न ि य

११

परोक्षधर्मो नै ि स देहो नै जायते

फल त्यक्ष पलभ्ये

१२

यान सन नोपे । प्रास दोषवन श्रया

ि म । े चिद् हेम भरणभूषिता

३

प्र णध रणमात्र तु ेष ि दुपलभ्यते

१८ ] शान्तिपर्वणि ॐ धमपव १८.

|   |    |
|---|----|
| मेण महत केचित् ॐ त प्र णधारणम्          | १  |
| इह धर्मपर ॐ चित् केचिन्नैकृति नर        |    |
| सुखिता दु खिता केचि धन धनिने परे        | १५ |
| इह श्रमो भय मोह क्षुध तात्रा च ज यते    |    |
| लेभ र्थकृतो नणां येन मु ल्यपठे ता       | १६ |
| इह चिन्ता बहुविधा धर्माधमस्य कर्मण      |    |
| द्वेदो य प्राज्ञ प प्मन स लिप्ये        | १  |
| ॐ पध निकृति स्तन्य परिवादो सूयिता       |    |
| परोपध ॐ हिंसा च पैशु यमनृ थ             | १८ |
| ए ने से ते यस्तु तपस्तस्य मितायते       |    |
| स्वेत चरेद्विद्धास् प ाभिवर्धते         | १९ |
| भूमिरिय लोके इह त्वा भा भम्             |    |
| भैश्शुभ ॐ ति ॐ भ ऽ यथ                   | २  |
| इह प्रज पति पूव दे सर्षिगणास्तथ         |    |
| इष्टे पस पूता लोकमुप श्रिता             | २  |
| उत्तर ॐ थर्व भ गस् स ॐ यतमश्शुभ         |    |
| इहत्य स्तत्र जायन्ते ये वै पु यकृतो जना | २२ |

1. धं तुष्ट ना 2. ग्रह ॐ  
3. णि



|   |    |
|---|----|
| असत् ाणि िण् स् त्ति ये िषु भर                |    |
| क्षीणायुषस्तथै । ये नश्यन्ति थि तले           | २३ |
| अन्योन्यभक्षणे सक्ता लोभमोहसमविता             |    |
| इहैव परिवर्तते न ते य ल्युत्तरां दिशम्        | २४ |
| ये गुरुनुपसेवन्ते निय चारिण                   |    |
| पथन सर्ले ाना ते जनितमनीषिण                   | २५ |
| इत्युक्तोऽयमय धर्मस् सङ्क्षेपाद्ब्रह्मनिर्मित |    |
| धर्धर्मो हे लोकस्य ये वै ित्ति स बुद्धिमन्    | २६ |

॥ :

|   |    |
|---|----|
| इत्युक्ते भृगुणा राजन् भारद्वाज प्रतापान् |    |
| भृगु परम ित्त िस्मित प्रत्यपूजयत्         | २  |
| एष प्रभो राजञ्जगत्स प्रकाशित              |    |
| खिलेन मह प्र भूयश्श्रोतुमिच्छसि           | २८ |

इति श्रीमहभारतशतसहस्रिकाया िया यासिक्या

तपश्चि अशी ि िऽध्यायः ८

८८ ि ध पवणि ि िऽध्यायः २२

[ ि ि २८ िो िः ]

## एकाशात्यधि ऽध्याय

भीष्मेण धि र प्रति सदाचारनिरूपणम्

युधिष्ठिरः

अ च रस्य विधिं । त् प्रे यमान त्वयाऽनघ  
श्रोतुमिच्छे मि र्मज्ञ सर्वो सि मे मत १

:

दुर च र दुर्विचेष्ट दुःप्रज्ञा प्रियसाहसा  
अस त र्भि विख्य स् स त वाच रलक्षण २

पुगीष ऽथ मूत्र ये न ति ना  
र ज ग ग । मध्ये धान्यमध्ये च ते शुभा ३

शौचम यक कृत्वा देवतानां च तपणम्  
धम हुर्मनुष्याणाम् उपस्पृश्य नद तरेत् ४

सूय दोपतिष्ठेत न पेद्म करोदये  
स य प्र तर्जपेत् स ध्यां तिष्ठेत् पूत तथ पराम् ५

प ार्द्रो भोजन र्यत् ाङ्गुखो मैनम स्थित  
न निदेद् भक्ष्यांश्च <sup>१</sup>स्वादुस्व दु च भक्षयेत् ६

न द्रप णि समुत्तिष्ठे ार्द्रपादस्वपे शि

|   |    |
|---|----|
| दे विनारदं प्र ए द च रलक्षणम्           |    |
| शेचि १ म ड ह १ दे गोष्ठ चतु पथम्        |    |
| धार्मि चैव नित्य र्यत् प्रदक्षिणम्      | ८  |
| अर्थि च सर्वेषां प्रेष्याणां स्वजनस्य च |    |
| सामान्य भोजन पूर्वं पुरु स्य प्रशस्ये   | ९  |
| सा प्र र्मनु य म् अशन ३ वेदनिर्मितम्    |    |
| नान्तर भोजन दृष्टम् पव सी तथा भवेत्     | १  |
| होमकाले तथा जु द् ऋतुक ले थ जेत्        |    |
| अन यं जन प्र ङ्गे ब्र च री तथा भेत्     | ११ |
| अमृत णे ि छष्ट जन या २ दय गतम्          |    |
| तज्जन पर्युपास ते सत्य स त उपासते       | १२ |
| यजुषा सस्कृत िसं निवृत्ते िसभक्षणात्    |    |
| भक्षये वृथा मांस पृष्ठमांस च वर्जयेत्   | १३ |
| स्वदेशे परदेशे वा अतिथिं नोपवासयेत्     |    |
| य र्मफल ल " गुरुणामुप देयेत्            | १४ |
| गुरुण न देय त य चाभि दनम्               |    |
| गुरुनभ्यर्च्य युज्येत आयुषा चशसा श्रिय  | १५ |

|   |    |
|---|----|
| नेक्षेत दित्यमुद्यन्त न च नग्नां परि यम्<br>मैधुन मये ध य गुं चै ।चरेत्                   | १६ |
| र्थिनां हृदय तीर्थ चीन हृद चि<br>सर्म र्यकृतं धर्म्यं बालस पर्नानि च                      | १  |
| दर्शने दर्शने नित्य सुखप्रश्नमुद हरेत्<br>साय त वि णां प्रदिष्ट भि ।.नम्                  | १८ |
| देवगोष्ठे गवां मध्ये ।ह्वणानां क्रियापथे<br>।चाये भोजने चैव ।क्षिण प णिमुद्धरेत्          | १९ |
| <sup>1</sup> पशूनां शोभन कुर्यात् कृषीणामृद्धतां पि<br>बहु र च सस्य नं सुवाह्य वहतां गवम् | २  |
| प भोजने नित्य प नाये तर्पण तथा<br>सुश्रु पायसे ब्रूयाद् यव वां कृसरे तथा                  | २१ |
| श्मश्रु र्मणि स प्राे क्षुते स्त न च भोजन<br>याधित ना च सर्वेष म् आयुष्यमभिनन्दनम्        | २२ |
| प्रत्यादित्य न मेहेच्च न पश्येदात्मनश्शकृत्<br>सह ि य च शयनं सह भोज्य च वर्जयेत्          | २३ |
| ८ द्वार ना धेय च गुरूणं परिवर्जयेत्   |    |

|  |    |
|--|----|
| अवरणां समानानाम् उभय नैव दुष्यति   | २४ |
| हृदयपपवृत्तानां पापमाख्यातिः ॥ १ ॥<br>पूर्वनिश्चयितगूहमानमहजने                     | २५ |
| तानपूर्वतपपछादयन्त्यबहुश्रुत<br>नैनं मनुयापश्यति पश्यति त्रिदिशः स                 | २६ |
| पेनरमता द्विपापमेवानुवर्तते<br>मिषिणतो धर्मकर्तारमनुवर्तते                         | २  |
| पपकृन्स्मरिहमू<br>र्तमानस्य तदेति कर्तु<br>रहुर्यथ च मुपै च पि<br>थऽबुधपपमुपैति मे | २८ |
| अशसिद्रययत्कालनेपमुज्यते<br>तद्वघानप्रसतिरणनप्रतीक्षते                             | २९ |
| मससर्वभूतानां धर्मिहुर्मनीषिण<br>तत्सर्वेषु भूतेषु मनसशीलमचरेत्                    | ३  |
| एएचरेद्धमनास्ति धर्मे सहा त<br>धिमास सहा रियति                                     | ३१ |

दे योनिर्मनुष्यणां देवान् मृतदिवि

प्रेत्यभावे सुधर्माच्च छाश्वतैरुपभुयते

३२

इति भारते शतसहस्रिके संहिता धैर्यादि

शान्तिपर्वणि एकाशीत्यधिकशतोऽध्यायः ८

८८ मोक्षधर्मपर्वणि त्रयोऽध्यायः ३३

[अस्मिन् ३३ प्रोक्तः]

### द्व्यध्यात्मध्यातृत्वात्प्रोक्त्याय

भीष्मे बुधिमिच्छन्त्यान् पणम्

युधिष्ठिरः

अध्यात्मनाम यदिदं पुरुषस्येह चिन्त्यते

यदध्यात्मयश्चैतमेव ब्रूहि पितमह

१

तस्मिन्निदं सर्वं ब्रूहि न स्थवरजङ्गमम्

लये च निमप्येति तमेव ब्रूहि पितामह

२

युधिष्ठिरः

अध्यात्ममिति मां पार्थ यदेतदनुपृच्छसि

तद्व्याख्यस्यामि ते तत्तत्र श्रेयस्तरश्चुभम्

३

यज्ञात्तस्मिन् पुरुषो लोके प्रीतसौख्यं च विदति

1. गतं कुरुहि

|   |    |
|---|----|
| फललाभश्च सद्यस्य तू स भूतहितं च तत्       | ४  |
| थिर्वि आयुरशम् अपे ज्येतिश्च प मम्        |    |
| मह भूतनि प वैव षां प्रभ ययै               | ५  |
| त सृष्टिनि त्रैव तानि यित पुन पुन         |    |
| मह भूतेषु भूतनि सागरेषूर्मयो यथ           | ६  |
| स र्य च यथा गति कूर्म सहरते पुन           |    |
| मह भूतानि भूतात्मा सृष्ट्वा सहरते पुन     |    |
| मह भूतनि प वैव सर्वभूतेषु भूतकृत्         |    |
| अकरेत् ेषु वैष य तत् तु र्जवो न पश्यति    | ८  |
| द्दशश्रेत्रं तथा खानि त्रयमाकाशस भवम्     |    |
| ायस्त्वक्स्पर्शन चेशा तदेतत् त्रितय मृतम् | ९  |
| रूप चक्षु थ यत्किम् त्रिविध तेज उच्यते    |    |
| रस ेदश्च जि । च त्रयो जलगुण मृता          | १० |
| ेय घ्राण शरार च ते तु भूमिगुण य           |    |
| सव त यमेवैतद् भूत स्थावरजङ्गमम्           | ११ |
| लीयते चोद्भवति तस्मा दिदृश्यते तथा        |    |
| एव बुद्ध्य परं बुद्ध भूत नामागात् गतिम्   | १२ |

1 धि र्

2. दम म्

3. चतुष्ट ।

|   |    |
|---|----|
| वेक्ष शनैस्सम्यक् लभते शममुत्तमम्             |    |
| महाभूतानि पञ्चै षष्ठ तु मन च्ये               | १३ |
| इति याणि मञ्चै विज्ञानान्य भार                |    |
| मी बुद्धिरित्यद्दुःखे पुनरष्टम                | १४ |
| चक्षुरलो नयै सशय कुरुते मन                    |    |
| बुद्धिरध्यवस नाय सा । क्षे ज्ञ उच्यते         | १५ |
| चे छत्त्यधिष्ठित बुद्धिश चेतनेत्यभिविश्रुता   |    |
| चेतन न रो जा स् तद् वेत्ति च लक्ष्यते         | १६ |
| नोत्सृजन् विसृजश्चै शरीर दृश्यते तम           |    |
| स्मिश्चेतोपलिष स्य त् तमे । सारय त्युत        | १७ |
| ऊर्ध्वं पद लाभ्यं यद् अव द्युर्ध्वंश्च पश्यति |    |
| एतेन विवेद सर्वाभि र्याप्तम रम्               | १८ |
| पुरुषैरिन्द्रियाणीह विजेत यानि त्स्रश         |    |
| तमो रजश्च सत्त्व च तेऽपि भ वास्तदाश्रिता      | १९ |
| एतां बुद्ध नरो बुद्ध्या भूतान मागतिं गतिम्    |    |
| समवेक्ष्य शनैश्चैव लभते शममुत्तमम्            | २  |
| गुणा नीयते बुद्धिर् बुद्धिरेवेन्द्रिया यपि    |    |



|  |    |
|--|----|
| मनष्षष्टिने सवणि बुद्ध्यभे े गुणा        | २१ |
| इति तन्मयमेवैतत् स स्थ रजङ्गमम्          |    |
| येन स ल्प त्यथ ि श्चिद्भवति त न          | २२ |
| ेन पश्यति त क्षुश शृणो श्रोत्रमुच्यते    |    |
| जि ति णि त्य हू रस जान ते जि य           | २३ |
| त् चा प जि नाति बुद्धिर्विक्रि तेऽस त्   |    |
| अधि ानानि बुद्धेर्हि थगर्थानि प ध        | २४ |
| पेन्द्रिय णि य य हुस् ता यदृश्येऽधिति ते | २४ |
| पुरुष धि बुद्धिस् त्रिषु भावे वर्तते     |    |
| मो रज सत्त्व च ि द्वि भा ांस्तद श्र न्   | २५ |
| दाचि भे प्रीतं द चिदनुशोचते              |    |
| न खे न दु खेन दाचिदपि वर्तते             | २६ |
| ए नराण मनसि त्रिषु भावे ववस्थित          |    |
| ेयं भावात्मिका भावांस् त्रीनेतानतिवर्तते | २  |
| सरितां स गरे भर्त महावेलामि र्मिमान्     |    |
| अविभ गग । बुद्धिर् भ वे मनसि वर्तते      | २८ |
| प्रवर्तमा तु रजस् तद्भ मनुवर्तते         | २९ |

|  |    |
|--|----|
| १दूरग बहुध गामि र्थन सश त्मकम्<br>स्सु नियत यस्य स ख प्रेत्य चेह च               | ३  |
| इन्द्रियाणि च सर्वाणि दर्शयति सर्वदा<br>प्रतिस्सत्त्व रज शोकस् तमो मोहश्च ते त्र | ३१ |
| इति बुद्धिर्गिस्स र्था य ख्य ता त भारत<br>इन्द्रिय णि च सर्वाणि जेत यानि णि      | ३२ |
| सत्त्व र स्तमश्चै प्र णिनां सश्रित स्सदा<br>त्रिविध वेदन चै सर्वसत्त्वेषु रयते   | ३३ |
| सत्त्व राजसी चै त मसी चैव भरत<br>ख पर्शस् त्वगुणो दु ख पर्श रजगुण                | ३४ |
| गुणेन सयुक्तै भवतो यावह रिकै   | ३४ |
| तत्र यत् प्रीतिसयुक्त काये मनसि वा भवेत्<br>स्ते सार्वि वे भव इत्युपेक्षेत तत्तथ | ३५ |
| अथ य सुखसयुक्तम् अतुष्टिकर त्मन<br>प्रवृत्त रज इत्येव त सरभ्य चि तयेत्           | ३६ |
| अथ य मोहसयुक्तम् अ यक्तविषयं भवेत्   |    |

1

द्वय ि

2.

मा िस्मिन् वे ि

|  |    |
|--|----|
| अप्रतर्क्यम विज्ञेय तमस्तदुपध रयेत्            | ३७ |
| प्रहर्ष प्र तिरान दस् सुख सशा त चित्तता        |    |
| कथं दमिवर्त त इत्येते स त्वि गुणा              | ३८ |
| अतुष्टि परित प शोके लेभस्तथाऽक्षम              |    |
| लिङ्गानि रजसस्त नि दृश्य ते हेत्वहेतुभि        | ३९ |
| अभिमानस्तथा मेह प्रमाद तद्रिता                 |    |
| थि दमिवर्त ते विवि स्त मस गुणा                 | ४  |
| ये ये च भ व लोकेऽस्मिन् सर्वे ते वेव ते त्रिषु |    |
| सर बुद्धिस्ततो भ व प्रीतियोगात् प्रवर्तते      | ४१ |
| सत् क्षेत्र योरेतद् अ तर पश्य सूक्ष्मे         |    |
| सृजे त्रिगुणाने एको न सृजे गुणान्              | ४२ |
| मशकोदुम्बरै ऽपि सम्प्रयुक्तौ यथ सद             |    |
| अ यो यम ये च यथा स प्रयोग थ ये                 | ४३ |
| पृथ भूतौ प्रकृत्या तौ स प्रयुक्तौ च वद         |    |
| था त्स्यो जल चै स प्रयुक्त तथै तौ              | ४  |
| न गुण विदुर त्म न स गुणान् ेत्ति र्वश          |    |
| परिद्र गुण न सं ससृष्टान् म यते तदा            | ४५ |
| इन्द्रियैस् प्रद प थ कुरुते बुद्धि त्तमै       |    |

१८२] शान्तिपर्वणि मोक्षधमप ९९५

निर्विचेप्रैरजानद्भि परमात्मा प्रदीप त् ४६

सृजते हि गुणान् र क्षेत्र परिपश्यति  
सु प्रयोगस्तयोरेषु सत्त्वक्षेत्रज्ञयो व ४७

अ श्रयो न ि सत्त्व क्षेत्रज्ञस्य कदाचन  
सत्त्व मनस्ससृजति न गुण न् वै कद चन ४८

रश्म स्तेषां स म स यद् स यङ्गनियच्छति  
तदा प्रकाशते त् । घटे दीपे च ल् वि ४९

त्यक्त्व य प्र कृत कर्म यदा ि त्यरतो मुनि  
सर्वभूतात्मभूतरस्य त् स गच्ेदुत्तमां गतिम् ५०

यथ रिचर पक्षी न लि पति न लिप्यते  
एवमे प्रे भूते परिवर्तते ५१

एव स्वभ वमेवैत स बुद्ध्वा ि हरे र  
अशोच प्रहृ य चरेद्विगतमत्सर ५२

भ शक्य युक्तस्तु नि स सृजते गुण न्  
ऊर्णन भियथ सर विज्ञेय स्तन्तुवद्गुणा ५३

प्रध न ि व र्तेते निवृत्तिर्नोपलभ्यते  
प्रत्यक्षेण परे क्ष तद् अनुम नेन सि यति ५४

ए मेके व्य ित निवृत्तिमिति चापरे  
उभयं स प्रधायैतद् अध्य स्येद् यथ मति ५५

|  |         |
|--|---------|
| इती लदयः थ बुद्धिभेदमय दृढम्<br>विमु य खम स न शे चेच्छन्नसशय   | ५६      |
| मलेना प्रा युश्याद्ध यथा पूर्णा नद र<br>अ ग सुविद्वासो विद्धि तानमिद था  | ५       |
| ह नदा हि रज्ञ स् रन्ते न तद यथा<br>न तु यि र फल नेन इत्युत   | ५८      |
| ए ये विदुराध्यात्म ेवल ज्ञानमुत्तमम्<br>एतां बुद्धा नरा सर्वे भूतान मागात गतिम्<br>अेक्ष्य च शनैर्बु लभते शममुत्तमम् | ५९<br>६ |
| र्गो यस्य िहि प्रेक्ष्य त स ेमुच्ये<br>अन् पीक्ष्य मनसा युक्तस् तत्त्वदर्शी निरुत्सक                                 | ६१      |
| च त्मा शक्यते द्रष्टुम् इन्द्रियेषु विभागश<br>तत्र तत्र निसृष्टेषु दुर्जये वजित त्मभि                                | ६२      |
| एतद्बुद्धा भवेद्बुद्ध किम यदुद्धिलक्षणम्<br>विज्ञ तद्धि म यन्ते कृत कृत्य नीषिण                                      | ६३      |
| न भ ति विदुषां ततो भय<br>यद विदुषां सुमहद्भय भवेत्   |         |

न हि गतिरधि ऽस्ति स्यचित्  
सि हि गुणे प्रव. ति तुल्यताम् ६४

य करोत्यनभिसिधपूर्वकं  
निर्णुदति यत् पुर तम्  
प्रिय तदुभय त प्रिय  
स्य तज्जनय ह कुर्वत ६५

लोकम तुरमसूयते जनस्  
तत्तदेव बह पश्य शोचति  
तत्र पश्य शल नशोचते  
ये ति दुस्तदुभय पद सताम् ६६

इति भारते शतसहस्रिण्यां सप्तम्यां सिद्ध्यां

शा पर्वण षोडशधर्मपर्वण शत षोडशः : १८२

८८ षोडशधर्मपर्वणि चतुर्षोऽध्यायः ३४

[ सिद्ध्यां षोडशः ]

अथशात्यधिकशततमोऽध्यायः



भवेद्युधि र । ध्यानयोगे नम्

१ :

|   |   |
|---|---|
| ह त वक्ष्यामि ते पथं ध्यानयोगं चतुर्विधम्<br>यज्ञत्वशश्वतासिद्धिगच्छितपरमर्षय | १ |
| थास्वनुत्तध्यनतथर्वयोगिन<br>महर्षये ज्ञानवृत्तिर्वाणगमानस                     | २ |
| नवर्तते पुनपार्थमुक्तससरदेत<br>जमदेषपरिक्षिणास्भावेपर्यवस्थित                 | ३ |
| निर्द्वन्द्वनित्यत्वस्थविमुक्तिनित्यमश्रिता<br>असङ्गयविषदनिमनश्शक्तिराणि च    | ४ |
| तध्यानेनसश्लिष्टमेकग्रेधारयेमन<br>पित्येन्द्रियमाम्असानमुनि                   | ५ |
| शदन्दिच्छेत्रेणतचापशनवेदयेत्<br>रूपनचषाविद्यज्जिह्वयनरसांथा                   | ६ |
| येयायपिचसर्वाणिजिह्वनेनयेगवित्  |   |

- 
1. र्णि 2. - यन  
3. गज ४ । योगवित्

|  |    |
|--|----|
| पञ्चवर्गप्रमथीनिनेनेतानि यवन्                |    |
| तो नसि ससृ य पञ्चवर्गचक्षण                   |    |
| समादध्यान्मनो भ्रान्तम् इन्द्रियैस्सह प      | ८  |
| विसरि निरालम्ब प द्वारं चलाचलम्              |    |
| पूर्वध्यानपथे धीरस् सम दध्य मनो नर           | ९  |
| इन्द्रियाणि मनश्चै यद पिण्डाकरेत्ययम्        |    |
| एष ध्यनपथ पूर्व या समनु णित                  | १  |
| त तत् पूर्वसरुद्धम् अत्मषष्ट मनोऽ तर         |    |
| स्फुरि यति समुद्ध तं विद्युद् बुधरे यय       | १  |
| जलवि दुचथ ले ल पर्णस्थस्सर्वतश्चल            |    |
| एवमेव स्य त्ति भ्रमति य नवर्त्मानि           | १२ |
| सम हित क्षण किं द्ध्य नवर्त्मानि तिष्ठति     |    |
| पुनरियुपथे भ्रात मनो भति वायुवत्             | १३ |
| अनिन्दे गतेशो गतत द्वारमत्सर                 |    |
| समादध्यात् पुनश्चेते ध्यनेन ध्यानयोगवित्     | १४ |
| चिरश्च वितर्कश्च विवेकोपजायते                |    |
| ने समादध नस्य प्रथम ध्यनमादित                | ५  |
| मनसि श्यमान तु तत्सम धानका यय                |    |
| ननेन्द मुनिर्गच्छेद् कुर्याद्देवात्मने हितम् | १६ |



|  |    |
|--|----|
| भ री णां यथा व राशयश्चित                 |    |
| हस ारिणा सिक्त न याति परिभ वनाम्         | १  |
| त् सिक्त यथ च स्य च छुष्कं चूर्णमभावितम् |    |
| मश तु शनैर्ग छेत् सव तत् परिभ वनाम्      | १८ |
| एवमेवेद्रयन म शनै स परिभ येत्            |    |
| सहरेत् शश्चन स स यक् प्रशमि यति          | १९ |
| यमेव नै प वर्गश्च भारत                   |    |
| पूः य नमथ प्र य नित्ययोगेन शाम्यति       | २  |
| न तत् पुरुष रेण च दै न केनचित्           |    |
| सुखमे ति तत्त दे सयतात्मन                | २१ |
| सुखेन तेन सयुक्तो रस्यते ध्य न र्मेणि    |    |
| ग ये गिते युक्त निर् ण त्ति रामयम्       | २२ |

इति श्री भार तसह िया हि िय १

पवणि = शी ष्टिकशत िध्यायः ८३

८८ मो ध पवणि पञ्च िोऽप्यः ३५ ।

स्मि ियाये २२ िकाः]

## चतुरशत्यधिकशततमोऽध्याय

भी ण युधिष्ठि प्रति । । दिकथनम्

युधिष्ठिरः

- च तुराश्र ययुक्त ते रजधम थैव च  
न नाश्रयश्च बहव इतिह सा पृथग्विधा १
- श्रुता त्वत्त थाश्चैव धर्मयुक्ता महामते  
स देहोऽस्ति तु श्चि मे तद्भ न् क्तमर्ति २
- ज प नां फलप्र तिं श्रेतुमि मि भरत  
फल जपतामुक्त <sup>1</sup>तिष्ठति ज पका ३
- जप च वि ध कृत् कुमर्हसि मे नघ  
जापक इति चैतत् सङ्ख्य योग क्रिय विधि ४
- यज्ञविधिरेवैष किमेतज्जप्यमुच्यते  
एत मे सवम चक्ष्व सर्व णे सि मे मत ५
- :
- अत्राप्युदाहर तीमम् इतिह सं पुरातनम्  
यमस्य च पुर वृत्त लस्य ब्राह्मणस्य च ६

|   |    |
|---|----|
| १सन्ध स ए ेद े वर्तते जपन ति            |    |
| वेद दे ाभिर्निवृत्त श ेत्तर्त्र यवा     |    |
| मागौ ताव यु े गौ सश्रित न च सश्रितौ     | ७  |
| यथ ्रूयते राजन् रण च त्र े ते           |    |
| मनस्सम धिरत्र पि थे द्रयजय मृत          | ८  |
| सत्य िपरच रे विविक्त नां च सेवनम्       |    |
| ध्या तपो द शश ेत्तर्त्र अनसूय ि त शनम्  | ९  |
| विष प्रतिसंहारे मितजल्पस्तथा गम         |    |
| एष प्रवर्त े धर्मो निवर्तकमथे शृणु      | १  |
| यथ नि र्तेते र्म जपतो ब्र चारिण         |    |
| ए त् सर् मशे ण यथे क्त परिवर्जयेत्      | ११ |
| त्रि र्गम स यक्त यक्तमनामयम्            |    |
| शोचयनिष णस्सन् शह कुशस्थली              | १२ |
| चीरै परिवृतस्त् ि न् मध्ये शैस्तथ       |    |
| विषयेभ्यो नम र्याद् विषयान् न च भा येत् | १३ |
| र्त्यमुत्प द्य मनस मनस्ये मने दधत्      | १४ |
| तद्द्र े यो हि जपन् े हितं हित म्       |    |
| अथ ा स य ति ि सम धौ पर्यवस्थि           | १५ |

|  |    |
|--|----|
| ध्यानमुत्तम इत्यत्र हि बलसश्रयात्        |    |
| शुद्धात्मा तपस दा तो निवृत्ताशेष मवान्   | १६ |
| अरगमेहो निर्द्वे द्वे न शोचति न सज्जते   |    |
| नं तां रणायानां कार्याण मिति स्थिति      | १  |
| च ह रयोगेन मन प्रस्थापयेत् चित्          |    |
| न च नुग्रहणे युक्ते नावमानी च क्रिय      | १८ |
| ध्य न चापरे युक्ते ध्य नव न् ध्य नानश्चय |    |
| ध्याने स धिमुत्पाद्य तदपि त्यजति क्रमात् | १९ |
| स चैतस्याम स्थ यां स त्यागकृतस्सुखं      |    |
| निरह त्यजति णान् ह्या श्रयते तनुम्       | २  |
| अथ नेच्छते तत्र ह्य यनिषेवणम्            |    |
| उत् मति च म र्गस्थे नै चन ज यते          | २१ |
| अ त्मबुद्ध सम स्थ य शा ती भूते निर मय    |    |
| अमृत विरज शुद्धम् अ त्मान प्रतिपद्यते    | २२ |

इति श्री भारते सहित्कार्या वीयारि १

शान्तिपर्वणि चतुरश्र दिकश षोडश्यः ८

८८ शोध पर्वणि षोडश्यः २६

[ १ १ २२ १ १ ]

## प शात्यधिकशततमोऽध्याय



भे युधि र । जाप गोपाख्यान नम्

धि :

गती न मुत्तम प्रप्ति कथित ज पके विह  
ए वैष गति षाम् त या त्यपर अपि १

भे :

शृणु वावहि राजञ् जापकानां गातं भे  
थ गच्छन्ति निरयम् अनेक पुरु षभ २

यथे क्तमे त् पूव यो नानुति ति जापक  
ए देशक्रि श्चात्र निरय स निग छति ३

अ मनेन रुते तु यति न शेचति  
ई शो जापो यति निरय नत्र सशय ४

अहङ्कारक वैव सव निरयग भिन  
पर वमानी रुषो भविता निरयेपग ५

अभिध्यापूर्व ज य कुरुते य मोहित  
त्र भिद्भ्यां स कुरुते त निरयमृ छति ६

अथैश्वर्यप्रवृत्त सञ् जापो यत्र रज्यते

१८५] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व १ ५

स ए निरय न तस्मत् मुच्यते  
रगेण जापे ज रुते यस्तु मे हित  
यत्रा रग पतते त्र त्रो पद्यते ८

दुर्बुद्धिरकृत श चले मनसि तिष्ठति  
चल मे गां याति निरय । निगच्छति ९

अकृतप्र के बालो मोह गच्छति जापक  
स मोहा रय यति त्र गत्व ऽनुशोच १

दृढग्राहा करो ति ज याञ् जपति जाप  
न स पूर्णो । युक्तो निरय सोऽधिगच्छति ११

युधिः :

अनिमित्त पर यत्तद् अ यक्तं ह्यणि स्थि म्  
स भूतो जाप । त् सशर रमिहा शेत् १२

:

दुष्प्रस्थ नेन निरया बहव समुद ता  
प्रशस्त ज पक व च दोषाश्चते त १३

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रि द्विंशत्याय वैयासिक्यां

नि पर्वणि १२ धि श तम ऽध्यायः ८५

८८ ध पर्वणि स ि ऽध्यायः ३

[ सि न्ये ३ काः ]

## उशत्यधि त ेऽ य



द्विष्टिर ति प ङोपाख्य ध म्

युधि :

श ज पक्रे य ते नर वर्णयस्व मे  
कैतूहल हि मे ज त तद्भवान् कुमर्हते १

^ :

धर्मस्यांशप्रसूतेऽसि धर्म ेऽसि भवत  
ममूल श्रय वाक्य शृणुष । हितेऽनघ २

अमूनि य नि स्थ न नि देवान ममरात्मन म्  
नान स न र्णानि न न रूपफलानि च

दि यानि मच रीणि विमान नि सभास्तथा  
आ ि । विविध र जन् पद्मि यश्च मले ढक ४

चतुण लो पालानां शुकस्याथ बृह पते  
रुतां ि श्वदे ानां स ध्यानामश्चिनोरपि ५

रुद्रादित्य सूनां च थ ऽ येषां दि कैस म्  
एते वै निरय स्थ नस्य परम मन ६

अभय च नि ति च न च ह्येशभय वृतम्  
द्वाभ्या मुक्त त्रिभिर्मुक्तम् अष्ट भिर्बिभिरेव च ७

१८ ] शान्तिपर्वणि ेक्षधर्मपर्व १

चतुर्लक्षणं ज तच् चतुष्कारणवर्जं म्  
अप्रहर्षमनाद्य तम् अशोकं गतं मम् ८

ल पचते तत्र न ल ५

स ल प्रभू राजन् सर्वस्य पि तथेश्वर ९

आत्मा केवलतां प्राप्तस् तत्र गत्वा शोचि  
ई शं परमं न निरयस्ते च तं शा १

एते ते निरयंोक्तास् सर्व एव यथातथम्  
तस्य स्थ रस्येह वै निरयसित ११

इति गीमहाभ े तसह े हितायां वयासिक्या

ान्तिपर्वणि पदशं १० शत गोऽभ्यः ६

८८ े धर्मपर्वणि १ शोऽभ्यः ३८

[ सिद्धन्ध्याये १ श्लोकाः ]

शाल्याधकशततमोऽथाय



प गोपाख्यानं १ े प्रेक्षवर्दि े तदः

धि रः

लमृत्युय नं ते ब्रह्मणस्य च सत्तम  
वि वदे यात पूर्व तद्भवन् कुमर्हति १



|  |   |
|--|---|
| अत्रा युदाहर तीमम् इतिह स पुर तनम्           |   |
| इक्ष्वा ेस्सूयपुत्रस्य यद्वत्त ाह्णस्य च     | २ |
| कालस्य मृत्यो तथ यद्वत्त त्ति ब्रेध े        |   |
| यथा स तेषां स दे यस्मिन् स्थाने स च भ त्     | ३ |
| ाह्णो ज पक कि द्धु धर्मवृत्ते मह यशा         |   |
| ष ङ्गि मह । पै प ाद स ैशि                    | ४ |
| तस्यापरोक्ष वि न षट् ङ्गेषु तथैव च           |   |
| वेदे चैव नि णातो हिमवत्पादसश्रय              | ५ |
| सोऽय ब्र तपस्तेपे सहिता सयतो जपन्            |   |
| तस्य वर्षसहस्र तु नियमेन तथा गतम्            | ६ |
| स दे य दर्शितस्साक्षात् प्रीतास्मीति तदा किल |   |
| ज यम वर्तयस्तूणा न स तं किं द्रवीत्          |   |
| तस्यानुक पय देवी प्रीत समभवत् तद्            |   |
| वेद त तत स्य तज्ज य समपूजयत्                 | ८ |
| सम य ज य तूथाय शिरस प द् े द                 |   |
| पपा दे या धर्मात्म चन चेदम वीत्              | ९ |

। :

दे वा दे े स त्व दर्शनं च गत ऽसि मे

१८ ] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्पव १ ९.

यदि ऽपि प्र ऽसि जप्ये मे रमतां मति १

साविली

विं प्राथयसि विं प्रर्षे ऽक चेष्ट रवाणि ते  
प्रब्रूहि जपतां श्रे सव तत् भविष्यति ११.

भीष्मः

स्त्युक्त स द दे या वि प्र प्रो ऽच धर्त्त  
ज य प्रति ममे छेय वर्धते पुन न १२

नसञ्च सम धिम वध हरहश्शुभे  
त तथेति ततो देवी मधुर त्यभ त १३

इद चैव पर प्र २ दे तत्प्रिय यया १३

विली

निरय नै याता त्वं यत्र याता द्विजर्षभ  
य स्यसि ह्यणस्थानम् अनिमित्तमनिदित १४

साधये विता चैतद् यत्त्वयाऽहमिह थिता १५

नियतो जप चैकानो धर्म तं समुपैष्यति  
लो मृत्युर्यमश्चैव समाय तित तेऽतिकम् १६

भवि च विवा १०३ तव ते तं च धर्मत १६

ः

<sup>१</sup>एवमुक्त्वा भगती जगाम भवन क्रम्

1. य वि

|  |     |
|--|-----|
| ब्राह्मणोऽपि जप े ि य षशतं तथ                | १   |
| समाे नियमे िस्सस् तथ विप्रस्य ध मत           |     |
| साक्षात् प्रीत दा धर्मो दर्शयाम स तं द्विजम् | १८  |
| :  |     |
| द्विजाते पश्य मां धर्मम् अह त्वां द्रष्ट गत  |     |
| ज यस्य स्य फल यत्तत् स प्राप्त त मे शृणु     | १९  |
| जित लोकस् सर्वे ये दि य ये च मानुष           |     |
| दे नां िलय न् स धो सर्वानुत्क्रम्य यास्यसि   | २   |
| प्र णयाग रु मुने ग छ लोक न् यथेप्सित न्      |     |
| त्यक्त ऽत्मनश्शरीर च ततो लोकानवा स्यसि       | २१। |
| ब्राह्मण                                     |     |
| त लोैर्हि े धर्म गच्छ त च यथासुखम्           |     |
| बहुदु खसह देह नो सृजेयमह विभे                | २२  |
| ध :  |     |
| अ श्य भोश्शरार ते त्य य मुनि ङ्ग             |     |
| र्गमारु तां विप्र ि ता ते रे चतेऽनघ          | २३  |
| ब्राह्मणः                                    |     |
| न रोचये र्ग िस िन ेहमह विभो                  |     |
| गच्छ धर्म न मे श्रद्ध र्ग ियातु विन ऽऽत्म    | २   |

धर्मः

अल देहे मन ८ त्यक्त्व देह सुखी भव  
गच्छ लो नरजसो यत्र गत्वा न शेचसि २५

ह्यणः

रमे जपन् मह भ ग कृत लोकै सन तनै  
सशरारेण ग य य ग न चेत् प्रभो २६

:

यदि त्व ने छसि त्यक्त शरीरं पश्य वै द्विज  
एष कलस्तथा मृत्युर् यमश्च यमुप गत २

भी :

अथ वै त कालो मृत्युश्च त्रितय विभे  
ब्रा ण त मह भ गम् उपग येदमब्रवीत् २८

:

तपसोऽस्य सुत स्य तथा सुचरितस्य च  
फलप्राप्तिस्त श्रेष्ठ यमे हं त्व मुपब्र २९

यथाविह जप्य फलावप्तिरनुत्तमा  
लस्ते स्वर्गमरेदु कालोऽह त्वामुपागत ३

मृत्यु मां विद्धि धर्मज्ञ रूपिण स्वयम गतम्

क लेन चे दित विप्र त्वा मिते नेतुमद्य वै ३१

त्र :

गत सूर्यपु य ालाय च मत्माने  
मृत्यवे चाथ धमाय किं कार्यं कर णि व ३२

र्भ :

अ य पाद्यं च दत्त्वा स तेभ्यस्तत्र समागमे  
अत्रव त् परमर्पितस् स्वशक्त्य किं रोमि व ३३

१ र्यनिभर यूय परोपद्रवहेतव  
भ तो लो म या िमथ व्रूत सत्त । ३४ ।

:

वयमप्ये मत्युग्र धतुरा र सग  
चोदित धा मान वै र्मभावमनुव्रता ३५

:

तन्ने थ ले तु तर्थं त्रमुप गत  
इक्ष्व रग तत्र समेत यत्र ते विभे ३६

निव तु रजर्षिस् स पूज्याभिप्रण च  
शलप्रश्नम रोत् सवषां र जसत्तम ३

तस्मै सोऽथा न दत्त्वा पद्यम य तथैव च

१८ ] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व १ १

र्व द्राह्मणे व क्रयं ८ शल िदम् ३८

ब्रा :

स्वाग ते महाराज ब्रूहि यदिहेच्छसि  
स्वशक्त्या क रोमीति द्भवन् वीतु मे ३९

र

र जाऽह ाह्मणश्च त्व यदि द्कर्मसस्थि  
ददानि वसु किञ्चित् ते प्रा थत प्रवव ि मे ४

:

द्विवि ात्र ण राजन् धर्म द्विविधस्मृत  
प्रवृत्तश्च निवृत्त निवृत्तेऽस्मि तिग्रह त् ४१

भ्य प्र च्छ ान नि ये प्रवृत्त नर धिप  
ह न प्रतिगृह्मि किमिष्टं दद नि ते ४२

ूहि ८ नृपतिश्रेष्ठ तपस स धयामि किम् ४३

।

क्षत्रियोऽह न जानामि देर्ति वचन कचित्  
य युद्धमित्येव व दिनो द्विजोत्तम ४४

ब्राह्मण

अतुष्ट त्व धर्मेण तथा तुष्ट वय नृप  
अ यो यस्यो र न ि यदिष्ट तत् सम चर ५

1. ग िद्व 2. ल घ द धम्

3. द्विमित्ये ादिने िसि

र

स्वशक्त्य ऽहं दद तीि त्वय पूर्वप्रभ षि म्  
य चे त्वां दीयतां म ज य ऽस्य फल द्विज ६

ब्राह्मणः

युद्धं म सद वार्ण याचतीति विकल्पसे  
न च युद्ध या स ध्य किमर्थं याचसे पुन ४

च वज्रा ऽह्मणा प्रेक्त क्षिय बाहुजीविन  
व युद्ध तदिद ती मम िप्र त या ह ४८

ब्राह्मणः

सै षि प्रतिज्ञा मे स्वशक्त्य के प्रदा त म्  
ब्रूहि द स्यामि राजे विभवे ति मा चिरम् ४९

रा

यत्तद्वर्षशत पूण ज य वै जप ऽ त्वय  
फल प्राप्तं तत् प्रयच्छ मम देत्सुर्भव न् याद ५

ब्राह्मणः

पर गृ तं स्य फल यज्जपित या  
अर्धं त्वमविच रेण फल तस्य सम ऽनुहि ५१

अथ व सर्वमेवेह मामक ज पक फलम्  
राजन् ऽ हि ऽम त्व यदि सर्वमिहेच्छसि ५२

१८ ] शान्तिपर्णि ेक्षधर्मपर्व १५

राजा

कृतं सौंण भद्र ते जप्य यद्याचित मया  
स्ति तेऽस्तु गमिष्य मि तस्य फल द ५३

ब्राह्मण

फलप्रप्तिं न जानामि दत्त यज्जपित य  
अय धर्मश्च कालश्च यमो मृत्युश्च स क्षिण ५४

रा

अज्ञ तस्य धर्म फल मे रिष्यति  
फल ब्रवीषि धर्मस्य भवेज्ज यकृतं नु मम् ५५  
प्रा तु तत् फल विगो नादि छे ससशयम् ५५

रा :

नाददे न च क्त य दत्त ाचा फल य  
व क्य प्रम ण र जर्षे म तुभ्य च भाषिते ५६  
ाभिसि धर्मया ज ये कृ पूर्व द चन  
जप्ताऽ राजशार्दूल कथ दास्या यह फलम् ५  
दद ते त य चोक्त दद नीति थ म  
न व च दू यि य मि सत्य रक्ष स्थिरो भव ५८  
अथैव वदतो मेऽद्य वचनं न करि यसि

- 
1. ना द धम् 2. ग परि  
3. ध तु न रि



|  |      |
|--|------|
| हान मी भवित तव रजन् मृषा कृ                      | ५९   |
| युक्ता तु मृषा णी य वक्तमरि दम                   |      |
| य मय ऽपि धि मिथ । कर्तुं न शक्यते                | ६    |
| श्रुत च मया पूर्वं दद मीत्यविचारि म्             |      |
| द्रुही वाविचरेण यदि सत्ये स्थितो भवान्           | ६१   |
| इहागम्य मह रज जाप्य फलमय चथा                     |      |
| नेसृष्ट गृह्ण भव सत्ये स्थिते ऽपि च              | ६२ । |
| न य लो ऽस्ति न परो न च पूर्णं स तारयेत्          |      |
| एवापरं रजन् मृषा दपरायण                          | ६३   |
| य ध्ययने द न नियमास्त रयति हि                    |      |
| यथ सत्य परे लोके तथेह पुरुषर्षभ                  | ६४   |
| पांसि य नि च र्णानि चरिष्यसि च यत् तप            |      |
| समाश्रुत सहस्रैश्च तत् सत्या विशि यते            | ६५ । |
| सत्यमेक परो व सत्यमेक पर तप                      |      |
| सत्यमेक पर <sup>१</sup> यज्ञस् सत्यमे पर श्रुतम् | ६६ । |
| सत्य वेदेषु ज गतिं फल सत्ये पर स्मृतम्           |      |
| तपो धर्मो दमश्चैव सव सत्ये प्रतिष्ठितम्          | ६    |
| सत्यं वेद स्तथाङ्गानि सत्य यज्ञास्तथा विधि       |      |

१८ ] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मप १ १

तच<sup>१</sup> तथा सत्यम् अ<sup>२</sup> र सत्यमेव च ६८

प्राणिनां जनन सत्य सत्य स ततिरे च  
सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रवि ६९

सत्येन च भ्रद्दहति सत्ये स्वर्ग प्रति  
दान यज्ञस्तथा वेदास्<sup>१</sup> गोम म त्रा सरस्वती  
तुलामारोपिते धर्मस् सत्य चैवेति नश्श्रुतम्  
समां कक्षां ध रयतो यतस्सत्य तोऽि म् १

यत सत्यं ततो धर्मस् सर्व सत्येन धते  
किमर्थमनृत कर्म तु राजस्त्वमिच्छसि २

सत्ये रु स्थिर भव मा राज नृत थ  
र मनृत क्य देर्हि कुरुषेऽ भम् ३

यदि जप्यफल दत्त मय नेच्छसि वै नृप  
धमभ्य परिभ्रो ले ननुचरि यसि

सश्रुत्य यो न दिसेत्त य चित् । ने छति  
उभावानृति वै न मृषा कर्तुमर्हसि ५

।

योद्ध य रक्षित य च क्षत्रघर् किल द्विज

1. तो

2. तो म :

दातार क्षत्रियोक्तं गृह्णीय तथम् ६१

:

न च्छन्दयमि ते राजन् पि ते गृह जम्  
इहागत्य तु याचित न गृह्णीषे न थम् १

धर्मः

अवादोऽतु युयोर् ममां वित्तमागम्  
द्विजे दानफलैर्युक्ते रजा सत्यफलेन च ८

र्ग

गं विद्धिं राजेद्रूपिण यमगतम्  
अविदोऽस्तु युवयोर् उभौ तुल्यफलौ युताम् ९

कृतं गैर्णकाय गच्छं गं थगतम्  
प्रिये यदं तेदप्रती तु च मे धनम् ८

बाल्ये यदि स्य दज्ञानम् । ह प्रसरित  
चित्तलक्षणधर्मम् उपसेसहि । जपन् ८१

मां चिरद्रजन् विलेभयसे थम्  
न कार्यं करिष्यमि तत्ते नेच्छे फल नृप ८२

परध्वयकुशलो विरत प्रिहत् ८३

र

यदि ि नि ष्टे जप्यस्य कुलमु मम्  
आ योर्यत् फल ि ित् हे नौ दस्त्वह ८४

द्विज प्रति हे यु द तारो राज शजा  
दि धर्मश्र े ि हैव फल नौ ८५

म । भूत् सह भोज्य नै मदीय फलमा हे  
प्रतिच्छ मत् धम यदि ते मय्यनु ह ८६

भी :

ततो विकृतवेषौ द्वौ पुरु े समुपस्थि े  
गृहीत्व ऽ योन्यम वेष्टय चेल वूचतु े च ८

न मे घ रय ित्येको घ रय मी ि च पर  
इहा ि नै ि दोऽयम् अयं राजाऽनुश स ८८

य ि यहमृण न मे रयते भ न्  
अनृत वदसीह ८ म् ऋण ते धारय यहम् ८९

तावुभौ भृशसन्त े र ज नमिदमूचतु  
पराक्ष्यै तु यथा स्याव न व ि ह गिर्हितै ९

िरूपः

।रयामि नर याघ ि कृत ेह गो फलम्  
ददतश्च न गृह्णाति ि कृते े महीपते ९१

विकृतः

न मे धरयते िदू िरूपोऽय नर धिप  
मिथ्या वलय हे तं सत्याभ स जन धिप  
राज १२

विरूप धार े भ न वद े  
श्रुत् था रियर्मत्ये मे धरयते न १३

विरूपः

शृणुष्व्वावहितो रजन् थै द्वरय यहम्  
कृत स्ये राजष निखिले नरर्षभ १४

अनेन धर्मप्रत्यथ पुरा दत्त शु ऽनघ  
धेनुर्विप्राय रा र्षे तपस्त्व ध्य यश लिते १५

स्य श्राय य राजन् फलमभ्येत्य यचित  
तेन च े दत्त विशुद्धेनान्तर त्मन १६

ततो मे कृत े तम त विशुद्धये  
गवौ च े ले त्वा वत्सले बहुदोहने १

ते चोच्छ त्तये रजन् या समुप जिते  
थ विधि यथाशुद्ध तद ह पुन प्रभे १८

इहा वै यच्च मि हीत् द्विगुण फलम्  
एव त् पुरु य इ ऽत्र दोषान् १९

ए ि दमागौ त्वामिह भ्य गतै नृप

१८ ] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व १ २१

कुरु धर्म धम नये नौ समादध १

यदि नेच ति मे द तु था दत्त नेन

भवानत्र स्थिरे भूत् मर्गे ऽपयतु प्रसु १ १

र

दी यम न न गृह्ण सि ऋण स्वात्त्वमद्य

यथैव तेऽभ्यनु त थ गृहीष्व मा चिरम् १ २

विकृतः

दी यत मित्यनेनोक्त दद न ति थ मया

नाय मे ध रयत्यत्र ग यतां यत्र वा छति १ ३

र ।

ददतोऽस्य न गृह्ण सि विषम प्रतिभा मे

द ये हे त्व मम मतो नास्त्यत्र खलु सशय १

विक्र :

मयाऽ दत्तं राजर्षे गृहीयां तत् कथ पुन

ममात्रापर धे मे द माज्ञापय प्रभे १ ५

विरू :

दी यमान यदि थ न गृह्ण सि थ

निय छति त नृपतिर् अयं ध नुशासक १ ६

ति :

स्वय म य चितेन दत्तं थमिव द्य तत्

गृहीयां ग छतु भव न् अभ्यनुज्ञां ददामि ते १

ब्राह्मणः

मेतत् त्वय राजन् अनयो थित यो  
तेज्ञात मय दत्तं तद्गहाणा च रे म् १ ८

तुत सुमहत् र्यम् अनयोर्ग र यथ  
जा कस्य वृढीकार कथमेतद्ब्रुष्यति । १ ९

यदि त गृह्णामि जापकेन प र्जितम्  
थ न लि येयमह दे ण महताऽद्य १ १

चोवाच स रजर्षि कृत यौ गमि यथ  
नेदाना मिहासाद्य रजधम भे मृषा १ ११

धर्म परिपाल राज्ञामिति नि य  
ि प्रधर्मश्च स गुरुर् म मन त्म नम विशत् १ १२

ब्राह्मणः

गृहाण रये यत्ते याचित सश्रुत य  
न चेद्ब्रह्म यसे राजञ् शपि ये त्वां न सश . १ ३

राजा

धि जधम यं र्यस्य स्य नि य  
इत्यथ मे ग्रहा कथ ध्य भवेदि १ १४

एष प णिरपूव भे निक्षेप र्थ स रित

१८ ] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व १ २३

यन्मे धारयसे वि तदिदाना प्रदायतम् ११५

ऽह्वणः

हि िं जपत य न् गुण ि त् तो या  
त् व प्रतिगृ ि यदि किं दिह स्ति मे ११६

र

जलमेत ि पतित मम प ण द्विजोत्त  
सममस्तु सहैवा तु प्रतिगृह्णातु मे भ न् ११

विरूपः

क िधौ विद्धि ना त् म् अ भ्यां<sup>१</sup> रितो भ ान्  
सहेति च यदुक्त ते समो लोकस्तव स्य च ११८

न य ध रयते किं ज् जि ास त् त ते त ११८

लो धर्म थ मृत्यु म िध तथा यु ाम्  
सर्वम यो यनि षै निक्कृष्ट पश्यत व ११९

गच्छ लो ङ्घितान् स्वेन र्मण यत्र वाञ्छसि १२

:

ज पकानां फला त्तिर मय ते स प्रदर्शिता  
गति स्थ न च ले ष्व ज प नेन यथाऽऽर्जित १२१

प्रय ति सहिताध्य यी ाण परमे ष्ठिनम्

1. ास । 2. ग ति



- अथ वऽऽसिं समं यः सूर्यम विंशतेऽपि व १२२
- स तैजसेन भवेन्न यदि तत्राश्रुते रतिम्  
गुणांस्तेषां समं घत्ते रागेण प्रतिमोहित १२३
- ए सोमे यथा वयौ भूम्यः शशररग  
सरगस्तत्र वसति गुणस्तेषां समं ददत् १२४
- यत्तत्र रिरग च गच्छति त्वथ सशयम्  
परमं ययमिन् स तमे विंशते पुन १२५
- अमृतं मृतं तत्र शशताभूतो रिरात्मन्  
ब्रह्मभूतस्य निर्द्वन्द्वसुखं शतं निराम १२६
- ब्रह्मस्थानमनन्तं एकमक्षरसङ्गकम्  
अदुःखं रजश्शान्तं तत्तत् प्रतिपद्यते १२७
- चतुर्भिरक्षणेर्ह्ये तथा षड्भिः सषोऽशै  
रुषसमतिक्रयं काशं प्रतिपद्यते १२८
- अथ चेच्छति रागत्मा स तदधिष्ठति  
यच्च प्राथयते तच्च मनसा तिपद्यते १२९
- अथ विप्रेक्षते लोकांस्ते निरयस्यति तन्  
निस्सहं सर्वतो मुक्तस्त्वत्रैरमते खम् १३०

१८८] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व १२९

एवमेषा महाभ ग जापकस्य ग तियथा

त्तत् सव समाख्य त भूयश्श्रोतुमिच्छेत् १३१

इति महाभारते शतसहस्रिकाया संहितायां सिक्त्या

पर्वणि शीत्यं तमोऽध्यायः ८

८ गोपवणि एकोन र गोऽध्यायः ३९

[अस्मिन्नध्याये ३ श्लोकाः]

### अष्टाशत्यधिकशततमे अध्याय



द्विद्विंशतिरिति प्रतिजपस्य लक्षणपूर्वजापानाम्

युधिः

किमुत्तरतदौ स्म चक्रतुस्तेन भाषिते

ह्यणो वऽथ वरज तमे ह्यिपि मह १

अथ वा तौ गत तत्र यदेत् कीर्तित त्वया

सवादो ऽयो के भूत् के व तौ तत्र चक्रतु २

भीः

तथेति च प्रति तुल्यधर्मसंपूज्यवुभौ

यमकालचमृत्युचस्वगसंपूज्यचाहत ३

पूर्वयेचापरेतत्रसमेतब्राह्मणर्षभा

संवांसंपूज्यशिरसावरजनसोऽनर्वाजि ४

ब्राह्मणः

फलेनाने सयुक्तो राजष ग छ मुख्यताम्  
भवता चाभ्यनुज्ञाते जपे भूय ए ह ५

रश्च म पूर्वं हि दत्तो दे य म८ फल  
श्रद्ध ते जपतो नित्य भवित्राति विशां पते ६

रा ।

यद्येव सफला सिद्धि श्रद्ध च जपितु तव  
ग ि म स ध म मक फलम हि

ब्राह्मणः

त प्रय सुमह न् सवषां सि धविह  
सह तुल्यफला च वां ग छ वो यत्र नौ गते ८  
भी :

य स य तये स्तत्र िदित् । त्रि शेश्वर  
सह देवैरुपययौ लो प लै थै च ९

या विश्वेऽथ मरुतो व क्रय नि वि धनि च  
नद्यशैलास्समुद्राश्च िर्यानि वि धनि च १

पांसि सये गविधिरू द स्तोभा सरस्वत  
नारद पर्वतश्चै विश्व सुपर सू ११

तु बुरुप्रमुखाश्चैव हाहा हूहूस्तथै च

1. सु ह नि

2. इदम नि

१८८] शान्तिपर्वणि क्षुधर्मपर्व १२

गर्घाणि से च परिवारगणैर्युत १२

न गासिद्धश्च मुनयो दे दे प्रजापति  
ः षणु सह शर्षा च दे ऽचिन्त्य समागमत् १३

अवाद्य तान्तरिक्षे च भेर्यं नूर्याणि च प्रभे  
पु.प र्पणि दि य नि तत्र तेषां महात्मनाम् १४

ननृतु ऽप्सर सङ्घासू तत्र त समन् त १४

अथ र्गा था रूपं ह्यणं ऽक् म ित् १५

:

स सिद्ध त्व मह भाग तं च सिद्धस्तथ नृप १५

र्भ :

अथ तौ सहितौ रज यो यस्य विधानत  
ः षयप्रतिसह रम् उभ वेव प्रचक्रतु १६

प्राणापानौ तथोदान समान यानमेव च  
एतांस्तु मनसि स्थ प्य दधतु णये र्मन १

उप स्थितकृती तत्र न सिकाग्रमथो भ्रुवौ :

भ्र द्योश्चव मनसा शनैर्धारयतस्तद् १८

<sup>1</sup>निश्चेष्टाभ्यां शरीराभ्यं स्थिरदृष्टी सम हितौ

जितासनै स ऽधाय मूर्धं य त्म नमेव च १९

तालुदेशमथे ह्यल्य त्रा णस्य मह त्मन

- योति लि सुमहती जग म त्रिदिव तद २
- ह हाकारस्तथ दिक्षु सर्वासु सुमह नभूत्  
 ज्योतिर तूयम न तु ह्य णं प्राविशत् तदा २१
- ततस्स्वागतमित्य ह तत्तेज प्रपित म  
 देशमात्र पुरुष प्रत्युद्गम्य विशां पते २२
- भूयश्चैवापर प्र ह मधुर वचन स्म स  
 जापकै तुल्यफलत ये गानां न त्र संशय २३
- ेगस्य त वदेतेभ्य फल प्रत्यक्षदशनम्  
 ज पकानां वरिष्ठ तु प्रत्युत्थानमिहा धिकम् २४
- यतां मयि चेत्युक्त्व य ददे स तो मुखम्  
 अथ स्य प्रविवेश स्य ब्राह्मणे विगत वर २५
- र ज ऽप्येतेन विधिना भगव पितामहम्  
 यथै द्विजश दूलस् तथै प्राविशत् द २६
- स्वय भुवमथो देवा अभि ाद्य चो वन् २७
- दे ः
- ज पक थमय यत्नस् तदर्थं वयम गत  
 तपूज िमै ल्य त्वया तुल्यफल विता २८
- योगज पकयो स्तुल्य फल सुमहद वै  
 सर्वो कानर्तस्यै ि गच्छेतां यत्र ञ्छितम् २९

|  |    |
|--|----|
| हास्मृ पठेद्य तु धैवै ऽ स्मृ भाम्        |    |
| प्येतेन मर्गेण गच्छेत त्सलोकताम्         |    |
| यश्च योगे भवेत्तस्मिन् ऽपि नास्त्यत्र य  |    |
| धि नेन देहा लोकेन युयात्                 | ३१ |
| गम्यतां स धये यमि था नानि सिद्धये        | ३१ |
| इत्युक्तं तदा देवस् तत्रै । रधीयत        |    |
| अमय्य च दे ययु खं निवेशनम्               | ३२ |
| ते च स महात्म नो धम सत्कृत्य त           |    |
| पृष्ठतोऽनु यू राजन् स सुप्रीतम न         | ३३ |
| एतत् फल ज क नां गति प्र िता              |    |
| थ श्रत ह राज क भूयश्चेतुमि छसि           | ३  |
| इति महाभारते सहस्रिकाया द्वि वैयासिक्यां |    |
| पर्वणि त्वधि ऽऽध्यायः ८८                 |    |
| ८८ मोक्षध पर्वणि ऽ रि ऽऽध्यायः           |    |
| [ रि ३४ श्लोकाः ]                        |    |

एकोनवत्याधकशततमोऽः



गोगादः फ द्वेदनप्रकार पृष्टेन विष्मेण युधिहि प्रति  
थनाय मनुबृहस्पति ादानुवादः

युधेष्टिर

फल ज्ञ नयोगस्य वेदानां नियम च  
भूतात् थ ज्ञेयस् त मे ू हि पिता ह १

अत्र युद हर तामम् इतिह पुर म्  
ो प्रज पतेर्वद हष स्पते २

प्रज पतिश्श्रेष्ठ प्रज ना  
दे षिसङ्घप्रवर हर्षिम्  
ह पतिं प्रन्नमे रण  
प्रप शि योऽथ गुरु प्रण ३

यत् र त्रविधिप्रयुक्त  
े फल यत् प्रवदति े प्र  
मन् श दैर प्रकाश  
तदु तं े भगवन् यथ त् ४

यत् ।।त्रशस्ताऽहमन्त्रविद्धिर्

यज्ञैरनेकैर्धनगोप्रदानै

फ महद्भिर्यदवाप्यते च

त् थ व भि

तत्

५

मह महजि पवनोऽन्तरिक्ष

जलौ ऽ जल द्यौ

दि स सू स

तदुच्य । मे भग न् पुराणम्

६

ज्ञान म त् प्रार्थयते नरे

तस्तदर्थं भि प्रवृत्ति

न चेदह पर पुर ण

मिथ्याप्रवृत्तिं च कथ न कुर्याम्

कस स ऽश्च यजूषि च

न्दासि न त्रगतिं निरुक्तम्

अधाय च व्याकरण ल्प

शिक्षं च भूत् प्रकृ त न द्वि

८

स मे भवाञ् शंस स मेतजू

ने फल मणि वा यदेति



यथा च देहाच्चयवते शरारी

पुनश्शरर च यथाऽभ्युपैति

९

बृहस्पतिः

यद्यत् प्रियं यस्य सुखं तदाहुस्

तदे दुःखं प्रत्यनिष्टम्

९

इष्टं च मे स्यादितरं न स्यात्

एतं ते कर्मविधिं प्रवृत्तं

इष्टं त्वनिष्टं च शुभाशुभं च

संशास्तपश्छन्दसि मभिः

१

एभिर्विमुक्तं परमाविवेश

नैतत् ते कर्मविधिं प्रवृत्तं

अतस्त्विति मभिरिज्यमानो

धर्मेषु युक्त्युत्तमं सुखार्थं

११

परं हि तत् कर्मपथादपेतं

निरशिषो यत्पदमावृत्तं

प्रजास्मृश्या मनसा र्मणा च

द्वायेतैस्तपथौ लोकजुष्टौ

१२

दृष्ट्वा माशाश्वतं च त

मनस्येगो कारणं नायदंस्ति

८९] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व १ ३

नेन त्मन रिक् प्रणेता  
निशात्यये वृत्ता १३  
तान् विद्मन्गुणेषु  
कर्माशुभं पश्यति वर्जनीयम् १

सपत्न्यकुशलाणि थोदपान  
ज्ञातमनुपारिर्जयति  
अज्ञानतपतन्ति मूढा  
ज्ञाने फलं पश्यथा शिष्टम् १५

कृत्स्नमन्त्रं धित् युक्त  
यज्ञायथेकं हृदक्षिणा  
प्रदानं नस समाधि  
पामर्मफलवदन्ति १६

गुणगुणं वदन्ति देवैः  
भ्ये मत्राममूलहेर्म  
धिधे मनसोपपि  
फलस्य भोक्तव्यं तथ शरीरे १

शब्दश्चरूपाणि रसा पुंसि  
पर्शश्च गन्धाश्च भवैः

नरे रह नगत प्रभु द्  
एतत् फल सि ति ंणोऽस्य १८

यद्य ररेण रे  
शर रयु समुप श्रते तत्  
शरीरमे यतन सुखस्य  
दु खस्य चाप्य य न शर रम् १९

च च यत् करे ति िञ्चिद्  
चैव स समुप श्रते तत्  
नस्तु त् क करोति कि  
मे दमुप श्रे त् २

थागुण मगुण फ र्थी  
करे ल्यय कर्मफले निवि  
तथा थऽ गुणवत्प्रयुक्तश्  
भ भ कर्मफल स भुङ्क्ते २

मत्स्यो यथ ेत इ ाभि ात  
थ पूर् पैति र्म  
भे त सौ तु ति दु कृते  
न तु यते रमश् रारी २२

यतो जगत् सर्वं द प्रसूत

ज्ञात्वा ऽत्मवन् ऽप्युपयां शान्तिम्

यन्मन्त्रश्च दैर

दुच्यमान शृणु मे र यत्

२३

रसैर्विमुक्त िं घ ग धर्

अ ऽमस्पर्शमरूप

अ म यत्कमवर्णमे

र सृजति प्रजानाम्

२४

न ि पुमान् नापि नपुंस वा

न स चा त् स

पश्यन्ति द्र ि ो मनु यास्

दक्षर न क्षरती ि विद्धि \*

२५

रत् ख िो युर् ायोज्य तिस्तते जलम्

ज त् प्रसूत जगती जगत्य ज यते जगत्

२६

इ शरारर्जले गत् ।

ज तेज प न तरिक्षे

ख द्वै त् ि न भा ि न

ये भाविन े परमाप्नु त्ति

२७

\* ० ० शेषेषु ० ध्य समाप्तिदृश्यते

नोष्ण शीत मृदु नापि तीक्ष्ण  
 नाम्ल कषय धुर न १ म्  
 श द पि च गन्धवच्च  
 न रूपवत्तत् परम भा म्

२८

स्पश नु द र च जि  
 ण च ग श्र च शब्दम्  
 रूपाणि चक्षुर्न च पर यद्  
 गृह् व्यात्मविदो नु या

२९

नि तयित् । रसन रेभ्यो  
 घ्राण च गन् च्छ्रवण च श दत्  
 स्पश त्तनु रूपगुणाच्च चक्षुस्  
 त पर पश्यति त भ म्

३

यतो गृहात् । हि रोति य द्  
 यास्म याम रभते प्रवृत्तिम्  
 यस्मै च यद्येन च कर्त  
 यत् । ारण तत् स्वमुपेयम हु

३

यच्चापि पूर्वापरस ध च  
 मन्त्रमर्चि-यति सर्वलोक

र्वहेतु परमार्थकार

तत् कारण र्थम े दन्यत् ३२

थ च श्रित् स्वकृतैमनु यश्

भ भ प्रा ते चाविरोध त्

एव शररे भ भेषु

र्मि ज्ञानि द निबद्धम् ३३

यथ प्रदीप पर द

प्रकाशमर्थ करो वि न्

तथै पञ्चेद्रियर्द पवृ

नप्रद । पर त एव ३४

यथ च रा े बहवो मात्य

थक् प्रमाण प्रवदित युक्त

तद्व छररे भ तित प

ज्ञ नैकदेशा परम स एभ्य ३५

यथ चिषोऽग्ने प नस्य ेगा

मरीचयोऽर्कस्य नदीषु चाप

गच्छि चाय तित च स ततास्तु

द्व छरीराणि शरारिण तु ३६

यथ च कश्चित् परं गृह्णत्वा

धूमं पश्येज्ज्वलनं च

तद्वच्छरीरोदरपिपासां

न पश्यति ततो यदा यत्

३

न्येष्टानि यथामिथ्य

धूमं च पश्ये बलनं च काष्ठे

द्वत्सुबुद्धिं स भिद्वियाथैर्

बुधं परं पश्यति भाम्

३८

थात्मनोऽङ्गपतितं धेव्या

न्तरे श्यति चात्मने यत्

श्रोत्रादियुक्तस्सुमनसुबुद्धिर्

लित्थगति लिङ्गमत्

३९

उत्पत्तिवृद्धिक्षयसिपातैर्

युज्यतेऽत्रौ परमशरीरी

अनेन लिङ्गेन लिभ्यन्त्यद्

गच्छत्यप्रसिधे गत्

४

न च ष पश्यति चक्षुरात्मनो

न च पिसर्शमुपैति नित्

तथ पि तैस्साधयते च क र्थं  
ते त पश्यन्ति स पश्यते न् ४१

यथ समापे वलतोऽनलस्य  
सन्तापज रूपमुपै ॐ ॐ त्  
चान्तर रूपगुण विभर्ति  
तथ तदश् ते रूपमस्य २

तथा मनु य ॐ मु आयम्  
अदृश्यम य द्विशते शर रम्  
सि स्र य भूतेषु महत्सु देह  
दा चैव विभर्ति रूपम् ३

यु सलिल थोर्वि  
समन् तो ५ वि, ते शरीरा  
नानाश्रया र्मसु र्तम श्  
श्रोत्र य पञ्चगुणाञ् श्रय ते ४

श्रोत्र नभो णमुक्त थिव्य स्  
तेजो चक्षुरथो विपाक  
जल श्रय नमुक्त रसश्च  
य्व त्म पर्शनम नति ४५



मह भूरे सन्ति प  
 प े य र्थाश्च रथेन्द्रिये  
 णि चै नि मने नुग नि  
 बुद्ध नोऽ वेति नस्त्वभा म् ४६

शु शुभ र्म कृत यद  
 दे ेयाददतेऽ यदेहे  
 मतोऽनु र्ति पर राणि  
 जलौकस ोत इव नुकू म् ७

चल यथ ष्टिपथ प्रय ि  
 सूक्ष्म महद्रूपमि भाति  
 स्वरूप लोक ा च रूप  
 पर तथा बुद्धिपथ परैति\* ४८

यदि चै तूपगतै पुर त्  
 प्राप्तान् गुणान् स रते चिराय  
 े षेषूप ते प ात्  
 १स बुद्धिरूप परम भ ४९

शेषेषु ॐ वाच्याय िति  
 -स्व दि . तद्वद्धि

१८९] शान्तिपवाणोक्षधर्म

थोर्थात् युगपत् ता  
 वेक्षते तत्रशस्तुल्यकालम्  
 यथाक्रमं स रते स विद्वत्  
 तस्मात् स एक परमशरीरी ५

रजस्तमस्सत् मथो तृ य  
 ग छत्यत्रौ नगुणान् विरूपन्  
 थेन्द्रिया यां तीह देहं  
 हुत शन आयुर्विधनस्थम् ५१

न चक्षुः पश्यति रूपमात्मनो  
 पश्यति स्पर्शनमिन्द्रियम्  
 श्रोत्रलिङ्गणेन दर्शनं  
 तथा न त् पश्यति तद्वि पश्यति ५२

श्रोत्रदीनि न पश्यति स्वस्वमात्मतमत्माना  
 स ज्ञानसवदर्शं च क्षेत्रानि पश्यति ५३

यथ हिमवत पश्य पृष्ठं च द्रमसो यथा  
 न पृष्ठं नुजैर्न च तस्ति तवता ५४

द्वन्द्वेषु भूतत्मा सूक्ष्मो ज्ञानात्मवानसौ  
 दृष्टपूर्वक्षुभ्य न चासौ नास्ति तवता ५५

|   |    |
|---|----|
| पश्य पि यथ लक्ष्म जन सोमेन विन्दति        |    |
| एवमि न चे न च त पर यणम्                   | ५६ |
| रूपव त रूपत् इ उदयास्तमने बुधा            |    |
| िया समनुपश्यति तद्गत तुर्गतिम्            | ५  |
| तथा बुद्धिप्रदपेन दूरस्थ विपश्चि          |    |
| प्रत्य स निर्वदति ेय नाभिसहितम्           | ५८ |
| न हे खल्वनुपायेन दि दर्थेभि सिद्धति       |    |
| सूत्रज लैर्यथा े न् बघ्नति जलजाविन        | ५९ |
| मृगैर्मृग णं ग्रहण पक्षिण पक्षिभिर्यथ     |    |
| गजानां च गजैरे ज्ञेय नेन गृ ते            | ६  |
| अहिरेव हे पान् पश्यताति निदर्शनम्         |    |
| द्वन्मूर्ति मूर्तिस्थ ेय ज्ञ नेन पश्यति   | ६१ |
| नोत्सहन्ते थ वेत्तम् इन्द्रियैरेि याण्यपि |    |
| तथैवेह पर बुद्धि पर बु न पश्यति           | ६२ |
| थ चन्े मावास्याम् अलिङ्गत्वा दृश ते       |    |
| न च शोऽस्य भवति तथ विद्धि शरीरिणम्        | ६३ |
| क्षण ेशे मा । ि चन्द्रम न प्रका ते        |    |
| तद्वन्मूर्ति युक्तस्सज् शरारं नोपलभ्यते   | ६४ |

१८९] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व

|   |    |
|---|----|
| यथा कोशान्तर प्राप् चन्द्रम भ्राजते पुन |    |
| तद्वलिनन्तर प्राप्य शरीरी राजते पुन ।   | ६५ |
| जन्म वृद्धि क्षय तस्य त्यक्षे गोप भ्यते |    |
| तु चन्द्रे यक्तिर शरीरिण                | ६६ |
| उत्पत्तिवृद्धिव्ययते यथ स इति गृ ते     |    |
| चन ए मा तथा मूर्तिमान्                  | ६  |
| नाभिसर्पद्व अद्रा शि दृश ते             |    |
| विसृजेच्चोपसर्पेच्च तद्वत् पश्य रीरिणम् | ६८ |
| यथा च कंसयुक्तो राहु उपलभ्यते           |    |
| तद्वच्छर रसयुक्त दुपलभ ते               | ६९ |
| था चन कनिर्मुक्त त उपलभ्यते             |    |
| द्वच्छरीरनिर्मुक्तश शरीरी उपलभ्ये       | ७  |
| यथ च द्रो णि नक्षत्रैर्युज्ये ग         |    |
| तद्वच्छरारि फलैर्यु यति कर्मण *         | १  |
| यथा यत्कमिद् शैते स्वप्ने चरति चैतरत्   |    |
| नमि यसयुक्त तद्वत् प्रेत्य भव भ         | ७२ |

नारि

गिदमधम्

गोशेषु णि वा य दृ

|  |    |
|--|----|
| यथ ऽ भसि प्र े रूप पश्यति चक्षुषा<br>तद्वत् ेि यवाञ् े नेन पश्यति            | ३  |
| ए लुले तस्मिन् थ रूप न पश्यति<br>तथेन्द्रिय उ भवे ज्ञेय नेन पश्यति           | ४  |
| अबुद्धिर नक्त । अबुद्ध्या दूयते न<br>दुष्ट मनस प प्रदु यति मनस               | ५  |
| अज्ञानतृ ेषये ग े न पश्यति<br>दृष्ट्वै तु पूताः ेषयेभ्यो निवर्ते             | ६  |
| तर्षच्छेदे न भवति रुषस्येह किल्बिवात्<br>नि तते द तर्ष पापम त गत य           |    |
| ेषये च ससर्गाच् श्वत तु सशयात्<br>नस चा यदाक ड्क्षन् पर न प्रतिपद्यते        | ८  |
| नमुत्प ते पुसं क्षयात् प प र्मण<br>तः ऽ दर्शतलप्रख्ये पश्यत्यात्म नम त्मनि   | ९  |
| प्रसृतैरि ैदु खं तैरेव नियत सुखा<br>दि यचोरेभ्यो य छेद मनम त्मन              | ८  |
| इन्द्रियेभ्यो मन पू बुद्धि पर रा तत<br>बुद्धे परतर ज्ञानानात् सूक्ष्म र परम् | ८१ |

१ ३] शान्तिपर्वणा मोक्षधर्मपर्व ५

अव्य ५ त् प्रसृत न ततो बुद्धिस्ततो मन  
नश्चादिभियुक्त श द द न् साधु श्यति ८२

ं त्यजति श द दान् सवा व्यक्तयस्तथा  
विमुञ्चत्या तिग्र म त मुक्तेऽ श्रते ८३

उद्यन् हि सति त चद्वत् सृजते रश्मिम डलम्  
स एव मुपाग छस् तदेवात्मनि य छति ८४

अन्तरात्म तथा दे म् अ विशयेन्द्रियरश्मिभि  
प्रायेन्द्रियगुण न् प सेऽ म वृत्त्य ग छति ८५

प्रणीत र्मणा र्गि नायमान पुन पुन  
प्रा त्य र्मफल प्रवृत्तं धर्म वान् ८६

िषया विनि र्त ते निराहार दे नि  
रस ज रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्या निवर्तते ८

बुद्धि कमगुणैहाना यद न सि र्तते  
द स पद्यते ह्य त्रै प्रलय गत ८८

अ पर्शिनमशृण्व नम् अर दमदर्शिनम्  
अ णमवित च सत्त्वं प्रिशते परम् ८९

अ यक्तात् प्रसृत न ततो बुद्धिस्ततो मन  
मनस्य कृतयो मग्ना मन ः तिगत मतिम् ९

|   |    |
|---|----|
| मति त्वतिगतं ज्ञानं ज्ञानं त्वतिगतं महत्      |    |
| नेन्द्रियैर्मनसि सिद्धिर्न बुद्धिर्बुध्यते मन | ११ |
| बुद्धिर्बुध्यतेऽयत्तं सूक्ष्मत्वेन निपद्यते   | ११ |
| न ज्ञेयं भिन्नं तद्विद्यं न गुण               |    |
| प्रज्ञाकरणसयुक्ता ततो बुद्धिर्प्रवर्तते       | १२ |
| यद्गुणोपेता बुद्धिर्मनसि तै                   |    |
| तद्व्ययते ध्यानयोगे धिन                       | १३ |
| सेयं गुणवती बुद्धिर्गुणेषु भिन्ने             |    |
| अपरं च निश्चितं गिरेः शृङ्गं दिवोदम्          | १  |
| यद्निर्गुणं तेषां यन्न मनसि पूर्वजम्          |    |
| तदा प्रयत्ने निषेधे निषेधे यथा                | १५ |
| मनसस्तत्तु बुद्ध्या ह्यथानिदर्शकम्            |    |
| न सत्तु गुणपेक्षं निर्गुणं निदर्शने           | १६ |
| संयतेनैव सर्वं द्वाराणि मनसि त                |    |
| मनस्येकाग्रतया तत्परं प्रतिपद्यते             | १  |
| यद्महन्ति भूतानि तेनैव गुणक्षये               |    |
| तदेन्द्रियाण्युपादाय बुद्धिर्मनसि तै          | १८ |

सर्वं ज्ञेयं त्रैवाध्यायसमाप्तिश्च  
 1. सूक्ष्मं तानि च सूक्ष्मं तानि

१८९] शान्तिपत्राणि ौक्षधर्मपर्व १ ४

यदा मनसि सा बुद्धिर् वर्ततेऽ तरचारिणी  
य सायगुणोपेत तद् पद्यते मन १९

गुण द्विर्गुणोपेत यद् ध्यानगत मन  
तदा सान् गुणान् हित् । निर्गुणं प्रपद्यते १

यस्येह विनेनाऽ ल्य निदर्शनम्  
यत्र नाऽ पदन्यस विद्यात् १ १

पससनुमनेन गुणैर्जात्या तेन च  
निनीषेत् तत्परं ब्र विशुद्धेना रात्मना १ २

गुणहीने हि मर्गं बहिः स नुवर्तते  
गुणभावत् प्रकृत्य च नि कर्यं ज्ञेयसम्मितम् १ ३

नैर्गुं याद्र च प्रोते सगुणत् ि तते  
गुणे सारिणि बुद्धिर् द्रुत शन इवेन्धने १ ४

यदा वियुक्तानि इन्द्रियाणि कर्मभि  
तद् तत्परम ह्यसयुक्तं प्रकृते परम् १ ५

ए प्रकृतित सर्वे स भ तश्शरारिण  
निवर्तते निवृत्तौ च सर्गं नैवोपयाति च १ ६

रुषप्रकृतिर्बुद्धिर् शेषाश्चेन्द्रियाणि च  
अहङ्कारेऽभिमानश्च सम्भूते भूतस क १

1. इत्तेऽ नाऽ



|  |       |
|--|-------|
| एत प्रवृत्ति तु प्रधानात् स प्र वर्ते          |       |
| द्वितीय मिथुन यक्तिम् अविशेषाणि ग छति          | १ ८ १ |
| र्मदुः यते <sup>१</sup> श्रेयस् तथ धम ऽ यधर्मत |       |
| राग न् प्रकृत ते रि रक्ते ज्ञानवान् भवेत्*     | १ ९   |
| दे ते प ि प मुक्त नि मनसा सह                   |       |
| अथ तद्दृश्यते ब्रह्म मणौ सूत्रमिवाहितम्        | ११ १  |
| तदे च यदा सूः सौवर्णे ते पुन                   |       |
| मुक्तास्त्रथ प्रवालेषु मृ मये राजते तथा        | १११   |
| तद्वद्रेषु मनुष्येषु तद्वद्वस्तिमृगादिषु       |       |
| तद्वत् काटपतङ्गेषु प्रसक्तात्मा स्व र्मभि      | ११२ १ |
| येन येन शरारेण यद्यत् कर्म करोत्ययम्           |       |
| तेन तेन शररेण तत्तत् फलमुप श्रुते              | ११३ १ |
| यथा रस भूमिर् ओषध्यात्मानुसारिणी               |       |
| तथा कर्मानुगा बु द्विर् अ तर त्माऽनुदर्शिन     | ११४   |
| नपूर्वोद्भू लिप्स लिः पूव भिसिधत               |       |
| अभिसिधपूर्वक र्म र्मपूर्व फलम्                 | ११५ १ |

1. —श्रेयस्त । श्रेयो प्यसम :

\* श्रेते लैवाध्य णि

|   |     |
|---|-----|
| फल धर्मत्सु चित्तं कम ज्ञेयं तथा                |     |
| ज्ञेयं ज्ञानं त्मकं विद्यं ज्ञानं सदसदात्तं कम् | ११६ |
| ज्ञानानां च फलानां च ज्ञेयानां कर्मणा तथा       |     |
| क्षयं ते यत् फलं विद्यं ज्ञानं ते प्रीतिष्ठितम् | ११७ |
| महद्धि परमं भूतं युक्ता पश्यति योगिनः           |     |
| अवुधास्तं न पश्यति ह्यात्मस्थं गुणबुद्धयः       | ११८ |
| पृथिवीरूपं ते रूपम् अपमिह महत्तरम्              |     |
| अद्भ्यो महत्तरं तेजसु तेजसं पानो महान्          | ११९ |
| पवनाच्च महद्वद्ये मत्तं तत् परं न               |     |
| मनसो महती बुद्धिरु बुद्धे काले महान् मृत        | १२० |
| कालं तं स भगवान् विष्णुर् यस्य सर्वाणि जगत्     |     |
| नानिर्नश्यन् नैव स तस्य देवि तेषु               | १२१ |
| अनादित्वं दमध्यत्वद् अतः सोऽयं                  |     |
| अत्येति सुखदुःखानि दुःखं तवदुःखं यते            | १२२ |
| तद् परमं प्रोक्तं तद्धाम परमं पदम्              |     |
| तद्गत्वा कालविषयं विमुक्तं मुक्तिमाश्रिता       | १२३ |
| गुणैस्त्वै प्रकशते निर्गुणत्वत् तत् परम्        |     |
| निवृत्तिलक्षणो धर्मस् तथऽऽनत्यायकपते            | १२४ |

|  |     |
|--|-----|
| ऋचो यजूषि स मानि शरार णि यप श्रित<br>जि प्रेषु प्रवर्त ते यत्नस ध्याविनाशिन      | १२५ |
| न चै मि यते ब्रह्म शरीराश्रयस भवम्<br>य साय तद्ब्रह्म नादिमध्यं न च तवत्         | १२६ |
| ऋचामादिस्तथ सा ि यजुषामादिरुच्यते<br>अ तश्च दिमतां दृष्टे च दिब्रह्मण स्मृत      | १२७ |
| अन दित् दमध्य त् तदन तत्व सोऽयय<br>ययत्व निर्द्वे द्वो द्वन्द्व भा त्तत परम्     | १२८ |
| ष्टेऽनुपय याम धे र्मण<br>न त्यं पश्यति येन गच्छेत् तत् परम्                      | १२९ |
| विषये च ससर्गाच्च श्व च सशयात्<br>मनस चा यदाकाङ्क्षन् पर न प्रतिपद्ये            | १३० |
| गुणान् यदिह पश्ये तदिच्छेत्त्यपरे जना<br>पर नवाभि ङ्क्षति निर्गुणत्व द्रुण र्थिन | १३१ |
| गुणैर्यस्त रैर्युक्त थ विद्याद्गुण निमन्<br>अनुमा ङ्क्षि म य गुणैरवयव परम्       | १३२ |
| सूक्ष्मेण मनस विद्मो ऽचा वक्त न शुभ  |     |

तत् पदम्  
पुनर्नैवाभिपश्यति

१८९] शान्तिपवणि मोक्षधर्मप १ ५१

मनो हे मनस दर्शनेन च दर्शनम् १३

ज्ञानेन निर्मलं त्व बुद्धिं बुद्ध्य तथा मन  
मनसा चेन्द्रियग्रामम् अक्षर प्रतिपद्यते १३४

द्विप्रह णो म स समृद्धस्  
तथ ऽनिराश गुणत मुपैर्  
पर त्यज त्येव विलोभ्यमाना  
हुत शन वायु रिवेन्धनस्थम् १३५

गुणादाने ि योगे च ेषां  
नस् द विद्धि पर राभ्याम्  
नेनैव ि धिता स प्रवृत्ते  
गुणादाने ह्य शर रमेति १३६

अव्यक्तात्मा पुरुषो यत्कर्मा  
ोऽ यत्त्व गच्छति न्त ले  
तैरे । चेद्रियै धम नैर्  
लायद्धि ि तैते कमरूप १३

सर्वैरय चेन्द्रियैस्सम्प्रयुक्ते  
देह प्रप्त प भूताश्रय स्यात्  
न स मथ्याद् त्ति कर्मणे  
हीनस्तेन परमेण व्ययेन । १३८

पृथ नर पश्यति नान्तमस्या  
 ह्यन् आस्या भवित चेति ि द्वि  
 पर न य तीह विलोभ्य नो  
 यथ पृत्र युरि णि स्थम् १३९

दि क्तरो गुणमुपलभ्य निर्गुणो  
 यथा भवेद्वच्यपगतर इमम ल  
 तथ सा मुनिरि निर्विशेषात्  
 स निगुणं प्रविशति च ययम् १४

अन गसं तिमतं परं गत  
 स्वयम्भु प्रभवतिध नम ययम्  
 सन न यदमृ मक्षर ध्रुवं  
 निचाय्य त शमममृतत्वमश्नुते १४१

इति ध्रम आरते सह ि ियां ि  
 शा ि ि ए िननवत्य ि शत िऽभ्याः ८९  
 ८८ ० धम वणि एक ि िऽ ६ ियः  
 ि िऽ िये १ िे िऽ]

वत्याधकशततमोऽध्यायः ††



प्पेण हि र । निबन्धनन ति अरण्यते रूपि-  
 सारच ि म् १ । ना द वित्ती । दः २  
 नारदेन प श्र भगवदपरोक्षी रणम् ३

युधिष्ठिरः

पित मह महाप्र दु खशोकसम कुले  
 सस रचक्रे लोकानां निर्वेदे ि किवि.म् १

अत्र युदाहर िमम् इतिह सं पुरातनम्  
 निव न स । द भोग त्य नृपे त्त २

मान निव धन ि मन य कृतिं तथा  
 निरार भ निराल व्रम् असज्ज त च र्मणि ३

पुत्र दृष्ट्वाऽ युवाचार्तं मात भोगवर्ती तदा  
 गवती ३

उत्तिष्ठ मूढ किं शेषे निरपेक्ष सु. ज्ञनै  
 निर ल व्रे धने पाये पैतृं तव । ि ध म् ४

निबन्धनः

पैतृक मे मह मातस् सर्वदु खालय त्विह  
 अ ये त्तद्विधात य यति ये तत्र मा शुच ५

\*†† णाचा ि ि ध िोह । ठानुस ि ि यमः । यो  
 । द्रतः

- इह शरीरमत्यु पित्र दत्तमसशयम्  
ते पि र गत्व धन िष्ठति श श्वतम् ६
- कश्चिन्महति ससारे वतमानो धने छय  
नदुगमभिप्राप्तो महत् ऋ यादसङ्कुलम्  
।सह यात्रगज कारैरू अतिघेरैमहाशनै  
म तात् परिक्षिप्त स दृष्ट्य यथते पुम न् ८
- स तद्वन नुचरन् विप्रधाविति  
व क्षमाणे दिश सर्ा शरणार्थं धवति ९
- अथ पय न रूढ स द्वागुरावृ म्  
व मध्ये च तत्रा िद् उदपानस्समावृ १
- भित्ति सञ्चि रू गूढ भिरभिसवृत  
पप द्विज विजने सलिलाशये ११
- भ तास्मँल स त न ड्कुले  
वाहुभ । स परि क्तस् तय परमसत्त्वय १२
- स था ल वते तत्र ऊचप दे धरिशर  
अधस्तात्रैव जा जम्बूवृक्षस्सुदु र ३
- कूपस्य वेल य अपश् त् सुमहाफलम्  
वृक्ष हुिध व्ये वल्लापु पस । लम् १४
- न नारूपा मधु रास् त् न वृक्षेऽभवन् ि ल

१९ ] शान्तिपर्वणि ोक्षधर्मपव १ ५५

तेषा धूना बहुध धार वृते तदा १५

विल वम नस्स पुमान् धारां पिबति सर्वदा  
न तृष्णा विरत पयमानस्य स टे १६

परीप्सति च तां नित्यम् तृ स पुन न  
ए स सते त्र दु खि दु खी पुन न १७  
मया द्वन देय त दस्य मि चे छसि १८

भी :

च प्रार्थि ोऽथ दर । मु मवाप स  
सा च त्यक् ।ऽर्थ रूप जगाम परमां गतिम् १९

ए ससारच रूपज्ञा नृपे त्तम  
पर वैर म ग य ग छति परम पदम् २  
युति .

ए सार स्य रूप विदित न  
पैवृ तु धन ोक्त । तद्विद्वन् महात्मन २१

। रमिति कं प्रोक्त ो ह स तु कूपक  
केसज्ञिको हावृक्षो मधु ऽपि पि । ह २२

एत मे संशय विद्धि धनशब्द किमुच्यते  
थ ल धं धन तेन तथा च किमिदं त्विह २३

ः

उप ख्य नमिद सव मोक्षविद्धिरुदाहृतम्



|  |    |
|--|----|
| सुमते वि दते येन व धनाशश्च भारत  | २४ |
| एतदुक्त हे । तार मह न् ससार एव स<br>ये ते प्रतिष्ठित ल याधय प्रकीर्तिता        | २५ |
| । स नरी हाघोर वर्णरूपविनाशिर्नि<br>ताम हुश्च जरां प्र । परि क्त यय जगत्        | २६ |
| यस्तत्र कूपे वसते महाहि क ल एव स<br>यो वृक्षस्स च मृत्युर्हि स्वकृत त तत् फलम् | २  |
| ये तु णास्सिता रजन् मूषिका रायहानि वै  | २७ |
| द्विषद्रूपदसयुक्तो यो हस्ती ष मुख ति<br>स च सबत्सर प्रोक्त पाशम सर्तवे मुख     | २८ |
| ए त् ससरचक्रस्य रूप या मय<br>एव ल धधन राजस् तत्स्वरूपं विनाशय                  | २९ |
| ए ष् त्वा तु सा राजन् पर वर यमास्थिता<br>यथे क्तिविधिना भूय पर पदमव प स        | ३  |
| धत्ते धारयते चै एतस्मात् कारणाद्धनम्<br>तद्गच्छ चामृत शुद्धं हिर य मृत तप      | ३१ |
| तत् रूपो महादेव कृ णो दे किन दन<br>प्रसादाद् स्य नाश । स्यसि म नद              | ३२ |
| ए र्ता स णश्च निनां परमा गि  | ३३ |

|  |    |
|--|----|
| इदमाश्रित्य देवे द्रो े । रुद्रास्तथाऽधिनौ |    |
| स्वे े पदे वि शिरे भुक्तिमुक्तिविदे जना    | ३४ |
| भूतान म तरात् ।ऽसौ स नित्यपदसंबृत          |    |
| श्रूयत मस्य सद्भवस् सन्म्यग्ज्ञान यथ त     | ३५ |
| भवेदेत वि वेध त्व नारद य पुर ह री          |    |
| दर्शयित्वाऽऽत्मनो रूप यद ेचत् यं विभु      | ३६ |
| पुरा देवऋषिश्श्रीमान् नारद परमार्थवान्     |    |
| चचार पृथिवा त् तीर्था यनुचरन् प्रभु        | ३  |
| हिमवत्प द श्रित्य िचार्य च पुन पुन         |    |
| स ददर्श हृद् तत्र पद्मोत्पल मा लम्         | ३८ |
| ददर्श कन्यां तीरे भिरणभूषि त्              |    |
| शोभमाना श्रिय रजन् िडिन् मुत्पलै था        | ३९ |
| सा महात्मानम लेक नारदेत्याह भ भिनी         |    |
| स्य स ापमासाद्य तस्थौ विस्मितमानस          | ४  |
| ीक्षमाण तमाज्ञाय स क या चारुवासिर्न        |    |
| विजजृम्भे ह भागा स्त्रय ना पुन पुन         | १  |
| तस्म त् समभवद्वक्त्रात् पुरु िकृतिसंयुत    |    |
| रत्नविन्दुचिताङ्गस्तु सर्वाभरणभूषित        | ४२ |
| आदित्यसदृश कारश शिरस ध रयन् णिम्           |    |

पुनरेव तद् कारसदृशसमजाय ३

वृत्ती स्तु मह रज विविधाभरणैर्युत

प्रदक्षिण तु ता कृत् । विविधध्वनयस्तु ताम् ४४

तत सर्वेण विप्रर्षि कन्या पप्रच्छ ता शुभाम् ४४

नारदः

का ८ परमकल्प्य णि पद्मे दुसदृश नने

न जने ८ महादेर्हि सत्यमनिदिते ४५

सावित्री नम विप्रर्षे शृणु भद्र तव तु

रियमि तद्रूहित ये सि स्थितम् ६

ना :

अभिवादये त्वा सावित्री । त्र्योऽमनिदि

एत मे सशय देवि कु हंसि शोभने ४७

यस्तु वै प्रथमोत्प कोऽसौ स पुरुषाकृति

विन्दव तु महादेर् मूर्ध्नि ज्येतिर्मया ति ४८

अत्रज प्रथमोत्प । यजुवदस्तथाऽपर

वृत्तयस्स मेदस्तु सशये येतु ते मुने ४९

वेदाश्च विन्दुसयुक्ता यज्ञस्य फलसश्रिता

यत्तद्व्य महज्योतिर् ज्येतिरित्युच्यते बुधै ५ ।

१९ ] शान्तिपर्वणि ेक्षधर्मपर्व १ ५९

भी :

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ऋषे ज्ञेय चाऽपात्युक्त्वा चान्तरधीय  | ५१ |
| तत ि याविष्टो नारद पुरुषषभ           |    |
| ध्यानयुक्तस्त चिर न बुबोध महामात     | ५२ |
| त महातेजा यतो नियतेद्रिय             |    |
| तुष्टा पुरुषठ गो जि तदद्भु म्        | ५  |
| गो षशते पूर्णे भगवँ लोकभावन          |    |
| प्र दुश्चकार िश्वात्मा ऋषे परमसौद त् | ५४ |
| तमागत जग थ र्वकारणकारणम्             |    |
| अखिल मरम ल्यङ्गरुक् रुणपदद्वयम्      | ५५ |
| वैने यपद पशकिणशे भित्तज तुकम्        |    |
| पा म्बरलसत् ढामवद्धकटातटम्           | ५६ |
| श्रीवत् क्षस चारु णिक स्तुभकन्धरम्   |    |
| मन्दस्मितमुखा भोज चलदायतलोचनम्       | ५  |
| न च पानुकरण म्रभ्रूयुगशे भित्तम्     |    |
| न नारत्नमर्णं ज्रस्फुरन्मकरकुण लम्   | ५८ |
| इ द्रनीलनिभाभ त केयूरमकुटो-ज्वलम्    |    |
| देवै रै द्रपुरोगै षिसनैरभिप्रतम्     | ५९ |
| नारदो जयश तेन वव दे शिरस हरिम्       | ५९ |

तस्स गञ्ज् श्रमान् मेघगभीरया गिरा

हेश सर्वभूतानां नारदं पतितं क्षितौ

६

श्रीभगवान्

भद्रमस्तु ऋते तुभ्य ररय सुत

मनसि सुयक्तम् अचि च प्रदामि तत्

६१

र्भः

स चेमं जयश देन प्रसादेत्यातुरो मुनि

प्रोच षोडशैः सखैः शङ्खचक्रगदारम्

६२

रदः

विक्षिं जगथ मय तत्तयऽच्युत

तत् प्रसद षोडशैः श्रोतुमिच्छामि तद्धरे

६३

भीष्मः

न्महा र अभ्यभषत नारदम्

६४

भगान्

यदप्रम रूप तु दानां शिरसि तया

निर्द्व द्व निरहारा शुचयश्शुद्धलोचना

६५

म पश्यित सतत तन्पृच्छ यदिहेच्छसि

६५

योगि महाप्राज्ञ मदशाये यवस्थिता

प्रसद देषे मत्सादमवैहि तत्

६६

र्भः

इत्युक्त्वा स जगामथ भगन्भूतभवन

तद्राज षोडशैः कृणु दे किनन्दनम्

६७

१९१] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व ६१

एतम रा० गोविन्द गत मुक्तं महर्षय  
एष ० ० ० च ० णकारणम् ६८  
मया प्येतच्छ्रुत राजन् नारद त त्त्विबोध त्  
ये माच नारदो भग न् मुनि ६९

मस्तससारि घातकारण

भजन्ति ० वष्णु न ०

ते णि युञ्ज मती दुलभम्

इति नित्य ० दि णयन्ति

इति श्रीम भारते सिकायां द्विताय सिकायां

शान्ति नवत्यधिकशततमो :

८ मोक्षधर्मपर्वणि द्विचत्वारशोऽध्यायः २

अस्मि ० प्रोक्तः ]

एकनवत्यधिकशततमो ऽध्या

ध्मेण धाष्टर भूतादजगत्सृ णिरनिरूपणम् १ ०  
रद दितनृ ० हादिभगवत्प्र दुभ चरि निरूपणम् १ ०  
त्वप्रतिपादनेन च्यानविधानम्

धिष्टिर.

पित मह महाप्राज्ञ पु ङ्गर् क्षम युतम्

० रम त वि णुं भूत नां प्रभ ण्ययम्

र यण लृषि श गोवि दमपरा जितम्  
तत्त्वेन भरतश्रे श्रे तुमि च मि केशवम् २

श्रु ऽयमथ र ज मद यस्य जल्पत  
न रदस्य च दे र्षे कृ णद्वैप यनस्य च ३

असितो देवलस्त त वाल्मीि श्च मह तपा  
म कर्णे श्च गो वि द थय त्यद्भुत महत्  
केशवो भरतश्रे भग ानीश्वर प्रभु  
पुरुष सर्वमित्ये श्रूयते बहुध विभु ५

ि तु यानि विदुला ाह्ण शश ङ्गध नि  
हात् नि महाब हौ शृणु त नि युधि र ६

य नि च हुर मनु ये द्र ये पुर णविदे जना  
त्वा सर्व णि गो वि दे िर्तये यामि त न्यहम्

महाभूत नि भूात्मा हात्म पुरुषे  
१ यु यैति थ चाप ख च गां च ल्पयत् ८

सृ ा मह ित भूतानि सर् भूतेश्वर भु  
अ षे शयन च ह त्म पुरुषे त्तम ९

स तेजोमयस्तस्मिञ् शयानश्शयने भे

|                            |                           |    |
|----------------------------|---------------------------|----|
| सृज सर्वभूतानां            | वर्णमचिन् यत्             |    |
| आश्रय सर्वभूतानां          | मनसेत ह शुश्रुम           |    |
| धरयति भूतत्मा              | भे भूतभ्यां यती           | ११ |
| प्रद्य मसृजत्तस्मात्       | सर्वतेज काशकम्            |    |
| अनिरुद्धस्तते जज्ञे        | शक्तिर्मह                 | १२ |
| अप्सु योमगतश्श्रामान्      | योगनिः पेयिवान्           | १२ |
| तत्र तस्मिन्               | हामगे प्रदुर्भूते ह त्मनि |    |
| भरतिमं दि य नाभ्यां        | पद्ममजायत                 | १३ |
| तत्र भगन् दिव्य            | रे भासयन् दि              |    |
| समभवत्ततः                  | संभूतपित मह               | १४ |
| तस्तस्मिन् महवाह           | प्रदुर्भूते मह त्मनि      |    |
| स पूर्वजे जे मधुर्नाम      | मह र                      | १५ |
| तमु मुग्र मर्णम् उां बुद्ध | सम स्थितम्                |    |
| णोऽपचित कुर्वञ्च           | जघन पुरुषोत्तम            | १६ |
| तद प्रभृति तसव दे          | दानवमा                    |    |
| मधुसूदन इत्याहुर           | ऋषभ सर्सात्ताम्           | १  |
| ब्रह्म तु ससृजे पुत्रान्   | नसन् दक्षस मन्            |    |
| 1. यनां २. चतुर्नां        |                           |    |
| 3. गतस्य । व               |                           |    |



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| रीचिमञ्ज्यङ्गिरसौ लस्य लह क्रतुम्  | १८ |
| रीचि श्यप त मप्रजमप्रज             |    |
| म नस जनय म स तैजस वित्त म्         | ९  |
| अङ्गुष्ठादसृजद् मरीचैरपि पूर्वजम्  |    |
| भवद्भरतश्रेष्ठ दक्षो न म प्रज पति  | २  |
| पूर्वमजायन्त दश भ रत               |    |
| पतेर्दुहि रस् त स ज्येष्ठ ऽभ द्वि  | २१ |
| सर्वधर्मा शे ज्ञ यकार्तिर्मह यश    |    |
| राच काश्यपस्त त स सामभ त् प        | २२ |
| उत्प तु ह भ गस् तत रज दश           |    |
| ददौ ध धर्मज्ञ दक्ष ए प्रज पति      | २३ |
| स रु मिततेजस                       |    |
| श्रे ष्व स ध्य मरु भ रत            | २४ |
| परास्तु य स् ऽन्यास्त वश ते        |    |
| सो स मह भ गस् स सामभ त् पति        | २५ |
| इ रस्तु यजाय ग स्तुरगन् जन्        |    |
| ग पि पुरुषान् तान् द्विरद वनस्प न् | २६ |
| आदित्यानदि दे श्रेष्ठान् ह बल न्   |    |

१९१] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व ६५

|  |    |
|--|----|
| ेषा विष्णोर्वात्मनो भूद् गोविन्दश्चाभ त् प्रभु | २  |
| तस्य िणा पि दे श्रीर े                         |    |
| दानव परभूत दैतेया चासुर                        | २८ |
| विप्रचित्तिप्रधाना दान नसृजहनु                 |    |
| दितेस्तु स नसुरन् महा रान् व्यजायत             | २९ |
| अहोर च च थर्तून् मधुसूद                        |    |
| पूर्वाह्न च पर े च सर्मेवान्वकल्पयत्           |    |
| पुं प सोऽसृज ेघस् था रजङ्गान्                  |    |
| पृथिव गो सृजद्विश्च हितं भूरितेजस              | १  |
| तत णो म बाहु नरे युधिष्ठिर                     |    |
| णान शत श्रेष्ठ मुख दभ्यसृजत् भु                | ३२ |
| बहुभ्या क्षत्रियशत ैश्य मूरुतशशम्              |    |
| पद्भ्यं शूद्रश वै केश े भरतषभ                  | ३  |
| स ए चतुरो ेन् स त्प मह पा                      |    |
| अध्यक्ष सर्वभूताना घ तारमकरेत् प्रभु           | ३४ |
| वेदविद्य िघात र ह्याणममितद्यतिम्               |    |
| भूतमातृगण ध्यक्ष विरूपाक्ष च सेऽसृजत्          | ३५ |

ऽभूदजघ णो :

षट् ि

|  |    |
|--|----|
| अध्यक्ष पु यप पाना पितणा स वर्तिनम्<br>अ जत् स भूतात्मा निघं श च धनेश्वरम् | ३६ |
| य ढस मसृज थ वरुण च जलेश्वरम्<br>व सव सर्वदेवान् अध्यक्षम् रेत् प्रभु       | ३७ |
| य व वदभूच्छ्रद्ध देह धारयितु नृणाम्<br>त त दज स्ते न साद्यमकृत भयम्        | ३८ |
| न तेषां मैथुने धमा बभूव भरतं भ<br>स २ देव चतेषां गर्भं समुपपद्यते          | ३९ |
| त युगे ले सस्पर्शाज्जायते प्रजा<br>न भून्मैथुनो धर्मस् तेष मपि जन धिप      | ४० |
| परे मैथुने धम जान मभ प<br>थ लियुगे राजन् द्व द्वम पेदिरे जना               | ४१ |
| एष भूत ति त स ध्यक्षश्च प्रकांति<br>निरध क्षांश्च तेय तीर्तियि यामि त नपि  | ४२ |
| दक्षिण पथजन्म नस् सर्वे र तस्तव<br>ध्र पुलि द शशवर चूचुपा द्र सह           | ४३ |
| त्तर पथज न ये मि तनपि<br>ये क भेज र र । बर्वरै सह                          |    |

१९१] शान्तिर्वि. मोक्षधर्मपर्व १६

ए पापरतास्तात चरि पृथिवीमिमाम् ५

बकश्च एकृ णां सधमाणे नराधिप

नैते तयुगे त त चरि पृथि मिमाम् ४६

ेत प्रभृति वध ते ते जना रतर्षभ ४६

ततस्तस्मिन् महाघोरे स ध्य काले युगा तरे

राजान समसज्ज त समासाद्येतरे रम् ४

एवमेष कुरुश्रेष्ठ दुर्भावो महात् न

एव दे र्षिराचग्र नारद सर्वलोकदृक् ८

न रदोऽप्यथ षणस्य पर मेने नर धिप

शाश्वतत्व मह भाग यथ वद्भरतषभ ९

ए मेष महाबाह केशवस्तत्य विक्रम

अचि त्य पुण रीकाक्षे नैष ेवलमानुष ५

ति तिमहाभा े शतसह त्या हिताय

ज्ञाा पर्वी ए ि शत णोऽध्यायः ९

८८ णो पर्वणि ि र णो ध्यायः ३

[ स्मि न्याये ५ श्लोकः ]

## द्वेनवत्याधकशततमो ध्याय

भीष्मेण युधिष्ठि प्रति रीच्यादिब्रह्मपुत्रव नपूर्वकं प्राच्यादि  
दिग्गत नामनिर्दे :

युधिष्ठिर

के पूर्व सन् पतय प्रज ना भरतर्षभ  
के चर्षये ह ग दि त्येकशरि १

भी

श्रूयत भरतश्रेष्ठ यन् १८ परिपृच  
ना ये ये च दि त्येकशस्थित २

एकस्व स्मूभग न् आद्ये सनातन  
ब्रह्मणस्स महत्तान यन्मु ३

राचिर र पुल लह  
वरि हाभागस् दृशो वै स्मुव  
इत्येते पुर णे गतं  
अत ऊर्ध्व क्ष्याने जापन् ५

त्रिवंश मुत्पन्नो ब्रह्मयोनिस् तन  
चानबर्हिर्भग स् त् प्रचेतसो द ६

- दशान तनयस्त्वे द्वे दक्षे नाम प्रजापति  
 द्वे मन े दक्ष इि चोच्यते  
 मरीचे काश्यप पुत्रस् त द्वे नामनी स्मृते  
 अरिष्टने रित्ये काश्यपेयपर विदु ८
- पौर इश्री न् राजा भौम वीर्यवान् ।  
 हस्त्र य दि यानां युग नं पर्युपासि । ९
- अ चै भग न् ये चान्ये तनय विभो  
 एते देशा कथिता भुवन नां प्रभ ना १
- शशविन्दोस्तु भ णं ह णि द ञ्च्यु  
 एकै ि ह तु तनयानामभूत्तदा ११
- ए शत णि दश महात्मन  
 पुत्राण च ते किि द् इच्च त्यन्य प्रज पतिम् १२
- त्माचक्षते विप्रा पुराण श शविन्दवीम्  
 स णि प्रभ गो ह श प्रजाप १३
- ए प्रजा पतयस् स द्वि य ि न १३
- वि दुस्तु रज र् मर्ह ेगी ह ना  
 अध्यात्मवित् सह णां भार्याणां द मध्यग १

|   |    |
|---|----|
| स योगा ेगम प सू त सायु यतां गत              | १५ |
| अत पर प्रवक्ष्य े देवांि भुवनेश्वरान्       | १५ |
| भगोंऽश्र्चार्यमा चै मित्रोऽथ वरुण थ         |    |
| वे । चै धात च विवस्वांश्च ह बल              | १६ |
| त्वष्टा पूषा तथैवे द्रे द्व दशो वे णुरु यते |    |
| एते द्व दशादित्या कश्यपस्यात्मस भव          | १  |
| नासत्यश्चैव द स्मृतौ द्वावश्विनावपि         |    |
| र्ति स्यात्मज वेत वष्टमस्य प्रजापते         | १८ |
| ष्टश्चै मजश्चमान् विश्वरूपो मह यश           |    |
| अजै प दहिर्बुये विरूपक्षेऽथ रै त            | १९ |
| हरश्च बहुरूपश्च य वश्च रेश्वर               |    |
| स ित्र जय पिना ि च पराजित                   | २  |
| ए ।दशैते कथिता रुद्राि भुवनेश्वरा           |    |
| पूर्वमेव मह भागा वस ोऽष्टौ प्रकीर्तिता      | २१ |
| एत ए िध दे धर्मस्यैव प्रजापते               |    |
| े च पूव सुरश्चेति द्विधा ितर स्मृत          | २२ |
| शील े नितस्त्वन्ये तथाऽ ये सिद्धसाध्य े     |    |

---

1. े रः 2. न िद िम्  
3. े 4. पूर्वो

१९२] शान्तिपर्वणि क्षधर्मपर्व १

|                     |                                 |    |
|---------------------|---------------------------------|----|
| ऋभवो मरुत           | नां चोदितो गण                   | २३ |
| एवमेते              | ता विश्वेदेवास्तथाऽश्विनौ       |    |
| अदित्या             | क्षत्रियाणां विश्वस्तु मरुतस्तथ | २४ |
| अश्विनौ तु          | मर्तौ शूद्रौ तपस्युग्रे समाहितौ |    |
| स्मृत त्वन्निरसे    | देवा ह्यणा इति नि य             | २५ |
| इत्येतत् सदे        | नां चातु र्यं प्रकाशितम्        | २६ |
| एतान् व             | तरुत्थायैव न्यस्य प्रकर्तयेन्   |    |
| जाद यकृताच्चैव      | पापत् प्रमु यते                 | २  |
| यवर्कैऽथ रैभ्य      | अ सुपरा सू                      |    |
| अशिश्वैव            | क्षवान् नील निरिस सुत           | २८ |
| ऋषिर्मेघातिथे       | पुत्रो वर्हिषद् धा              |    |
| त्रैलोक्यभा न       | इथ प्राच्यां तर्षयर मृत         | २९ |
| उन्मुचे मुचश्चै     | स्वस्त्य त्रेयश्च व यान्        |    |
| प्रमु श्रेष्मवाहश्च | भग न् सु त त                    | ३  |
| मित्र रुणयो         | पुत्रस् थाऽगस्त्य इप न्         |    |
| इत्येते ऋषयो        | नित्यम् अश्रि दक्षिणां दिशम्    | ३१ |
| षट्                 | वषो रैभ्य परि यधश्च र्यव न्     |    |

1 तो ि 2 भ्व ३  
3 शङ्कुः 4 धं यः



|   |    |
|---|----|
| एक द्वि त्रितश्चै हर्षय   | ३२ |
| त्रे पुत्र दु सास् था स रस्व प्रभु<br>एते चै महात्मन पश्चिममश्रित दिशम्       | ३३ |
| अ व इत्यप मह नृदि<br>गौ रद्वाजो श्व मित्रोऽथ शि                               | ३  |
| थै त्रो भग न् ऋच ह त्मन<br>जम् सि सैते चा श्रिता दि म्                        | ३५ |
| ए तेदिश स कीर्ति म जे<br>क्षिभू मा तानो भु तन न                               | ३६ |
| ए मेते हात्मानस् त लेकशो दिश<br>एते तिन ता सर्पपै प्रमु यते                   | ३  |
| यस्या य दि ते दिश शरण ग<br>मु यते सर्पेभ्यस् गृह जेत्                         | ३८ |
| मि तिस त्मारे त्वा वैयाहि<br>वि वृणि द्विन दि तो भ्याय ९२<br>८८ प वि तो व्य : |    |
| [ १ भ्याये ३८ ]   |    |

त्रि वत्यधिकशततमोऽध्याय



॥ ॐ युधिष्ठिर प्रति े राहावतारनिरूपणम्

युधि :

- पि मह मह प्र युधि सत्यपरा  
 श्रे मिच्छाि कात् येन कृष्णम ययर्म धरम् १  
 यच्चास्य तेजस्सुमहद् र्म पुरातनम्  
 न्मे सर्व थ र ब्रूहि त पुरुषप २  
 तिर्य योनिगत रूप थ धरि न् हरि  
 े र्यि गण<sup>1</sup>त मे ब्रूहि पि मह ३

भीष्मः

- र ह मृगयं य तो म ेया े स्थित  
 तत्रापश्य मुिगणान् मा नान् सह श ४  
 ततस्ते मधुपर्केण पूजां च रथे मयि  
 तिगृ तां पूजां प्रत्यन दमृि हम् ५  
 ैष थि तत्र काश्यपेन महर्षिणा  
 मन प्रह्म दिना दि यं ता मिहैकमनाश्शृणु ६

1. दाख्यादि पि

। यपः

मो हि भगवन् विष्णुर् राहो यज्ञरू धृक्  
तमय जगत्सम् आत् सर्वस्य चात्मवान् ७

पुर दान मुख्य हि क्रोधलोभसमवित  
बलेन मत्ताश्शतशो नरकद्य महसुरा ८

तथव चाये बहवो दानव युद्धदुर्मदा  
न सहन्ते स्म देवनां समृद्धतामनुत्तमम् ९

दानवैरर्द्यमान तु देव देवैस्तथा  
न शर्म लेभिरे रजन् शिष्यमाना सह श १

पृथिवां चार्तरूपा ते समपरयन् दिवौ स १

दानवरभिसिर्णै घोररूपैर्महबलै

भरार् पकृष्टच दुर्गैः शान्तिमिच्छताम् ११

अथ दितेयास्सन्त्र ब्राह्मिदुवन् १२

।

कथं शक्यं महैर्नानवैरुपमदनम् १२

। इयः

य भूस्तनुवाचेद निसृष्टोऽत्र विधिर्मय १३

ते वरे भिसि मत्त बलेन च मदेन च

1. ग धृक्

2. नि तीम्

१९.] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व १ ५

|  |    |
|--|----|
| न च वेत्स्यि सम्मूढा त्वष्टु यत्कदशनम्     | १  |
| राहरूपिण देवम् अधृष्यममरैरपि               | ४  |
| एष वेगेन गतः वै यत्र ते दानवाधम            |    |
| अ तर्भूमिगत घेरा निवसन्ति सह श             | १५ |
| शम यिष्यति तच्छ्रुत् जहृषुस्सुरसत्तमा      | १६ |
| तो ष्णुर्मह तेज वरह रूपमा त                |    |
| अन्तर्भूमि स प्री श्य जगाम दितिजान् प्री   | १  |
| दृष्ट्वा च सहित सर्वे दत्या सत्त्वम अनुषम् |    |
| प्रस सहिता वै धु त्वा लचेदिता              | १८ |
| स च समभिरत्य राह जगृहुस्स म्               | १८ |
| स ह्य रह ते ष्य त                          |    |
| दानवे महावीर्य मह काय बलोद्धता             | १९ |
| नाशकव किं त्ते तु तद विभे                  | २  |
| तते गमन् विस्मय ते द नवेन्द्र भय दिता      |    |
| सश गतम त्म न मेनिरे च सह श                 | २  |
| ततो देवा दिदेव स योगात्म योगसारथि          |    |
| गमास्थ य भग त्स् तद भर सत्त                | २२ |
| विनन द महानाद क्षे भयन् दैत्यदानवान्       |    |
| स दिता येन लोकास् सर्व श्रैव दिशो दश       | २३ |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| तेन स शब्देन लेभिरे क्षो भमात्म  |    |
| सान्ताश्च भन्स दे शशक्रपुरोगमा   | २  |
| निचे जग पि बभूव तिभृश दा         |    |
| र जङ्गम च पि तेन न देन रोहितम्   | २५ |
| देनवास्स ते दे भषिता             |    |
| पति गत श्रै विष्णुजे रोहि        | २६ |
| रस तलगतं श्रै रहि द द्विष        |    |
| खुरै स दार मास । मेदोस्थिस यान्  | २  |
| दिने तेन महत् न तन इ मृ          |    |
| प भो मह योग भूत चार्यस् भूतराद्र | २८ |
| त तो देवगणा पित महमुपाद्र न्     |    |
| ग हात् म ऊचुश्चैन जगत्पिम्       | २९ |
| दे :                             |    |
| न दोऽय शो दे नैन य प्रभे         |    |
| रोऽगौ हे । नादो येन विह्वलि जगत् | ३  |
| दे द न श्रै रोहित ज              |    |

1 —लो रोभमागमन्

धम्

3. तो

4. ना दमधम्

ए स्मिन्नन्तरे िष्णुर् ाराहं पम ि त  
उद तिष्ठत्तद् दे स् स्तूयम े महर्षिभि  
पिताम :

निहत्य दानवपतान् मह र्मा मह बल  
एष दे ो महायोग भूत ८ । भूतभ न ३२

स ्रभूतेश्वरो योगी १ मुनिरा ८ तथाऽ त्मन  
स्थिर भव ष्णेऽय सर्प पप्रणाशन ३३

८ कर्म तु साध्वेत ि दत्यमित भ  
सम या स्वमात्म न महाभ गे महाश्रुति ३

पद्मनाभो महा ेगी भूतात्म भूतभ वन  
स पो न र्भ िय शेको । सुर सत्तमा ३५

ि धिरेष प्रभ व लसङ्क्षय र  
ले न् ारयत नेन न दे मु ो मह त्मना ३६

स एष हि महाभ गस् सर् लोकेनमस्कृत  
अ यु पुण रीकाक्षस् सवभूत समुद्भव  
इति िम २े शतसहस्रिकार्या द्वितायां वयाि  
ि प ि नि धिकशत ोऽध्यायः ९३  
८८ । धमपवणि पञ्चत्रा ि ऽध्यायः ५  
[ स्मिन्नध्याये २ ो : ]

1. िनिर म ० ग त्म रीककृत्  
3. ग सत्त : 4. ारयमा  
5. ि र्ततः  
J II १7

## चतुन त्यधिकशततमोऽथ य



मेण धि र ति सुदे च्चकथनम्

युधि रः

- पितामह प्रा श महात्मन  
 कुर्मर्हसि तरेन महत य नरेव तु १
- न वृष्या यहमप्येन पश्यञ् शृण्व भ रत  
 ए कृ ण मह व हे तस्मादे द्रव्ही हे मे २  
 भ
- शृणु रजन् थामेतां वै णव पापन शनीम्  
 न रदे मां पुर प्राह य मह ते दामि तम् ३
- दे र्षिर्नारद पूव तन्व वेत्स्य मि हरे  
 इति सञ्चिन्त्य मनस दध्यै स तनम्
- हिम ल्ये भे दि ये दि वर्षशत िल  
 तु छसि र ह रस् सयत त्म जिते द्वय ५
- ततेऽ तरिक्षे ग सी त् त मुनिप्र र प्रि  
 मेघग रनिर्वेष दि या व िऽशर रि ६  
 अशरीरि णि
- मथ त्व सम प े ध्यान मुनि रोत्त

१९४] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व १ ९

अहं तदामि ते ज्ञानधर्मं वृणाष्वाम् ७

ऋत्वा मुनिरालेख्य भ्रमाविप्रमानस

कं नुस्यदिति सित्यवक्यमाह परति ८

नारदः

स्तभनविभेदध्ये

सस्थितोऽक्यमुदीरयन्माम्

नरूपमयत्तवश्यते

ईदृग्विधस्तसमधिष्ठितोऽसि ९

भीष्मः

पुनस्तमाहसमुनिम् अनतोऽहं बृहत्तर

नमांमूढाविजानन्ति जनिनोमंविदत्युत १

प्रत्यहमुनिश्चमन्प्रणते विनयिव १

नारदः

भवन्तज्ञातुमिच्छामि तव तत्त्वमिहिमे १

भीष्मः

तद्वचनं त्वं नारदं प्राह लोकप ११

भीष्मः

नेनमांविजानीहिनायथाशक्तिरिति १२

नारदः

काविधतुतज्ञानयेनजानामि तेतनुम्

अनन्ततमेवृहित्वयनुप्रवृत्तवानहम् १३



। प :

विकल्पहान विपुलं तस्य चूर शिव परम्  
ज्ञान तत् ेन जानासि साधन ति ते मुने १

त्रावृत्य स्थित ेतत् तच्छुद्धमितर मृष-  
एतत्ते सर्वमाख्य तं सङ्क्षेपा मुनिसत्तम १५  
रदः

त्वमे तव यत्तत्त्व ब्रूहि लोकगुरो मम  
भव त तुमि छामि िद भूतस्त्वम यथ १६

। :

तत प्रस्य भगव न् मेघगम्भीरया गिर  
प्राहेश सर्वभूतानं मे चास्य श्रुतिर्न च १

न णजि े द्क् चैव त्वच न स्ति तथ मुने  
कथ वक्ष्यामि चात्म नम् अशरारस्तथ ऽ यहम् १८

तः । त । विस्मयाविष्टो मुनिराह प्रण य तम् १८

दः

ेन त्व पूर्वम त्म नम् अन ते ऽह हत्तर  
शतोऽह मेति मां प्रीत प्रोक्तव नसि तन् थम् १९

र्भ :

पुन िह भग िस् । यक्षा णि सन्ति वै  
त्वमेन ब्रूहि च त्म नं यदि शक्नोषि नारद २ ↓

अ त्म यथ तव मुने विदितस्तु भि यति

१९४] शान्तिपर्वणि ेक्षधर्मपर्व १ ८ .

म च जानासि ेन ८ म् धनमा ये २१

इत्युक् । भग न् दे स् तते नेवाच े न  
नारदोऽ युत्स्मयन् े गतोऽस ेति प्रभु २२

स्थित्वा स दीर्घकाल च मुनिर्व्यामूढमानस  
आह । भगवान् दे स् त्वन तोऽह बृहत्तर २३  
ते ।हमि े ो ऽनन्तो बृहत्तर २४

केयमु े न त ख्या हर्त नूनमेव सा  
य ां ज नति भूत नि विलानानि ततस्तत २५

एनां पृच्छामि रुण सैष नूनमुव च माम् २५

इत्ये स मुनिश्श्रीम न् कृत् नि यमा मन  
स भूतल समाविश्य प्रणिपत्येदम वात् २६

नारदः

आश्रय ऽसि च धन्य ऽसि बृहता ८ सु धरे  
त्व मत्र वेत्त े मि । द्भूताऽसि शोभने २

र्भः

त छुत्वा धरणि देवी यमानाऽ दिदम् २८

भूः

व ह हि बृहती िप्र न च न त च सत्त  
कारण म ये ग धे ग ध त्म न त्रर्व े तम् २९

- भी  
तो मुनि द्वि तत्त्व प्रणिपत्येदमब्रवीत् २९
- ना  
कारण मे जल मत्तो बृहत्तर म हि तत् ३
- स स द्रं मुनिर्गीत प्रणिपत्येदम वीत् ३
- न रदः  
आ र्योऽसि च धन्योऽसि ह्यन तोऽसि बृहत्तर  
भ ेतुमिच्छामि ह भूत त्वम यय ३१
- तः  
च्छुः सरितां न थस् समुद्रो मुनिम वीत् ३२
- द्वः  
र ेऽत्र स पृच्छ रस त्मान बृहत्तरम्  
ो ेत्तर विद्वस् त्व पृच्छ मुनिसत्तम ३३
- ततो मुनिर्थायै ग जलं स्वमवेक्ष्य तत्  
जलात्म न ण य जलत स्थिते मुनि ३४
- रदः  
श्च र्योऽसि च ध योऽसि न त्तेऽसि बृहत्तर  
भ त ेतुमिच्छामि ह भूतस्त्वम यय ३५
- भी :  
ते रसात् कस्सो नु मुनि ह न पु

१९४] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व १ ८३

रसात् :

म पि रण पृच्छ तेजोरूप विभ वसुम्  
न ह बृहत्तरो न् नाप्यनन्त सत्त ३६

भीष् :

ततोऽपि प्रणिपत्याह मुनिर्विस्मितम स  
य त्म न महाव स सर्वभूतनम कृतम् ३

नारदः

आ य ऽसि च धन्योऽसि न बृहत्तर  
भव त वेत्तुमि छामि का भूत त्व यय ३८

पि :

प्रहस्य भग न् मुनिं िष्टकृद ित् ३९

ः

नाह हत्तरे न् ना यन त सत्तम

रण मम रूप यत् त पृच्छ मुनिसत्तम

भी .

ततो ये गक्रमेणैव प्रतीत त प्रविश्य स  
रूपात् न प्रणम्याह न रदो दत्तं र ४१

नारदः

अ र्योऽसि च धन्योऽसि नन्तोऽसि हत्तर  
त वेत्तुं ि भूतस्त यय ४२

:

त यित्ता तु रूपात्म त मुनिं प्रत्यु च २

रूपात्

यु कारण सू त मुनिसत्त  
मत्ते बहुतरश् मन् न तश्च मह बल ४३

रु प्र यह भगान् मुनिसत्तम  
ेगसिद्धे मह योगी न विज्ञ नप रग ४

र :

अ योऽसि च धयोऽसि तोऽसि बृहत्तर  
न्त ेत्तमि मि क भूत त यय ५

:

तते आयुर्हि स प्र ह न रद मुनिसत्तमम् ४६

रण भगान् पर्शात्मन मा वै  
मत्तो बृहत्तरश्श्रीमान् अन तश्च थै स ४

भीष्मः

ोऽ च श्रुत्व पर्शत् मु च स ४

रदः

अ ा सि च धयोऽि न ेऽसि हत्तर  
भवन् ेत्तमि छ े भूत त्वम यय ८

भी .

तस्य चन ु पर्शात्म मुनिम वात् ४९

ति ।—

न ह हत्तरो न् नाप्यनन्त सत्तम ४९

रण म चै म् अ श च बृहत्तरम्  
त छ मुनिश दूळ सव य पिन ययम् ५

भी :

त छूत् न रदश्रीम न् वाक्य ाक्यविशारद  
आ श समुपागम्य प्रण ह झलि ५१

रद

अ योऽसि च ध यो सि न तोऽसि हत्तर  
भ तं वेत्तु च्छामि िट भूत वम यय ५२

भी .

आकाशस्तमुव चेद प्रह न् मुनिसत्तमम् ५३

:

नाह हत्तरो ह्यञ् श दे वै ारण मम  
त मुनिश दूळ वै मत्तो बृहत्तर ५४

^ :

ततो िश् च क श श दात्म नमुव च ह  
स्वर य नसंयुक्तं ान हेतुविभूषितम् ५५

वेदाख्य परम गु ाकारणम यु म् ५५

रद

अ योऽसि च ध-योऽसि न तोऽसि बृहत्तर

१ ८६ महाभ रतम् [अ

भव त श्रो मिच्छामि भूतस्त्वम यय ५६

र्भ :

द त्म त्यु चेद नारद मुनि ऋचम् ५

ब्दः

म क रणभूतेन सर्ववेत्त पितामह  
ह्यणो बुद्धिसस्थ नम् आस्थिते ऽहं मह मुने ५८

द्वहत्तरो मत्त पद्मये निर्म मति  
त पृच्छ मुनिशार्दूल सर्व रण रणम् ५९

र्भ :

लोकं तते गत् न रदो मुनिपुङ्गवै  
से मान मह त्मान लो पालैर्मरुद्गणै ६

समुद्रैश्च सरिद्धिश्च भूततरै समूधरै  
ग धवैर सरो भिश्च ेतिषां च गणै था ६१

तु तिस्तोमऋहस्ते भैस् तथ ेदैर्मुनीश्वरै  
उपास्यम न ब्रह्म णं लोकन थ पर त् परम् ६२

हिर यगर्भ ेश्वेशं चतुर्वक्त्रेण भूषितम्  
प्रण य प्र लि प्र स् तमाह मुनिपु षव ६३

नारदः

आश्रयोऽसि च ध येऽसि न तोऽसि बृहत्तर  
भ त वेत्त मिच्छ मि कीन्गभूतस् यय ६४

भी

तच्छ्रुत् भगन् ब्रह्म सवलोकपित मह  
उत्सयन् मुनिम हेद र्ममूल लोपकम् ६५

ह बृहत्तरो न् नाप्यन श्व सत्तम  
लोकानां मम सौप नाथभूतो बृहत्तर ६६

न द्गोपकुले गोप मारै परिवारित  
सम जगता गोप्ता गोपवेषेण संस्थित ६७

द्रूप च स स्थिय जगत्सु प्र करेति स  
ऐश नमास्थितश्चामन् हा नित्यं हे पति च ६८

गुणस्वरूपरूपोऽसौ कारण स हरिर्मम  
पृष्ठ मुनिशार्दूल स च नते बृहत्तर ६९

भी

ततोऽव र्य भगवान् लोका महामुनि  
न द्गोप ले विष्णुम् एनं कृष्ण जगत्पतिम्  
बाल । नक सक्त सज लविभूषितम्  
पययित्वाऽथ ब त धूलिधूतान्न परम् १

गहमानर्हसद्भि नृ द्विश्च सम तत  
पणि दनकैश्चै सवृत ेणुवाद्कै २

णिपत्य ब्रवादेन न रदो भगान् मुनि ७२



नारदः

श्रयोऽसि च धयोऽसि त बृहत्तर  
 ेत्ताऽसि च ययश्च सि वेत्तमिच्छ मि यादृशम् ३

ति :

तत हस्य भगवन् न रद प्रत्युव च ह

भगवन्

मत्त परतर न स्ति मत्त सं तिष्ठितम्  
 मत्ते हत्तर इ हमेव बृहत्तर ५

काशे च स्थित पूर्णम् वानहे ते  
 न वेत्ति जन कश्चि माया मम दुरत्यय ६

भक्त्य त न या युक्ता मां बिज नति योगिन ६

विोऽसि भक्तेऽसि मम तन्वं विले य  
 दद मि व तञ्ज्ञ न येन तन्वं प्रपश्यसि ७

अन्येषा चैव भक्तानां मम ये गरत त्मनाम्  
 दद दि यान च येन तन्वं प्र श्यसि ८

अन्येषां चैव क्तानं म ये गरतात्मनम्  
 ददामि दि य ज्ञा च तेन ते तित मत्पदम् ९

भी :


ए मुक्त्व णे दगोपगृह हरि

१९५] शान्तिपर्वणि लोक्षधर्मपर्व १ ८९

एतत् ते कथित राजन् वि णुतत्त्वमनुत्तमम् ८  
भजन विशालाक्ष जपन् कृष्णेति सत्तम ८१  
मोहयन् मं तथ त्वां च शृणोत्येष येरित न्  
धर्मत्मा च महाबाहे भक्त न् रक्षति न यथा ८२

ति आ भार ि हि िर्या वयासिक्यां  
ि प णि चतुन धि श ियायः ९  
८८ लोक्षध प ि द्च वा िशोऽध्यायः ६  
[ सिद्धध्याये ८२ श्लो : ]

### प वत्यधिकशततमोऽध्याय



भने युधिर्ा ि ि श्रेनारायणात्कस्य ि ि  
ति गवदनुस्मृ िर धनम्

युधि :

<sup>1</sup>पित मह मह प्राज्ञ सर्वश विशारद  
प्रय णकाले ि जप्य मोक्षिमिस्तत्त्वचित्तकै १

किमनुस्मरन् कुरुश्रेष्ठ मरणे पर्युप स्थिते  
ुय त् परमां साद्वं श्रोतुमि छ मि तत्त्वत २

ः

सद्युक्तिसहितसूक्ष्म उक्त प्रश्नस्त्वयाऽनघ

1. श्लो य ियं न हि २. ग ६ क्त

शृणु त्वहिो रजन् नरदेन पुर श्रुतम् ३

त्वसा जगद्वीजम् अन त लोकसाक्षिणम्  
पुरा नारायण दे नरद परि श्रवान् ४

नरदः

मक्षरं पर निर्गुण तमस परम्  
आहु घ पर म ब्रह्मादिकमलोद्भवम् ५

भगवन् भूत भ येश श्रद्धधानर्जितोद्वयै  
थ भक्तीचि ल्योऽसि योगिभिर्देहमोक्षिभि ६

क च जप्य जपे ल्य ल्यमुत्थ य न  
थ यु न् सद यायेद् ब्रूहि तत् सन तनम्

त्व तस्य तु दे षर् वक्रय च पति यम्  
प्रो च ग न् वि णुर् नरद वरद प्रभु ८

श्राभगवान्

हन्त ते थयि याि इमां दि य मनुस्मृिम्  
य मधीत्य प्रयाणे तु मद्वा योपप ते ९

ओङ्कारमन्त ता ि न कृत्य नारद  
ए ि प्रयतो भू इ म त्रमुद रयेत् १

आ नमो भगवते दे येि १

:

इत्युक्तो ारदः प्रह प्रञ्जलि प्रणत स्थित  
सर्वदेेश्वर िणुं सर्त्मान हर प्रभुम् ११

नारदः

अ यक्त शाश्वत दे प्रभ पुरुषोत्तमम्  
प्रपद्ये प्राञ्जलिर्विष्णुम् अक्षर परम पदम् १२

पुराण प्रभव नित्यम् अक्षय ले साक्षिणम्  
पद्ये पु राकाक्षम् ईश भक्तानुकपिनम् १३

ले न थ सह क्षम्<sup>१</sup> द्रुत परम पदम्  
भगव त प्रप ेऽसि भूतभ यभवत्प्रभुम् १४

शर सर्ले नाम अन त विश्वतो मुखम्  
पद्मनाभ ेषी श प्रपद्ये सत्यम युतम् १५

हिर यगर्भममृत भूगभ पर परम्  
प्रभे प्रभुमन द्यन्त प्रपद्ये त रवि भम् १६

सह शीष पुरुष महर्षि तत्त्वभ वनम्  
प्रपद्ये सूक्ष्ममचल रे यमभयप्रदम्

नार यण पुराण र्षि योगात्म न सन तनम्  
स न सर्वैतत्त्व नां प्रपद्ये ध्रुवम श्वरम् १८

1. रं 2. ग व ो  
3. ग 1

|   |     |
|---|-----|
| य प्रभुस्सर्वभूतानां येन स भिद ततम्<br>चर चरगुरुर्विष्णुस् स मे ेव प्रसादतु         | १९१ |
| यस्मादुत्पद्यते ब्रह्म पद्मयोनि पितामह<br>योनिर्हि विश्व त्म स मे ि णु प्रसीदतु     | २ १ |
| य पुरा प्रलये प्राप्ते नष्टे स्थं रज्ज्वमे<br>दिषु प्रलीनेषु नष्टे लोके परावरे      | २१  |
| अभूतस लवे चै प्रलीने प्रकृ मन्<br>ए स्त ि विश्वात्मा स े ि णु प्रीदतु               | २२  |
| चतुर्भि चतुर्भि द्वभ्यां प भिरेव च<br>हूयते च पु द्वभ्यां स मे ि णु प्रसीदतु        | २३  |
| पर्जय पृथिवी सस्यं कालो धर्म क्रियाक्रिये<br>गुणाकर स मे भ्रू वासुदेव स दतु         | २४  |
| अग्नीषेम ि त राणां ब्रह्मरुद्रे द्रयोगिनम्<br>यस्तेजयति तेजांसि स मे वि णु प्रसीदतु | २५  |
| योगाव स नम तुभ्य स ्व स रप्रद<br>यज्ञगर्भ हिर यज्ञ प यज्ञ नमोऽस्तु ते               | २६  |
| चतुमूर्ते परं धा लक्ष या स पर चित<br>सर्वाव स नमस्तेऽस्तु व सुदेव प्रधानकृत्        | २ १ |

१९५] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व १ ९३

|   |    |
|---|----|
| अजस्त्व गम पन्थ ह्यमूर्त्विश्वमूर्तिधृत्      |    |
| <sup>१</sup> त्रिकर्त प लङ्ग नमस्ते ज्ञानसागर | २८ |
| अ यक्ताव्यक्त त्प यक्ताद्यस्तु परोऽक्षर       |    |
| यस्म त् परतर नास्ति मस्मि शरण गत              | २९ |
| न प्रथ नो न च महान् पुरुषश्चेतनो ज            |    |
| अनयोय परतरस् तमस्मि शरण गत                    | ३  |
| चिन्तयन् हे य नित्य ेशानादय भुम्              |    |
| निश्च नाधिग छित तम शरणं गत                    | ३१ |
| जितेद्र महत्मानो न्द्वय परायणा                |    |
| प्राप् न निर्त स्मि शरण गत                    | ३२ |
| ए शो जगत् सर्वम् अवप्रभ्य विभु                |    |
| अ ो निर्गु ो नित्यस् म्मि शरण गत              | ३  |
| ोमा य तेजो च र र्थे ति                        |    |
| दि ये येऽय स हात् सीदतु                       |    |
| गुण दिर्निर्गुण त्द्यो लक्ष्माव ेतनो ज        |    |
| सूक्ष्म सर्गतो ेर्ग स महात्मा प्रसीदतु        | ३५ |

1. हि : कमङ्ग 2. ग धृथ पा  
 3. हिप दू ता योऽसावे शिन भु तः [ पाठ तरम् ]  
 एक ज्ञेन

|   |    |
|---|----|
| अ यक्त मधिष्ठ च यस्सदसत्पर                    |    |
| अ ि त प्रकृत भुङ्क्ते स मह त्म प्र दतु        | ३६ |
| क्षेत्र प ध भुङ्क्ते प्रकृतां प भिर्मुख       |    |
| मह न् गुणांश्च ये भुङ्क्ते स मह त्मा प्रसीदतु | ३  |
| सूर्यमध्ये ि त सोमस् तस्य मध्ये च स्थित       |    |
| भूत ा च या र्द ि स् स ह त्म प्र दतु           | ३८ |
| नम े सर्व सर्व सर् तोक्षिशिरे मु              |    |
| ि ि र न े ऽ तु स क्षी क्षेत्रे य ि            | ९  |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| तंनि नमस्तुभ्य हि ि क्तैर्न ायसे      |    |
| ये च तं न भिज न्ति सस रे ससरन्ति ते   |    |
| क े धविनिर्मु र गद्वेषवि र्जित        |    |
| ना यभक्त विज तित न नर्नर द्विज        | ४१ |
| एक ि ने हि निर्द्व ा निराश र्म र      |    |
| नाग्निद ध माणस् ि शित ि ि ता          | २  |
| अशरीर रीर सम स े देहि                 |    |
| पाप ि निर्मुक्त भ तं प्रविश त्यु      |    |
| अव्यक्तं बु हङ्क र मनोभूते द्रिय णि च |    |

---

1. भिध्य :

द्वय ना

१९५] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व ९५

त्वयि नि च ते त न तेषु त्वं न ते त यि ४

एकत्वान्यत् न त्व ये विदुयान्ति ते परम्  
सोऽसि सर्वभूतेषु न ते द्वे योऽस्ति न प्रिय ४५

समत् मभिकाक्षेऽहं भक्त्य वै नान्यचेत् ६

चर चरमिद सर्वं भूतग्रा चतुर्विधम्  
त्वय त्वग्येव तत् प्रोत सूत्रे मणिगणा इव

प्र भोक्तासि कूट तत्त्व त्वसि  
अ हेतुरचल थग त्मन्य स्थि ८

न ते भूतेषु सये गो भूततत्त्वगुणातिग  
अह रेण बुद्ध्या । न ते ये गि भिर्गुणै ९

३ धर्मोऽस्त्य ि नार भो ज म पुन  
जरामरणमे थ त्वां पन्नोऽि श ५

विषयैरिन्द्रियं पि न भूयस्समाग  
श्रुथि य मे घ्राण चातु मे रसना जलम् ५१

रूप हुताशन पर्शो च मारु म्  
श्रोत्र काशमप्येतु मनो कारिक पुन ५२

इन्द्रिय यपि सय तु स्वासु । सु च योनि

1. ग ।  
ग धर्मो ि



|   |    |
|---|----|
| थि य तु सलिलम् अ पोऽग्निमनलोऽनिलम्              | ५३ |
| युर शम येतु मनश्च श एव च                        |    |
| अह र मनो यातु मोहन सर्वदेहिनाम्                 | ५४ |
| ह र ते बुद्धिं बुद्धिर यत्कम युत                | ५४ |
| धने प्रकृतं यते गुणस ये यवस्थिते                |    |
| विद्ये गस्सर्व रणैर् गुणैर्भूतैश्च मे भवेत्     | ५५ |
| नि कैवल्यपद त काङ्क्षेऽहं परम तव                |    |
| ए भव त य मेऽस्तु न मे ज म भवेत् पुन             | ५६ |
| त्वद्बुद्धिं त द्र प्राणस् त द्भक्तस्त्वत्पर यण |    |
| त्वामे इह स्मरिष्यामि मरणे पर्युपस्थिते         | ५  |
| पूर्वदेह ता ये मे य धय प्री श तु मम्            |    |
| अर्दय तु च दु ख नि ऋण मे प्रतिमु तु             | ५८ |
| अनुध्यातेऽसि देश मे ज म भवेत् पुन               |    |
| द्विषामि र्माणि ऋण मे न भवेदिति                 | ५९ |
| पति तु मां सर्वे याधय पूर्वसि ता                |    |
| अनृणो ग मिच्छामि तद्वि णे परम पदम्              | ६  |
| इन्   |    |
| ह भगवतस्तस्य म च स सनातन                        |    |
| इह न प्रणश्य मि स च मे न प्रणश्यति              | ६१ |

- कमि य णि सय य प बुद्धीन्द्रियाणि च  
 देन्द्रियाणि मनसि अह रे तथ मन ६२
- ह ार तथा बुद्धौ बुद्धिम त नि ये जयेत्  
 बुद्धीन्द्रिय पश्यन् बुद्ध्या बुद्धेत् पर त् परम् ६३
- मम यमिति यस्याह येन सर् मिद ततम्  
 आत्मन ऽऽत्मनि सयोज्य परमात्मन्यनु रेत् ६  
 ततो बुद्धे पर बुद्ध लभते पुनर्भवम् ६५
- रणे समनुप्रप्ते यश्चैव मामनुस्मरेत्  
 अपि प पसम च रस् स याति पर ा गतिम् ६६
- आं नमो भगवो तस्मै देहिनां परम त्मने  
 नारायणाय भक्तान् म् ए निष्ठाय शाश्वते ६
- इम मनुस्मृत दे यां षण्ण ा सुसमाहित  
 पन् बुध्यश्च पठन् यत्र तत्र समभ्ये त् ६८
- पैर्णमास्यामम या च द्वादशयं च विशेषत  
 श्रावयेच्छूद्राश्च मद्भू ि शे ६९
- २ ारमाश्रित्य यज्ञदानतप क्रिया  
 स्तत् फल ा ति पुनर र्त्न तत्  
 अभ्यर्चयन् पितन् दे ान् पठञ्च न् वलि दत्त  
 ज्वल ि स्मरेद्ये मं स य ति परमां गतिम् १

|   |    |
|---|----|
| यज्ञो दान पञ्चैव प नानि मनषिणम्         |    |
| ज्ञ दान तपस्तस्मत् र्यं दाश विं जित     | २  |
| न इत्ये ये त्रूय मद्भू इश्रद्धय वि      |    |
| क्षयो भे चप पि न रद                     | ३  |
| पुनय ज ते मा साध वि पूर्वकम्            |    |
| द्ध वन्ते य त नस् ते मां य तित मद श्रित | ४  |
| या त ह मद्भूक्तो ना तमश्रते             |    |
| मे हे षे ध्य हे नित्यम त                | ५  |
| प्स्यसि त द्वि द्रक्ष्यस्ये पदं मम      | ५  |
| । च ते न द द्वि पदेशत                   |    |
| । । धि दद्यात् तेन तुल्य च त् फलम्      | ७६ |
| त् प्रदेय धुभ्ये जन्मव धभयापहम्         |    |
| ए दत् । नरश्रेष्ठ श्रेये र्यं च दति     |    |
| श्चे स णा सह य सम चरेत्                 |    |
| ौ पद । मद्भूक्तैर्द यते                 | ८  |
| ति :                                    |    |
| ए रा तेन रदेन रषिण                      |    |
| यदु च तद् शम्भुस् दुक्त त त             | ९  |

|  |    |
|--|----|
| मप्येकमना भूत् । ध्याहि ध्येयं गुणातिगम् |    |
| भज सर्वं परत यम्                         | ८  |
| श्रुत्वैत त्रदे वाक्य दे नारायणे रि म्   |    |
| अत्यन् भक्तिमन् दे अन्त पेयेवान्         | ८१ |
| नार यणमृ ष दे दशवर्ष यनन्यभाक्           |    |
| इद जपन् े ति तद्विष्णो परमं दम्          | ८२ |
| वि बहुभिर्म त्रैर् भक्तिर्यस्य जनात्ने   |    |
| तो नार यणाये मत्र स र्थस धक              | ८३ |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| २ ां रह ां परम नु मृतिम्       |    |
| अ ल्य बु द्ध लभे च नै ष्टिकाम् |    |
| विहाय दु खान्यव त्             |    |
| स र गो चरे महीमिमाम्           | ८४ |

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां साहताया वैयासिक्यां

शान्ति णि पञ्चनवत्यधि शत तोऽध्यायः ९५

८ तो पवणि तोऽध्यायः

[ े ष्ठ्याये : ]

णव ि ो ध्य \*



भी ष्टि ति गरुडे ि युक्त िभ वादः

युधिष्ठिरः

देवासुरमनु येषु षिमुख्ये न  
 ि णे र थ ख्या े वि ननुवेत्ति तत्  
 एतन्ने स'म चक्ष न े वृत्तिर्हि तर त  
 र्त्ते भरतश्रेष्ठ स'सीति मे ति २

रे'ह त्वया र जन् यद्वत्त च पुर म  
 ग ङेन र स ादोऽभून्नृपे म  
 रा ह प आस्थाय ासुदेवपर ण  
 ध्यायन् स्तु म जम न मेव च  
 ग ं द्वीपे स िनो दशवर्षाणि र ४

च दे जननी लो प न  
 स ासीन स ापे े रक्षणाथ म च्यु ५

िन् ले द्रुतश्ची न् ेद य  
 पर्ण प े श्रेष्ठे मेरु दरस'भ ६

१९६] शान्तिपर्वणिं ोक्षधर्मपर्व १ १

- अ जग म विशुद्ध त्म ग ा द्रष्ट मह यशा ६
- तम गत हात्म नं प्रत्युद्गम्यात्समर्थित  
प्रणिपत्य यथान्य य ता लिर ि त
- सेऽपि दे े महाभ ग म् अभिनन्द्य च ज वीम्  
तया च पूजि इश्रीमान् उपेप विशद सने ८
- तत कथ तरे त वै चन चेदम म् ९
- वेदोद् मह रिय वै तेय महाबल  
न र यण हर्षे श वहम नोऽनिश हरिम् १
- न सि तं यथ वक्तं य द् भूतो जनार्दन  
म पि तस्य सञ्जाव वक्तमर्हसि सत्तम । ११
- :
- शृणु भी यथ य य रा त मि त्तमा  
अने मुनयस्सिद्धा मानसे त्तर िसिन १२
- पप्र छुमा ह प्राज्ञा सुदेवपर यण १२
- मुन :
- पक्षि द्र ा दे स्य त्व ेत्सि पर पदम्  
त य समो न स्ति ि कृ प्रियेऽपि च १३
- .
- ते िमह चश्रुत् ा प्रणिपत्य मह हरिम्  
अत्र च यथ त्त मम न र यणस्य च १४

शृणुः मुनिशर्दूल त्वसोमहर  
आशेतनतुक्वतत्रशृणोमि १५  
ति

सधुसधुहवहोप्रऽस्मिदर्शत  
णीवचनत्तपक्षगरुधुन ६  
तामहभिरज्ञेवचनमुत्तमम् १  
:

इत्यहस्सध्रतत्रमहभगवान् न १  
तिान्

रिमहंनमजनतिमयि  
असूयिचमांसूचल्वगंति १८  
गरुड

हदेकानाध्येचनमम् ९  
ऋषेपूर्वमत्तस्वणतेम्  
गेतोरपश्चद्इत्येवमुनिसत्तम २

रांभगन्देश्रामञ्जित्सलक्षण  
पश्यिर्क्षहनभेसद २१

णेऽहरमेद्धित्तेऽपतगेश्वर २१

थेति तक्ष्यमामनहङ्करमांम् ?  
जेतुमेहविष्णुमा मायिनहरिम् २२

१९६] शान्तिपवाणं लोक्षधर्म व १ ३

तत्ते णे त रं ऋषि रेतत्  
त परिष्ठात् तस्य मि वरमेतत् प्रयत् मे २३

थेति च हसन् प्र ह हरिनारायण प्रभु २४

मि त्

ध ज च मे भ सद त मेव िहगेश्वर  
परि त् स्थितिस्तेऽ तु पक्षी द्र सर्वदा २५

:

इत्युक्त भग न् दे श् श च गद धर  
सह चर श्श्री न् सहस्रादित्यसि भ २६

सह र्षं पुरु सू सह यनो महान्  
सहस्रम टे चि त्यस् सह वदनो िभु २७

निर्भैर्दि यैरू नान रणर जेभि  
कचित् स श्यमान तु चतुर्बाहु चिद्धरि २८

चि योर्तिर्मयेऽचि त्य चित् कन् स िहि  
ए ज दे सू तत्रै तरध यत् २९

तेऽह विस्मय प कृत्व य नुत्तमम्  
िमु जनन मया सह मु िश्वरा ३०

चि त्येऽयमह भूय को सौ म म र्वत् र  
स भग न् इति मत् तम स्थित ३१



|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| अन र दे दे क्ने मम सम श्रि म्        |    |
| अ क्ष पुण र क्ष वहम ने ऽहमद्भुतम्    | ३२ |
| अ श भेन यत्र स चे ति                 |    |
| ि य प ल्दयो ह ि मिति चिन्तयन्        | ३३ |
| तर्जल २ सव ह ि ऽगम न                 | ३३ |
| से द्वैर्दे ह भ गैर् ाद्यै ल्पज विभि |    |
| स्तूयम नो ह मपि तै रभ्यर्चित थक्     | ३  |
| क्ष रेद ेत्तरे कूले दि ये णिमये भे   |    |
| र्णना सदन हरे स्य ह त्मन             | ३५ |
| द य तेजे श्र मद् अचि त्यममैररपि      |    |
| ेने मयै भैर् न सस्थ नसि तै           | ३६ |
| विभूषित हिर येन भा रेण               |    |
| दि येति म युक्त गीत दि शो म्         | ३  |
| श्रु िमि द ह न पश्य ि शरि र्णिम्     |    |
| न च ल न च य प दयेस्त स त             | ३८ |
| वेप नो ह त्र िष्ठितोऽह लि            | ९  |
| तो द े दे ले पालास्तथैव च            |    |
| सनन्द नयस् तथा ये परज्विन            |    |
| प्र स्तत्र सभ रि देवग धस म           |    |

१९६] शान्तपर्वण शैक्षधर्मपत्र ११ ५

|   |     |
|---|-----|
| णं पुरत कृत् । कृत लिपुटास्तदा              | ४१  |
| तत द तरे स्मिन् ीरेदर्ण शीकर                |     |
| शोधयम ने मह विष्णुर् आविर्भूत इ ।वभौ        | ४२  |
| फणा ह ल ह्य शे म यक्तसस्थितम्               |     |
| पश्य ह मुदाऽऽ शे यस्ये परि जनार्दनम्        | ४३  |
| द र्धवृत्तै समै पानै ेयूरवलयेज्ज्वलै        |     |
| चर्तुभि ाहुभिर्युक्त .. . . . .             | ४   |
| पिता बरेण सर्व त कौस्तुभेन विराजितम्        |     |
| क्ष लैन सयुक्त पद्मय ऽधिष्ठितेन च           | ४५  |
| ईषदु मी लित क्ष सर्वक रणकारणम्              |     |
| रोद ाोपरि बभौ नीलाभ्र परम यथा               | ४६  |
| न श्रिद्धदते कश्चि य हरति कश्चन             |     |
| ब्रह्म दस्त बपर्य त म श दमि ति रोषितम्      | ४   |
| टं टिल क्षास्ते ानाभूतगण स्थि               | १   |
| ततोऽचि त्ये हरिश्श्री ान् अ लोक्य च पित हम् |     |
| त्व च प्रस्थित त्र जगतां हित । यया          | ८ । |
| गच्छध मिति म मुक्त् गरुत्ये ह मां तत        | ९   |
| ोऽह प्रणिपत्य भ्रे कृत लिरवस्थित            |     |
| आगच्छेति च मामुक्त्वा पूर्वोत्तरपथ गत       | ५   |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| अर्तं मृदुभवेन गच्छति व स दृश्यते    | ५  |
| अयुतं नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं तथ   |    |
| प नोऽहमनिशं योजनानि ततस्तत           | ५१ |
| ननु तन्वमभक्तो ऽष्टितेऽस्मि प्रशा तु |    |
| आगच्छ गरुडेत्येवं पुं राहस्यं मधुव   | ५२ |
| तते भूयो ह पत पतमाने हि हयसम्        |    |
| आजगम तते घोरं शतं ऽट्टे स वृत्       | ५३ |
| मस नाव भूतनिर्पातभानि त्रह           |    |
| सानन पद्मनिर्पातं ऽहर्भित्           | ५४ |
| तते मां रो घोरं शतयोजनमायतम्         |    |
| निर्गुणं तच्च चक्षेप च स लोष्टु      | ५५ |
| ततोऽहमतिम्यं पचै विहयसम्             |    |
| दुरघोषं त्राहम् अशनं पसन्निभम्       | ५६ |
| र्णमूले शृणु तस्मिन् तते भूतैस्समि   | ५  |
| ततोऽहं देवदेवेश त्राहि मं रेक्षण     |    |
| इत्यमहं तत्र तं विष्णुं च म          | ५८ |
| षिरमुखे त्रिमाचिक्षेप भयङ्कर         |    |
| अततोऽहं क्षणाद्भिन्म अपश्यं वयुसम्   | ५९ |
| आशिक्षे पारा                         |    |

|  |              |           |    |
|--|--------------|-----------|----|
| १९६]                                     | शान्तिपर्वणि | क्षधमपर्व | १  |
| तत्राह दु खिते भूत                       | ेशमानो       | स्थित     | ६  |
| क्षणा तरेण घेरेण क्रद्धो हे परमात्       |              |           |    |
| पक्षराजिना दृष्ट्व म चिक्षेप भय र        |              |           | ६१ |
| ग कुल ह दित्यसि भम्                      |              |           |    |
| । दृष्ट्व ऽ यथ सस्थेऽथ ल्पकाले ऽ तदुर्ब  |              |           | ६२ |
| अहो विहङ्गम । इति ि । स                  |              |           |    |
| मं दृष्ट्वे चुरह पश्यामि गरु वजम्        |              |           | ६३ |
| सह योजन याम ह दित्य र्चसम्               |              |           |    |
| गरु रू गरु स्ते ह ब                      |              |           | ६  |
| अत्य र्थि म दे पुष ऽस्सत् लो             |              |           |    |
| ल्पप्र ल्पक कोऽ पक्षी इह ग               |              |           | ६५ |
| त ल्लुत्वाऽह नष्टग र्णे भी ते लज्ज स ि त |              |           |    |
| य बुद्ध स ि ग्नस् ते शृणव पुन            |              |           | ६६ |
| आग गरु ले तोऽह ानमा ि                    |              |           |    |
| परा च ततो गत् योजन नां श पुन             |              |           | ६  |
| त्र पश्यमह वै ण परमेष्ठिनम्              |              |           | ६  |
| पि च पर तत्र श ि टि पित मह न्            |              |           |    |
| पुनरेह ल्यु चे चैर् भग न् मधुसूदन        |              |           | ६८ |
| मह ल तोऽपश्य प्रम ण नि त ययम्            |              |           |    |
| क पित्यफलसङ्क शम् अ रै सम श्रि म्        |              |           | ६९ |



वत्याध

ऽऽध्याय

गिष्मे युधिष्ठि प्रि ि । गुरुक्तवा णैयान्याः तत्त्वानु ादः  
जगत्सृष्ट्यादि ि दनम् २ ब्रह्मचर्योप ादिप्रति दनम् ३  
राग्यादसो धनप्रि दनम्

युधिष्ठिरः

ये ग मे परम तात मोक्षस्य द भ रत  
मह तर तो तुम् इ ामि व तां र १  
ति :

अ ाप्युद हर ती मम् इतिह स पुर तनम्  
व द मेक्ष युक्त शि यस्य गुरुण सह २  
काि द्र णम स नम् अ च र्यमृि सत्त म्  
शि र ेध ि श्रेये र्थि म हित ३  
चरण वुपसङ्ग स्थित प्रञ्जलिरब्रवीत् ३

प सनात् प्रस ोऽसि यदि ै भग न् मम  
सशये मे हान् श्रित् त मे यास्व मर्हसि  
त ह कुतश्च त् स य ब्रूहि यत् परम् ५  
थ च र्वभूतेषु समेषु द्विजसत्तम

1. ग ि इ 2. र ि रम्

|   |    |
|---|----|
| स वृ निवर्तते विपरात क्षयोदया             | ६  |
| वेदे चैव यद्वा यल्लैकिक यापक च त्         |    |
| एतद्विद्वन् यथ तत्त्व सर्वं याख्या मर्हसि |    |
| गुरुः                                     |    |
| शृणु शिष्य प्राज्ञ गु मिद परम्            |    |
| अभ्यस्त स भूत नम् अगमान च यद्वसु          | ८  |
| व देव सवमिद विश्वस्य ब्र णो मुखम्         |    |
| सत्य दान पो य स् तिक्षा दम आजवम्          | ९  |
| पुरुष सनातन णु य त वेदो िदु               |    |
| सर्ग ल र्तरम् अ यक्त श व म्               | १  |
| दिद ब्र ार्ण्यम् इतिह स शृणु मे           | १  |
| ब्र णे ाणैश्चा ये राज य क्षत्रियैस्तथ     |    |
| माहात् य दे देव णो रमिते जस               | ११ |
| अर्हस्त्वमसि कल्याण वा ण्ये ष त् मुत्तमम् | १२ |
| लच मन त भ भ लक्षणम्                       |    |
| त्रैलोक्ये स भूतेषु च वत् परि र्ते        | १३ |
| त्तदक्षरम् म् अमृत शाश्वतम्               |    |
| दित पुरुष या केशव पुरुषे त्तमम्           | १४ |
| पितन् दे ानृषा तथ वै यक्षर क्ष न्         |    |

१९ ] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व ११११

नागासुरमनुयां सृजते परमेऽयय १५

तथैव वेदन् शणि लेकधमा शश्वन्

प्रलये प्रकृतं प्राप्य युगादौ सृजते पुन १६

यथर्तुष्वतुलिङ्गाणि नारूपाणि पयये

दृश्यते तानि ताये तथा भो युगदि १

अथ यद्दुःखं भागिकालो गान्धुगदि

तत्तदुत्पद्यते न लेकया विधनजम् १८

युगतेऽर्हितं न वेदन् सेतिहसन् महष

लेभिरे तपस पूर्वम् अनुज्ञत य भुव १९

वेदविद्भगन् ब्रह्मा वेदाङ्गि हस्पति

भर्गो न तिश जगद् जगतां हिम् २

गध नरदे वेद भारद्वजे धनुर्ग्रहम्

देवर्षिचरि गर्गे दत्त त्रेयसि त्सितम् २१

यय त्रयनेकानि रूक्तानि त्दिभि

हे वागमसदाचरैर्दुक्ततदुप २२

अनतपर ब्रह्म देवर्षयोऽदु

एकस्तद्वेद भगवन् धात नारण प्रसु २३

नारयण विगणस् तथ मुख्य रसुर

रजर्ष पुरण रमदु भेषजम् २४



रुषा धिष्ठितान् भावन् प्रकृति सूयते पर  
हे युक्त तस जगत् स परि र्तेते २५

दीपदये यथ दीपा प्रर्तते सह श  
प्रकृति सूयते तद्वद् अनत्य अपर्चयते २६

अव्यक्तकर्म बुद्धिर अहङ्कार प्रसूयते  
अश चाप्यहङ्कराद् वायुर कशस भ २

येस्तेज तश्च प अद्भ्यो हि सुधोद्गता  
मूलप्रकृतयेऽ तु जगदेतास्व स्थितम् २८

नेन्द्रिय तप प मेरिय यपि  
शदादिवि य प कारा षो श मन २९

त्र त्वक् चक्षुर्ष जि ण ज्ञानेन्द्रिया यथ  
पदै पयुरुपस्थ च हस्तै र्मणा पि ३

शद पशोऽथ रूप च रसे गन्ध थैव च  
ये यपक चित्त तेषु सर्वगत मन ३१

र ने तु जिय याहते वक् तथैव च  
इन्द्रियैर्वैधैर्यु सर्वैर्यस्त मथा ३२

द्यत्तु षे शैतानि दै तानि विभगश  
देहेषु अनकर्तारम् उपासी नमुपासते ३

१९ ] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व १३

|   |    |
|---|----|
| श्रेत्र श द्गुण चै च रेर्गुण, थ             |    |
| तद्वद्व रिगुण जि । ण तु पृथिवीगुण           | ३४ |
| पश युगुण विद्यत् सर्वभूते सर्द              |    |
| मन र्वगुण प्राहुस् र यक्तज था               | ३५ |
| सर्वभूतात्मभूतस्य तस्म द्द्व्येत बुद्धिम न् | ३५ |
| एते भ व जगत् सव वहि सचर चरम्                |    |
| श्रित विरजस देव यम हु परम पदम्              | ३६ |
| नवद्वार र पु यम् एतैर्भैस्समिवतम्           |    |
| यः शैते मह नत्म त ।त् पुरुष ये              | ३  |
| जरश्च मरश्चैव यक्त यक्ते पदेश न्            |    |
| य प सगुणा सूक्ष्मस् सर्वभूतगुणाश्रय         | ३८ |
| यथ द प प्रकशात्म गो यदि म न्                |    |
| न तान तथ विद्यत् पुरुष सर्जन्तुषु           | ३९ |
| सो त्र वेदयते वेद्य स शृणोति स पश्यति       |    |
| रण तस्य देहो य स र्कर्मणम्                  | ४  |
| अग्निर्दारुगै यद्वद् भि देरै न दृश्यते      |    |
| थै ।त् शरीरस्थ ते योग दृश्यते               | ४१ |

1. - । गु जिह्व धश्च पृि गु : रम्]

2. धम्

- अथ पयेन मथिता दुरु इते  
थै आत्म शरीरस्थे योगेनैव त्र दृश्ये ४२
- नद पे यथा यु । यथ सूर्ये मर चय  
तन् । सद यन्ति तथा देह शशरारिणम् ४३
- यो यथै त पेट्रियस ग  
देहमुत्सृज व ते तथै त्रोपलभ्यते ४४
- । य यते सब मणै पप ते  
मण न यते त्र कृतेन बलीयस ४५
- स तु देह यथ देह त्यक्त य प्रतिपद्यते  
तथा स क्ष्यामि भूतम स्व मजम् \* ४६
- च वि भूत नि चरणि स्थ रणि च  
यक्त भ । य हुर अ यक्तनिघन नि च ४७
- लक्षण विद्यद् यक्ता मात्म मन ४८
- थाऽश्वत्थ णि । म् अ भूतो मह द्र  
नि प े इ े य म् अ यक्तत् स भ था ४९
- अभि त्यय क तम् अ ेनिश्चे न बुभौ ४९
- हे ज भ वा द्वद यदर्प दृशम्

१९ ] शान्तिपर्वणि मोक्षध<sup>०</sup> १११५

|   |    |
|---|----|
| द यत्कजा भ वा कर्तुं करणलक्षण                             | ५  |
| अचेतन <sup>०</sup> यितु रणादभिसङ्गत                       | ५१ |
| भूः ख <sup>०</sup> न भूता <sup>०</sup> नर्षये न सुरास्सुर |    |
| ना यद सी दृते ज वम् अ सेदुन तु सह <sup>०</sup> म्         | ५२ |
| स नित्य सर्वग मने हेतुत्वलक्षणम्                          |    |
| अ <sup>०</sup> निर्दि <sup>०</sup> म् एतत् रणलक्षणम्      | ५३ |
| न रणेन सयुक्त सङ्ग्रह <sup>०</sup> इ र म्                 |    |
| येन द्व <sup>०</sup> ते च म् अन दिनिधन महत्               | ५  |
| अ यत्कन भ यत्कर <sup>०</sup> इ रपरिम लम्                  |    |
| क्षेत्र धि <sup>०</sup> च <sup>०</sup> धक्ष वर्तते उ वम्  | ५५ |
| त्ति त् स च <sup>०</sup> इ न् पीड्यते जगत्                |    |
| लप <sup>०</sup> रै य भे गैरङ्ग नस भ <sup>०</sup>          | ५६ |
| र्म त् रुते तेष म् अहङ्कारपरि हम्                         |    |
| र्य रणसयोगे स हेतुरुपप दि                                 | ५  |
| येति कारण र्य <sup>०</sup> न इय रण थ                      |    |
| य नून रणे कलो भवति इरणम्                                  | ५८ |
| हे युक्ता ये वि राश्च पर.परम्                             |    |
| अन्ये य भि त ते पुरु धिष्ठि । सदा                         | ५९ |
| सत्त्वरज मसैर्भवैर युक्तो हेतुबल ति त                     |    |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| क्षे ज्ञमेव नुय ि पासु त्तेरि े थ     | ६  |
| स श्यते भ ैरु न ते तेन महात्          |    |
| रज ेऽरज स ै युर्यथा भेत्              | ६१ |
| थै द तर वि त् सत् क्षेत्र योर्बु      |    |
| अभ सत् सतत युक्ते न ग छेत् प्रकृतिं न | ६२ |
| स देहमे मुत्प म् अ छिनद्भग नृषि       |    |
| यथ वत्त सम क्षेत कृतलक्षणसि म्        | ६३ |
| बज य युपद नि न रेत्ति थ न             |    |
| नद धै थ छेशैर् नात् स ब्रह्मते पुन *  | ६४ |
| निवृत्तिलक्षणो धम येषां स पप ते       |    |
| ते विज्ञाननिष्ठ नम् अ यत् तत् न रेचते | ६५ |
| दुल ेदविद्वांसो वेद तेषु य स्थित      |    |
| प्रयोजन महत् तु र्गि छति सत्कृतम्     | ६६ |
| द्विराचरितत् तु तु त्तमे दगर्हितम्    |    |
| इय स बुद्धिरन्यैव यय यायत् परां गतिम् | ६  |
| रिखानुपादत्ते मेहात् सर्व परि हम्     |    |
| ाम ेधादिभिर्भावैर् यु े राजसत्त मसै   | ६८ |

- नाशुद्धम चरे द् अर्भ सन् देहय पत्नम्  
 मणे <sup>१</sup>वेचय र्वन् न लो ाना य च्छुभान् ६९
- लोहयुक्त यथा हेम विप न विराजते  
 तथाऽप ष याख्य वि न न प्र शते
- यश्च धर्म चरे मोह त् कामलेभ नुप्ल न्  
 धर्म्ये प थानमुत्क्र य स नुव धे ि नश्यति १
- श द् द न् विषयांस्तस्मा सर गाढुपप्लवेत्  
 ोधो हृष विषादश्च जाय ते हि पर परात् २
- प भूत् त्मके देहे सन् र जसतामसे  
 कम भिष्ट ते च य के व ेशति के वदेत् ३
- पर्शरूपरस द्येषु सङ्ग गच्छति वालिश  
 न ग त्यि ा द् अत्तान प र्थिव गुणम्
- मृ य शरण यद्व मृदै परिलि ये  
 प र्थिवोऽय तथ देहे मृद्वि रैर्न नश्यति ५
- मधु तैल पय सर्पिर् मांसानि ल ण गुडम्  
 ध यानि फ मूलानि मृद्वि र ह भस ६
- यद्वत् का त रम ति ात्सुक्य समनु जेत्  
 श्रमाद् रम द् द् अ द्वपि हि य पयन् ७

|  |    |
|--|----|
| द्वत् ससर रम् अ तेषञ् शमतत्पर                    |    |
| यत्राथमद्य दहर याधितो भेषज यथ                    | ७८ |
| सत्यशौचार्ज ल्यगैर् चसा वि मेण च                 |    |
| क्ष ल्य धृत्य च मत्या च मनस त सैव च              | ९  |
| भ न् स न् थ वृत्तान् ससहेत यथा मम्               | ९  |
| शितमि दीनात्म सय छे द्विय णि च                   | ८  |
| रे रजस चै तमस चै मोहित                           |    |
| च त् परि र्त ते ज्ञ नाज्ज तवो भृशम्              | ८१ |
| त त् सम्यक् परीक्षे दोष नज्ञा स भ न्             |    |
| अज्ञ प्रभव नित्यम् अ इरं परित्यजेत्              | ८२ |
| मह भूतान ि य णि गुणा सत्त्व रजस्तम               |    |
| त्रैलोक्य सेश्वर र्त्सम् अहङ्कारे प्रति ि म्     | ८३ |
| थव निय ले दर्शयत्य र्त न् गुण न्                 |    |
| तद्वद्भूरे हार विद्याद्भूतप्रवर्त म्             | ८४ |
| मोह मे ि त् कृ णमज्ञ नस भवम्                     |    |
| प्रीतिदु खनिबद्धांश्च समस्तां िनथे गुण न्        | ८५ |
| र स्य रजसश्चै तमस निबे तान्                      | ८५ |
| स दो हर्षज प्री र् अस <sup>१</sup> मोह मृतिर्मति |    |

१९ ] शान्ति वर्णि ेक्षधर्मपर्व १११५

ए न् स्वगुणन् वि द् इमन् रज सन् ८६

म ेध प्र द लो मोहौ भय म  
षाद ेका रिर म नदपावन्तार्य ८

दे णामे म दीना पराक्ष्य गुरुल घ म्  
मृशेदात्मस नम् एकै मनुस तम् ८८  
शिष्य

के ो । मनस त्यक्ता के बुद्ध्य शिथिल त  
पुन र यति के मेहादचला इ ८९

े । ब ल बुद्ध्य हेतुभि मृशेद्रुध  
ए मे सश तात छेत्तु हस्यशेषत ९

गु :

देषैर्मूलद र्द्धत्म विमुच्यते ९

ते पुन नर यति े मो दचला इव ९१

विनाशयि सम्भूतम् अयस्मयमये यथा  
तथाऽ सहजैर्देषैर्नश्यति त मसै ९२

सहजैर्वि द्द्धत्म दोषैर्नश्यति राजसै ९३

राजस तामस चै शुद्धात्मा कालस भ म्



|  |     |
|--|-----|
| येत् सर्वं स्थाय बुद्ध्या ेवल द्विज      | ९४  |
| तत् स ेहिनां बीजं स मत्वतां क्षमम्       |     |
| तस्मिन् दत्वता ्यं रजश्च तम एव च         | ९५  |
| रजस्तमोभ्या निर्मुक्तं सरं निर्मलतामियत् |     |
| हरान् र्जं ैत्य राजसास्तामस नपि          | ९६  |
| अथ वा त्रवद्रूपयुग्मं सदानं यजुःकृतम्    |     |
| स ै हेतुरनादने शुद्धधर्मनुपालने          | ९   |
| रजसा र्मेयु नि र्था यपि समश्रुयात्       | ९   |
| अर्थयु नि च त्यथ सर्वान् कामश्च सेते     |     |
| मस लोभयुक्तानि क्रोधजानि च सेवते         | ९८  |
| बहस विहारभिरतस् तद्वीनिद्रासमा           |     |
| सर स्थसार्ति न् भवञ् शुद्धं न पद त्यमोहि | ९९  |
| स देर् विमलश्रीं तान् योगबुद्धिसमा       | १   |
| रजस स ध्यते मेहस् तमश्चव द्विजर्षभ       |     |
| क्रोधलेभै भय दर्प एतेषां सादनच्छुचि      | १ १ |
| परम परमात्मान दे मक्षरम ययम्             |     |

१९ ] न्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व ११२१

विष्णुमयक्तसस्थ न विशुद्ध दे प्रयात् १ २

त मयपिनद्धङ्गानभ्रष्टनिरशिष  
नवानसम्मोहत्तत्तमप्रयतिवै १ ३

कमात्क्रोधमवाप्याथलोभमोहौचमानवा  
नदर्पमहारम्अहङ्कारत्तक्रिय १

क्रियाभिर्हसबधेहाच्छोकमनतकम् १ ४

अथदुखसमरभञ्जराजमतश्रम  
जन्मने गर्भसितुशुशोणितसभवम् १ ५

रीमूत्रविच्छेदशोणितप्रभवाविलम् १ ६

तृणभिमूतस्तैर्वद्धस्तानेभिपरिप्लवन्  
ससरतत्राहियस्बुद्धेतयोषित १

प्रत्यक्षेत्रभूतानराक्षेत्रलक्षणा  
दितेशेषेणनरानेयुर्विपश्चित १ ८

त्यातघोररूपमेहयत्यविचक्षणम्  
रजसनिहितमूर्तिरुद्दिद्रयाणांसनातनी १ ९

1. —शा ३ श १ ३ ह शयः

:

तौ गुणस्यात् नूनत् [ १ : ]

2. लो नो तो १

3. ना दमम्

|  |     |
|--|-----|
| त त् तष त्मक द्र गाद् बज ज्जायति ज               | १ ९ |
| स्वदेहज न सन्नान् यद्र ख त् ि म त्यजेत्          |     |
| स्व ज्ञ नस्वकांस्तद्वत् सुतसन्नान् क्रिमास्यजेत् | ११  |
| रसतश्चैव देहांज्जायि जन्त                        |     |
| भ वात् र्मये ग द्व त नुपेक्षेत बुद्धिम न्        | ११  |
| रज मसि पर्य सत्त्व मसि सस्थितम्                  |     |
| न धि मज्ञान बु हङ्करलक्षणम्                      | ११२ |
| त िज देहिन म हुस् तत्सस्थ जा ब धनम्              |     |
| र्मणा कालयुक्तेन सस रपरिवर्त म्                  | ११३ |
| र ेऽय यथ स्व नस देहव निव                         |     |
| र्मगर्भैर्गुणैर्देहा गर्भे दुपपद्यते             | ११  |
| ण ाजभूतेन चो ते यद्यदिद्रियम्                    |     |
| ज यते तदहङ्कर द् र गयुक्तेन चेत ।                | ११५ |
| दर ग च्छेत्रम जायते भा ि त त्मन                  |     |
| रूपराग त् तथ चक्षुर् घ्राण ग धजिघृक्षया          | ११६ |
| स पशभ्य थ यु प्र णापान यपाश्रय                   |     |
| य नोद नसम न प ध देहयापनम्                        | ११  |
| स ज तैर्जा ते ग त्रै कर्मजैर्ब्र ण त             |     |

|                |   |     |
|----------------|---|-----|
| १९ ]           | शान्तिपर्वणि ेक्षधर्व                     | १ २ |
| दु             | घ तैर्दु ख ध्यैर् नरशरीरमानसै             | ११८ |
| दु             | ख ि दुप दान द् अभिम नाच्च                 | ११९ |
| त्य            | ग त् तेभ्यो निरोध स्य ि रोधज्ञो विमुच्यते | ११९ |
| इन्द्रियाणा    | रजस्येव भ प्रल बुभै                       |     |
| पर             | क्षय स रेद्विद्वान् यथ वच्छ चक्षुष        | २   |
| ज्ञात्वे       | यार्ण ि द्वयार्थन् नोपसर्प त्यतर्षुल      |     |
| ज्ञातैश्च      | रणैर्देह न देह पुनरर्हते *                | १२१ |
| अत्रेप         | य प्रवक्ष्य मि यथ च्छ चक्षुष              |     |
| तद्वि          | नां रन् रजन् प्रा ेति परमां गतिम्         | १२२ |
| वै             | भूत नं पुरुषश्चेष्ट उ ते                  |     |
| पुरुषेभ्ये     | द्विज न हुर द्विजेभ्ये म त्रदर्शिन        | १२३ |
| भूति           | शि े स े स े दर्शिन                       |     |
| ब्र            | ण ेदत्त्वं सू तत्त्वं र्थगति निश्चया      | १२४ |
| नेत्रहीनो      | यथ ेक ्राणि लभतेऽ ने                      |     |
| नहान           | थ लेके स्स ज्ञानि दो धि                   | १२५ |
| तांस्तानुपासते | धर्मन् धर्म म यथ गमम्                     |     |
| न त्वेषामर्षस  | म यम् अ तरेण गुणानिमन्                    | १२६ |

सर्वेषु ेक्षे तै न्या

|   |      |
|---|------|
| देहमनसा शौच क्ष सत्य धृतिर मृति                 |      |
| सर्वधर्मेषु धर्म । ज्ञ पयति गुणानिम न्          | १२   |
| यदेद णो रूप ब्र चर्यमिति मृतम्                  |      |
| पर तत् सर् मभ्यस् तेन याति परां गतिम्           | १२८  |
| लिङ्गस्यै गह न यच् रार पर्शवर्जं म्             |      |
| श्रोत्रेण ण चै चक्षुष चा यदर्शनम्               | १२९  |
| कस भाष प्रवृत्ता च य न परि र्जितम्              |      |
| बुद्ध्य नाध्यवस य ब्रह्मचर्यमकर्मणम्            | १३   |
| य त्ति लोक प्राुया मध्यम सुरान्                 |      |
| द्विजाग्र्ये ज यते विद्व न् राजसा वृत्तिमास्थित | १३   |
| दु र चर्यम् प य मे शृणु                         |      |
| स प्रवृत्तमुदार्यं च निगृहीया द्विजो मन         | १३२  |
| येषि न कथा श्र या न निरक्षय निर वर              |      |
| थि दर्शन द सा दुर्बल नां विशेषद्रज              | १३३। |
| र गोपत्तौ चरेत् छूम अह्नि प्रविशेदप             |      |
| मग्न त्व स्वे मनसा त्रिर्जपेदघमर्षणम्           | १३४  |
| प म निदहेदेवम् अ तर्भूत रजे मयम्                |      |
| ानयुक्तेन मनस स ततेन ि चक्षण                    | १३५  |

१९ ] शान्तिपर्वणि मोक्षधमपर्व १ २५

- कुणपामेध्यसयुक्त यद्वर्दा छत्रव धनम्  
तद्वदेहगत िद्याद् अत्मान देहव धनम् १ ६
- वातपि कफन् रक्त त्वञ्ज स यु चास्थि च  
मज्जां चै सिराज लैस् तर्प तित रस नृणम् १ ३
- दश विद्य द्धम यो प े द्वियगु त्वहा  
य भिस्सूक्ष्मा प्रत यन्ते ध योऽन्यास्सह श १ ३८
- एवमेतासिर द्यो रसेद देहस गरम्  
र्षयन्ति थ लम् अपग इव ागरम् १ ३९
- ध्ये च हृदयस्यै ि सिरा त्र मनो ह  
ल्पज नणां सर्गात्रै ि १ ४
- स गत्रप्रत यिन्यस् त ि नुगत रै र  
ये प्रिप ते ह त्यस्तैजस गुणम् १ ४१
- प हित सर्पिर् यद्विर्मथ्ये खजै  
निमथ्यते तद्वद् देहस ल्पज जै १ २
- ऽ येव यथाऽभ्येते मन सङ्कल जैर्द्विज  
शु पर्शज देह त् सृजत्य मनो ह १ ३
- हर्षिर्भगवानत्रिर् वेद तच्छु स भ म्  
नृबीजि द्रदै त्य त दिद्वियमु यते १ ४४

|   |     |
|---|-----|
| वैशु गतिं विद्यन् भूतं ह्यारिम्           |     |
| रिगाग्धेषेनायुर्देहसम्भवम्                | १४५ |
| गुणानंसा मापद्य मनस्ये मदेदधत्            |     |
| देहमे नुदन् प्रान् अतले विमुच्यते         | १४६ |
| भता मनसो ज्ञान एव प्रजयते                 |     |
| योमि द्विरजोदियमत्रसिद्धमहत्तनाम्         | १४  |
| तस्मत्तदविघताय कर्मर्यदल्मषम्             |     |
| रजमहित्वैव नतिर्यगतिमयत्                  | १४८ |
| तरुणधिगतज्ञानजरदुबलतां गतम्               |     |
| परिपक्वबुद्धिकले आदत्ते नसबलम्            | १४९ |
| सुदुर्गाहपथनम् अश्रित्य गुणवर्नम्         |     |
| थपश्येत्तथदोान् अर्तल्यमृतमश्रुते         | १५  |
| दुरतेविविद्रयाथपुसक्तद्विजत               |     |
| येत्सक्तमहत्मानसूतेयातिपरिगम्             | ५१  |
| जमृत्युजरदुखैर्याधिभिर्मनसमै              |     |
| दृष्टेमसतलोघटेक्षे बुद्धिमन्              | १५२ |
| ज्जानेभ्यशरीरेण श्लुचिदनहङ्कत             |     |
| शतेज्ञानवान् भिक्षुरनिरपेक्षश्चरेत् सुखम् | १५३ |

१९ ] न्तर्पणि मोक्षधर्मपर्व ११२

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| थ नसस्सङ्ग परेद्धूतानुकम्            |     |
| अत्र युपेक्षां वीं ज्ञत् र्म श गत्   | ५४  |
| यत् अक्लुभ पाप । दुपुते              |     |
| त् अक्लुभ नि णि र्याद्व बुद्धि णि    | १५५ |
| अर्हेस सत्यवचन सर्भूते चार्जवम्      |     |
| क्ष दयऽप्रमद य ते स्त्री भूते        | १५६ |
| यैन परम धम सर्वभूतसुख वहम्           |     |
| दु णि रण देत्तर स सुख भूते           | १५  |
| त त् मादितो भूत्व मने भूतेषु धरयेत्  |     |
| नापध्य ये हये बुद्ध्य चि देसत्       | १५८ |
| अथ ेघप्र लेन मनो ने प्र ेत्          |     |
| वेचयित् द्वाक्य धर्मसूक्ष्ममेक्ष्य च | १५९ |
| सत्यां चमर्दि णं च वदेदतप रिणाम्     |     |
| कल्पे त्पारुषम् अनृशस मपैशुनाम्      | १६  |
| क्ष हे द्व धसूक्ष्मेक्षत             |     |
| ईदृगल्प च वक्त यम् अविक्षिणेन चे स   | १६१ |

1. द म्

2. ग । धम्



|   |       |
|---|-------|
| कृ <sup>१</sup> प्रब ध न् हि सरोष द् विरुद्ध न् चाहरेद्य दि<br>बुद्ध्य निगृहातेन मनस म तामसम् | १६२   |
| रजोभूतैर्हि रणै कर्माणि प्रतिप ते<br>दु ख प्र य च लोकेऽस्मिन् नरक येपपद्ये                    | १६३ : |
| त नेव कशरीररू अचरेद्ध र्यम त्मन   | १६४   |
| र्ण ए भ रो हि द्वद्ध र्येत् द युभि<br>प्रि लोमां दिश बुद्धा सस रमबुध थ                        | १६५   |
| ता च यथ द यून् हत्वा गच्छे च्छुभां दिशम्<br>थ रज मां युत्सृ य प्र त् खम्                      | १६६   |
| नि दि धमर्न हे मुक्तस्स परि है<br>चारी ल व शी तपस्वी नियतेद्रिय                               | १६    |
| ानद धपरिक्षेश प्रे गरतिरात्मव न्<br>प्रच रेण मन । र दधिग छति                                  | १६८   |
| धृति नात्मि द् बुद्धिं निगृहीयादसशयम्<br>बुद्ध्य निगृहीय द् वि य न् नस ऽऽ न                   | १६९   |
| निगृहीतेद्रिय । र्वणस्य मने वशे   |       |

1 —प्रब ती र द्वि गाद्

कृप .ि र द्विर गा

2. ति

१९ ] शान्तिपणि शोधर्मपर्व १२९

दे त स दन्ति यति श्वरम् १

त्त भि सयुक्तमनसे तत् सम्प्रकाशते  
शनै पगते सरे ह्यभूय य ल्पे १ १

अथ वा न प्रवृत्त योग न्त्रैरुप मेत्  
योग त्रमय त्र त्त्त त्त्त चरेत् १ २

कणपि य क ल्माषश कय व स व  
तथा मूलफल भैक्ष पर्ययेणोपयोजयेत् १ ३

अ ह र नियम चै देशे ल्ले च स र क  
तत् पर क्ष्यानुवर्तेत यत् प्रवृत्त्यनुवर्तकम् १ ७

त्त ने परु धेत शनैरि भि धेत्  
ज्ञानैधित ततो नान् अकवत् स प्रक शते १ ५

ज्ञ न धिष्ठितम नान् त्रै लोकान धितिष्ठति  
न नुगत ज्ञ नम् अज्ञ न दप १ ६

थक्त्व त् स प्रयोगा सूयुर्वेद श श्व म्  
स योरपवगज्ञो वीतरागे विमुच्यते १

वये र्तीतो जर मृत्यू जित्व सन तनम्  
मृत तद ेति यत्तदक्षरम ययम् \* १ ८

- ॐ लमष चर्यम् इच्छ त चरि सद  
 ॐ द्र ॐ मन त्य ॐ दोष वेक्ष १ ९
- ॐ प्रे हि रजसा देही तमस च भिभूयते  
 ॐ देहान्तरि ॐ प चरत्यपगतस्मृति १८
- ॐ भ्यासा गरिता जि स थ निरन्तरम्  
 ॐ भिनिवे त् तु जागर्त्यप्यनिश द १८१
- ॐ ह ॐ भ वस् ॐ विष नि  
 ॐ ल नैरि ॐ यैदहा वर्तते देहवनि १८२
- ॐ अ ॐ ते यथा ॐ तद् ॐ द योगेश्वरे हरि  
 ॐ तथै दुपप र्थ ॐ णयि ॐ र्षय १८३
- ॐ इन्द्रियण श्रम त् ॐ म् अहु ॐ र्वगत मन  
 ॐ नस त्व लीनत्व त् ॐ त्तद हु ॐ निर्दर्शनम् १८४
- ॐ य च स म सस् स ॐ ल्पे ज तो पि  
 ॐ मनै रथै ध्वर्य ॐ तद्वन्मने गतम् १८५
- ॐ सं ारण सङ्घ च न ॐ म त्म तदुप श्नु  
 ॐ हित ॐ वै वेद सोत्त पूरुष १८६
- ॐ गुण न पि य त् ॐ जन त्युपस्थि म्

१९ ] शान्तिपवणि ेक्षधम र्व ११३१

त्त े भूत नि मनो यद्भावि तथ १८

दुप ते गुण रजस ामसा

स रे ा था गेगम् अ न तयफलोदय १८८

पश्यन्त्य म्बन् न् व तपित्त फेत्तरान्

रजस्तमेभ भैस् तद याहुर्दुर्न्वयम् १८९

प्रसन्नैरि यैर्य त् स ल्पयति ानसम्

त्तत् ेऽ युपरते मनो बुद्धिर्नैरीक्षते १९

याप र्वभूतेषु े दापव मन

मन तर्हित र ेह ास्थ य ानुषम् १९१

यत्तत् सदसद य स्वपित्यस्मिन् ि दर्शनम्

भूत् ात्मभूतस्थ द य त्मगुण विदु १९२

लि ेत मनस ल्प दैश्वर गुणम्

अ त्मप्रभ ात्त े देत् ि ात्म े दे १९

ए हि तपस युञ्ज्य द् अर्कवत्तमस परम्

त्रैलोक्य कृ े देर्ह तमसोऽ ते महेश्वरम् १९

तपे धिष्ठित दैस् े रै म

एतदैव सुरैर्गुप्त ाज्ञ नस्य लक्षणम् १९५

1. ग ति भू नो ि त्तथ [ म्]

. त्तेऽ ि नः 3. - सम्

सत् रज म े दे सुरगुण न् विदु  
सत् देवगुण वि े इतर असुरौ गुणौ १९६

तत् परम ेद्यम् अमृत ेति रक्षरम्  
ये विदु स ेत् त्म नस् ते ेति परम गतिम् ९

हेतुमच्छुक्त्वा तम् एत ज्ञ नचक्षुष  
प्रत्य हारेण शक्यम् अ यक्त वेदितुम्\* १९८

न स ेद पर ये ेद चतु यम्  
यक्त यक्ते वृत्त च निवृत्त धर्ममुत्तमम् १९९

य मृत्युपद वि द् अ यक्तममृत पदम्  
निवृत्तिल ण धर्मम् ऋषिर्नारायणोऽ व त् २

तत्रै । स्थित सर्व त्रैलोक्य सचर चरम्  
निवृत्तिलक्षण धर्मम् अ यक्त ब्रह्म श श्रुतम् २ १

प्रवृत्तिलक्षण धर्म ज परिथ वीत्  
त्रै स्थित सर्व त्रैलोक्य सचराचरम् २ २

प्रवृत्ति पुनर वृत्तिर् नै ति पर गति

1. म्  
\* े शेषु ेभ्य ेद्

3. च र ेणा

4. ेदे न

१९ ] शान् वर्णि मोक्षधर्मपर्व ११३३

|   |     |
|---|-----|
| गतिं परममेति निवृत्तिपरमो मुनि            | २ ३ |
| ज्ञान स्वपरो नित्य भाग्यभनिदर्श           | २ ३ |
| तदे मेतै विेय व यक्तपुरुष बुभै            |     |
| अ यक्तपुरुष भ्यां तु यत् स्याद य महत्तरम् | २ ४ |
| विशेषमेक्षेत िशेषेण विचक्षण               |     |
| नद्यतावुभावेत लिङ्गौ च युभ वपि            | २०५ |
| उभौ नित्यावनुचरौ हृद्यश्च महत्तरौ         |     |
| स नै दुभयेर एव यद्विशेषणम्                | २ ६ |
| प्रकृत्य सर्गधर्मि य थ त्रिगुणस या        |     |
| िपरीतमतो िद्यत् क्षेत्रज्ञस्य लक्षणम्     | २ ७ |
| प्र ते वि रणां द्रष्टारमगुणाि तम्         |     |
| क्षेत्रज्ञाहुर्जीव तु तारं गुण म्         | २ ८ |
| ि रूषेत लि र सङ्गि                        |     |
| स गलक्षणोत्पत्ति र्मज गृ ते यय            | २ ९ |
| रणै र्मनिर्वृत्तै कर्त यत्तद्विचे ते      |     |
| कीर्यते दसज्ञभि कोऽहमेष साविति            | २१  |
| र्णिवान् यथै स्र त्रिभिर्भवति स त         |     |
| स तोऽय तथ देह सत्त्वर जसत मसै             | २११ |

- ष्य वेद्यम् एतैहतुभिर चि म्  
 थ स े य स यग् अन् ले न मु ति २१२
- श्रिय दे या श्रया दि म् अभिप्रे. मनाइ. चि  
 श रीर नियमैरु श् चरो ि ष तप २१३
- त्रैलोक्य पस याप्तम् अ तर्भूतेन भास्व  
 सूयाचन् म ौ चै भ सतस्तपस दिवि २१४
- प्रत पस्तपसो न लो े सश दित तप  
 रजस्तमो यत् र्म तपस त् लक्षणम् २१५
- च र्महिंस च श रीर तप उच्यते  
 द्धाने नियम स यद्वा नस तप उच्यते २१६
- ि धेज्ञेभ्यो द्विज तिभ्ये त्रा म पि मि  
 अ हरति मेन पाः नश्यति राजस २१
- ैम स्य च विषये य त्यस्य करणानि च  
 स्मत् त मत्र दद्य ्य वदस्य प्रयेजनम् २१८
- अ ले च नोपेक्षं शनै र्य दनतुरः  
 ए युक्ते मनसा न समुपपद्यते २१९

१९ ] शान्तिपर्वाण ेक्षधर्मपव १ ३५

रसवज य देह देह ँच्छ दवा रेत्  
न्म्यैर ह मतिर रा यात् प्रकृत ि २२

आदेहाद् द देह े विप्रमुच्यते  
हे यु सदोत्सगा भूतान प्रलयस्तथ २२१

परप्रत्य सग तु नि यश्च निवर्तते  
एव त भ ि प्रज्ञ म् आसते ये ि पययम् २,२

घृत्य देह रयन्ते बुद्धिसक्षि चे स  
नेभ े ष स िनश्च सूक्ष्मत् त् तदुप सते २२३

यथाग च त् सव बुद्ध्या ैव बुध्यते  
देह श्चिदन्वा े भ ि तात्म निराश्रय २२४

युक्ता ध रणय केचित् सत्य े चिदुप सते  
भ्य ल्यपरे देव विद्यासश दित क्षरम् २२५

अन्तक लेऽ युपास स् तपसा द ध ि ल्विषा  
सर्व एते मत्तात्म नो ग छति परमा गतिम् २२६

सूक्ष े शे तेष म् अवेक्षे च चक्षुषा  
देह तु चर विद्य दू विनिर्मुक्तपरिहम् २२७

अ तरिक्ष द तर ध रणासक्त चेतस



|   |     |
|---|-----|
| मर्त्यले ऽद्विमु य े िद्य स क्तमानस     | २२८ |
| भूत विरजसस् ते या ि परमा गतिम्          |     |
| ए मे यन धर्मम् अ हर्धर्मविदो जना        | २२९ |
| यथ ज्ञ नमुपास तस् ते य ित परमां गतिम्   | २३  |
| ष यवर्जित न येष मुत्पद्यतेऽमलम्         |     |
| या ित तेऽपि परं े न् िशुय तो यथाबलम्    | २३१ |
| भगव तमज दि य ि णुम यक्तसञ्जि म्         |     |
| भ वेन य ित द्व ये ज्ञानवृ निराशिष       | २३२ |
| त् ऽऽत्मस्थं पर चैव न निवर्त ित तेऽ यय  |     |
| प्य तत् परम स्थान मोद तेऽक्षरम य म्     | २३३ |
| एता देतद्विज्ञ नम् एतदस्ति च न स्ति च   |     |
| वृ ण द्व जगत् सव च वत् परिवर्तते        | २३  |
| विसत र्यथैव यम् अ तस्थ स ततो विसे       |     |
| वृ णात तुर तस् तथा देहग सदा             | २३५ |
| सूच्य सूत्र यथ े सस रयति य              |     |
| तद्वत् सस रसूत्र हि वृ णासूच्य निबद्धते | २३६ |
| िकर तं चै पुरुष च सन तनम्               |     |
| यथ व द्विज ि स ि वृष्णे विमु य े        | २३  |

प्रकाश भग नितद् ऋषिनोरायणोऽमृतम्

भूता नुकम्पयै जगा जगते हितम् २३८

ति भारे शतसह य हि ियासि क्य

शा ि स धिकशत तोऽन्या : ९

८८ धम ण एकान िशोऽध्यायः ९

[ सि . २२८ श्लोकः ]

### नवत्यधि शततमो िया

े युधिष्ठिर प्र ि िय शि िक्त ि द  
नानु दः

ष्ठिरः

केन वृत्तेन त्ते जन े मिथिल धिप  
जग म मोक्ष धर्ज्ञे भोगानु.सृज्य बुद्धिम न् १

अत्र प्युदाहर त मम् इ तिह स पुर तनम्  
येन वृत्तेन धमज्ञस् स जगाम महत् सुखम् २.

जन े जनदे तु मिथिलायां जना धिप  
और्ध्वेहे धर्माणाम् अ सीघ्रको विचि तने ३

त स्म शतम च र्य सति सततं गृहे  
दर्शयन्त पृथ धर्मान् न न प दिन ४

|  |    |
|--|----|
| न तेषां प्रेत्यभे च प्रेत्य जागौ विनि य  |    |
| १अ गमस्थ स भूयि म् अत् तरेन तु यति       | ५  |
| तत्र प शिखे नाम कपिलेये महामुनि          |    |
| परिधाव महात्तं जगाम मिथिल मपि            | ६  |
| सर्वस सास मर्णां तत्त्वज्ञानिनि ये       |    |
| स पय सिथश्च निर्द्व द्वौ नष्टस य         |    |
| वर्षण माहुराच य कामादवसित नृ             |    |
| शश्वत सुखमत्य तम् अत्त दुर्लभम्          | ८  |
| यमहु पिल सङ्ख्या परमं प्रजपतिम्          |    |
| मेत्य तेन रूपेण विस्मापयित न् यम्        | ९  |
| अरे प्रथ शि य महुश्चिरज विनम्            |    |
| पेतसि यस्सत्रम् अस्ते वर्षसहस्रि कम्     | १  |
| समसा माग यपि मल महत्                     |    |
| रुष य परमर्थमबोधयत्                      | ११ |
| इत्तरेण ससिद्धे भूत तपसःऽऽ रि            |    |
| क्षेत्रक्षेत्रज्ञये र्यक्तं बुबुदेवदर्शन | १२ |
| त्तदेक्षर ब्रह्म नान रूप प्रश्यते        |    |
| असुरिर्मले स्मिन् तिपेदे तदययम्          | १३ |

|  |    |
|--|----|
| तस्य प शि शशष्यो मानुष्य यसा धृ        |    |
| ह्यणा कपिल नाम काचिदासीत् दुम्बिनी     | १४ |
| पुत्रः माग य ि या स पिबति नौ           |    |
| त स क पिलेयत् लेभे बुद्ध च ै म्        | १५ |
| ए मे भगवानाह पिलेयस्य भ म्             |    |
| स्य तत् पिलेयत्व सर्वि च भर            | १६ |
| स न्य जनक ज्ञात् धर्मज्ञान नुत्तमम्    |    |
| पेत्य शतमाचर्यान् मोहयामास हेतुभि      |    |
| जनकस्त भिसरक्त पिलेयस्य दशनात्         |    |
| त्सृ य शतम चार्यान् पृष्ठतोऽनुजगाम तम् | १८ |
| त पर ल्याय प्रणत च धमत                 |    |
| अत्रवात् परम मोक्ष त साङ्ख्य विधये     | १९ |
| ज ति निवदमुक्त हे कर्मनिर्वेदमब्रवीत्  |    |
| र्मनिर्वेदमुक्त । हे निर्वेदमब्रवीत्   | २  |
| यदथ मससर्ग मर्णां च फलोदय              |    |
| तदन श्व सि मोह िन शि चलम वम्           | २१ |
| श्यमाने विन शे च प्रत्यक्षे ले क्षिके  |    |
| अ गम त् परमस्तीति ब्रुव पि पराजित      | २२ |

|   |    |
|---|----|
| १ अत्मना । न ेश ज ममृत्युजरामयम्<br>अत्मनम ते मोहत् तदस यक् पर मतम्     | २३ |
| अथ चेदे मत् स्तियो नेपपद्यते<br>अजरेऽयममृत्युश्च राजऽसौ मयते था         | २४ |
| अनि ते च येतत् तस्मि सति लक्षणे<br>मधि तु यात्राविनिश्चयम्              | २५ |
| प्रत्यक्ष हे तयोर्मूल तान्तश्च तयोरपि<br>प्रत्यक्षेण गमेभि कृत ते । न न | २६ |
| यत्र त्रनुमा । थ भ यतोऽपि<br>न जी शर राद्धि न स्ति । ां मते त           | २७ |
| रे टस्य णिक घृतधूमाधि सनम्<br>मृत्तिरय क तस् सूर्य तोऽ मि मेक्षण        | २८ |
| लय भूत्व ययश्चैव दे भ्युपय चनम्   |    |

1 । त । न । ेश । ता । शो

मूल । ोरपि

५० । प

—क । ो । व न न

4. । ो । ाभि ; कृता । न प्रत्य । गमो

5. योमूल । ो न [ : ]

6. ग म्बुभक्षणम्

१९८] न्तिपर्वणि मोक्षध १ १

मृ मनिवृत्तिश्च<sup>१</sup> मणते कथ भवेत् २९

न त्वेते हेतव सति ये चि मूर्तिस हित  
अमूर्तस्य हि मूर्तेन साम य नोपप ते ३

अिद्य मृत् पाभि चिद हु पुनर्भ म्  
कारण लेभमहौ च दोष णा च निषे णम् ३१

अिद्यां क्षेत्रम हुर्दि मबीज तथा कृतम्  
तृ ण सञ्जनितस् हे एष तेष पुनर्भव ३२

तस्मिन् मृदे च द धे च देहे मरणधर्मिणि  
अ योऽसै ि यते प्रेतस् तदाहुस्तन्वमक्षयम् ३३

यदा रूपत यो जा तितश्श्रुतितोऽ र्थत  
थमस्मिन् स इत्ये बोध स्यादस हित ३४

ए सति च का प्रीतिर् द नविद्य तपोबलै  
यद्यद् चरित कर्म सर्वमत्र प्रवर्तते ३५

यदि यमिहैव यैर् दु खितैर्दु खिते भेत्  
सुखितै सुखिते वाऽपि दृष्टो स्य विनिर्णय ३६

1. माणति नि नि :

2. यो जाये र् सु सङ्ख्यः [पाठ रम्]  
ग यो सै िये प्रे म सु सस् वम् [पाठ रम्]

3. ध्वनः

4. -ग यत् प्रप

5. द्वय नाि

- यद हि मूलतो ह या छरीर न पुनर्भवेत्  
थ न्न न यद् यच्च तेनैत िपपद्यते ३
- ऋतुस त्सरस्तिथ्य शीतोष्णे च प्रियाप्रिये  
यथ हीमनि पश्यति तादृश सत्त्वसङ्क्षय ३८
- जरयाऽभिपरितस्य मृत्युन व विनशिन  
दुर्बल दुर्बल पूर्वं गृह एव विनश्यति ३९
- इन्द्रियणि मने व यु शोणितं म समस्थि च  
आनुपूर्व्याद् विनश्यति तामुपयति च ४
- ले यत्राविधान च दानधर्मफलागम  
तदर्थं वेदश दश्च यवहाराश्च लौकिक ४१
- इति स यद्भ्रानस्येते बह स्सति हेतव  
एतदस्तादमस्तीति न कश्चित् तिपद्यते २
- ेषा विमृशत मेव त्तत् समभिध वतम्  
चिन्निशते बुद्धिस् तत्र जीर्यति वृक्षवत् ३
- एवमथैरनर्थैश्च दु खित सर्वज तव  
अ गमैरप ष्य ते हस्तिने हस्तिपर्यथ ४४

अर्थस्तथास्य त स्व बह  
 लि स त एते बहवो विशु क  
 महत्तर दु मभिप्रप ।  
 हित्व सुख मृत्युवश प्रयाति ५  
 िनाशिनो ध्रुवजीवितस्य  
 के व युभिर्मित्रपरिग्रहै  
 विहाय यो गच्छति सर्वमे  
 क्षणेन गत्वा विनिवर्तते च ४६  
 भूयमेतयेानल यवोऽपि  
 सदा शरीरं परिपालयति  
 श्ती,मालक्ष्य रति कुते भवेद्  
 विनाशिनो न कर्म विद्यते ४

रदमनुपविवाक्यमच्छल  
 परमनिरामयमात्मसाक्षि म्  
 नरपतिरभिर्वक्ष्य विस्मि  
 पुनरनुयुक्तुमिदं प्रच मे ४८

श्ति म भर तस काय ि १५  
 श्तिप ि नवत्यं कशत षोडश्याः १८

८८ स ध प ि िशऽः यः ५

[ श्लि यो ८ षो िः ]



## एनेन द्विश मोऽध्याय

धिरि रित्युक्तपञ्चमि व

ति :

जनो नरदे तु ज्ञपित परमर्षिण  
पुनरे अनुपप्रच्छ स परये भव भवौ १

भगन् दिदप्रे स भवति कस्यचित्  
ए सति मज्ञानान् एक रियति २

िदादेव सिद्धोऽसौ रणस्येव वेदना  
चे नो विद्यते त्र हैतुक च मनोगतम् ३

अगमदे सिद्धोऽसौ स्वर्ता द्वा इति श्रुति  
ते थग यो य न पश्रित्य कर्मसु ४

चेतनो शव त्र स्वमूर्त धरय त्यत  
भव पैरुष क् आत्मान तमुप श्रितम् ५

तम श्रत्य प्र र्तते देहेनो देह धना ५

गुण नमभि न त लिङ्गानुश दवत्  
थि यादिषु भूतेषु तत्तद हुर्निदर्शनम् ६

\* गो धेशाठ स ५ गो इद

१९९] शान्तिपर्वणि लोक्षधर्मपर्व १ ५

आत्म ऽसा र्त्ते भि स् तत्र तत्र स वित  
परम त तथैवैको देहे ऽस्मि ते वै श्रुति

१ शं व युरुष्मा च स्नेहे यच्चापि प र्थि म्  
यथा त्रिध वर्तते तथ ऽसौ पुरु मृ ८

पय तर्हित यद्वत् तद्व महात्म म्  
पूः नैश्वर्ययोगेन त दे शेषव न् ९

श द ल क्रिया देहो ममैकस्यैव ल्पन  
स्व व मय तेद माय रूपं तु भेदवत् १

न न ख्य परम शुद्ध निर्विकल्प परात्मकम्  
लिङ्ग दि देवमध्य स्ते ानं देवस्य तत्तथ ११

चि योऽयं हि नादाख्यश श दश्च सौ मनो मह न्  
गतिमानुत स धत्ते र्णमत्तत्पद वितम् १२

यो नास्ति च तेषां वै अ शस्तथा परम्  
एतेने ा इति च ख्यातास् सव ते धर्मदूष १३

अब धनमविज्ञानाजू ज्ञान तद्भु म य म्  
न न भेदा ल्पेन येष म त्म मृत सद १४

प्रकृतेरपरस्तेषां बहवोऽप्य त्मव दि  
विरोधे त्मस म ां न तेषां सिद्ध एव हि १५

अ यदा च गृह्णैते देवा स्ततस्सृता १६

|  |    |
|--|----|
| एक ने त्म तेषं प्रतिषेधे हि भेदनुत्          |    |
| तस्माद्वेदस्य हृदयम् अद्वैध्यमिति विद्धि तत् | १७ |
| ेद दृष्टेरय लोकस् सर्वार्थेषु प्रवतते        |    |
| तस्म स्मृतये ज तास् सेतिह सा थि धा           | १८ |
| न य साध्य तद्ब्रह्म नादिमध्य न चा त त्       |    |
| इन्द्रिय णि च भूर् णि परा च प्रकृतिर्मन      | १९ |
| अ त्म च परमश्शुद्ध प्रेक्तोऽसौ परम पुमान्    | १९ |
| उत्पत्तिलक्षण चेद विपरं तमथोभये              |    |
| े ेत्ति ात नित्य तथा चैवात्मनस्तु त म्       | २  |
| दहत्येष र्माख्य द बोद्धूत श्व नल             | २१ |
| चि म त्रपरमश्शुद्धस् सर्वाकृतिषु वर्तते      | २१ |
| आकाशकल्प वि ल न नाश क्तिसमवितम्              |    |
| त पन सर्वभूतानां योतिषां मध्यमस्थितिम्       | २२ |
| दु खमि न निर्दु ख तद्विद्वा च लिप्यति        | २३ |
| असावश्नाति यद्वत्तद् भ्रमरोऽश्न ति य मधु     |    |
| एवमे मह न त्मा न त्म नमवबुध्यते              | २४ |
| ए भूतस्त्वमित्यत्र धिते बुद्ध्यते परम्       |    |
| बु स्य बोधन त्र ि यते सद्भिरित्युत           | २५ |
| न बुधस्येति वै ि तथावच णुष्व मे              | २५ |

|   |    |
|---|----|
| शे म न गत् । ते श ण श दस्यव<br>ले णि त स भि ज्ञ निनेऽत्र वदत्यु                   | २६ |
| एव त भो कृत्य घातुर ह न<br>क्ष णि ते ह त्म नस् इन्द्रवि जिता                      | २  |
| अतेऽथ मह त्मानम् अ यथ तिपद्यते<br>के तेन न तं पापं चोरं त्मापह रिणा               | २८ |
| स्य सयोग्ये गो चिर यशुचिर्भवेत्<br>शुचिश्च शुचिश्चापि न हेह यो यथ                 | २९ |
| दृश्य न चैव प्र स्य द् दृष्ट दृश्यं तु नैव च<br>अर्त ति यासिद्धा नरूपेण सर्वद     | ३  |
| एव न तिप ते र गमोहमदा ता<br>वेदव दुर त्म नस् ससारे दु खभ गिन                      | ३१ |
| । गमानुगत न बुद्धियुक्त भव ति ते<br>बुद्ध्य भ ति बुद्ध्या च यद्बुद्धं चात्मरूपवत् | ३२ |
| मस्य धे न देहात् पर य ति न सशय<br>नित्यनै ति क न् कृत्वा प पह निम । य च           | ३३ |
| द्वसं र । मत्मात्मे ज्ञ ननिर्धूतकल्मष<br>असक्ता परिवर्त णे ससर त्यथ व युवत्       | ३४ |
| युज्य तेऽथ व क्लेशैर् अ भोद्भवैस्सह   | ३५ |

|   |    |
|---|----|
| इत तस्समाहृत्य न निर्वर्णयत्युत<br>न तस्समो ह्यर्कत्समहामति                         | ३६ |
| एमात्मनमवीक्ष्य न नादुखसमवितम्<br>देहपमलैर्मनिर्मलपरमर्थ                            | ३  |
| तमेवर्वदुखं तु मेचयेत्परमत्मवन्<br>च तोपेतस्सर्वसङ्गब्रह्मि कृत                     | ३८ |
| लवारे विशुद्धात्मपरनिर्वणमृच्छति  | ३८ |
| इन्द्रियाणि मनो वयुशैणितमांसमस्थि च<br>आनुपूर्व्याद्विनश्यति स्वं धतुमुपयति च       | ३९ |
| रनुगतकार्यं यदि तच्च विनश्यति<br>अलिङ्गस्यथलिङ्गयुयते तमृषादृढम्                    | ४  |
| नत्वे हेतवस्सति ये केचि मूर्तिसंस्थिता<br>अमत्यचमर्त्येन समयनोपपद्यते               | ४१ |
| लेकदृष्टो यथा जातेस्स्वेदजपुरुषस्य याम्<br>कृतानुस्मरणत्सिद्धो वेदगयपरपुमन्         | ४२ |
| प्रत्यक्षनुगतो वेदे न महेतुभिरियते  | ४  |
| यथा शाख हि वै शखा तरोस्स ब्रूयते तद<br>श्रुत्या तथ परोऽयत्मा दृश्यते सोऽप्यलिङ्गवन् | ४४ |

१९९] शान्तिपर्वणि लक्ष्मणपर्व ११४९

|  |    |
|--|----|
| अलि स ध्य तद्ब्रुव बहवस्सति हेतव         | ४  |
| लो यत्राविध नं च दानधमफल ग               |    |
| तदथ वेदश द्वाश्च यवहाराश्च लौकिका        | ५  |
| इति सम्यङ्ज्ञानस्येते बहव सति हे व       |    |
| एतदस्ती दमस्ती ति न किं त् प्रति दृश्यते | ४६ |
| तेषां विमृशत मेव तत्तत् मभिध वताम्       |    |
| चि विंशते बुद्धिस् तत्र जीर्यति वृक्षवत् | ४  |
| एवमथैरनथैश्च दु खितास्सर्वज तव           |    |
| अ गमैरपकृष्यति ह स्तिने हस्तिपैर्यथ      | ४८ |
| न ज तु क म ाम न म् उपभोगेन शा यति        |    |
| ह विष णवत्सव भूय एवा भिवर्धते ।          | ४९ |
| अथ थाऽत्य तदु खावदां                     |    |
| लिप्स त एके बहवो विष्णुः ।               |    |
| महत्तर दु खमभिप्रपन्न                    |    |
| हित्व सुख मृ युवश प्रय ति                | ५  |
| वेनाशिनो ध्रुवजीवितस्य                   |    |
| किं ब धुभिर्म त्रपरि न्दुश्च             |    |
| विहाय ये गच्छति सर्वमेव                  |    |
| क्षणेन गत्व न निवर्तते च                 | ५१ |

ख भूमितोयानलव यवो हि  
 सदा शरीर प्रतिपालयति  
 इत्तादम लक्ष्य तो रतिर्भवेद्  
 विन शिनो ह्यस्य न कर्म विद्यते ५२

मी मः

इदमनुपधि क्रयम छल  
 परमनिर मयम त्मसाक्षि म्  
 नरपतिरनुवाक्ष्य विस्मित  
 पुनरनुयेक्तुमिद प्रच मे ५३

इति िर श स िक ित तास ि  
 शा ि णि ए न द्वि तम ऽध्यायः ९९  
 ८८ िध प ि एकपञ्च श ऽध्यायः ५  
 [ स्मि िध्याये ५२ ि ]

## द्व िध्याय

धि र प्र ि जन िय पञ्चशि िक्तस परायि भ वादि-  
 िद िक्य द.

मी ि :

जनको जनदेव तु ज्ञ पित परमर्षिणा  
 पु रेव नुपप्र छ <sup>१</sup>सा पराये भवाभवौ

:

भगन् यदिदं प्रोक्तं स भवति कश्चित्  
 एव सति किमिदं ज्ञातुं करिष्यति २  
 सर्वमुच्छेदनिष्ठस्यात्पश्य चैतद्भिज्जोत्तम  
 अप्रसक्तप्रसक्तो वा किं विशेषं करिष्यति ३  
 अससर्गो हि भूतेषु ससर्गो वा विनशिषु  
 स्मरिष्येत्स्वेन निरयकोऽत्र त्वत्

तमसा हि प्रतिष्ठितं विदुः । मिव चातुरम्  
 न शमयन् वाक्यैर्विषयैः शिखोऽब्रवीत् ५

छेदनिष्ठो ह्यस्ति भवनिष्ठा न विद्यते  
 अयं पिसमहारशशररैर्द्वयचेतसाम् ६  
 वर्तते यद्यद्येवमप्यश्रित्य मसु ६

धवत्पतेषु तु खवयुर्द्योतिरबुभूः  
 तेभावेन तिष्ठति युयते स्वभवत्

शेवयुरुमच हे श्रुतिपार्थि  
 एष समहारशशररमिति नैकधा ८

1. नः शन् वैस्त्वापाभावा  
 र्पि [ तिःपाः ]



|  |    |
|--|----|
| नमू म च युश्च त्रिध मसङ्गह   | ९  |
| इन्द्रियणाद्रियथा स्वभवश्चेतना मन<br>प्रणापनै विकारश्च ध तवश्चात्र नि सृता     | १  |
| श्रवण पर्श जि ऽश्रिर्नसा तथैव च<br>इन्द्रियर्णति प तै चित्तपूर्वगमा गुणा       | ११ |
| तत्र विज्ञ नसयुक्ता त्रिविध ेदन ध्रुव<br>सुखदु खेति याम ह्रु अदु खेत्यसुखेति च | १२ |
| श ५५ पर्शश्च रूप च रसो ग धश्च भारत<br>एते मरणाद्युक्त ष षड्गुणानि सिद्धे       | १३ |
| ते मनि सर्गश्च सर्वतत्त्वर्थ दर्शन<br>४ तत्र हु परम कर्म बुद्धिरित्ययम महत्    | १४ |
| इम गुणसम ह रम् अत्मभावेन पश्य<br>अस य दर्शिनो दु खम् अनन्तं नेपश य             | १५ |
| अनात्मेति यदा दृष्ट न ह न च ममेत्यपि<br>के धि ना प्रसक्त दु ख तति              | १६ |
| त्तु स यद्धत न म त्य गश मनुत्त म्<br>शृणु यत्तव मोक्ष य भा यमणं भवि यति        | १  |

1.

2.

नि

3 ग नि यः

4.

डुः पर

२ ] शान्तिपवणे ोक्षधर्मपर्व ११५३

- त्य ग एव हि सँ िं उक्तानमपि र्मणम्  
नित्यदु खविनीत नां ेशदु खा हे मत १८
- द्र त्यागे तु र्माणि भोगत्यागे व्रता यपि  
खत्यगे तपयेगस् सर्वत्यागे समपनम् १९.
- तस्य मर्गोऽयमद्वैघस् सर्वत्यगस्य दर्शित  
िप्रहाणय दु ख नां दुर्गति यथा भवेत् २
- प ज्ञानेन्द्रिय युक्त मन षष्ठानि चेतसि  
न षष्ठानि क्षयमि प कर्मेन्द्रिय यपि २१
- ह ौ कर्मे य ज्ञेयम् अथ पदौ गीन्द्रियम्  
प्रज न दयेऽशोफे िसर्गे पयुरिन्द्रियम् २२
- क्च श द विवेकर्था कृति प ात्सि िं िदु  
ए मेकादशैत नि बुद्ध्य तूपहत मन २३
- णँ श दश्च तृप्तिश्च त्रय श्र णसङ्गदे  
तथ स्पश तथा रूपे तथा च रसगन्धयो २४
- ए प त्रिकाश्चैते गुणस्तदुपलघये  
तेन यत्रिविधे भव पर्यायात् समुपस्थित २५.

1. िदमम्
2. िशेषार्थं कृ
- 3 ग बुद्ध्याऽप

|  |    |
|--|----|
| सन्नि रज व मसश्चैव ते त्रय<br>त्रिविधां वेदना येषु प्रसृता सर्वसादिर्न               | १६ |
| प्रहर्षं प्रीतिर न दस् सुख सश तचित्तत<br>अकुतश्चित् कुतश्चिद्वा चित्ततस्स त्विक गुणा | २  |
| अतुष्टि परितापश्च शेको ले भस्तथ रक्षमा<br>लिङ्ग ने रजसस्त नि श्य ते हेत्वदेतुत       | २८ |
| विवेक थ मोह प्रम र त ता<br>थि द्भिवर्त ते विविधास्त मसा गुण                          | २९ |
| तत्र यत् प्र तिसयुक्तं कये म सि भवेत्<br>वर्तते स त्वि रो भ व इत्युपेक्षेत थ         | ३  |
| यत्तु स त पसयुक्तम् अप्रतिकरम त न<br>प्रवृत्त रज इत्येव तत दपि चि तयेत्              | ३१ |
| अथ य मोहसयुक्त काये मनसि वा भवेत्<br>तर्कर्यमविज्ञेय तमस्तदुपध रयेत्                 | ३२ |
| ख च श्रोत्र श्रयीभूत श दश्रोत्र समाश्रित<br>नोभय श दविज्ञाने विज्ञानस्येतर ।         | ३३ |
| एव त्वक्चक्षुषी जि न सि चै प र्म   |    |

1. चि स्स त्वि रो गु :

2. ध ना

|   |    |
|---|----|
| स्पर्शे रूपे रसे ग धे त ने चेतो मनश्च तत्   | ३  |
| स्वकर्मयुगपद्भ्यो दश ते तिष्ठति             |    |
| चित्तमे दश विद्धि बुद्धिर्द्वादशर्म भवेत्   | ३५ |
| तेष मयुगपद्भावा इ उ छेदो न स्ति तामस        |    |
| अ स्थितो युगपद्भवे यवहर स लौकिक             | ३६ |
| इन्द्रिया युपसृत्य पि दृष्टपूर् श्रत गमान्  |    |
| चित्तय नुपर्येति त्रिभरेवा ितो गुणै         | ३७ |
| यस्तु मोहगत चित्तम् अ शुसस रमध्रु म्        |    |
| करेत्युपरत काये तम दुस्त मस गुणम्           | ३८ |
| यद्यद् गमसयुक्तं न कृ ङ्गुपशा यति           |    |
| अथ तत्र प्युप दत्ते तमे यक्तमिव नृतम्       | ३९ |
| एवमेष प्रसञ्जातस् स्व र्मप्रत्यय गुण        |    |
| थि द्वर्तते स यक् ेषाि द्विनि र्तेते        |    |
| तेष माहुस्सम हारं क्षेत्रमध्यात्मचि तका     |    |
| स्थिते मनसि यो भ वस् स वै क्षेत्रज्ञ उच्यते | ४१ |
| एव सति उच्छेदश शाश्वते वा कथ भवेत्          |    |
| स्वभ व द्वर्तम नेषु सर्वभूतेषु हेतुत        | ४२ |
| यथाऽर्णव गता नद्यो य क्तं जहति न म च        |    |

न तु ता निय छति तादृशस्त्वसङ्क्षय ४३

एव सति स्सज्ञा प्रे भावे पुनर्भेत्  
प्रतिसमिश्रिते जावे गृ माणे च मध्यत ४

इमां तु ये वेद विमोक्षबुद्धिम्

अत्मनमिच्छति चाप्रमत्त

न लिप्यते कर्मफलैरनिष्टै

त्र विसस्येव जलेन सिक्तम् ४५

द्वैश्च पार्श्वैर्बहुभिर्विमुक्त

जनिमित्तैरपि दतैश्च

य ह्यसौ मुखदुखे जहति

मुक्तस्तद्दयां गतिमेत्यलिङ्गाम् ४६

श्रुतिप्रमणगममङ्गलैश्च

युक्ते नरे मृत्युभयदत्त

क्षीणे च पुत्रे विगते च पापे

तयोर्निमित्ते च फले विनष्टे ४

अलेपमकशलिङ्गमेवम्

अस्थयपश्यितमहर्ष्यसक्त ४

थोर्णनभिपरिर्तमानम्

ततुक्ष्येतिपात्यमान

२ ] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व ११५

तथ ि सु जह ि दु  
ि ष से लेश्रमि प्रतीच्छन् ४८

था रुद्रशृङ्गमथो पुराण  
हित् । त च ।ऽ युरगे यथ  
ि ह य गच्छत्यनवेक्षम णस्  
तथ ि मुक्ते ि जह ते दु खम् ४९

द्रुम थ व ।ऽ युदके पत तम्  
उत् य पक्षी प्रपतत्य  
तथ सु दु खे विहा  
मु पर ङ्घ्वा गतिमेत्यलिङ्ग म् ५

भी :

रुद्रममृतपद विदेहराजस्  
यमिह प शिखेन यम णम्  
नि खिलमभिसमाक्षय निश्चि र्थ  
पर सुखा विजह र तीशेक ५१

पि च भ ते मैथिलेन र्ग त  
नगरमुप हितम ि न ।ऽ भिव क्षय  
न खलु मम तुषे ।ऽ पि द ते ।ऽ त्र  
स्वयमिदम ह किल स्म भूमिप ल ५२

इम तु पठति विमोक्षति

न ह ते सततमवेक्षते थ

प न् नानुभ ल्यदु खित

मु यते पिलमिवैत्य मैथिल

५३

इति तिम त्म र्ते ह्नि । ि ि ि

ि ि ि शि शोऽन्य . २

८८ ेक्ष वणि द्वि शोऽभ्या : ५२

[ ि ि भ्याये ५३ श्लोकाः ]

### एकाधिकाद्वशततमौ ध्य य



ति मे ि ि प्र ि शोपाख्य थनम्

युधिष्ठिरः

। रण मह इ द मन ैथिल

मि थिलां नेह धम त । प्र वीक्ष्य विदाहित म्

१

श्रूयतां नृपश दूल यदथ द पित पुर

व ि ना दापिता स तु तन्मे शृणु मह मते

२

जनके जनदेव तु कमा याध्य य च त नि

\* कृष्णा । द्वि शो । श । रे . . द्वि

२१] शान्तिपर्वणि ेक्षधर्मपर्व ११५९

सवभ मनु प्य भावेन िचच र स ३

यजन् दद था जु न् पाल न् धि िमाम्  
ध्य त विन्मह प्र ज्ञस् त मयत्वेन नि त ४

स त दि सङ्कल्प तुमै त् प्रभु  
सर्वले धिपस्तत्र द्विजरूपेण सयु ५

मिथिलाया महाबुद्धिर् यली कि िदाचरन्  
स गृह्णत द्विजश्रैर् नृपाय तिदि ६

अपराध समुद्देश्य रज प्रत्यभ षत ६  
:

न तं ि निक्षयाि थ न  
म रा य द्विनिर्गच्छ त् सा भु मम  
:

त छूत् णे गत्व राज त्यु च ८

।ह्यणः

रि ये वचन रजन् वदि म जनत  
का साम त भूमे तु ूहि म मम ९

त ूत् । मैथिलो रजा लज्जयऽ त नन  
नो च चन िप्र त्वबुद्ध्य समक्ष तत् १

पुन पुनश्च त िप्रज्ञ चेदय मास सत् रम् १



ब्राह्मणः

ॐ हे राजे द्र ग छ मि त राज्य द्विवासि ११  
:

नृपे विच यैवम् आह । णपुङ्गवम् ११

:

से मेऽयत्र सर्व व थिवा म  
ग तिष्ठ वा ह्यति मे निश्चिता मति १२  
भी :

इत्यु स थ तेन मैथिले द्विजेत्त  
वत्त महत्मान रजन मन् भिवृम् ३

:

पद्मनभस्य नित्य प पद हत  
अहे सिद्धर्थरूपेऽसि गमि ये स्ति तेऽतु वै १४।  
:

इत् क प्र य विप्रस् तज्जि सुद्विजोत्तमन्  
दह िना थिला भगवन् स्वयम् १५।

प्रद माना मिथि दृ रजान पि  
जै स परि श्रस्तु क्यमेतदुव च ह १६।

:

अन व ेत्त भ यमे नि किञ्चन  
मिथिलयं प्रदी यं न मे के न द ते १

२ १] शान्तिपर्वणि लोक्षधर्मपर्व १-१६१

भी

तद् भ षम णस्य श्रुत् श्रुत् हृदि ि तम्  
पुनस्स िवयामास मिथिल त द्विजोत्तम १८  
आत् न दशय म स वर च ै ददै पुन १९

:

धर्मे तिष्ठतु सद्गो बुद्धिस्तेऽथ रापि  
सत्ये तिष्ठस्व नि णस् स्ति तेऽस्तु ब्रज यहम् २

भी :

इत्युक्त भग िञ्चैन तत्रै रघाय  
एतत्ते थित रजन् भूयश्श्रेतुमि सि २१

इ ि भार शत खिकायां ि  
शान्ति ि एकाधि द्विशतत िऽध्याय' २  
८८ ि धर्मप ण ि िऽध्याय : ५३  
[ सि ि न्याये २ िोकाः ]

## द्वयधि द्वयय \*



धि ति ग ध्ये रि त ापि ष्य  
नि र्थसिद्धे ा या सु चला केतुपारु सु

युधि :

द्वि विभे सद रे नियतो गृहे  
अती सर्स रस् सर्वद्वन्द्ववि र्जे १  
मे ही मह प्र दुर्लभ पुरुषे हन् १

शृणु राजन् यथ वृत्त मं त्व नसि  
इ सिम द्व सस रभ भेषजम् २  
दे लो म प्रविस् सर्वश र्थकेविद  
य न् धार्मि ो नित्य दे ब्रा णपूजक ३  
ता सु चला नाम त ल्य णलक्षणा  
न तिह न शा नातिर्द र्घा यश ि न ४  
दन म प्र पित तस्य चि तयत् ५  
अ पति ते वेति ब्रा णश्चे त्रिय पर  
द्वन् विप्रो कुटु व प्रिय दा महातपा ६

\* ा द्वि शस्य ध शप ठु सा ि ध्य यो द्वि :

२ २] शान्तिपर्वणि ेक्ष्यमपर्व ११६३

इत्ये चि तयान र ह सुवर्चल ६

सुवर्च

अ ध ां ह दे ध य वै पित

एव र सद विद्वन् ममेद प्रार्थित मुने

प

शक्य प्रार्थि त्से त य ऽद्य प्रति ाति मे

अ ध ाऽन ध ा चेति िकारो म ज यते ८

उन्म े शुभ क्य भाषसे शुभले चने ९

नाहमु त्तभूत ऽ बुद्धिपूर्व व े

े ते चेत् पति दृक् समं भरि े वित् १

येऽ स्त्व से द तु म मिह नय त न् द्विजान्

ादृश त प तं ते रयिष्ये यथा थम् ११

भीष्म

तथेि चोक्त्व तां यम् ऋषिंश यानुव च ह ११

गान् वेद न् योनिगोत्र विशोधि ान्

वृत्त पितृतश्शुद्धञ् द्ध न चारतश् भ न् २

अरे गान् बुद्धिस पन्नाञ् शीलसत्त्वगुण वि न्

असङ्काणा गोत्रेषु वेद तसमि तान् १३

|               |                       |    |
|---------------|-----------------------|----|
| । णान्        | अशंसापितृसमिन्        | १४ |
| निष्ठमन्      | । मे दृष्टऽऽयतशिय     | १  |
| :             |                       |    |
| कृत्वा त्वरि  | त्रिशयाश्रमेषु तत     |    |
| च ते गत्      | । णेभ्यो यो दयन्      | १५ |
| षे भाव        | त्वते याया द्विजोत्तम |    |
| मुनयो रजन्स   | । दे लश्रमम्          | १६ |
| नु । यथ या    | तीन् मुनि मरान्       |    |
| अभ्यर्थं विधि | त् तत्र कन्यमहपि महन् | १  |
| एतेऽपि मुनयो  | त्से पुत्रै मत इ      |    |
| वेदवेदाङ्गस प | कुलीनाश्शिल ।         | १८ |
| मी तेषु रभे   | त्सि हात्रतम्         |    |
| र वृणी        | तै द । ह भे           | १९ |
| :             |                       |    |
| तथेति चोक्व   | लयण हेमनिभ द          |    |
| लक्षणस प      | क्यमाह यशनि           | २  |
| प्रिणं मिता   | णिपत्य पेधनन्         | २१ |
| यद्यं समितौ   | प्रे धे धस मे र       | २१ |

२ २] शान्तिपर्वणि ोक्षधर्मपव १६५

भीष्मः

- च्छ्रुत् मुनयस्तत्र क्षमणा परस्परम्  
नोचुर्प्रा मह भग या त वेदि म् २२
- त्सयित् मुनिं त्र नस मुनिसत्तमा  
यथ गत यु नानादेश निव सिन २३
- य च सस्थि तत्र पितृवेश नि भमिनी २४
- तत द चिद्द्र यो वि न् य य विशारद  
ऊह पोह ध नज्ञे चर्यसमन्वित २५
- ेद विद्वेद र ि कल्पि शारद  
अ त्ततत्त्वा भाग पितृ न् गु सागर २६
- श्वे े रिति रू ित श्रुत् वृत्तान् िदर त्  
क याथ देवल चापि शि त्रागते ऽभवत् २
- इ सुत दृ धेतकेतु मह तम्  
यथ न्य य च स पूज्य े ल त्यभ षत २८
- कये एष भ गे प्र प्तो ऋषिकुमारक  
रयै न ह प्र ज्ञ वेदवेद ज्ञप रगम् २९
- :
- च्छ्रुत् पि य ऋषिपु मुदैक्ष  
ता कन्यामाह विप्रर्षिस् से ऽहं भद्रे स गत ३

|   |      |
|---|------|
| अ धेऽहमत्र तत्त्व हि तथ म ये च सर्वदे   |      |
| िशाल यन विद्धि तथ म हा स यम्            | ३१   |
| वृण मां वरारहे भजे च त्वामनिदिते        | ३१ । |
| येद िक्षते िय णोति तेऽथ ।               |      |
| यते िक्त सतत येनेद स र्यते पुन          | ३२ । |
| येद म यते त्व ये बुध्यि व पुन           |      |
| न चक्षुर्घिते तत् स वै भूत ध च्यते      | ३    |
| यि न् प्र र्तते चेद पश्यञ्छ न् श पि     |      |
| जिघ्रश्च रस द् येन चक्षुषा              | ३    |
| मे ि ते धे वृणु भद्रेऽद्य म म           |      |
| लो दृष्ट्य रेमाह नित्यनैमित्तिकादिकम्   | ३५   |
| अ त्म ष्ठ्य च तत् सव विलि य मि च नित्यश |      |
| स्थितेऽह निर्भरश्श त कर्य रणभ न         | ३६   |
| ि य तरन् मृत्यु वि या त तथ ऽ म्         |      |
| यथ प्र तु स दृश्य वस मीह िमत्सर         | ३    |
| िते यवसित भद्रे भर्ताह ते वृणु ष्व म म् | ३८   |
| त सु चैल ह प्राह त द्विजसत्तमम्         | ३८   |
| म स ऽसि वृो विद्वञ् शेष त पिता म        |      |
| णा व पितर म म् एष वेदविधि म             | ३९   |

२२] शान्तिपर्वि मोक्षधर्मपत्र ११६

भी

द्वि पित देवलो मुसि म  
श्वेतकेतु च स पूय तथैव दाले तम् ४१

मुनीन प्रत यां प्रददा जलपूर्वम्  
दाहरि वै तत्र श्वेतु निरक्षय तम् १

:

८८ र कनिलयस् सर्वभूतात्मै र्  
श्वेतकेतु रूपेण िोऽ घुसूदन ४२

देव :

धो दे पी चय सुत म  
प्रतिपद मि ते यां सहधमचर भाम् ४३

इत्युक्त । प्रददौ तस्मै दे लो मुनि ङ्ग ४४

िगृ च तां कन्यां श्वेतकेतुर्महायश  
पय य यथ यम् अत्र कृत्वा यथाविधि ४५

सम य तन्त्र मुनिभिर वै हिकमनुत्त म्  
स ग ह ध्ये सन् धीमान् भय त दिमत्रवर्त् ४६

य नि चोक्त नि देषु तत् सर्व कुरु शोभने  
या सह यथा याय सहधर्चर मम ४७



अहमित्येव भागे स्थिते ह्ये तथै च  
तस्मत् णि श्च या च परम् ८

न मेति च भवेन ज्ञानिलयेन च  
अरं तथा र्यास् तनि माणि भसात् ४९

एव त्वय च य वेद दुर्भग मय  
यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरे जन ५

तस्य सिद्धयथ तं य च त्मसिद्धये  
ति :

उक्तवै स मह प्रज्ञस् सर्वाज्ञ नैकभ जन  
पुत्रानुत्पत्तं च यज्ञैस्स तर्प्य देवत ५१

अत्मयोगपरे नित्य निर्द्वन्द्वे नि परिग्रह  
भक्तस्य प्रप्य बुद्ध क्षेत्रज्ञयोरि ५२

लोमयमनुप्रप्तौ भार्यभर्ताथै च  
स क्षिभूतौ जगत्सि चरमाणौ मुदाऽपि ५३

तत दचिद्धर्तरश्चेतु चल  
पप्रच्छे भवनूहि तजिजेत्तम ५

महभन्वामि ते सशय ५५

जिजेत्तमेतमुक्तपुनमनुष्टसि ५५

२ २] शान्ति णि मोक्षधर्मपर्व ११६९.

|   |    |
|---|----|
| माह ह त्मन पृच ामि ६ दि श यिनम्<br>तच्छ्रु प्रत्यु चैनां स न वक्ष्यि भामिनि                             | ५६ |
| मगोत्रस यु म् आत्मन मन्यसे दि<br>थ्य गो सद्भु वर्तते देहव धनम्  | ५  |
| हिलेष भ ेऽत्र त्रि चापि सम हे<br>त्वमह मह स र्म अहमित्येव वर्तते  | ५८ |
| नत्र त् परम र्थ वै किमर्थमनुपृच सि<br>प्रहस्य स हृष्टा भर्त र धर्मच रिणा<br>च चन ले स्मयमाना द नृप<br>च | ५९ |
| मनेकप्र िरेण विरोधेन प्र ोजनम्<br>य लपैत्र र्थे ननष्टेऽसि सर्वद   | ५९ |
| न्मे ब्रूहि ह प्रज्ञ यथाऽह त्व मनु<br>तुः   | ६१ |
| यद्यद चरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जन<br>वर्तते ेन लो ोऽय सङ्कीर्णश्च भवे यति                             | ६२ |
| स र्च य धम वर्णस रमेति च<br>स रे च प्रवृत्ते तु मात्स्ये याय प्रवर्तते                                  | ६३ |
| तदनि हरेर्भद्रे ध तुरस्य महात्मन  |    |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| परमेश्वरसङ्घे । गो सृष्टिरिय भे | ६४ |
| यत् पां हिस्तात्ये भूय          |    |
| तत्यै मय तु तवत्येऽशय           | ६५ |
| एगरेयुक्तेयत्रे तद्भूमम्        |    |
| िराज्ञनसिनागत्सविद्वन्सचमेप्रिय | ६६ |
| सो ह्येव सौहृदिति स्यै          | ६  |
| ये मूर्ते दुरत् नो धर्मस रकर    |    |
| मयादभेद नीच नरके यतिज           | ६८ |
| अरयेनिप इति देनुशसनम्           | ६८ |
| भगल्यथलो रक्षियनसश              |    |
| मयर्दलो रक्षार्थम् एमस्मि तथित  | ६९ |
| सुवर्चला                        |    |
| शदोऽत्र इति ख्यतस्त्वं यथ च हने |    |
| अत्यापतये हिलक्षणेन थक् थक्     |    |
| यत्ययेन चर्णानां परिदते द्विय   |    |
| सशद इति वियेपतेऽर्थ उ           | ७१ |
| शाययेर्हि सवधस्त्वनयोर्निना     |    |

२ २] शान्तिपर्वाण मोक्षधर्मपर्व ११ १

त मे ब्रूहि यथ तत्त्व श दस्य नेऽर्थ ए चेत् २

श दार्थयोर्न चै स्ति स धेऽत्यन् एव हि  
पु रे च थ ते य थऽ ति च ेत्थ तत् ३

वर्चल

अर्थे ि तिर्हि श दस्य ना यथा च स्थिति ेत्  
ि ते चे मह प्रज्ञ ि नऽथ ू हि सत्तम

स ससगऽतिमन्न वाचकत्वेन र्तेते  
ि चेद्वर्ते नित्य ि रे रणेन वै ५

च

श द नोऽत्र श्लुक्तस् तथ र्थ इति मे त  
अथ ि थतो न तिष्ठे िरुढमिह भ ि तम् ६

केतुः

न विकूलोऽत्र कथितो न श हि ि न जगत्  
स ब स्तत्र नास्त्ये द्वदित्ये य म्

सुवर्च

सद ह िरश दे य यत्तम त्मनि संश्रित  
न चस्तत्र र्ते ते इ ि मिथ्या भवि यति ८

ः

अह श दो हभ ो न त्मभावे शुभ े

वर्त े परेऽचि ले वाच सगुणलक्षणा

९

सु

अह ग त्रै तश्श ।म भ नपि थैव च

त े ब्रूहि यथ य यम् एव चे मुनिसत्तम

;

मृ मये हि टे भावस् ता भा इहे ये

य भ परेऽचि ले त भ वो यथ च तत्

८१

अह त मेतदित्ये परे सङ्कल्पना मया

द्व चे न वत त इति नैव विरुध्यते

८२

त द्व मे न र्ते ते मनस भिरु सर्श

यथ ऽ क शगत िश्च स मि लक्ष ते

८३

ससर्गे ि स ब धत् तद्वि ।र भवि यति

अन शगत र्व वि रे च सद गतम्

८४

तद्व रम द्धम् अनैप य न शङ्कयते

न श्यते तथ त द्श्यते च तिम

८५

च

निर्वि ।र मूर्तिं च निरय सर्वग तथ

दृश्यते च विद्य ित्य ह त्म ते दृश्यते

८६

|   |    |
|---|----|
| ८ चा शति ॐ आयुम् आ शस्य पुन पुन<br>स्थ ग ध तथा घ्राति योति पश् ते च ष           | ८  |
| मे रश्मिगण ॐ मेघजाल तथै च<br>र्षं तर गण चै न क श दृश् ते पुन                    | ८८ |
| आक शस्य प्यथ काश सद्रूपमि निश्चितम्<br>तदर्थे कल्पित ते तत् सत्ये वि णुरेव च    | ८९ |
| य नि नामानि गौण नि पचारात् पर त्मनि   | ९  |
| न चक्षुष न मनस न च येन परो विभु<br>चि त्यते सूक्ष्मय बुद्ध्या चा वक्तु न शक्यते | ९१ |
| एतत् प्रप मखिल त् न् सव ति तम्<br>मह घ ेऽल्पक ॐ यथ म िं प्रति तै                | ९२ |
| च न पुमांश्चैव यै नपु<br>ले नम त्र तत् तस्मिन् सर्व तिष्ठितम्                   | ९  |
| भूमि ानयेगेन व तुसस्थानयेगत<br>रसभेद यथ तोये प्रकृत्यामात्मनस्तथा               | ९  |
| क स्मरणांि तृप्तिं रि पिबि<br>ति ह्य नमखिल तेन तत् सुखमेधते                     | ९५ |

## सुवर्चल

|  |     |
|--|-----|
| अनेन स ध्य । द्वै श देनेते मतिम          |     |
| ेदग रोऽचि त्य इति पौर ि िदु              | ९६  |
| निरर्थको थ लोके तद्वत् दिति मे मति       |     |
| निरीक्ष्य यथा य य वक्तु हंसि मेऽनघ       | ९   |
| ेदग य पर द्वम् इि सत्य पर श्रुि          |     |
| याहत्य नैतदित्य ह युपलिङ्गे च वर्ते      | ९८  |
| निरर्थे नै स्ति श दे लौि उत्तमे          | ९८  |
| अन वय थ श द िरथा इति ल किकै              |     |
| गृह्यन्ते तद्वदित्ये न र्ते परात्मनि     | ९९  |
| अगेचरत् चस यु मे तथ भे                   | १   |
| स धन ेपदेश पय च सूचनत्                   |     |
| उपलक्षणयोगेन य वृत्त्य च प्रदर्शनत्      | १ १ |
| वेदग य परश् द्व इति मे धीयते ति          | १ १ |
| अ यात्मध्य नस भूतम् अभूत (भूत?) त् फुटम् |     |
| ज्ञ न विद्धि भ च रे तेन याित परं गतिम्   | १ २ |
| यदि मे य हृत गु श्रुत न तु त्वया शुभे    |     |
| तथ्यमित्येव वा शुद्धे ज्ञ न ज्ञ नविलोचने | १ ३ |

२ २] न्तिपर्वणि क्षधर्मपव १ ५

नान रूप दै म् ऐश्वर्यं दृश्यते शुभे १ ४

न यु सूयस्त नाग्निस्तत्तत् पर पदम्  
अनेन पूर्णमेतद्धि यदि भूति हे ते १ ५

एत वद त्मवि तम् एत व दह मृतम्  
आवये च त्वे वै त द त्मबन्धनम् ६

^ :

ए च ६ष्टा प्रोक्त भर्त्र यथ र्थं त्  
परिचर्यमणा निश त्वबुद्धि मिव  
भर्त च नुप्रेक्ष्य नित्यनैमित्ति णि  
परम त्मनि गो दे दे ह त्मनि १ ८

स धय च र्मणि त मयतेन भ  
क लेन मह राजन् प्र ेति परमं गतिम् १ ९

एतत्ते कथित र जन् त् त्व परिपृच सि  
ग र्हस्थ्य च स गतौ ज य पता परम् ११

इति महाभारते सहास्रकाया । यासिक्य

शान्ति िकद्विंशत गोऽध्याय २२

८ गोक्ष पर्व चतुः गोऽध्यायः ५

[ ि ि गो . ]



## त्र्यधिकद्विशततमो ध्याय



मेघेण त्वाष्टरं त्रिदन्तलं धनपू

म्

युधिष्ठिरः

कुवर्न् स्वमते किं वर्न् दुःखमुते  
हिंर्न् निर्लोले सिद्धरतिभर १

दमेव प्रशसितं वृद्धाश्श्रुतिसमघय  
षमेनाह्वणस्येशेत २

नादातयि सिद्धिरयथ वदुपलभ्यते  
यपश्च वेदश्च दमेस प्रतिष्ठितम् ३

दमस्तेजे वर्धयति पवित्रं द उच्यते  
पमा निर्भये दातपुरुषो विदते महत् ४

सुदतप्रस्वपिति सुखं च प्रतिबुध्यते  
सुखलोपियति मनश्चस्य प्रसदति ५

तेजे दमेन ध्रिये न तत् तक्ष्णोऽधिगच्छति  
अमित्रां हून्निथगत्मनि पश्यति ६

यच्च इ भूतानम् अदा तेभ्य सदभयम्  
ेषं प्रिषेधथ रजसृष्टरं भुव

२३] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व १

|   |    |
|---|----|
| अश्रमेषु च सर्वेषु दम ए ि शिष्यते       |    |
| य तेषु फल धर्मे भूये द ते तु यते        | ८  |
| तेषां वक्ष्यामि लिङ्गानि येषा समुदयो दम |    |
| अ िर्प यमसर भस् सन्तोषश्च न             | ९  |
| अ िोध आर्ज नित्य नाति दे विम नित        |    |
| गुरुपूज ऽनसूय च दया भूते पै नम्         | १० |
| जन दस्तुतिर्नि द नार्ज च ि जिंतम्       |    |
| स धु िमश्च स्पृहय य िप्रत्यये नृ        | ११ |
| अवैरकृत् सूपच रस् समे नि द प्रशसयो      |    |
| सुवृत्तशालस प स् सुप्रस त्मव ज् चि      | १२ |
| प्रा लोके च सत् िर गै वै ल्य ग ि        | १२ |
| स िभूतहिते यु ि न यो द्विषते जनम्       |    |
| मह हृद इ क्षोभ्य प्र तृ प्रसि ि         | १३ |
| अभय सवभूतेभ्यस् षामभय यत                |    |
| नमस्य सर्वभूत नां द ते भ ति ित्व        | १४ |
| न प्रहृ ये महत्यथ से च न शे चति         |    |
| य िऽपरिभि प्र स् स द ि द्विज उ ये       | १५ |

दोष्ट िद तिनि द विव स् [ िगन् स् ]  
ग िदमधम्

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| र्मभिश्शुसि प स् द्विराचरि इ भै    |    |
| दै दमसयु स् भुङ् हत् फलम्          | १६ |
| अनसूय क्षम श तिसू स ते प्रिय ादि ा |    |
| १सर दनम यसे नै मर्गे दुर मनम्      | १  |
| का ोध लोभ परस्ये र्या ि त्थनम्     |    |
| द गो द ान नैष ग महात्मनम्          | १८ |
| क्रोधौ शे ा चार जे द्वय            |    |
| घरे तपसि ा ण सशित त                | १९ |
| लकाङ्क्ष चरेल्लो न् निरपाय इह ा न् | २  |
| ति ा ा ि ा ि ा ि                   |    |
| पवणि ा मो न्यायः २ ३               |    |
| ८८ गो णि गोऽ ः ५५                  |    |
| [ २ गोः ]                          |    |

## चतुरधिकद्विशततमो ध्याय



युधिष्ठिर प्रति तपउपव दिनिरूपणम्

युधिष्ठि

द्विज तये तोपेता य देद मुञ्जते हि

। णकामाय कथमेतत् पि मह

१

ति :

देक्त्र पेत भु न कामचारिण

वेदे क्तेषु च भु तयुक्ता युधिष्ठिर

२

हि

यदिद तप इत्याहुर उप स पृथग्जना

ए त्तपो मह राज हेऽन्यत् तपो भवेत्

भीष्म

सपक्षेप सेन न्यन्ते यत्तपो जन

आत्म ेपघ त स न तप त् सतां तम्

४

त्य ग स ि पि शि यते तप त्तमम्

सदेप ि च भेद् चरी स. भेत्

५

मुि त् सद विे दै त च सदा भवेत्

दुिबो ि परस् सदऽस्व भारत

६

ज्ञाश द च स्वत् प ी च द भेत्  
 १अमृ श सद च । च द्विषभोजन  
 ि घसर्श सद च त् द चै तिथि य  
 धेष्टिर

थ सदोपवा द् चारि कथ भेत्  
 ि घसार्श कथ । त् सद चै तिथिप्रिय ८  
 भी

अन्तरा प्र तर श च स यम श थै च  
 सदे स तु भेद् ये भुङ्क्ते दाचन ९

भ या गच्छन् च र ऋतौ भ ति ण  
 द स भ ति नौननित्यश्च े नर १

अभक्षयन् थ मा म् अमां शि भेत्तदा  
 दाननित्य पवित्र स्याद् अ श्व दि ८ पन् ११

त्यदि च ये भुङ्क्ते भुक्तवत्सु सद नर  
 अमृत केवल भुङ्क्ते इति विद्धि युधिष्ठिर १२

अभुक्त ८ नो विषमश्नाति वै द्विज  
 अदन्वा ये ऽतिथिभ्ये ऽ न भुङ्क्ते से ऽतिथिप्रिय १३

1. चतुष्टय रि .

3. भुक्त - स \* ^ : [पाठा म्]

२ ] शान्तपर्वणि मोक्षधर्मपर्व ११८१

अदत्त्व ऽ दै ेभ्यो यो न भुङ्क्ते दै म्

अभेजनेन तेन स्य जित गो भवत्युत १४

दे त भ्य पितृभ्य भृत्येभ्ये ऽतिथिभि सह

व ु तु योऽ ति तम ह्रुर्विघस शिनम् १५

ेषा लो पर्य तस् १ द े ण स२

पस्थि सरिभि परिय ित दिवौ स १६

दे भि े ाघ पितृभि ेपभु ते

रमन् े पुत्रपौत्रै तेषां गतिरनुत्तम १

इति ी र े शतसह ी ाया संदि सिक्क्यां

ानि पवणि तुरधि द्वि ऽभ्य : २

८ ी प द्पञ्चाशोऽध्यायः ५६

[ सि न्याये ाकाः ]

प धि द्वाशततमोऽध्याय \*  
—•—

गो युधि भगवत् रूपान्तरादात्तुदात्त

युधिरं

चिदाहुर्द्वि लोत्रेध रजनेध  
न प्रत्ययेन चान्यच्च दृश्यते नैव तु १

न न धनिशाणि क्तावथिध  
मधिष्ठायि मीहि पित मह २

भी :

युक्त हस्म प्रभिण  
तेते पि लो विद्वन् श्रपि ३

मज्ञा यथ रुचि तथ भवेत्  
अस्मि र्थे पुर भूतम् इतिह स पुरातनम् ४

ह वि दसयुक्तम् ऋषणां भवि त्स्मनम्  
हि त्पश्च अना य शित ता ५

णं तने सह ऋषाणां गणमहिम्  
त्रे चिद्धव श्व सैश्वर तु निरीश्वरम् ६

त कारण नास न मिद जगत्

चार्यमुद्रित गेश गे ठा य न्ये द्वि

२ ५] न्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व ११८३

अनेन चापरे ि प्रास् स्वभाव र्म चापरे

पौरुष कम दव च यत् भ दिरे म्  
नान हे शतैयुक्ता न न शा िका ८

स्वभव द्वाह्वण र जन् जिग षन्त पर परम्  
ततस्तु मूलमुद्भूत दिप्रत्यर्थिसयु म् ९

पत्रद विघ त च बल्कल जिनवाससाम्  
ए मन्युसम प स् ततश्शा त द्विजेत्तमा १

सि न् वे त्व ने ू हे सन तनम्  
नाह जाना ि विप्रेन्द्र प्रत्यु च स तन् मु ११

हे ि न रद ऋषिमत्र न्  
गे ू हे हाभाग तर ि भ नसि १२

ह द्विजा ि ज न ि हे गच्छाम सङ्ग  
इ ि नह भग त्स् त प्रह च स द्विज न् १३

द्विनिह लो ऽ ि मे होऽमृतमद्भुतम्  
श्रुवु क्य ण शर रिण १

सनद्ध म द्विजा गत् पृच ध्व स च वक्ष्यते १४

ह श्रिद् द्विज र्थ त्तमे  
को म्नि तवेदराशि १५



द्वि

- क त्व भानर्थविभेदमध्ये  
 न दृश्यसे व क्यमुर्द रयश्च १५  
 :  
 अथ हेद भग न् स त  
 ह मुने विद्धि मां पितोऽसि  
 ष राण स तैकरूप  
 यमक्षय वेद विदे वदित १६  
 न हेदमसौ हात्म  
 रूपसस्थ द अ ह पार्थ  
 त मेके स्मृषि ज्ञवाद्य  
 न सत् रूपमथ व पुन िम् १  
 अथ ह ग भिरतर तुवाद  
 क्य महात् शरार आदि  
 न मुने श्रोत्रमुखेऽपि च  
 न पदहस्तौ पदत्केन १८  
 न् मुन न् सत्यमथे निराक्ष  
 महिद्विन् मन निग य  
 ने थ क मिद षि  
 न चास्य त न चिद्यते चेत् १९

२ ५] शान्तिपर्वे णोक्षधर्मपर्वे ११८५

न श्रुत्वा तं प्रति क्व द्विजे मा  
निरक्षमाण आकाश प्रहसस्ततः २

अस्मिन्निमित्ते ते युष्मन्महागिरिम्  
सनत्तमारसं शंसगणमुनिसत्तम २१

परितसमारुददृशुध्यानमश्रिता  
मारदेवमर्हन्तं देवपाराविवर्जितम् २२

तस्यैतरे पूर्णे प्रकृतिस्थमहामुनिम्  
सनत्तमारुरजेद्रप्रणिपत्यद्विजस्थित २३

अगन् भगवानहाननिधूतकल्मष २४

कुमरः

ज्ञातव्यामुनिगणवक्त्र्यदशरारिण  
र्यमद्यथामहामुनिपुङ्गव २५

धमः

तमन्नुवन्सञ्जलये महामुनिं  
द्विजोत्तमज्ञाननिधिं सुनिर्मलम् २५

ऋः

थवयन्निधवरेय  
यक्ष्यमहेतिश्वरूपमार २६

सादने भगवन् नलेश

मधुप्रयताय सुखयस्ततः

यत्तत् पद विश्वरूप मह मुने

त्र ू हि ~ तत्र मह तुभ

२

स तैर्वियुक्ते भगान् हात्म

य सङ्ग न् सत्या ञ्णु

ने सह ले चै

स घ तु च भ ज्ञ सत्

२८

लु ।

यथ ऽऽह पू यु म सु शरर जिजेत्तम

तथै क तत् सत्यम् अजानत कीर्म्

२९

श्रु ष परम ारण स्ति थ ग ते अह यहनि  
पा ि शेषो दृश्यते तेन मिश्र व ि श्रयते यथ ल

शि स ष मस्ति निदर्श ि चक्षु मताम् अ ि ने

रूपम् पश ति यथ दपणा निदर्श म्

३

स एव सर्वं विद्वन् भेति न ग ि त्रह

न ह े न ेनेत्य त्म ने ि ज ाति

३१

स युगतो य प स थक् ि तदपर र्थ ३२

यथ युरे सन् बहुरे आश्र ि शेषे

य थ दिजे मृगे े च नुजे ेणुसश्रयो भि ते

।युरथै अत्म तथ सौ परमः स व य इ भ ति

एवमात्म स एव गच्छति स आत्म पश्यच्छृणोति न च  
ति भषते ३४

च ५ हत् न परिते दश रश्मय  
ने क्र यथ सूर्यम् अनुग न्ति त प्रभुम् ५

दिने दिनेऽ मभ्येति तरुद्रुच ते दिश  
त बुभौ न रशौ चास्तं चित्त शरीरि म् ३६

पि ६ विप्रे द्र भक्षणे चरणे पर  
ऊर्ध्वमे थऽ इ ए ष्टिति चापर ३७

हिर यसदन ७ मेल्य पर पदम्  
अत्मना आत्मदाप तम् आत् ने आत्मपूरु म् ३८

संति त संति त पूर्व भ्रमरे तते भ्रमम्  
योऽभिम नीव जानि न मु ति न हीयते ३९

न च ष पश्यति क नैन

दा मर्न ष पश्यति रूपम

न शुक्ल न ण परम र्थ

गुह शय नदे र म् ४

ण न स श्ये तते सोऽपि पुन  
इ ते तु मन्त्रेण जमाने द्विजोत्तम ४१

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| नै ध न चाधर्मी द्व द्वातीतो विमत्सर |    |
| नृ मुख शेते मृतात् न सशय            | ४२ |
| एवमेष जगत्सृष्टिं रुते माय प्रभु    |    |
| जानति विमूढत् रण चत्मने त्रौ        | ३  |
| व्यात श्रुथ म त वेद्ध हान्? स ए स   |    |
| ो द्विन् परमत्मानम् अन त लो भ नम्   | ४  |
| यत्त शक्य म ेक्त गच्छध्व मुनिपुङ्गव | ४  |
| ति :                                |    |
| ए प्रणय विे नसागरस भ म्             |    |
| सनत् म र स ज मुक्ते रुचिर पुन       | ४५ |
| तस्मत् पि न्तेय ज्ञा योगपरो भ       |    |
| ज्ञानेव हरज सर्दु खनि शनम्          | ६  |
| इदं ह दु समाकरणां                   |    |
| नृणां परित्राणविनिर्मित पुर         |    |
| रणपुस ऋषिणा हात्मना                 |    |
| मह मुन ना प्रवरेण तद्भुवम्          | ४  |
| इति भारते सहिय सताया यासि           |    |
| पि ाि द्वश ऽध्व : २५                |    |
| ८ ि ध प ि प ि य : ५                 |    |
| [ ि ाि २ िकाः ५ ा िनि               |    |

## षडाधकाद्वशततमो अध्याय \*



भी ० अधि प्रति तपश्शब्दस्य ० देन ० नार्थकत्वकथनपूर्व  
 ० ना ० अभि नम् ० ज्ञ ० तो ०  
 सुवर्च ० धनम् २

युधिधि :

यदिद तप २त्य हु ० तप स प्रकीर्तितम्  
 प समथा त ० द च रमथे नु किम् १

श पो ह । त मे ० हे पितामह १

भी :

पक्षम ० प स द न् म यन्ते वै तपोधन २

० द तर्द नि प अपरे ० दपारग

दपारायण च ये चाहु २ मथापरे ३

यथाविहि म च रस् तपस्सव त गता

अत् ० धि न यत् तप परिकीर्तितम् ४

त्य ग प थ श तिसू तप इन्द्रियनिग्रह

चय तप ० क्तम् आहुरेव द्विज तय ५

दोप ० ये विद्वन् च र सद भवेत् ५

|   |    |
|---|----|
| यो मुने सदा धमन् विघसाशी विमत्सर        |    |
| ततः न तम याहुर्ये नित्यमतिथिय           | ६  |
| न तर शीस्तते नित्यम् उपवास मह त         |    |
| ऋतुगामी तथ प्रेक्तो विघस श मृते बुधै    |    |
| भृत्यशेष तु यो भुङ्क्ते य शेष तथ ऽमृतम् |    |
| एव नानर्थसंयोग पशशश्वदुदाहृतम्          | ८  |
| केषां लो पर्य स स्व स ते स्थित          |    |
| ऽपि र्ममय प्राहुस् ते द्विज ाह्वण मृत   | ९  |
| रम ते दि यभोगै पूजित सरोगणै             | १  |
| ानात् पश द ये दति विनिश्चि ।            |    |
| ते तराऽऽत्मसद्भाव प्रप । नृपसत्तम       | १  |
| एतत्ते नृपश दूल प्रोक्त यत् प्रवानसि    |    |
| यथा तुनि स ानि विविध नि भ ल्युत         | १२ |
| घिष्टिरः                                |    |
| पित मह मह प्रा रजर्धन नृप पुन           |    |
| अ य नि च सह ाणि नाम नि विविध नि च       | १३ |
| प्रियेर्ग नि वै तेषां छ यस्तमित नि च    |    |
| दृढ सव प्रा त म् इद सर्वत्र पश्य वै     | १  |
| तस्म द्यथ गत र जन् यथ रुचि नृणां भवेत्  | १४ |

२६] शान्तिपणि ेक्षधर्मपर्व १९१

भी .

अर्थे रवृत्त शृणु राजन् युि र ५

ानां समूहे यदुाच वर्चला

दे ल सुता द्विन् वलक्षणशोभि १६

कन्य सु र्चल नाम योगभ वितचे न

हेतुना केन ज त स निद्व द्वा शय ? १

सऽ त् पि र विप्र रान्वेषण पर १

न्या

अन्ध य मा मह ज्ञ देहि क्ष्य सुलोचनम्

एव स्म च पितरशश्व मयेद .. मुने ८

ि ।

न क्यं र्थितु वत्से ऽद्य िभ ति मे

ऽन घता चेति विच रे मम जा ते १९

उन्मत्ते सुे क्य भाषसे थुलोचने २

नाहमु मत्तभूताऽद्य बुद्धिपूर्व मिे

विद्धि वै त दृश लोे म भजतिे दत्ति २१

यान् यांस्त ये दतु द्विजोत्तम निह

आनया यान् ह भ ग ह द्रक्ष्य मि तेषु तम् २२

भी :

तथेि चोक्त तां विप्र प्रेषय मास शि न्



- ऋषे प्रभा दृष्ट्वा ते च याश्च द्विजोत्त । २३  
 अकेमुनयो राजन् स प्रा देवल श्रमम् २
- नागतानथ भ्यर्च्य क या ह पिता मह न्  
 यदाच्छसि र भद्रे विप्र रय स्वयम् २४
- थेति चेक्त्व कल्य णी त हेमनिभान्त  
 कर भित्तमध्या । अक्रयमाह तपेधना २५  
 न्या
- स्ति स तो ि प्रे ह्यन्धोऽनन्ध स मे वर २६  
 भी .
- नेचुर्वि मह भ ग प्रतिवाक्य ययुश्च ते २६  
 न्य च तिष्ठतामत्र पितुर्वेश्मनि भरत २७
- श्वेत कहोलस्य याल परमधर्मि त्  
 श्रुत्वा ब्रह्मा तदाऽऽग य कन्याम ह महापते २८  
 केतः
- सोऽह भटे समावृत्तस् त्वयेको य पुर द्विज  
 विशालनयन विद्धि म मधोऽह वृर्ण व माम् २९  
 सुव
- थ विशालनेत्रोऽसि कथ वा त मलोचन  
 ू हे पश्च दह विद्वान् परीक्षे त्वां द्विजोत्तम ३

ॐ :

श दे पर्शे तथ रूपे रसे ग धे सहे कम्  
न मे प्रवर्तते चेतो न प्रत्यक्ष हि ते मे ३१

अलोचनोऽह तस्माद्धि न गतिर्विद्यते यत ३१

येन पश्यति सुश्रोणि भाषते शते पुन  
भु यते ायते नित्य शृणोति मनुते तथा ३२

क्षुर्विद्ये म येन पश्यति ॐ फुटम् ३३

सुलेचनोऽह भद्रे ॐ छ ाकं द ि ते  
स मस्मिन् न मे विद्य विद्वन् हि परम र्थत ३

भी :

स ॐ शुद्ध तते भूत् श्वे केतु महामुनिम्  
य पूजय म स तां भ ा स च धव न् ३५

वैरा सयुत कन्य त दृश पे ि त्त म्  
प्र रजन् मह प्र त ादर्थ थक् थक् ३६

ए त्ते थि राजन् ॐ भूयश्श्रोतुमि सि ३६

इति िमहाभार े सहास्रकाया संहिताय थारि

शान्ति र्वि द्वि िोऽः २

८ िो पवणि शोऽभ्यायः ५८

न्याये ३६ षो :]

## धकाद्वशततमोऽध्याय

भी मेण युधिष्ठि  
द्रप्र. ।दसवादानु ।दः

स्साधनं तोप दि पा-

युधिष्ठिरः

यदिद कम ेके स्मिञ् भ वा यदि ।ऽ भम्  
पुरुष योज ले फल ेगे भर

कता स्वित् त पुरुष उत्त हे नेति सशय  
एतदि ।मि र्वे श्रोतु त्तो द. मे

२

अत्रा युदाहरन् िम् इतिहास पुरातनम्  
प्रह्लादस्य च स दम् इन्द्र च युधिष्ठिर  
असक्त धूतप न लेज बहुश्रुतम्  
अ धमनहङ्कार सन्वस्थ सय रतम्

४

द तुा द शून्य गारस िम्  
चर चरण भूाना विदितप्रभव यम्

५

अक्रध्य तमन्तम् अप्रिये प्रिये च  
ने ऽथ ले उभयो स दर्श म्

६

|  |    |
|--|----|
| आत्ति श्रेयसि ने धार निश्चितनि यम्       |    |
| पर र भूतान सर्व सर्दर्शनम्               |    |
| भ भग त नित्य नर यणपर यणम्                |    |
| ध्यायन्त परमात् न हिर यकशिपे स्सुतम्     | ८  |
| श दमासानम् एकान्ते सयतीद्र म्            |    |
| बुभुत्सम त्रज्ञम् अभिग येदम व त्         | ९  |
| :  |    |
| यै त् स मतो लोके गुणै स्य त् पुरुषो नृषु |    |
| भ नपगान् सब स् न् गुणाँ क्षयामहे         | १  |
| अथ ते लक्ष्यते बुद्धिस् सम ब लजैरिह      |    |
| अत्ता म यमान सञ् ज्ञेय ि मेह म यसे       | ११ |
| बद्ध प शैश्र्यु स्थ नाद् द्वे िं शम गत   |    |
| श्रिया ि हान प्रहृ द शेचि ये न शेचसि     | १२ |
| ल भात्तु दैतेय उा हे धृतिमत्तय           |    |
| द स्थरूपेऽसि पश्यन् सनमात्मन             | १३ |
| इति स ेदितस्तेन धारे नि तनि य            |    |
| उ च श्लक्षणय िच स्वां प्र िमनुवर्णयन्    | १४ |
| ऋदः                                      |    |
| वृत्ति च निवृत्ति च भू ता यो न बुध ते    |    |

|   |    |
|---|----|
| तस्य स्त भवेद्भवेत् ॥ अस्ति ॥ अनुपश्यत      | १५ |
| भावत् स प्र र्त्ते नि ते थैव च              |    |
| सर्वे भव थ भव पुरुष र्थो न िद्यते           | १६ |
| पुरुषाथ चाभवे नस्ति चित् कारति              |    |
| य च तस्तस्य ज तु म नो भवेदेह                | १  |
| य कर्तारमात्म न मन्यते स ध्वस धु ।          |    |
| त दोषवती प्रज्ञा न तु प्रज्ञेति मे मति      | १८ |
| दि त् पुरुष कर्ता श त्मश्रेयसे ध्रुवम्      |    |
| आर भस्त से रन् न ज तु पर भेत्               | १९ |
| अनि स्य च नि र्त्तिर् अनि र्त्ति प्रियस्य च |    |
| क्षयते य मान न पुरु र्थ                     | २  |
| । नि र्वृत्तिम् इष्टनि र्वृत्ति च           |    |
| अप्रयेन पश्य मि केषा ि भ                    | २१ |
| तिरूप र चिद् दृश्यन्ते बु द्विमत्तमा        |    |
| विरूपेभ्ये ल्पबुद्धिभ्यो ले स धन ग म्       | २२ |
| भ वप्रेरि स ि विश ते यथ गुणान्              |    |
| भ भ त्र स्य ि म रणम्                        | २३ |
| भ दे ते सर्व इति ि नि ता मति                |    |
| त्सप्र ि प्र ित् पर न स्ति ि न्यथ           | २  |

|  |    |
|--|----|
| कमज ति ह मन्येऽह फलयोग भाशुभम्           |    |
| कर्मणां विषय कृत् म् अह वक्ष्य मे त छृणु | २५ |
| यथा वेदयते कश्चिद् ओऽन प यस दन्          |    |
| ए स णि कर्माणि स्वभ वस्यैव लक्षणम्       | २६ |
| विकारन् नै यो वेद न वेद प्र त परम्       |    |
| त मे भवेद्वाल्या िस्ति स्त भोऽनुपश्यत    | २  |
| स्व भ वितान् भ ान् सर्वानेवेह निश्चये    |    |
| बुद्ध न दपा मानो व किं रि यति            | २८ |
| ेद र्मविधिं तं भूत नां च यि तम्          |    |
| च शोच मे सव ेवेदमन् त्                   | २९ |
| र्ममे निरह रे निरीहे मुक्तव धन           |    |
| स्वस्थे यपेत पश्यामि भूत ना भ ं यौ       | ३  |
| कृ ङ्गस्य द वितृ स्य निर शिष             |    |
| न या े विद्यते तस्य पश्यतो लो ि द्या     | ३१ |
| च वि रे च न मे प्रीतिर्न च द्वि          |    |
| द्वे र च न पश ामि ये मम मायते            | ३२ |
| नेऽ न ाङ्गतिर्यक् च विच्छ कामये          |    |
| न हि ेये ि े न िने १ घतेऽ तरम्           | ३  |

नैष लभ्यते प्रज्ञ येन अतिर । यते  
प्रब्रूहि तमुप य मे स यक् प्रहृ द ते ३४

।दः

ज्वेन म देन स देन त्म त्तय

गुरुशुश्र श पुरु े लभे महत् ३५

भा लभते ां श े मेते भ

भ व दे त् स यत् े े दनुपश्यसि ३६

इत्यु े दैत्यपतिना श े े स्मयम ग त्

तिम तद रजस् तद्व क्र्य त्यपूज त्

त. १स देवे द्रस् त्रैलोक्यपरि र्श्वर

अ रे मुपाम य जग म स्व निवेशनम् ३८

ि े भरते सह ै ाय ि े ासिक्व

ि प ि ाधि द्विशततमोऽय : २

८८ ा ध णि ण्ण ानि ि ाध्यायः ५९

[ े े ३८ श्लो ाः ]

अष्टाधिकद्वि षड्याय

द्वि षडः द्वि नि लिन सम्प्रति वं अकः  
गोप १ : २

युधिष्ठिरः

यया बुद्ध मह पालो भ्रष्टश्रीर्चिरेन्महाम्  
कालद नि पिष्टस् न्मे ह्यि पि । ह १

भी

अत्र युदाहर ता म् इतिह स पुरातनम्  
स स्य च स िद वलेवैरोचनस्य च २

िता ह प ग प्रणिपत्य कृ ज्जलि  
स नैव सुरा ि त ाल प छ ा व ३

:

स्य दते ित्त न .च ह  
त बाल िधिगच्छामि ह्य चक्ष्व मे बलिम्  
स ए मयते स द्यो यते रवे  
च ते िणि यथा िलमति त ५

.. ब.ल न.धिग िमि िचक्ष्व मे बलिम्

1. द  
एव ये िदि गोते िदशः  
एव स्म ि दिशः [प रम्



- अयुर्वरुणश्चै स रवि स च च द्रमा ६  
 सैऽपि पति भूत नि स जल च भ ल्यु  
 त ब ल न धिग छामि त्र । चक्षु मे बलिम्  
  
 नै ते साधु मघवन् यदेनमतु छ सि  
 पृष्टस्तु न नृत यात् तस्म द्वक्ष्य मि ते बलिम् ८  
 श्रेषु यदि वा गोषु खरेषु श्व ।ऽनघ  
 वरिष्ठे भविता ज शू शून्याग रप्रतिश्रय ९  
  
 यदि लिन ज् शून्य ग रे समेयि न्  
 ह य मेन । हन्यां तद्र तुश धि माम् १  
  
 म स्म बलिं रीर् न बलिर्वधमर्हति  
 य यस्तु श प्रष्ट यस्त् या व स यय ११  
  
 ए मुक्ते भग ता हे द्र थि द  
 चचरैर त धम् अधिरु श्रिय वृत १२  
 त ददर्श स ब ल र्वेषेण स तम्  
 यथ रु त भग । शून्य गार त लयम् १३

|   |    |
|---|----|
| खर तेनि नु तु भक्षोऽसि द न                |    |
| इय े ेने रसम शोचनाहा न शोचसि              | १४ |
| अदृष्ट व पश् मि द्विष । वशम गतम्          |    |
| िया ेहन मित्रैश्च भ्रष्टैश्चर्यपर मम्     | १५ |
| न हस्यैः ज्ञातिभिः खिरित                  |    |
| लोकान् प्रापयन् सन् यस्यान्तिर्त्यन्      | १६ |
| त्वमुखैव देया यति वशसने                   |    |
| अकृष्टपय धि वैश्वर्ये भूव ह               | १  |
| इद च तेऽद्य यस्मिन् शोचस्याहो न शोचसि     | ७  |
| यदऽतिष्ठ समुद्रस्य पूर्वकूले िलेलिखन्     |    |
| ज्ञातिभ्यो विभजन् वित्त तदऽऽसात्ते मन थम् | १८ |
| यत्ते सहस्रसमिता ननृतुदवयोषित             |    |
| हूनि ष्षपूगानि विहारे दी यतश्श्रिया       | १९ |
| स पु करम ले यस्य सर्व का नसप्रभा          |    |
| थमद्य तद चै मनस्ते दानवेश्वर              | २  |
| त्र तदाऽ सत् सुमहत् सा णमपि भूषितम्       |    |

1 ग रध ो ो

2 ग धद् ना

3. न णिदम म्

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| यूपस्तदाऽसात् सुमन् यजत स । न       | २१ |
| नचतुर्यत्र गधर्वाषूषद्रसह णि स ध    | २२ |
| य ददास्सह णाम् अयुतानि गवं दश       |    |
| अन तर सह णेण तदाऽऽसीद्वैत्य मति     | २३ |
| यद तु पृथवा स । यजमानोऽनुपश्यथा     |    |
| श यक्षेणेण िधिन तदाऽऽसत् िनु ते ६दि | २४ |
| न ते पश्य मि भृङ्गर न यजन न च       |    |
| द च ते मला न पश्य यसुराधिप          | २५ |
| त प्रहस्य स बलिर्वसेन समारिम्       |    |
| निशानगम्भर रराजमथ वीत्              | २६ |
| अहे हि तव बलिश्यम् इह देवगण धि      |    |
| अयु दे राज मिद च                    | २  |
| न व क्ष्यसि ार न य न                |    |
| ब्रह्मदत्ता च ल न तु द्रक्ष्यसि     | २८ |
| गुहाय नहि नि त मर नि सि             |    |
| द भित लस् दा तानि द्रक्ष्यसे        | २९ |

1. चतुष्ट

2. धेद्वा ना

२ ८] न्तिपर्वणि ोक्षधर्मपर्व १२ ३

न त्वे दनुरूप ते यशसे स्य  
मृद्धर्थे ऽसमृद्धाथ मा स्थितुमहेसि ३  
न हे दु खे शे चन्ति न प्रे यि चर्द्धि  
कृतप्र ज्ञानतृ । क्ष तास्सन्ते नीषिण ३१  
त्व तु कृतय बुद्ध्या पुर दर विकथसे  
यथ ऽहैव भार्ध त्व द नै दि यसि ३२  
ऐश्वर्यमद हेन स त्व किं नानुबु से  
क लेन बुद्धसे र जन् विनिप तेन योजित ३३

इति ीमहाभारते शतसहस्रिकाय सति ियां वैयासिक्यां  
तिपर्वणि िधिकद्विंशत् िोऽध्यायः २ ८  
८ िो प ि ति िोऽध्यायः ६  
[ सि े ३३ प्रोकाः ]

## नवाधकाद्वशततमोऽऽया

भी धिं र स स्थापि ालनिया ेध्वर यन्यत ति-  
द शक्रबलिसंवादानु दः

भी :

पुनरे तु त श प्रहसि दम वीत्  
निश्चस त यथ ग<sup>१</sup>प्र याह र य भारत १

शक्रः

द्यद्यानसहैण तिभि परि रित  
ले न् प्रत पयन् स न् यास्यस्म न वशातयन् २

दृष्ट्व कृपणां चेम म् अवस्थाम त्मनो बले  
ज्ञ तिमित्रपरित्यक्तश शोच्येऽस्यादो न शोचसि ३

प्रातं प्रप्य लां पूव लोकंश्चा मवशे स्थितान्  
वेनिप तमिम च द्य शोचस्यादो न शोचसि ४

बलिः

अनित्यमुप लक्ष्येऽह कालपर्याय त्मन

तस्माच्छ न शोचाि वै ेद त् ५

वन्त इमे देह भूत नाममर धिप  
तेन श न शोचामि न पर दिद म ६

जीवित च शर र च त्य सह जायते  
भे सह ि धते भे सह ि नश्य

न हीदृशमि म भावम् अ श प्राप्य केवलम्  
सदैवमभिज ामि था मे ज नत ८

भू ा निधन नि े स ि स गर  
नै त् य ि जान तो नरा मु ति अघृत् ९

ये ते न भिजान ते रजोमेहपर यणा  
ते कृच्छ्र प्रा य सी न्ति बुद्धि प्रणश्यति १

बु ि लभ त्त रु सू र्व नुद ति ि ल्वषम्  
ि पा मा लभते सन् त्वस्थस्स प्रसीद ति ११

त तु ये नि तंते ज ते च पुन न  
पण परि ते तेऽ र्थैरभिचोदिता १२

थ ि द्वि थ च र्ज ि त रण थ  
दु ख फल चै न द्वैमि न च कामये १३

ह ह ति ह े े ो नरो हि न

1. तन ि ेद त् ि : ङ्ग]

- उभौ तौ न विजानाते यश्च हत हत य १४
- हत् जित च न्य ित् पुरुषयते  
अकर्त्तुं भर्त्तुं त्वेव रोति तत् १५
- हे हिलोस्य रुते निशप्रभुभौ  
त हि त् तेनैव तं स्यपि च पर १६
- पृथिक् युरकाशम् अपो योति प मम्  
एतोर्न निभूनि तत्र क परिदे न १
- ह विदुः सपविद्य बलवान् दुर्बलश्च य  
दशनीये विरूप सुभगे दुर्भगश्च य १८
- सवत्सल समदत्ते गभारतेन तेजस  
तन् लशप्रैः । यथ मे विजित १९
- जधमे नुभूतिमतमेवानुमयते  
नाश्यते नष्टमेवाग्रे लय लभते नर २
- नास्य द्वाप त पार न पार स प्रदृश्यते  
न तमस्य प्रपश्या विधेद चित्तम् २१
- यदि मे पश्यत कले भूतनि न नश्येत्

|  |    |
|--|----|
| स्य मे हष दर्प ेध च पते                | २२ |
| तुषभक्ष दि । त्व प्रि विक्तजने गृहे    |    |
| भ्रत गार्दभ रूपम् आगम् परिगर्हसि       | २  |
| इच्च ह ि या हे रूप णि बहुधऽऽ न         |    |
| िभीषणानि यानीक्ष्य पलायेथ स्त्वमे      | २४ |
| लस्त्व सम दत्ते काल स प्रय छति         |    |
| कालेन विधृत सव थाशशक्र पौरुषम्         | २५ |
| पुर सर्वे प्रद्रव ते ि क्रुद्धे पुर दर |    |
| अवैमि त्वस्य लोकस्य धर्म शक्र सन नम्   | २६ |
| त्व ये मेक्ष मऽऽत् न ि य गम            | २६ |
| भ श्र प्रभ ामसस्य द चन                 | २  |
| ामारमेव ते चित्त तथै यथ पुर            |    |
| वेक्ष मघवन् बुद्ध वे द नष्टि िम्       | २८ |
| देवा नु य पितरो गन्धर्वो रगर क्षसा     |    |
| अ सन् र्वे म वशे त् ेथ स               | २९ |
| नम स्यै दिश यै तु ि वैरोचनो बलि        |    |
| इति म मभ्यन द त बुद्धिम त्सर्यमेहिता   | ३  |
| ह तदनुशे चामि न त्मभ्रश शचापते         |    |



|  |    |
|--|----|
| एव मे निश्चि बुद्धि विधेस्तिष्ठ यह वशे | ३१ |
| दृश ते हि कुले ज े दर्शनाय प्रत पवान्  |    |
| दु ज न् सह मात्यर् भति य हि तत् थ      | ३२ |
| दौ ले थ मू े दुर्ज शश श्यते            |    |
| ख र्ज न् सह मात्यो भवित य हि तत् त ।   | ३३ |
| कल्याण रूपासम्प । दुभग श दृश्यते       |    |
| अलक्षण ीरूप च भग शक्र श्यते            | ३४ |
| द श नै छ तम्                           |    |
| त् ८ मे ग े जिन् यच्च प्येव ग । वयम्   | ३५ |
| न म नान्येषा कुते मम श ते              |    |
| ऋद्धिर थ ऽनृद्धि पर्यायगतमे तत्        | ३६ |
| पश्यामि त्वां ि राज त दे राज स्थितम्   |    |
| श्र द्युतिम त च गर्जन्त च ममोपरि       | ३७ |
| ए चै चेत् कालो माम क्रम्यास्थितो भवेत् |    |
| प तयेय ह ८ ऽ सवज्रमपि मुष्टि ।         | ३८ |
| तु िक्रम लेऽय क्षम क लो यमागत          |    |
| कालस्थापयते स े क ल पच ै वै था         | ३९ |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| म चेदभ्य गत लो दानेश्वरमूर्जितम्      |    |
| गजन्त तपन्त च मय न गति                |    |
| द्वादशानां भवतम् अदित्यानां हात्मनाम् |    |
| जांस्येकेन सर्वे देवराज घृतनिमे       | १  |
| अहमेवोद्वह यपो विसृजामि च स           |    |
| तपामि चव त्रैलोक्ये म्यहो च           | २  |
| सरक्षामि विमुमि ददाम्यह थाददे         |    |
| सच्छमि नियच्छलेषु भुराश्वर            | ४३ |
| तदद्य नि त्तुत्व मर धिप               |    |
| कालसैय गाढस्य सर्वं न तिति मे         | ४  |
| नहर्तं न च नान्य शच पते               |    |
| पर्यये हि भुज्यन्ते लेशशक्र यदृच या   | ५  |
| मंसध सैशम नम् अहेरत्र भिवृम्          |    |
| ऋतुद्वार युमुख अहुर्वेदविदे           | ४६ |
| आहुसमिदचित्य जना केचिन्मनीषि          |    |
| अस्यापचिन्तया पर्येयणि चप             |    |
| गम्भीर गहन महत्तोयथ                   |    |
| अनादिनिधन प्रहुर अर परमे च            | ८  |

|  |    |
|--|----|
| सन्वे लिङ्गमद्यम् अलिङ्गमपि त् यम्<br>ते ध्रुवमेन ये जन स्तर दर्शि | ४९ |
| यि यणि सर्वाणि न नुपश्यति प धा<br>भिज न हि य सर्भिद वशे            | ५  |
| भूतानां पिर्यस य ते गतिनिश्चयात्<br>ह्ये द्र न स्य प्रकृते न       | ५१ |
| गत हि सर्भूतानम् अगत गमि यसि<br>यो ध न हात यस् तिष्ठ पि हीये       | ५२ |
| आहुश्चै चिद चिद हु प तम्<br>तून् सर्धम दिवसां क्षण था              | ५३ |
| पूर्वा परा च मध्या मपि च परे<br>मुहूर्त पि चै हुर ए नेकध           | ५४ |
| बहूना सह णि स नि स<br>ल पप थै त्व शर्च पते                         | ५५ |
| त्वा वि श देवरज बलोत् म्   |    |

२ ९] शान्णि मोक्षधर्मपर्व २११

प्राप्ते लो ह वीर्य काल सशमयिष्या ५६

य इदं दत्ते तच्छक्रस्थिरे भ  
मया तय च पूव न स शक्येऽतिरिति ५

मेऽं प्राय जानाषे रा श्रियमनुत्तमम्  
स्थिता मयति मथ नैषऽयेकत्र तिष्ठति ५८

स्थिता ह सहेषु तद्विशिष्टमेयम्  
च लोलपरित्यक्तव गाद्विबुधाधिप ५९

श पुनर्षीशशातो भवितुहसि  
तमयेव गत हित्वा क्षिय गमि यति ६

ति तिमहाभारतस्य अष्टादशोऽध्यायः

शान्तिः १०० अक्षरानि २९

मोक्षधर्मस्य अष्टादशोऽध्यायः

[ १०० अक्षरानि ]

## दशाधकाद्र े ध्याय



बलिशरं । गच्छ । शि नि । र शि  
 पूर्वं । नचतु रणम् द्रबा वाद  
 श्रीसन्निधानम् ३

भी :

ऋतुर पश्यद् बलेदा । ह त्म  
 पि रीराद्धि ि मन्त त शिश्र म् १

। दा भग न्  
 ि योत् नय गो बाल पप्रच्च २

ले षे प त रेच शिखि नी  
 त् ि ि सेयूर दा य स

लिः

न ह मा र ि दै च न नुषम्  
 त मे छ यथेष्ट

का त् बरप । रेचमान शि ि न  
 अज गो माचक्ष न मधेय चि ते ५

1. नाहि

२१ ] शान्तपवाण ेक्षधर्मपर्व १२ ३

नु रि सि ाये द प्यमान े स  
हिः दत्येश्वर भ्र तन्मम चक्ष पृच त ६

श्रीः

न । विरोचने वेद न य ैरेचनो लि  
आहुर्मा दुस्सहेत्येव विः ेति च मा विदु  
भूि लक्ष्म ति माम हु श्र रित्येव च । त  
८ मा श न ज न षे सव देव मां ेदु ८

:

ि दि त्व मम कृते उत हे लिन ते  
दु सहे े जहास्येनं चिरसवासि । सर्त ९

। विधात विदधाि

ले पर्गामे ै श ावमन्यथ

कथ ८ या परित्यक्त े थ शि े े  
थ च मा न ज त्व े ब्रूहि चिस्मि ११

।

सत्ये े ऽस्मिं दाने च ते तपसि चै हि  
पर मे च मे च पर च न तो लि १२

1.

द

- योऽयं पुरं भूत्वा सत्यं दत्तं जितेन्द्रि  
 अग्निं च ह्यणन् वै पसितः शद्रतम् १३
- ज्ञशं लं पुरं भूत्वा मामेव यजते यम्  
 ततः प्रहाय मूलात्मकलेनोपनिषितम् १४
- अपः तदशं त्वयि वत्स्यमिव स  
 अत्ते धर्याऽपि पाविमेण च १५
- :
- देवमनुये सर्वभूतेषु वमन्  
 स्वामे गोषहितुयात् मलाले १६
- :
- देवे न गन्धर्वो न सुरो न च रक्षसः  
 यो मंगेषहितुः पुरं दर १
- :
- तिष्ठेथा ये नित्यं यथा तद्रूहि मे शुभे  
 तत् रियाते इत्यनानृतकुमर्हसि १८
- :
- मि नित्यं द्रयथ यि निबोध तत्  
 विधिं ददृष्टेन चतुर्धा भजस्व माम् १९

1

भ्यस्यन् ब्रह्मणन् उच्छासृशब्दम्

2.

[ रम् ]

२१ ] शान्तिपर्वणि ेक्षधर्म व १२१५

:

अह वै ा निधा ि यथाशक्ति थ लम्  
तु मे ि मस्याद्वै था लक्ष्म ण्ति २

भूरिषा मनुष्ये धरिणं सर्भ ि ा  
े पाद तितिक्षेत स र्थ ह ति मे मति २१

श्री

एष मे ि हित प दे येऽय भूमौ प्रतिष्ठि  
द्वित य श प द मे स्म त् सुनिहित रु २२

:

प ए मनु येषु द्रवन्ति परिध रणे  
ास्ते पाद तितिक्ष ताम् अलमाप ि क्षितुम् २३  
ति

एष मे निहि प दे येऽयम सु प्रिष्ठित  
तृती श प द मे त् सुनिहित रु २

:

यस्मिन् ज्ञा ेद ि न् दे ा प्रिष्ठि  
तृत प दमि े सुधृत धारयि यति २५  
तिः

एष मे निहित प दे ेऽय ै प्रिष्ठित  
चतुथ श प द मे स्म त् सुनिहित रु २६

1. धेद्वय ि



- ये ो नु ये ह्यण्य सत्य दि  
 ते े प द तातक्षन्ताम् अल स त् तिक्षि म् २
- ए े निहे पा े योऽय सत्सु प्रतिष्ठि  
 ए निहितां श भूरे परिघत् म् २८
- भू न मिह ै यस्त ा म िनिहित म्  
 उपह यात् स मे द्वेष्यस् थ शृण च २९
- भो  
 त ल्यक्तश्चि रज दत्य ना बलिर ैत् २९
- बहिः  
 या त् र त् पेत् द्वै दक्षिणा देशम्  
 पिमं दे पि थोदाच दि र ३
- तथ मध्यादिने सूर्ये न स्तमेति यदा तद  
 पुनदव र युद्ध भ े जे ऽि ै तद ३१
- स ो कान् द ऽऽदित्ये ष्य पथि ै  
 तद दे रे युद्धे जे ा त ६ह शत तो २

स्मि सम दिो ह त यो भ नि

|      |              |                                |    |
|------|--------------|--------------------------------|----|
| २१ ] | शान्तिपर्वणि | क्षधर्मपव                      | २१ |
|      | ऽह बले       | अ न मु ामि मूधनि               | ३३ |
|      | थेष्ट गच्छ   | दैत्ये द्र स्ति ऽ तु महासुर    | ३४ |
|      | आदित्यो न    | ि तपित कदाचि ः तस्थित          |    |
|      | स्थिते       | समय पूर्वमेव यम्मु             | ३५ |
|      | अज पय त्य    | स् तेजस प्र पन् प्रजा          | ३५ |
|      | अयन          | मास उत्तर दक्षिण थ             |    |
|      | तेन य        | ति लेकेषु शीतोष्णे ि सृजन् रवि | ३६ |

:

|                   |                             |    |
|-------------------|-----------------------------|----|
| ए मुक्तस्तु       | दैत्ये द्रो बलिरि द्रेण भरत |    |
| जग                | दक्षिण मशाम् दाच तु पुर दर  | ३  |
| इत्येतद्व         | लिन ग तम् अनहङ्कारस ज्ञितम् |    |
| । य श्रत्व सह क्ष | मे रुरुहे द                 | ३८ |

इति ि भारे शतसह काय ताय ि  
 ि र्वणि दश ि द्विशततमोऽः २  
 मे णि द्विषा िोऽभ्य ६२  
 [- स्मि न्याये २८ िः]

## ए दशाधिकद्विशत ेऽभ्य

धिष्ठि ि पदिशा गपू भगवदनुचिन् दि  
न ि न ि वादानु ा

- अत्रैवोद हर तामम् इतिहास पुर तनम्  
शत तो स द नमुचे युधि र १
- श्रिय विहनम ानम् अक्षोभ्यमिव सगरम्  
भव भूत नम् इत्युव च र दर २
- वद्ध पाशैश्च्युतर नद् द्विष ां मगत  
श्रिया विहने नमुचे शोचस्य हो न शेचसि ३
- न तिः
- अन य च शे न शरीर चोपश्रु ति  
अमित्रश्च प्रह यति नास्ति शो सहायता ४
- स्म छ न शोचा ि सव वेदम त त् ४
- स त पाद्भ्यते रूप धर् श्रै सुरेश्वर  
िनीय लु मु गत मन म् ५
- ध्यात य मनसा ६ ण वै विज न ६

यथा यथ हे पुरुष ल्याणे रुते मन  
तथव प्रसिध्याति सार्थं तत्र सशय

एकशशास्ता न द्विर्तयेऽऽशा ।

गभ शय न पुरु शाऽि शास्ता

नानुशिष्ट ण दिवोद

था युक्तेऽस्मि तथ भ मि

८

भ भाव भिजानन् गर यो

जानामि श्रेयो ननु तत् रोऽि

<sup>१</sup>अशं सुध र्यां सुहृद र्वन्

यथ नियुक्तेऽस्मि तथ भ मि

९

यथा यास्य प्रप्त य प्र लेव तथ तथ

भवित य यथा यच्च भवत्येव था तथ

१

यत्र यत्रै सयुक्तो ध । गर्भे पुन पुन

तत्र तत्रै सति न तत्र यमिच्छति

११

भा े योऽयमनुप्रा े भवित यमिद मया

इति य सद भ े न स शचेत् दाचन

१२

पर्यायैर्ह यम नानाम् अभिषङ्गो न विद्यते

दु खमेतत्तु यद्दे कताऽहमि म यते

१३

ऋषा दे मह सुरा  
 त्रैद्युद्धाश्च मह मुन  
 नापदो नाभिभ त्ति लोके  
 पर वर स्तु न सम्भ्रमि ४

न पति त ह्यति नभिष यते  
 चपि दानि न ह्यि  
 न चार्थकृच्छ्र यसनेषु शे  
 स्थित प्र त्य हिम नि त्च १५

यमर्थसिद्धि परमा न हर्षयेत्  
 थै काले सन न मे हयेत्  
 ख च दु ख च तथै मध म  
 षेवते य स धुरन्धरो नर १६

यो य म ि पुरुषे ऽधिग छेत्  
 स्यां रमेत परित यमान  
 प्रवृद्ध णुदन् मनोज  
 स िपमाया र शर रात् १७

त्सद रिषद सभ सदस्  
 स प्र . योऽनु कुरुते सद भयम्

२११] शान्तिपर्वणि लोक्षधर्मपर्व २२१

द्धर्म त्वमवगा बुद्धिमन्  
ये भ्युपैति स धुर धरे नर १८

प्र ाय कर्मणि दुरत्ययानि  
न वै प्राज्ञे मु ति हे ले  
स्थान च्युतश्च न मुमोह ग तमस्  
त् छा पद प्राप्य वृद्ध १९

न शौर्येण न ियण प्र य पैरुषेण वा  
भ्य लभते मर्त्यस् त परिदे न २

यदेव मम ज तस्य धातारो विदधु पुरा  
तदेव नुभवि यामि मृत्यु ि नु करि यति २१

ध य येव लभते ग त य ये ग छति  
प्र येव प्राप्नोति दु ख नि च सुख ि च २२

एतद्विदि । क र्येन यो न मु ति म नव  
शलस्सुखदु खेषु स वै सर्वसुखा नर २

इति श्रीमहाभारते ि द्विताया वैयासिक्या

ति प णि एकादश धि द्वि िोऽध्याय २

८८ पर्वणि लिषा िोऽध्यायः ६३

[ ि न्य २३ िोकाः ]

## द्वादशाधिकद्विशततमो ध्याय

भीष्मे धिर्प्रति प्रति पदि । धन । तिपाद  
लिशक्रसंवादानुवादः

युधिष्ठिरः

मग्न यसने कृच्छ्रे किं श्रेय पुरु स्य ह  
बन्धुनाशे महीपाल र यनाशेऽपि व पुन १

त्व ह न परे क्ता लोकेऽस्मिन् भरतर्षभ  
एतद्भव त पृच्छामि त मे त वक्तमर्हसि २

भी :

पुत्रद रस्सुखैश्च व वियुक्तस्य धनेन च  
मग्नस्य यसने कृच्छ्रे धृतिश्श्रेय कर नृप ३

धैर्येण युक्तस्य सत शरीर न विशीर्यते  
अ रोग्य त्त शशरस्य स पुनर्वि दे श्रि म् ४

य प्राज्ञे नर त स त्विक त्तिमास्थित  
तस्य स्थैर्य च धैर्य च य स यश्च र्मसु ५

अत्रै दे हरन्तामम् इतिहास पुरातनम्  
ले ास स ाद पुनरेव युधि र ६

|  |    |
|--|----|
| वृ दे सुरे युद्धे दत्यद नवसङ्क्षये       |    |
| वि णुक्क े लोके देवर जे क्रतौ            |    |
| इत् ने देवेषु च तुर्वर्ण्ये य स्थिते     |    |
| समृध् ने त्रै क्रये प्र तियुक्ते यम्भुवि | ८  |
| रुद्रै सुभिरादित्यर् श्विभ्य पि चर्षिभि  |    |
| गन्धर्भुजगै सद्दैर् दि यै यै त प्रभु     | ९  |
| चतुद त दा त च ारणे श्रिय तम्             |    |
| अ रु र त श स् त्रैलोक्यमनुसययौ           | १  |
| स द चित् समुद्र ते श्चिद्रिगिरे          |    |
| व ल रे च र्ज ददशापस र्प च                | ११ |
| मैर वतमूर्ध प्रेक्ष्य देवगणैर्वृतम्      |    |
| सुरे द्रमपि दत्ये द्रे न शे च न वि यथे   | २  |
| दृ तमि र ि त निर्भय लिम्                 |    |
| अ रू े द्विपश्रे म् इत्यु ाच श क्रतु     | १३ |
| :  |    |
| दैत्य न यथसे शै र्याद् अथ ा वृद्धसे या   |    |
| तपस भा वितत् ा सर्वथैतत् सुदु रम्        | १४ |
| शत्रुभि शम न तो हानस्स्थान दनुत्त ात्    |    |



वैरे चने िम श्रित्य शोचित ये न शोचसि १५

श्रै च य जतीनां भुक्त । भोग ननुत्तमान्  
बलरा स्त्व ब्रूहि कस्म शोचसि १६

ईश्वरो हि पुर भूत्वा पितृपै ामहे पदे  
तत् मद्य हत द्वा सपै किं न शोचसि १

बद्धश्च रुणै पशैर् ज्ञेण च समाहृत  
हृदरे ह धे ब्रूहि कस्म शोचसि १८

ष्टश्रा भवभ्रये यो चसि दु रम्  
त्रैलोक्यरा यनाशे हि केऽये जीवितुमुत्सहेत् १९

भी :

एतच्चा यच्च परुष ब्रव त परिभूय तम्  
श्रुत्व म भ्र ते बलिवैरे चनेऽब्रवीत् २

बलिः

निगृह ते मयि भृश श ि कथनेन ते  
मु य तिष्ठ त पश्यामि त्वां पुरन्दर २१

शक्त पूर्वमासा त्व कथि च्छक्तत गत  
कस्त द य इम वाच सु रान् क्तुमर्हति २२

यस शत्रे र्वध तु शक्तेऽपि स्ते दयाम्

1. ग शस्य

२१२] शान्तिपर्वणि षोडशोऽध्यायः २२५

ह प्रा स्य रस्य मे पुरुष िदु २३

अनिश्चये हे युद्धे द्वे विं दम नयो

एक प्र गेति विजयम् एकश्चैव पर जयम् २४

च ते भूत् भा िऽ ये िनवपुङ्गवे

इश्वरे सर्वभूतानां िक्रमेण जिते छल त् २५

नैतदस्मत्कृत श नैतच्छ त्वया तम्

यत् त्वमेव गते िन् यद्वाऽ येव गता म् २६

अह िस यथाऽ त्व भवित त यथा यम्

मऽ म मय र्म दु कृत त्त्यु २

सुखदु खे हे पुरुष पर्यायेण धिगच्च ति

पर्यायेण सि श त्वं प्र शश न कर्मण २८

क लो नयति मा तं च ल काले नयत्य

न ह च यथ ऽद्य त्व त च िर यथा यम् २९

न म तृपितृशुश्रूषा न च दै तपूजनम्

न यो गुणसम चार पुरुषस्य सुख वह ३

न विद्य न तपो न न मित्राणि बान्ध ि

शु ित परित्र तु नर लेन र्पि म् ३१

1. ग न त थ ि त पि न था म्  
े ि थ ि त पि न य म्

[पाठांतरम्]

|  |    |
|--|----|
| गामिनमनथ हि प्रतिघ शतरपि                 |    |
| श वित प्रति ेत्तुम् ऋते बुद्धि ल र       | ३२ |
| पर्ययैर्ह यमानानां परित्रात न विद्यते    |    |
| इद हि दु ख य छ कर्तऽहमि म यसे            | ३३ |
| दि १स्यात् रुष र्त न ेयेत दाचन           |    |
| यस्मात्त ेयेते े त् र्ता न हीश्वर        | ३४ |
| लेन ८ ऽहमजय लेन ह जित ८ य                |    |
| ग गतिमत ल ल का यति ज                     | ३५ |
| इ प्र य बुद्ध्य प्रलपन् नावबुद्ध्यसे     |    |
| केचित् ८ ां बहुमन्य ते श्रैष्ठ्य प्र र्म | ३६ |
| थ द्विधो न म जा ००० वृत्तिज न्           |    |
| कालेन ४ हतश्शोचे मु ेद्वाऽयर्थ भ्रमे     | ३  |
| थ लपरं मद्विध                            |    |
| बुि र्यसन सद्य भि नैरे सादति             | ३८ |
| ह च त्व च ये च ये भवि यति सुर धिप        |    |
| ते ० श यस्यि मर्गि शैर्गतम्              | ३९ |
| ये दुर्ष ल त परय श्रिय                   |    |

—क ि भवेत्

३. नर धि

२१२] शान्तिपर्व मोक्षधमपव १२२

|   |    |
|---|----|
| काले प रणते काल ये ति मे  | ४  |
| बहूनी द्र हस्त्राणि दैतेय नां युगे युगे<br>अभ्यतानि लेनाले हि दुरति                   | ४१ |
| इद तु ध्व नम् आत न बहु म यसे<br>भूतभव देव ब्रह्माणमिव श श्वतम्                        | २  |
| न चेदमचल स्थ नम् अन त ऽपि चित्<br>त्व तु ब शय बुद्ध्य ममे मिते म यसे                  | ४३ |
| अश्च े विश्वसिषि म यसे ऽध्रुवे ध्रुवम्<br>नित्य कालपरातात्म भवत्ये सुरेश्वर           | ४  |
| मेयमि मोह त् र यश्रियमभी ससि<br>ने तव न चास्मा न च येष स्थिर म                        | ४५ |
| ि य बहून यांस् त यि त वदिय स्थिता   | ५  |
| त् ालमिय स्थित्वा त्वयि सव चञ्चला<br>जर्ण समि तेत्सृज्य पुनरन्य गमिष्या               | ४६ |
| सुरेश ये त् तिक्र त स् तान् न सङ्घ्य तुमुत्सहे<br>त्वत्ते बहुतरश्चा ये भि यति पुरन्दर | ४  |
| स क्षै षधिगुल्मेय ससरि र्द्विरिक नन<br>निदान पश्य मि यैर्मुक्तेय पुरा २               | ४८ |

|  |    |
|--|----|
| धुर्वलो यो भौ गो नर इशम्बरस्तथा<br>अश्वघ्राव पुलोम च भानुरमितप्रभ  | ४९ |
| प्रहो न चिर्दक्षो विप्रचित्तिर्विरेचन                              |    |
| निषेध होत्र भूरिह पु पव न् वृष<br>सत्ये ऋषभे राहु कपिलाश्वो विरूपक | ५  |
| वण रो वहिर् श्वदष्ट्रोऽथ नैर्ऋ                                     | ५१ |
| द्वेष्टे हरिद्र भे वार होऽश्वरुचि प्रभु                            | ५२ |
| विश्व जत् प्रतिशौरि वृषाश्वो वृषरो मधु                             |    |
| हिर य शिपुश्चै कैटभश्चै द व  | ५३ |
| दैत्य लो हे सव ते नैर्ऋ स  |    |
| एते च ये च बहव पूर् पूर्वतरश्च ये                                  | ५  |
| दैत्ये द्र दने यांश्चा य ननुशुश्रुम                                |    |
| व पूर् दैत्ये द्रास् स त्यज्य पृथि गत                              | ५५ |

1. पृ ल्वलं

2 भूि न् प्रभुः

3. क भृत्योद्भु गोहर त्वो

सुक त्मु धै परी रागे नृ : प्रभुः

[ त् म्

4 प गोि रो धुः िा िर धुः

रो पुषो

२१२] शान्तिपर्वाण क्षधर्मपर्व २२९

|   |    |
|---|----|
| कालेनाभ्याह ॥ १ ॥ ले हि बल त्तर   | ५५ |
| १ ॥ तुशतैरिष्ट न त्वमेकरशतक्रतु   | ५६ |
| १ ॥ धर्मपरा सन् सव सततसत्रिण<br>तरिक्षचरास्सर्वे स ॥ सततयोधिन                     | ५  |
| १ ॥ सहनतेपे ॥ १ ॥ सर्वे परिघब हव<br>सव म याशतधरास् सर्वे ते मचारिण                | ५८ |
| सव समरमास न श्रूयन्ते पराजिता<br>सर्वे सत्यव्रतधरास् १ ॥ कामविह रिण               | ५९ |
| सर्वे वेद तपर स् सर्वे चासन् बहुश्रुत<br>सर्वे सहतमैश्वर्यम् ईश्वरात् प्रि पेदिरे | ६  |
| ३ ॥ न चैश्वर्यमद ॥ १ ॥ भूतपूर्व महात्मनाम्  | २  |
| स ॥ यथाहदात रस् सर्वे विगतमत्सरा<br>स ॥ स ॥ १ ॥ भूतेषु यथावत् तिपेदिरे            | ६१ |
| १ ॥ दाक्ष यर्ण पुत्रा प्र जपत्या मह बला<br>व त प्रतप त ले प्रतिस                  | ६२ |
| १ ॥ चैवेमां द भुक्त्व थिव त्यक्ष्यसे पुन<br>न शक्ष्यसि द शक्र नियन्तुं शेकम त्मन  | ६३ |

1 इ. : षट् । द सर्वा

. इति पाद न ि

3. ।

|  |    |
|--|----|
| मुञ्चे का ेगेषु मु ेम श्राभव दम्             |    |
| ए र य शे ् शो स प्रसहि सि                    | ६४ |
| शो ले शुचो म त्व ्षकाले च मा ेष              |    |
| अर्तितानागते हित्वा प्रत्युत्पेन वर्तय       | ६५ |
| ि चेदभ्य गत लस् सद युक्तमतिद्रितम्           |    |
| क्ष न चिरादि द्र ् ताम युपगमि यति            | ६६ |
| िस िव दे ेद्र वाभिस्तक्षसि मामे              |    |
| स ते मयि नून ् त् आत्म ु बहु म यसे           | ६  |
| काल थममय म पञ्च र मनुधा ति                   |    |
| तेन गर्जसि दे ेद्र पूव कालहते मयि            | ६८ |
| ो हि तु ल ले े क्रुद्धस्य मम सयुगे           |    |
| लस्तु बल न् प्राप्तस् तेन तिष्ठसि वास        | ६९ |
| यत्तद्वर्षसह त पूण भवितुमर्हति               |    |
| यथ मे सर्वग त्र णि न स्वस्थानि ुगतौजस        | ७  |
| अहमै द्र युत स्थ नात् त्वमि द्र प्रकृतो दिवि |    |
| चित्रे ज लैकेऽस्मि ुपास्य लपर्यय             | १  |
| हि ् त्वमि ेऽ ा च कृत्व य युता               |    |
| ाल र्त् वि र्त् च सर्वम यदकरणम्              | २  |

|  |     |
|--|-----|
| १ ल भ विनाशमैश्वर्यं सुखदुःखे भ । भगौ        |     |
| २ द्वान् प्र वैवमत्य त न प्रेक्ष्ये च यथेत्  | ३   |
| ३ मेव हा २ वेत्थ वेद ह त्वा च व सव           |     |
| ४ तिथसे मं हिं बद्ध । लेन निरपत्रप           | ७   |
| ५ वमे हि पुर वेत्थ यत्तद पौरुष मम            |     |
| ६ मरेषु च वि । त पर्यप्त तं दर्शनम्          | ५   |
| ७ अदित्या वै रु २ श्र साध्य श्र वसुभि स २    |     |
| ८ य विनिर्जे पूव मरुतश्च शचीपते              | ६   |
| ९ त्वमे श जानासि दे । सुरसमागमे              |     |
| १० समे ही द्र विबुध भ स्ते समरे मय           |     |
| ११ पर्ताश्च स त् क्षिप्तास् सव त्स नौ स      |     |
| १२ स इक्षिखर घोरस् समरे मूर्ति ते मय         | ८ । |
| १३ नु शक्य य तु ले हि दुरति म                |     |
| १४ न हि त्वां नेत्सहे २ तु सवज्जमपि मुष्टिना | ९   |
| १५ तु ि म लोऽय क्षम । लोऽयम गत               |     |
| १६ तं मये शक्र सुदुर्धर्षतरस्त्वय            | ८   |
| १७ मां परिणते कले परीत लव्णिना               |     |

1. ग श
2. विबुधा । रसा
3. दु र त्वया



|   |    |
|---|----|
| नियत । लप शेन वद्ध शक्र विकथसे  | ८  |
| अय स रुषश्यामो लोकस्य दुरति म<br>वद्ध िष्ठति मां रौद्र पशु रशनय यथ                | ८२ |
| लभाल भौ ख दु ख मक्रोधौ भवाभौ<br>धो व ध प्रमोक्ष सर्व क लेन लभ्यते                 | ८३ |
| नह कर्त न र्त त्व र्ता य तु सद प्रभु<br>सोऽ पचति ले मं वृक्षे फलमिवाहितम्         | ८  |
| या येव पुरुष कुर्वन् सुखै कालेन युज्यते<br>नस्ता येव कुर्वाणो दु खै कालेन युज्यते | ८५ |
| न च कालेन लज्जस् र प्रशोचितुमर्हति<br>तेन श न शोचामि नास्ति शोके सहायत            | ८६ |
| य हि शोचतश्शोो यसन न प र्थति<br>सामथ्य शोचते न ि नैव शोच यह तत                    | ८  |
| र्भ :   |    |
| ए मु स्सह क्षे भगवान् प श सन<br>प्रतिस त्य सर भम् इत्यु ाच शत तु                  | ८८ |

इ द्मः

<sup>1</sup>स ज्जमु त बाहु ा प श न् सुद रुण न्

२१२] शांतिर्वर्णि मोक्षधर्मपर्व १२३३

|   |     |
|---|-----|
| हे न यथेन्द्रिर् मृगोरपि जिघांसते         | ८९  |
| ते यथते बुद्धिर् अचलत्वदर्शनी             |     |
| ब्रुव यथसे सत्त्वाद् अक्रय सत्यपर क्रम    | ९   |
| द्वेषश्चासमर्थेषु शरीरे वा शर रभृत्       |     |
| तुमुत्सहते लोके दृष्ट्वा स प्रस्थित जगत्  | ९१  |
| अहमप्येवमेवैन लोकं जायशाश्वतम्            |     |
| कृत्वा हि तघरे गुह्ये सततगोऽक्षरे         | ९२  |
| न च त्र परिहारेऽपि काल पृथस्य स्यचित्     |     |
| सूक्ष्मणां महतां चै भूतानां परिपच्यताम्   | ९३  |
| अनिश सप्रमत्तस्य भूतानि पचसद्             |     |
| अनिर्वृत्तस्य तस्य क्षय प्रपते न मुच्यते  | ९४॥ |
| अप्रमत्त प्रमत्तेषु कालो जगति देहेषु      |     |
| प्रयेनाप्यति तन्तो दृष्टपूर्वो न केनचित्  | ९५। |
| पुराणशाश्वते धर्मस्सर्प्रणभृतां सम        |     |
| ले न परिहर्यश्च न चास्यित्यतिक्रम         | ९६। |
| अहेरत्राणि मसांश्चक्षणान् कष्टा कला लवान् |     |

1. - इ - ग - व

२. - नि स्य

३ घराण्णान्कालः कलसंस्तानि

|   |     |
|---|-----|
| स <sup>१</sup> र्धयति न ले वृद्धिं धुषिके यथा | ९   |
| इदम रि य मि श्व तस्मीति दिनम्                 |     |
| लो हरति प्राप्नो नदीवेग इवोडुपम्              | ९८  |
| इदान ता दे सौ य दृष्ट कथ मृत                  |     |
| इ लिन रि य प्रल पश्रूयते नृणम्                | ९९  |
| नश्य त्यर्था थ भेगास् स्थ नमश्चर्ये च         | .   |
| उच्छ्राया विनिप तान् । भावोऽभ थ च             | १   |
| नित्यमध्रव स य सायो हि दु र                   | १ १ |
| स ते न यथते बुद्धिर् अचल तत्त्वदर्शिनी        |     |
| अहम स पुर चेति मनस ऽपि न म यसे                | १ २ |
| लेन ऋ य लोकेऽस्मिन् प याने ल यस               |     |
| अज्येष्ठ कनिष्ठ च क्षि यमाणो न बुद्ध्यसे      | १ ३ |
| ई र्य भिमानलेभे कामक्रोधभयेषु च               |     |
| स्पृह मोहातिम नेषु लो सक्तो न बुध्यते         | १ ४ |
| स भान् भवतत्त्वज्ञो विद्वाञ् । नतपोवित        |     |
| ल पश्यति सु यक्त पाण व मल यथ                  | १ ५ |
| क लच रि तत्त्वज्ञस् सर्वश विश रद्             |     |

1 पि यति . ग पि निः गो

2. य साया हि दु र [आ क द्विः प :]

3 गो । ×बुद्ध्यते

२१२] शान्तिपर्वणि ेक्षधमं व १२३५

वैरे चने कृतार्थोऽस्ति स्पृहणीयो विज ताम् १ ६

सर्वलो ो य मन्ये बुद्ध्य परिगत त्वय

विहरन् स ते मुक्ते न<sup>१</sup> चि ि ित्सि

रज हि तमश्च त् । पृशते न जितेन्द्रियम्

प्रीतो नप्रस तापस् त्वम म नमुपाससे १ ८

सुहृदः सर्वभूत नं निर्वैर श त चेतसम्

दृष्ट्वा त्व म सञ्जात त यनु ेशिर्न मति १ ९

नाहमे दृश बद्ध हन्तुि च्छामि बन्धनै

अ नृशस्य परे धर्मो नुक्ते शोऽस्ति मे त यि ११

मोक्षय ते व रुण पाशास् तमे कालपर्यं ।त्

प्रजानामपच रेण स्वस्ति तेऽस्तु मह र १११

यदा श्वश्रू नुषा वृद्धां परिचारेण ेक्ष्यते

पुत्रश्च पितर मोहात् प्रेषयिष्यति कमसु ११२

। णै कारयि यति वृष । प दध नम्

शूद्राश्च ब्र ह्मण भ र्यम् उपय ि निर्भ । ११

वियोनि च ब्रज नि मेक्ष्यन्ते पुरुष य .

सङ्कर िं भ वै वलिं चापि पत्रकै ११

चातुव र्यं यः त म् अमर्यद भवि यति

1. ि ि ि

2. ग नि प्रीति नै पः 3. तनसम्

१२३६

महाभारतम्

[अ

एकैकं तद् पशुं मशुं परिमेक्ष्यते

११५

अत्तस्ते भयनात् समयपरिपलय

खाभनिरवाधशस्वस्थचेतनिरा

११६

पिप्पः

मेमुत्वाभगञ्छतक्रतु

तिप्रयागे गजराजवाहन

विजित्य सर्वानसुरान् बहूनिमान्

ननदहर्षेण वभूः चैराट्

११७

महर्षयस्तुष्टुवुरञ्ज च तं

वृषाकर्पे सवचरचरेश्वरम्

हेमपहे हयमुदाहृतस्

तथऽमृतचर्पितमीधराय ह

११८

द्विजेत्तमै सन्नगतैरभिष्टते

दिदीतेजश्शतयुरीश्वर

प्रशतचेतामुदितस्वमालय

त्रिविष्टपप्राप्यमुमेदवसव

११९

इति भारते शतसंख्यायां विंशतिः

१०० त्रिंशत् ऋषिणां द्वादशाध्वद्विंशत्तमोऽध्यायः २२

६८ त्रिंशत् ऋषिणां द्वादशाध्वद्विंशत्तमोऽध्यायः ६४

[१०० अध्यायः १००ः]

१. अनुरधिपन् २.

योदशाधि तद्रूपजगत्तः ऽऽथाय

ज्ञापु लनग गोः शक्रनारदयोः प्रि श्रादेव्य नम्  
 ति श्रिया स्वस्य दैते निवासविप्र ेः भू द्रण  
 दोष ति धानम् २

युधि रः  
 पूवरूपाणि मे राजन् पुरु स्य भवि यत  
 पर भिष्यत वै स्वं मे ब्रूहि पित मह १  
 :  
 मन एव नु यस्य पूवरूपाणि श ति  
 भि यतश्च भ्र ते तथै न भवि यत २  
 अत्र युदाहर तीमम् इतिह स पुरातनम्  
 य शक्रस्य सवाद ति बोध युधिष्ठिर ३  
 महतस्तपसो युष्ट या पशँ लो न् परावर न्  
 स मान्यमृ षिभिर्गतव ब्रह्मलोक निव सि भि ४  
 ेवामितद् प्रौज श् शा तप ष्मा ह तपा  
 विचच र यथ<sup>१</sup> त् त्रिषु लैकेषु नारद ५  
 द चित् प्रातरुत्थाय पिर क्षु लिल शुचि  
 ु द्वारभ ां ग ां जग म तत र च ६

१. २. विवि

|  |    |
|--|----|
| ह नश्चापि ज्री श वर <sup>१</sup> वृत्रह                    |    |
| तस्य दे विजुष्टयस् रमभ जगा ह                               |    |
| त त्य महात् नौ कृतजप्यौ म सतु                              |    |
| नद्य लिनमासाद्य मुक्ताक नव लुकम्                           | ८  |
| पु य मभिराख ता दे षिकथिता कथा                              |    |
| च तु तौ य शीलौ मह षिकथित स्तदा                             | ९  |
| <sup>४</sup> पूर्ववृत्ता यत तानि थयन्तौ समाहि <sup>५</sup> | ९  |
| अद्य भ करमुद्य त रश्मज लपुर क्रतम्                         |    |
| पूर्णम लमालोक्य त वृत्थायोपतस्थतु                          | १  |
| अभित तूदय त म् अर्कम मिवापरम्                              |    |
| आ शो द शो योतिर उद्य <sup>६</sup> दर्क सम भम्              | ११ |
| अस्य तेजसा तुल्य तद्भार रसमप्रभम्                          |    |
| तयो सर्म प स प्र प्य त्यदृश्यत भ र                         | १२ |
| तत् सुपर्ण <sup>७</sup> रचितम् अ स्थित व णव पदम्           |    |
| भाभिरप्रतिम त भिस् त्रैलोक्यमवभ स त्                       | १३ |
| दि याभिरभिरूपाभिर् अ सरैभि पुरस्कृ ताम्                    |    |

- 
- |    |                |           |                |    |
|----|----------------|-----------|----------------|----|
| 1. | १              | 2.        | 3.             | सु |
| 4. | पूर्ववृत्तव्ये | नि.       | पूर्ववृत्तव्ये |    |
| 5. | दृश्य.         | दृश्यः    | ग उ वि         |    |
| 6. |                | रसन्निभम् |                |    |

२१ ] शान्तपर्वण मोक्षध<sup>१</sup> व १२३९

बृहत शु त्रख्यां बृहद्भाने रे ि चिं म् १

नक्षत्रकल्प भरण ार पङ्क्तिस जम्  
श्रिय द८शतु ष्ठां साक्ष त् प दले ि तम् १५

स वरु विमान ग्राद् अङ्गन न मनुत्तम  
अभ्यागच्छत् त्रिलो<sup>१</sup> शं चर्षिं च नारदम् १६

नार. नुगं साक्षान्मघ तमुप ग त्  
त लि टा दे ि निवेद्य त्मानमात्मन १

चे च नुपमां पूजां ाश्चापि स स ि त्  
दे रज श्रिय देव ऋय रज नु च ह १८

श :

क त्व केन च क र्येण स प्राप्ता चारुह सिनि  
१ श्चात्र गत दे ि य वा ि ते शुभे १९

पु येषु त्रिषु लो<sup>१</sup> षु सर्वे स्था रजन्म  
ममात्मभाव<sup>१</sup> छन्तो यत ते पर त्मन २

साऽहं वै प जे ज ता सूर्यरश्मिप्रबो धिते  
भूत्यर्थं सर्वभूतानां पद्मा श्रा पद्मम लिन २१

अह लक्ष्मीरह भूतिश श्रीश्चाह बलसूदन

1. ग क्क ा ये सु ग य च



|  |    |
|--|----|
| ह श्रद्ध च मेध च स तिजिति स्मृते         | २२ |
| अह रतिरह सिद्धिर् अह स्मृतिरेव च         |    |
| अह ह धा चैव स ततिर्नियति ति              | २३ |
| र विजयम न नां सेनाग्नेषु ध्वजेषु च       |    |
| नि से धर् शीलानां विषयेषु पुरेषु च       | २४ |
| जित शिनि शूरे च सङ्ग्रामे निवर्तिनि      |    |
| नि मि मनु ये द्वे सदैव बलसूदन            | २५ |
| र्म ल्ये महाबुद्धौ ब्रह्म ये सत्य ादिनि  |    |
| श्रिते दानश ले च सदैव निवसा यहम्         | २६ |
| असुरे व पूव सत्यधर्मनिव धनात्            |    |
| विपरीतं तु तान् ह । त्वये समरोचयम्       | २  |
| थ तेषु दैत्येषु त्वमव त्सिर्वर नने       |    |
| दृष्ट्वा च किमेह ग त्व हित्व दैत्यदान न् | २८ |
| तिः                                      |    |
| धर्ममनुतिष्ठत्सु धैर्यं दुद्धा रितारिषु  |    |
| गम गाभिरामेषु दैत्ये वभिरत ऽः यहम्       | २९ |
| द नाध्ययनयज्ञ ह्य गुरुदैवतपूज ।          |    |

1. स ि ि ि िः स्थिः ि िः

2. िः 3. िः ग स ि

२१३] शान्तिप ण ोक्षधर्मपर्व १२४१

|   |    |
|---|----|
| १ <sup>८</sup> प्राणा तिथ च ते ि नित्यानुवर्तका                               | ३  |
| सुस मृष्टगृह्ण ।सञ्जित हु । य<br>गुरु श्रूषवो दा त या सत्यव दिन               | ३१ |
| श्रद्ध ना जि क्रोध दानशिलाऽनसूयव<br>भृतपुत्रा भृत मात्या भृतदारा नीर्घ्य      | ३२ |
| न र्षणा न चायो य हयति कदाचन<br>च जातूपतप्य ते धरा परसमृद्धिभि                 | ३  |
| दतरसुहातार कार्य रणेदिन<br>मह सदा ऋजो ढभक्ता जितेद्रिया                       | ३४ |
| स तुष्टभृत्यसचिवा कृ ज्ञा प्रि व दिन<br>यथ र्थम नाथ र ह्निषेध जितेद्रिया      | ३५ |
| नित्य पर्सु ।तस् नुलिप्तास्खलङ्कत<br>उप सतपशशील ४ तिगो व दिन                  | ३६ |
| नैत नभ्युदय त् सूर्यो चायासन् प्रगेशया<br>रत्रौ दधि च सक्तू नित्यमेव यसर्जयन् | ३  |
| काल्य घृ च वेक्ष प्रयता ब्र दिन   |    |

१. गुरुणा २. त्र्याः

३. ग-व ताः

४. ग प्र

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ङ्गल्य यपि चापश्यन् ह्यणां प्यपूजयन् | ३८ |
| सद् हि ददते द न सद् न प्रत्यगृ०      |    |
| ध च रात्र्या पता दि च पता था         | ३९ |
| पण न थवृद्ध ां दु ल तुरयोति म्       |    |
| स च भि य नित्यमेव नुमोत्त म्         |    |
| ४ ले तस्सु नैव धर्म गे च वर्तत म्    | ४१ |
| षण्ण मुद्धि भयार्तं धिपा म्          |    |
| य नर्त च नित्यमश्वासयति              | ४२ |
| धनु ते नासूयति परस्परम्              |    |
| अनुकूल र्थे गुरुवृद्धैः पसेवेन       | ४३ |
| गुरुदे तथाश्चै यथ त्तेऽभ्यपूजयन्     |    |
| अ शेष णि चाश्रित नित्य सत्यपथेद्य    | ४  |
| ५५ श्रित स प गच्छन्ति परि म्         |    |

- 
1. भ्युदियात्सुर्यो . । पि न्  
नृन्पितृ ब्रह्मण प्यपू न् [ धि : : ]
  2. धम्.
  - . दय त्वभाग
  4. ग दम म्
  - . ग स
  6. पितृ
  7. तो तः ग तो तः

|  |    |
|--|----|
| संभूतेषु वर्तते यथऽऽत्मनि दयां प्रति       | ५  |
| नैकाशे न पृषु <sup>१</sup> नयोनै च न पर्सु |    |
| इयस्य विसर्गं ते रोचयि कदाचन               | ४६ |
| नित्यं दानं यद्दक्ष्यम् अर्जवचै नित्यं     |    |
| त्सहस्रानहङ्कारं परमसौ दक्षमा              | ४  |
| सत्यं दानं तपश्चैव रुयं गनिष्ठुर           |    |
| मित्रेषु चानभिद्रोहसु सवते भवत् प्रभो      | ८  |
| निद्रं तद्रातिर असूय चानवेक्षित            |    |
| अरतिश्च विषदश्च नरे च विशति तन्            | ४९ |
| साऽहमेवगुणे वेपुदानवे ववस पुरा             |    |
| प्रजासर्गमुपादय नैव गुर्विपर्यये           | ५  |
| ततः कालविषयसे तेषं गुणविपर्ययत्            |    |
| अपश्य विगर्धर्मं कामक्रेधवशात्मनम्         | ५१ |
| सदसतां वै वृद्धानां सभ्यं थयं कथं          |    |
| प्रहसन्भ्यसूयश्च सर्वृद्धं गुरुन् परान्    | ५२ |
| यूनस्स समसीन् वृद्धानभिगतं सत              |    |

- 
1. न च
  2. गनि नान
  3. नपेक्षि ।
  4. गुवराः

|   |    |
|---|----|
| नाभ्युत्थानभि दाभ्यां यथापूर्ं पूजयन्         | ५३ |
| वर्तयत्ये पि रि त्र ाभ तत्सत                  |    |
| अमित्रभृत्यतां ाय रु ापय तेऽ पत्रप            | ५४ |
| थ र्दपेतेन गर्हितेन ये                        |    |
| ह प्र त्यथ सू ते षेभमभ त् पृह                 | ५५ |
| उच्चैश्च यवदन् रात्रौ नीचै त्र ह्नि सलपन्     |    |
| पितृनत्यवदन् भ र्यं त्यचरन् पत न्             | ५६ |
| तर पितर वृद्धम् आच र्यमतीथ गुरुम्             |    |
| गुरुत् भ्यव द त कुमार ा प लयन्                | ५७ |
| क्षिं बलिमदन्व च य नि मुञ्जते                 |    |
| नि ऽस विभज्य थ पितृदे तिथान् गुरुन्           | ५८ |
| शौचम रुद्ध्व त तेषां सूदजना थ                 |    |
| नस कर्मणा ाचा <sup>१</sup> भक्ष्यमासादनावृतम् | ५९ |
| विप्रकीर्णानि धान्य नि क मू कभोजनम्           |    |
| अप वृत पयोऽति दू ि शश्चा शन् घृ म्            | ६० |
| ह ल मत्र पि क प्रकीण ांस्यभोजनम्              |    |
| द्र ये पकरण स <sup>१</sup> ा वेक्षत् दुर्बन्  | ६१ |

1. क्तम 2. ग क्कालद  
3. पि न्

|   |    |
|---|----|
| प्रकारगर्विधसन्ततेति ते                     |    |
| नाद्रियन्ते पशून् वद्वयसेनोदेन च            | ६२ |
| बालानां प्रेक्षमाणानां स्वयं भक्षन्मभक्षयम् |    |
| तथ भृत्यजनसर्वपर्यर्तय च दन                 | ६३ |
| पायसकृसरमांसमपूपानथशली                      |    |
| अपचत्मनोऽर्थयवृथमासान्यभक्षयन्              | ६४ |
| उत्सूर्यशयिनश्चासन्संचासन्प्रगेशया          |    |
| । त्तल्लाश्चत्रदिवरत्रगृहेगृहे              | ६५ |
| आर्यश्चानर्थमसीनपर्युपासततत्रह              |    |
| अश्रमस्थन्किर्मस्थाप्रद्विषतपरपरम्          | ६६ |
| सरश्चाप्यवर्ततनचशौचमवर्त                    |    |
| येचवेदविदेविप्राविपप्रमनृचश्चये             | ६  |
| निरतरिशेस्तेबहुमानमानयो                     | ६  |
| भावमाभरणवेषगततिमेक्षितम्                    |    |
| असेवभुजिष्यवैतुर्जनचरितविधिम्               | ६८ |
| ियरुषवेषेणपुसिषधरेण                         |    |
| क्रीडारतिविहरेषुपरांमुदमप्रुवन्             | ६९ |
| प्रभद्विपुरदयन्अहभ्यप्रतिपदितान्            |    |

|   |     |
|---|-----|
| न वर्त नास्तिक्याद् तेन्त स भवे पि<br>त्रेण भ्यर्थित यम् अर्थी सश्रयते चित्<br>लोत्थ म त्रेण स्वर्थेन पातयन् वसु ।                                  | १   |
| पर इद रुचयो विप य यवह रिण<br>अदृश्य तार्यवर्णेषु शूद्र पि तपे धन  | २   |
| अ इय तेऽत्र केचिद् वृथ तमुपासते<br>अशुश्रूषुर्गुरो रेश य कश्चि य स े गुरु<br>पिता चै जनित्रा च श्र ौ वृत्तेत्सवा विव                                | ३   |
| अ मुते स्थितौ वृद्धा र्थयत त न्   | ४   |
| त ेदविद् प्र ग भर्थे सागरोपमा<br>कृ यादि वभवन् क्त मूर्खाश्च द्व नि भुञ्जते   | ५   |
| साय प्रात सुप्रश्न ल्पन प्रेषण िय<br>शि यानुप्रहि स्तस्मि र्वन् गुरव ह  | ६   |
| श्वश्रूश्चशुरयोरप्रे धूः ेष्यानशास<br>अ श सत भर्तर सम हूय िजल्पति<br>प्रयेन पि न वैक्षद् ित्तं पुत्रस्य वै पित<br>यमजच्चापि सर भ द् दु खव सानथ वसत् | ८ । |
| अदि हेन चोर े रजभिर्व ुतं नम्   |     |

२१३] शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व १२

दृष्ट्वा द्वे त् प्रहस सुहृत्स भित्तनपि ९

। नास्ति पाप गुरुद राभिमर्शिन  
अभक्ष्य क्षणर । निर्मर्य हतत्विष ८

ते वे । दीनाच रन् आचरत्सु विपर्यये  
नाह देवे द्र वत्स्यामि दानवे । ति मे मति ८१

मां मनुप्रप्तम् अभिन द शचीपे  
याऽर्चितां मां देवेश पुरो ध स्यति देवता ८२

यत्र ह त्र मत् ता द्विशिष्टा दर्पण  
स दे ये मय ऽष्ट य । समे यति मेऽप्रथ ८३

अश श्रद्धा धृति । क्षतिर् विजिति स ति क्षमा  
अ मा । द्वि मां त सं रोग पाकशासन ८४

।ह चासुरां त्यक्त्वा यु म द्विषयमागता  
त्रिदशेषु निव स्य मे धर्मनित्य तरात्मसु ८५

। :

इत्युक्त चनां देवाम् अत्यर्थ वै नत दतु  
नारदश्च त्रिलो षिर् वृत्रे च पि वासव ८६

त ऽनलसखे व यु प्रववौ दे वेश्मसु  
इष्टग धस्सुख पर्शस् सर्वेन्द्रियसुख ह ८



चौ च भ्यर्चिते देशे िदश प्रायशस्थि  
लक्ष्य सहितमसनमघवतदेक्षव

८८

॥ दि प्रप्य सह लेच  
श्रियेपपस्सुदसुरर्षिण  
रथे हर्यश्चयुज र्षभस्  
स. सुराणमभिसत्कृते ययौ

८९

अथेङ्गि वज्रधरस्य नरदश  
श्रियश्च देयमनसा विचारयन्  
श्रियै शशसमरराजप र्ष  
शिवेन तत्र गमनमहर्षिमत्

९

ततोऽमृतद्यै प्रववर्षभती  
पितमहायतने यभु  
अनहतादुदुभयश्चनेदिरे  
तथा प्रसाश्च दिशश्च शिरे

९१

यथसेषुववर्षवास  
नधर्ममर्गाद्विचचालकन  
अनेररमूणचभूस्  
सुघोयेषत्रिदिवसांजये

९२

|   |    |
|---|----|
| याभिराम मनुज यशो नो<br>वभुश्च भै पु यकृतां पथि स्थि<br>नर मरा किन्नरयक्षर क्षस स<br>समृद्धि तस्सुखिन पाि                                    | ९३ |
| जात् लो कुसुम फल कुत<br>पप वृक्षात् पवनेरितादपि<br>रसप्रद क मटुघश्च धेनो<br>नद रुण ि चचार कस्यचित्  | ९४ |
| इ पर्या ह स मदैश<br>श्रियश्च शक्रप्रमुखैश्च तै<br>पठित ये ब्रह्मसद सम गत स<br>समृद्ध मदिश्रयमा वति ते                                       | ९५ |
| त य कुरूणां प्रवर प्रचोदित<br>भवाभवस्ये परं निदर्शनम्<br>तदद्य सव परिकर्तित मया<br>पराक्षय तन्व परिग तुमर्हसि                               | ९६ |
| इति ि भारते शतस ि िया ि िा <sup>१</sup> िसक्य<br>शाि ि योदशाधि द्विशत िोऽध्यायः २२<br>८८ क्षधर्मपवाण प षाि ियायः ६५<br>[ िसि िध्या ९६ िाः ] |    |

च दशधि द्विशत ेऽः य



ति े धि े र ग्यादिपूव ग न े । -  
राणि गी य तद तदः

। ि :

ि शाल किं म चार कं चि कपर यण  
ेति णस्थ न यत् परं तेध्रवम् १

ति :

मोक्षधर्मेषु निर सू<sup>१</sup>सद् चारे जिते द्वय  
प्र े णस्थ न यत् पर प्रकृतेर्ध्रु म् २

अत्र प्यु ।हरन् मिमम् इतिह स पुर तनम्  
जैगीष यस्य स दम् असितस्य च भरत ३

जैगाष य मह प्र धर्मण म गतागमम्  
अु य मह य तम् असितो देवलोऽ ित् ४

।

प्र ये द्यम ने नि ।ने न यसि  
क ते प्र । त े किं च तस्य पर यणम् ५

।

इति तेन नुयुक्त स तमु च मह प

1. ग । रो 2. नाि  
3.

महद्व क मसदि ध पुष्कल र्थपद शुचि ६

जैगी व्य

या गतिर्या पर निष्ठा या शाति पु य र्मणम्  
तं तेऽह स प्रवक्ष्य मि यां ां पृच्छसि ॥ द्विज

नि दत्सु च समा नित्य प्रशसत्सु च देवल

नि ति च ये दोष स य सुकृत च यन् ८

उक्ताश्च न विवक्षति वक्तारमहिते रतम्

प्रति तु न चे छति ह त र ते मनीषिण ९

ना प्र नुशोचि ाप्रकाल ने कुर्वते

न चार्त नि शोचति नैतानि प्रतिज नते १

स प्रप्त नां च पूय नां ामादर्थेषु े ल

यथोपपत्ति र्वति शक्तिम ते धृत त ११

प वि महा ज्ञ जित ोध जिते ्रया

मनसा क्रमणा वाच नापर ध्यति चित् १२

अन र्य ो हि च येन्य न ेसति क चन

न च ज तूपत य ते धीरा परसमृद्धिभि १३

नि दाप्रशसे च त्यथ न वदति परस्य च

1. यत् पर ग य पृ सि व द्वि स पर ि सत्तम

2. नि वा नि ि यं सु

वे ा ि त्वाव ि ए ेऽ कृत

|   |    |
|---|----|
| च निन्दाप्रशंसभ्या िक्रियते कदाचन         | १४ |
| सि प्रशा त ये सि भू हिते रत               |    |
| न ध्यित न यि नापराध्यित स्यचित्           | १५ |
| सि सृज्य हृदय िथि चङ्क य ते यथा खम्       |    |
| न चैषां बान्ध सित तं चा येषा न बान्धवा    | १६ |
| अमित्र लेषां ते चामित्र न कस्यचित्        |    |
| य एव कुवते मर्यास् सुखं जीवित सर्वदा      | १  |
| धर्ममेानुरुध ते र्म द्विजसत्तम            |    |
| ये तो वि युता मार्गात् ते १ यति द्विषित च | १८ |
| अ स्थितस्त मह मार्गम् असूयि य मे क थम्    |    |
| नि घ न प्रशस्ते वा २ येय केन हेतुन        | १९ |
| यद्यदि च तत्तस्मद् अधिग छ तु मानव         |    |
| न मे नि दाप्रशंसभ्यां सवृद्धी भवि यत      | २  |
| अमृत े स तृ येद् अवम नस्य तर ित्          |    |
| विष े द्विजैश्चै स मानस्य विचक्षण         | २१ |
| अ त ख शेते इ चामुत्र चेभये                |    |
| अमुक्त सर्वपापेभ्यो येऽवमन् । स ब्र ते    | २२ |

२१५] शान्तिपर्णि ेक्षधर्मपर्व २५३

गत परां तु ये े चित् प्रार्थयि मर्णिण  
ए द्व सम े सुखमेधित ते जन २३

सर्वत समात्य तून् ब्रह्मञ्ज जि े य  
प्रा े ि ब्रह्मणस्स्थान यत् पर प्रकृतेर्धु म् २

नस्य दे । न गन्धर्वा न पिशाच न राक्षसा  
पद ववरोहति पर ां गतिम् २५

इति िमहाभर े शतसह ि िया । ियर यासि

पि चतुदशाधि ि शत िोऽध्या : २

८८ धर्मपर्वणि िृषि िऽध्यायः ६६

[ ि ि २५ िो : ]

### पञ्चदशाधिकाद्वशततमोऽध्याय



ि े धि र ति दु ि जन ि िर ि  
य उ न िोदिना दगुणानु दः

युधिष्ठिरः

प्रिय सर्वस्य ले स्य सर्वसर भिन ित  
गुणैस्सर्वैरुपेत के ि भुवि मा १

भी :

अत्र ते र्तेयिष्य मि छतो भरतर्षभ

उ सेनस्य स इदं नारदे केशवस्य च २

इयस्स लिपते ले गो रदस्य प्रकर्तने

से गुण प ब्रूहि त मम च्छत ३

॥ इन्

कु र धिप यान् ये शृणु न् ॥ क्षत

नरदस्य गुणन् धून् सङ्क्षेपेण र धिप

च रित्रनि तो स्याह रे देहप न

अही श्रतच रित्रस् त इत् सर्वत्र पूजि ५

जस य सा बु । नये िनेन च

जन्मना तपस वृद्धस् तस्मत् सर्वत्र पूजित ६

अरति ोधचापल्ये भय न नि दे

अदार्षसूत्रशूर त इत् सर्वत्र पूजि

उपस्ये नरदो वढं चि नस्य यति म

कामाद्द षि लोभत् तस्मत् सर्वं पूजित ८

ध्य त्मविधितस्व क्ष तशश ते जितोद्विय

ऋजुश्च सत्य इदा च तस्मात् सर्वं पूजित ९

इ भि रदानात्मा श्रतव नानृशस्य इन्

1. लिपते . ग । गो

3. ग । न ।

२१५] शान्तिपर्व ण ोक्षधर्मपर्व १२५५

वीतस मोहदोषश्च त त् स पूजि १

सुशालस्सुख ेशस् तेज स्वादरश्च वि  
वाक्य प्यनीर्ष्य तस्मात् सर्वत्र पूजि ११

ल्य णं स्ते वा प पमस्मिन्  
न ियते परानथस् तस्म त् सर्वत्र पूजि १२

वेदश्रुतिभिराख्य नैर् अर्थानभिजिग षते  
तितिक्षुरन स्म त् स त्र पूजित १

स त् इद्धि प्रिये नस्ति न प्रिय थ न  
मनोऽनुकूल द च तस्म त् सवत्र पूजित १४

बहुश्रुतश्चित्र थ प िडते ऽनलसोऽशठ  
अद नोऽ धनोऽलु धस् स्म त् सवत्र पूजि १५

समाधिर्नास्य न थ न त्म न स्तौति हींचित्  
अनार्ष्युर्मृदुसम्भाषस् त त् ित्र पूजित १६

लोकस्य वि िध वृत्त प्रेक्षते चा य त्सयन्  
स र्ग िद्य शलस् त त् स त्र पूजित १

सक्त वभूते तु स त् एव च ह्यते  
अर्द र्घ शयो ग्मी तस्मात् सर्वत्र पूजित १८

नासूयत्य गम ि त् तपे नोपजीवति





## षोडश धर्माधिकारोऽध्याय



धिदि । सृ थादिप्रति । द व्या वाद तु

युधेष्टिः

- आद्य तं सर्वभूतानां ज्ञ तु मे छ मि कर  
 ध्य न र्म च क ल च तथै । युयुगे युगे १
- ले तन्व च त्स्वयन भूत नाम गतिं गतिम्  
 र्ग निघन चैव एतत् प्रवर्तते २
- यदि तेऽनुभवे बुद्धिर् अ । स्विह १सतां र  
 ए द्भ च्छ मि तद्भवान् प्रवर्तितु मे ३
- पूव वि थित श्रुत् । भृगुभाषि मुत्तमम्  
 भारद्वाजस्य ि र्षेस् तते मे बुद्धिरुत्तम  
 ज त परमधर्मे । ि यस । नसस्थिता  
 तते भूय तु पृच्छामि तद्भवान् कुमर्हति ५

अत्र युद् हरन्त मम् इतिहास पुर तनम्  
 जगौ यद्भगान् यास पुत्र य परि ते ६

अधीत्य ेद नखिलान् स ज्ञोपनिषदांस्तथ

1. पर . 2. भगवन् । ति

अच्छन्नैः पुणदर्शनत्

णद्वैपायन यस्य पुत्रो वयं श  
पप्रच्छ शंयमिमि धर्मार्थसंशयम्

८

:

भूतमस्यैरलनेचनेयम्  
स्यचतुल्लङ्घान्कर्महति

९

:

तस्मै प्रोवचतत्सवपि। त्रते  
तगतेविद्वान्धर्मित्

१०

व्यः

अनतमजदेयमअजरध्रमम्  
अप्रकर्मवियेयह्यधेसमतत

११

ष्टाने। दशपचव

त्रिंशत्तुगणयेत्। तम्  
त्रिंशत्कलश्चापि भवेमुहूता

भगकलायदशपचस्यत्

१२

त्रेमुहूततुभवेदह

रत्रिंशत्सङ्ख्यामुनिभिणाता

- 
1. नष्टिन् 2. रवित्  
3. व्यक्तमवम्

|  |    |
|--|----|
| आसस्मृतेरात्र्यहर्नतुत्रिंशत्            |    |
| त्सरेदशमसोक्त                            | ३  |
| त्सरद्वेअ                                |    |
| सोचादोदक्षिणमुत्तरच                      | १३ |
| होरात्रेभजतेसूयानुषलौ                    |    |
| रात्रिस्वयस्यतिचेयैणामह                  | १  |
| पितेरात्र्यहनाप्रभगस्तयोपुन              |    |
| <sup>१</sup> गोहकर्मचेष्टयशुक्लस्यशर्वरा | १५ |
| दोरात्र्यहनदप्रविभागस्तयोपुन             |    |
| अहोदगयनरात्रिदक्षिणयनम्                  | १६ |
| एतेरात्र्यहनापूर्वेकृतितेबलैके           |    |
| तयेस्तोचायषोमक्ष्यायहक्षपे               | १  |
| तेषासवत्सरग्रणिप्रक्षययनुपूर्वश          |    |
| तेत्रेयुगेचैवद्वापरेचकलौतथा              | १८ |
| चत्स्याहसहणिवर्षाणां तत्तयुगम्           |    |
| तस्यतासध्यासन्ध्यांशश्चतथाविध            | १९ |
| इतरेसध्वेषुससध्यांशेषुचत्रिषु            |    |
| एपयेनस्यतिहणिशतानिच                      | २  |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| एतानि शाश्वतं ह्ये न धारयति स त न् |    |
| इति तु विदितं ब्रह्म श्वम्         | २१ |
| च पत्न्योर्मसूचैर्युगे             |    |
| नाघणागिद्वयुगेनिप्रती              | २२ |
| रेद्धर्मपादशतरोयते                 | २३ |
| सत्यशौचथऽयुधर्मपैतेपाद             |    |
| चैरिक्वानृमयभिरुधश्चोपचीते         | २  |
| अरोगार्वसिद्धर्थश्चर्षशतायुष       |    |
| कृतेत्रेतयुगेतेषांपदशोहस           | २५ |
| वेददानुयुगसतिचनश्श्रुतम्           |    |
| अयूषिचशेषैवैदस्यैचयत्फलम्          | २६ |
| अयेतयुगेधर्मासूत्रेतायांद्वपरेऽपरे |    |
| अयेतियुगेधर्मयथाशक्ति त इव         | २७ |
| पपरतयुगेत्रेतयान्मुत्तमम्          |    |
| परेमेदुरदनेलापरम्                  | २८ |
| एतद्वदशसाहयुगरूपिवयेतिदु           |    |

1. ग ए विद ।
- इ ष्व गम ढर्म
- दमधम्
4. द े इह शा े कल



## दशाध शततमोऽध्याय

सुधादिप्रतिदकव्य कसवादः ।

:

जे समिद रस

एकस्य ह्यभूत् रजङ्गमम् १

अ मुखे बुद्धत् सृजते यि जगत्

अ एव महद्भूतम् अशुत् न २

थ भूयेऽपि चर्चिमन् असृजत् स मनसान्  
दूरग बहुधा मि प्रार्थनासशयत्मकम् ३

मनस्सृष्टिं रुते चोद्यमानसिसृक्ष ।

अ शो जायते तत् स्य शदो गुणो म

अ शत्तु णात् सर्गधवहश्शुचि

बलञ्जायते युस्त् पशुगुणदु ५

येरपि विकृण्णं ज्येतिर्भूततमोनुदम्

रोचिष्णु जायते त्र तद्रूपगुणमुयते ६

तेऽपि णद्भवत्यपोरसस्मि ।

अद्भ्यो गन्धगुणभूमिपूर्वेषु सृष्टिरुच्यते

1. ग भिमूये चर्चिन्

|   |    |
|---|----|
| गुण पूर्वस्य पूर्वस्य प्रा वन्त्युत्तरोत्तरम् |    |
| ेषं या यद्यत् तत्त वद्गण स्मृतम्              | ८  |
| पलभ्या चेद्द चेद्द्रूयु रनैपुण त्             |    |
| थे ये त ति इ् अपो वायु च श्रितम्              | ९  |
| एते वै स पुरु ा न ना य पृथक् थक्              |    |
| ा ु न् प्रज ष्टुम् असम ग य कृत् श             | १  |
| ते समेत्य हात्म अ ये मभिसश्रि                 |    |
| शर राश्रयण प्रप्तास् त पु ष उच्यते            | ११ |
| श्र ण छर र भ ति मूर्मि न् षे शात्मक           |    |
| तमा विशति भूतानि महाति ह् कर्मणा              | १२ |
| सर्वभूतानि चाद य तपस रणाय च                   |    |
| आदि र्ता ह् भूत तमे हु प्रज पतिम्             | १३ |
| स वै सृजति भूतानि स एव पुरुष पर               |    |
| अजो जनयते ा दे र्षिपितृद नवान्                | १४ |
| ो इन् दी समुद्रंश्च दिशश्शैलान् न.पतीन्       |    |
| नरि ररक्षांसि वय पशुमृगोरग न्                 | १५ |
| अ ययं च यय चै द्वयं स्थावरजङ्गमम्             | १५ |

1. रै णः

2. चै य



|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ये यानि िणि कृ सृष्टौ प्रतिपेदिरे     |    |
| ता येव े प्रपद्य ते सृज्यमाना पुन पु  | ६  |
| ा हिं े सृदूरे धर्माधर्मवृत्तानृते    |    |
| ते य म यते ध ता त तात् तत्त रेचते     | १  |
| महाभूतेषु न त् इ ि यार्थेषु मूर्तिषु  |    |
| िनि ेग च भूत न धतै िदधात्युत          | १८ |
| चित् पुरुष ार तु प्राहु कर्मविदे जन   |    |
| ै मित्यपरे िप्रस् स्वभाव भूत चि त     | १९ |
| पैरुष िदै च फलवृत्ति भ                |    |
| एतेऽ थ भूत <sup>१</sup> अविकस् ि न    | २  |
| ए मेतच्च दै च यद्भूत जते जगत्         |    |
| कर्मस्थ िषय ब्रूयुस् सत्त्वस्थ सम शिन | २१ |
| तपो िश्श्रेयस ज तोस् त मूल श े दम     |    |
| तेन स िन ि े यन् मन् नसे ति           | २२ |
| तप ि तद ि े यद्भूत जते जगत्           |    |
| स तद्भूत सर्वेषा भूत नां भ ति भु      | २३ |
| ष पस ेदान् अध्वैष त दि निशम्          | २४ |

१. - च ि े रि  
न वि े स्तु

२१ ] अन्तिपर्वणि ेक्षधर्मपर्व १२६५

|   |    |
|---|----|
| अनादिनिधना या गुत्सृष्ट म्भुवा            |    |
| अदौ वेदमया दि य य सर्ा वृत्तय             | २५ |
| षीणा न मधेयानि य लोकेषु सृष्टय            | २  |
| नम रूप च भूतानां मणां च प्रवर्तनम्        |    |
| ेदश देभ्य एवादौ निर्मिम ते महेश्वर        | २६ |
| न ेयनि वर्णानि या लैेषु सृष्टय            |    |
| शर्वर्य तेषु जा नां येवैभ्यो दद त्यज      | २  |
| नमभे प मेयज्ञाख्य लोकसिद्धे               |    |
| आत्मसिद्धिस्तु वेदेषु प्रो यते दशभि क्रमै | २८ |
| यदुक्त वेदवादेषु गहन वेददृष्टिभि          |    |
| तदेषु यथा ष क्र येगेन लक्ष्ये             | २९ |
| कमजेऽ पृथ भो द्व द्वयुक्तो हि देहिनाम्    |    |
| अत्मसिद्धि तु विान् ज् जहाति प्रायशो बलम् | ३  |
| द्वे ह्यर्ण वेदि ये श द पर च यत्          |    |
| श दत्र णि नि ण त पर ब्रह्माधिग ति         | ३१ |
| आर भ र जानो हविर्ये । ि श स्मृत           |    |

- 
1. ग ेद धम्
  - . ि । ेवे
  3. ि 4. पुन

|   |    |
|---|----|
| परिचर इन्द्र तु तपोयज्ञा द्विज तय           | ३२ |
| त्रे युगे ि ि ष याना ते युगे                |    |
| द्वापरे ि प्लव यान्ति य । कलियुगे तथ        | ३३ |
| अ थ धर्मिणो म ि कस मानि यजूषि च             |    |
| न्या इ ि थगू िस् पद्भि प एव च               | ३४ |
| त्रे यां तु स स्ता े दुरासन् मह बल          |    |
| स रस्थ राण ज ना च सर्श                      | ३५ |
| त्रेत यां सहत णी ेदा य थै च                 |    |
| सरे ध दायुष त्वे े यस्य ते द्व परे युगे     | ३६ |
| दृश्यन्ते न पि दृश ते वेद कलियुगे खि        |    |
| उत्सीद ते स े ल धर्म सेतव                   | ३  |
| ते युगे यस्तु धमा णेषु प्र श्यते            |    |
| आत्म त्सु तपोवत् श्रतिमत् ति त              | ३८ |
| स धर्म प्रैति सयोग यथा र्म युगे युगे        |    |
| विक्रि ते स्वधर्म वेदवाद यथायुगम्           | ९  |
| था विश्व नि भूतानि वृष्ट्वा भूय सि प्र वृषि |    |
| सृज ते जङ्गमस्थ नि तथा धर्मा युगे युगे      | ४  |

1. दृष्ट्वा : उप

2. िस् 3. षी :

२१ ] शान्तिपवणि षोडशधर्मपर्व १२६

|  |    |
|--|----|
| यथर्तु वृत्ति ज्ञानि नानारूप णि पर्यये<br>दृश्य ते त नि ये तथा हरदि              | ४१ |
| हित लना त् अनादिनि न तथ<br>र्तित यत् पुरस्त त् ते तत् सूरे च च प्रजा             | २  |
| एतद्धि प्रम स्थ न भूत ां सयमो यम<br>स्वभा नै ँन्ते द्व युक्ता भूरिश              | ३  |
| सर्ग ल ि य वेदा कर्ता क्रियाफलम्<br>प्रोक्त ते पुत्र सब वै य मां त्वं परिपृच्छसि | ४४ |
| प्रत्याहार तु वक्ष ामि शवर्यादौ गेऽहनि<br>यथेद कुरुतेऽध्य त सुसूक्ष्म िश्वमीश्वर | ४५ |
| दि सूर्यास्तथ स दहन्ति शिखिनोऽर्चिष<br>सबमेत िर्चिभि पू ज वल्यते जगत्            | ४६ |

इति ामहाभारे सहस्रिकाय हिताया यासि

शान्तिपर्वी सप्तदशा द्विशत ाऽध्याय २

८८ ाऽध्यायः ६९

[ िऽध्याये ६ श्लो : ]

## अ दशा द्वाशत ऽथाय

युधिष्ठिर प्रातः । य सोदि प्रल । दः

व्या :

थि य य नि भूतानि <sup>१</sup>जङ्गम नि ध्रु णि च  
त न्येवाद्दौ प्रलय ते भूमित्वमुपयाति च १

त लीने सर्वस्मिन् रे जङ्गमे तथा  
निस्तु भूमिर् दृश्यते कूर् वत् २

भूमेरपि गुण ग घम् अप आददते यद  
अ ग घ तद भूमि प्रलयत् आय लपते ३

अप त प्रतिष्ठ ते ऊर्मिमत्ये मह न  
स मेवेदमापूर्ये ति ति चरित च ४

प पि गुणां त योतिर ददते यद  
अपस्तद चात्तरस येति युपरमि त वै ५

यदा रसगुण त सां सित शिा नेऽचिष  
सर्वमेद चिर्भि पूर्ण ज वलयते नभ ६

तेषेऽपि गुणं रूप आयुदाददते यदा

1. र चरा

2. ग यद द नि ज्येद ति शनि नऽचिषः [ ११ म् ]

|  |    |
|--|----|
| प्रश यति द योतिर <sup>१</sup> । युद्धे धूयत हान् । |    |
| ततस्तु मूलम सद्य यु स भ मात्मन                     |    |
| अधश्चोध्व च तिर्यक् च दोधव ति दिशो दश              | ८  |
| योरपि गुणं पर्शम् अ श ऋ ते यदा                     |    |
| प्र यि तद वायु ख तु तिष्ठति न नदत्                 | ९  |
| अरूपमरस पर्शम् अग ध च मूर्ध्मत्                    |    |
| सर्वलो प्रणुदित तु तिष्ठति नानदत्                  | १  |
| अ शस्य गुण श दम् अभि यक्तात्मक न                   |    |
| मनो यक्तम यक्त । स प्रतिस र                        | ११ |
| तदाऽऽत्मगुण । विश्व मनो प्र ति चन्द्र ।            |    |
| मन युपरते च त्म चन्द्रम वतिष्ठते                   | १२ |
| त तु कालेन मह । स ल्प रुते शे                      |    |
| चित्त सति स ल्पस् तच्च ज्ञानमनुत्तमम्              | १३ |
| कालो हरति विज्ञान ल बल इति श्रुति                  |    |
| ल बले सति तु तं वि ान् कुरुते वशे                  | १४ |
| तद क्त पर तच्छाश्वतमनुत्तमम्                       |    |

1. गोऽ<sup>१</sup> पाद न नि  
 2. नास्य द्वयम्  
 3. '। शस्य यदा घां ' ति त् कुरुतेऽ मनि [- ति : 18.]  
 J II 39

ए सर्वाणि भूतानि<sup>१</sup> प्रतिशहरेत् १५

यथ वत् कर्तितं स यग्व एवमेतदसशयम्  
 ेध्य विद्य मय दृष्ट्वा ये गिभि परमं नि १६

ए िस्तारसङ्क्षेपौ यक्ते पुन पुन  
 युगसाहस्रयोर द वहोर य स्तथैव च १

इति ि भारे शतसङ्घि त्थ ि त्था यासिक्व्या  
 िनि पर्वणि िदशा ि द्विश िोऽध्यायः २८  
 ८ ि िोऽध्यायः  
 [अस्मि ि श्लोकः]

### एकोनाव त्यधिकद्विशततमो िध्य य



े यु िष्टिर ि व्येन कायोक्तब्राह्मणधमा ि  
 था ेभो दान ि मा िदः २

व्या :

भूतग्राेऽनुयुक्तं यत् तदेतत् कार्तित मया  
 ह्वणस्य तु यत् कृत्य तत्ते िद्य भि सा प्रतम् १

ज र्मप्रभृत्यस्य िणं दक्षिण तम्  
 क्रिय द सम वृत्तेर् अ च ये िदप रगे २

1. ि ि ि ि

२१९] शान्त वर्णि ेक्षधर्मपर्व १२ १

अधीत्य वेदानखिलन् गुरु श्रू णे र  
गुरुण मनृणे भूत्वा समा र्तेत य ित् ३

आचार्येणाभ्यनु ता चतुर्णामेक श्रमम्  
अ विमोक्ष च्छरीरस्य सोऽनु तेषु था विधि  
प्रजासर्गेण द रैश्च चर्येण पुन  
वने गुरुस शे व यति मण पुन ५

गृहस्थश्चैव सवषां चतुण मूलमुच्यते  
तत्र प षायो हि द त सर्वत्र सिध्यति ६

प्रजा इञ् श्रेत्रिये य मुक्ते दि वै भ ऋणै  
अथा य श्रमं पश्चात् पूते गच्छति िभि

यत् पृथि । यत ि स्थान तदा सेत्  
ेत तस्मिन् प्र ण्य ग तु शसि चोत्तमे ८

तपसा । ेता विद्यानां प रणेन वा  
र्यय वा प्रदानै िप्रणां वधे यश ९

या दस्य भ त्यस्मिन् कर्तिले े यश करा  
त त् पु कृताँल्लोक न् अनन्त न् पुरु ऽऽश्रुते १

अध्य पयेदध यीत याजयेत यजेत ।  
न वृथा प्रतिगृह्णीय च दद्यात् थ ११



|  |    |
|--|----|
| यतश्चि यतो ऽपि यय व धन सह<br>यद्यागच्छे जेद्द्य " ऽश्र यात् थ न                                | १२ |
| गृह्म ते स्य ऽयत्त र्थमुदाहृतम्<br>दे षि पितृगुर्वथ वृद्धातुरबुभुक्षतम्                        | १३ |
| अर्ह भिस्तृप्तानां यथ शक्ति बुभूषतम्<br>याण तिशक्त्य ऽपि देयमेषां क्रते सदा                    | १४ |
| अर्ह मनुरूप णं नादेय ि ि न<br>"श्र समप्यश्च कश्यप महत्माने                                     | १४ |
| दत् जग म ब्रह्म ऽऽदै लोक न् देवैरभिष्टु न्<br>अनुन य तथा ऽयस् सत्यस धे महाव्रत                 | १५ |
| स्वै प्राण <sup>१</sup> ह्यणप्राणान् परित्राता दिव गत<br>रतिदेवश्च साङ्कत्यो वसिष्ठ य महात्मने | १६ |
| अप प्रद य शी ते ष्णा नाकपृष्ठे मह यते<br>अत्रये इ द्रदमनस् वर्हते वि ध धनम्                    | १  |
| दत्त्व धीम न् ययौ लोक न् अन तान् स महर्पति<br>शि विरै शी नरे ऽङ्गानि सुत च प्रियमौरसम्         | १८ |
| ह्यणार्थमुपा त्य न कपृष्ठमितो गत   | १९ |

1 ह्यणान् धून् ि ा

2 "श्च ऽपि िोः ग य द्रदमनस्त्वह

२१९] शान्तिपर्वणे १क्षधर्मपर्व १२

- प्रतर्दन शिपति प्रदाय नयने  
ब्रह्मण यातु कीर्तिम् इह च मुत्र च श्रुते २
- देय मृष्टं शल सैर्ण परमर्द्धिमत्  
त्र<sup>१</sup> देवप्रिये दत्त्वा सरष्ट्रोऽभ्यगमदि म् २१
- साङ्कतिश्च थाऽऽत्रेयज्ञ शि येभ्यो निर्गुणम्  
उपदिश्य मह तेज गतो लोकाननुत्त न् २२
- अ वरीषो ग ां दत्त्वा ब्रा णेभ्य पवान्  
अर्बु ानि दशैकं च सरष्ट्रोऽभ्यगमदि म् २३
- स वित्री ले ि ये शरीर जनमेजय  
ब्रा णार्थे परित्यज्य ज मतुलं कमुत्तमम् २४
- सर्वरत्न वृषादर्विर यु श्वो वरासि य  
र यम वसथ चै दत्त ाऽमु लोकम स्थित २५
- निमा राष्ट्र च वैदेहो जामद ये वसुन्धर म्  
णेभ्यो दौ च पि गयश्चोर्वी सपत्तन म् २६
- अवर्षति च पर्ज ये स<sup>१</sup> भूतानि चासकृत्  
ष्टे र्ज य म स प्रजापतिरिव प्रजा २
- र धम त्र तु मरुत्ते नृपतिस्तथा

1. देव णो २. -सपट्टणाम्  
3. धमस्य

|   |      |
|---|------|
| न्याङ्गिरसे दत्त । दि म जग म ९  | २८   |
| त्त प । ल्यो र जा बुद्धिमत्तं वर<br>निधिं शङ्ख द्विज येभ्यो दत्त्वा लोकानव त्रव न्  | २९   |
| र जा मित्रसहस्रापि वसिष्ठाय मह त्मने<br>मदयन्त प्रियां दत्त्व तय सह दिव गत          | ३    |
| सह जिच्च राजर्षि प्रणानिष्ट न् महायशा<br>णाथ परित्य य गते लोकाननुत्तम न्            | ३१ । |
| <sup>१</sup> र्वकामैश्च स पूर्णं दत्त वेश्म हिर मयम्<br>मुद्रलाय गत र्ग श ु े हीपति | ३२   |
| च ु मि न् । म सात्वराज प्रत प । न्<br>द र यमृचाकय गतो लोक नुत्तम न्                 | ३३   |
| रेमप दश्च राजर्षि श श तं दत्त्व सुतां प्रमु<br>श्यशृङ्गाय विपुलैस् सर्वकामैरयु यत   | ३४ । |
| मि राश्वश्च रजर्षि र्त्त्व कन्यं सुमयम म्<br>हिरण य गते लोक न् दे रभिष्टुतान्       | ५    |
| दत्त्व शतसह े तु गवां र जा प्रसेनजित्<br>स त्स न महातेज ग े लोकाननुत्तम न्          | ३६   |
| एते चान्ये च बह ो दानेन तपस च ह   |      |

२२ ] शान्तपर्वणि ेक्षधर्मपर्व १२ ५

महत् नो गस्त्वग शिप्रात्मने जितेन्द्रिया ३

तेषां प्रतिष्ठितं अतिरुच्यवत् स्थास्यति मेदिनी

द नय प्रजसर्गैर् एते दि मवावन् ८

इति श्रीमहत्ते सहस्रिया वैयाहि

पर्वणि एकोनशत्यधिकद्विशतोऽध्यायः २९

८८ १० पवणि १० १० :

[ सिध्दये ३८ ]

विंत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः



भस्मेण युक्तिं प्रति यासकृतब्राह्मणं धनपूर्वकं नमः  
इति

:

त्रयं विमोक्षेत देवेषुत्तमतां गतं

ऋक् इति णक्षरतो यजुषेऽर्थेण था

दे दे कुशलं ध्यात्मानं शलश्च ये

सन्ते ते महाभाग पश्यन्ति प्रभवा य २

एव धर्मो वततं यद्विशिष्टवदचरेत् २

अरेधेन भूतानां वृत्तं लोसे वै द्विज

|  |    |
|--|----|
| सद्व्य आगतं न शिष्टश क्षण                  | ३  |
| धमण त्रिय ण सोऽयुपायत                      |    |
| निष्ठितं गृहवन् दसु कर्मसु वै द्विज        | ४  |
| प भिस्त त यै श्रद्धानो यजेत च              |    |
| धृति नप्र दो धर्मविदत् न्                  | ५  |
| तर्ह दोधो णो न दिति                        | ६  |
| द नमध्ययन य स् पो र्जव दम                  |    |
| एतैर्वै र्धते तेज पाप्म न चाप र्षति        |    |
| धूतपाप्मा तु मेध व ल व हरे जितेन्द्रिय     |    |
| मक्रोधै वशे कृत्व निर्निषेद्र ण पदम्       | ८  |
| अ श्र णांश्च र्हेद् देवता प्रणमेत च        |    |
| व र्येद्रश च हिंसां च धमसहिताम्            | ९  |
| ए हि पूर्वि । वृत्तिरू ब्रह्मणस्य विर्धयते |    |
| ज्ञानागमेन र्मणि कुन् कर्मसु सिद्ध्यति     | १  |
| पै यजला घेर लोभकू ां सुदुस्तरम्            |    |
| मन्युप न धृ यं नद तरति बुद्धि न्           | ११ |
| का न्यूद्यत पश्ये त्यमत्यन्तमोहि म्        | १  |

---

1. सोऽप्यसङ्गः 2. ति  
3 ग जे । 4. जेदि :

२२ ] शान्तिपर्वणि लोक्षधर्मपर्व १२

महत विधित्प्रेन वलिनाऽप्रतिघ तिना

भ तेतस नित्यम् उ ते सतत जगन् १२

लोदकेन मृता विवेन स ततम्

मिर्णर्तुवेगेन पक्षोलपट्टणेन च १३

निमेषोन्मेषफेनेन अहोरात्रजवेन च

मग्र हेण घरेण वेद्यज्ञपुत्रेण च १४

धर्मद्व पेन भूतानां धनकामरवेण च

श्रुत लोक्षतीरेण विवितातरुवाहिन १५

तेतसा युगभूतेन ह्य यभवेन च

ध त्रा सृष्टानि भूतानि कृष्य ते यमस न्नम् १६

एतत् मयैर्धीर निस्तरति मनीषिण

प्लवैर य व तो हि किं करि यन्त्यचेतस १

उपप हि यत् प्राज्ञो निस्तरे तरे जन

दूरतो गुणदेषै हि प्राज्ञस्त्र पश्यति १८

सशय तु म त्मा चलचित्तोऽल्पचेतन

अप्र नेन तरत्येव यो नेन स गच्छति १९

1. त्मपरे

2. ग विहं । रु ।हना

3. एव ।ह

१अप्लवो हि हन् दोषो मो मात्मनि ग छति

हृगृहा न यस्य न प्लव २

दु मज्जनस्य र्थे प्रयतेत ि चक्षण

ए दु म न तस्य यदय ह्वाणो भवेत् २१

य द ते ले जातस् त्रि देह ि कर्म त्

तस्मादु मज्जन तिष्ठे ि रेत् य या २२

स कृतस्य हि द तस्य नियत यत त्मन

प्राज्ञस्यान तरा सिद्धिर् इह लोके रत्र च २

तेत े गृह न् अ ध्य नसूय

प भि सतत यैर् ि घसाशी यजेत च २४

स ि वृत्तेन धर्मेण ि य शिश्रवदाचरेत्

अनुरोधेन ले वृत्तिं लिप्सेदगर्हिताम् २५

श्रु ि नतर श शिष्टाच रविचक्षण

धर्मेण ि लोके कु ि ण सेऽ यसङ्कर २६।

ि य ज् श्रद्दध नश्च दात प्राज्ञेऽनसूयक

धिम ि शे स् सर्व तर ते दुस्तरम् २

धृति न त्त दा ते धर्म ि द त्मव न्

1. —नास्तीदम सू १.

3. रो 4 द्वि ि

२२ ] शान्तिपर्वणि ॐक्षधर्मपर्व १२ ९

वा हर्ष भयक्रोधो ब्राह्मणो न सीदति २८

एष पूर्व रा वृत्तिर् ब्रा ण विधीयते  
नवृद्धैव िणि िन् सर्वत्र सिध्यति २९

अधर्म धर्म ामे हि करोति विचक्षण  
ध चाधर्मसङ्क श शेचि व करेति स ३

धम रोम ि करोत्यधर्मम्  
अधर्मकामश्च रोति धर्मम्  
उभे व ल कर्मण न प्रज नन्  
स जायते ि यते चापि देही ३१

इति महाभार े या साहताया  
शा ि ि शत्य ि द्विशत िोऽध्यायः २२  
८८ िो ि ि द्विस िोऽध्यायः २  
[ ि ि ३ िो िः ]



## ए वै ल्यधि द्विशततैऽय



ति धि प्रा ज्ञान ेय स धन पर क रोष्य  
:

व्य :

अथ चे चयेदे दू उ ते मनसा था  
मज्जं निमज्जश्च नव न् प्लु न् भवेत् १

नि तै रास् त रय ल्यबुध न् प्लु  
न बुध स्तारयन्त्य य न् अ त्म न । थ २

ह नदेषे मुनिर्योग द् युक्तो युञ्जी त दश  
र्मसुख नर्थ न् उप याप यनि य ३

चक्षुराचारसङ्गाहैर् मनस दर्शनेन च  
यच्छे द्वाच मनो बुद्ध्य य इच्छे नमुत्तमम्

नेन य े त्म न य इ छेच ि म त्मन  
एषं चेदनुद्रष्ट पुरुषेऽपि सु ारुण ५

यदि ा सवदे े यदि ाऽय नृचे जपन्  
यदि वा ध र्मि े य यदि व प पकृत्तम ६

1 ग ि दोषो नियो ि युक्तो ि दश

2. ह

|   |    |
|---|----|
| यदि । पुरुष या े यदि वै यध रण<br>तरत्ये मह दुर्गां जरामरणस गरम्                 |    |
| एव े येगेन यु । नोऽप्ये मन्तत<br>अपि जिज्ञासमानोऽपि श द्ब्रह्म ते तैते          | ८  |
| ध ोपस्थे ह्रीवरूथ उप य प यकूबर<br>अप नाक्ष प्राणयुग प्रज्ञायु र्ज वव धन         | ९  |
| चेतन बन्धुरश्च रु अ चार-नाहनेमिमान्<br>दर्शन पर्शनवहो घ्राणश्र णवाहन            | १  |
| प्र नाभिर्धर्मत त्रप्रते दो नस रथि<br>क्षे धि े धैर्य श्रद्धादमपुरस्सर          | ११ |
| त्य गरइ यनुग क्षे य शै चगो ध्यानगोचर<br>जीवयुक्तो रथो दि यो ब्रह्मले के विराजते | २  |
| अथ १सत्त्व मास द्य रथमेन युयुक्षत<br>अक्षर ग तुमनसो विधि वक्ष्यामि शास्त्रगम्   | १३ |
| स ये धरण कृत् । वा त प्रतिपद्यते<br>पृष्ठत पश्चतश्चा यास् ता त्यस्त प्रध रण     | १४ |
| मश प र्थिव यच्च वाय य ख तथा पय  | १४ |

1. ग वर णस्व रथे

१. इय :

|  |    |
|--|----|
| योतिषे य दैश्वर्यम् अह रस्य बुद्धित            |    |
| अ यक्त थैश्वर्य मश प्रतिपद्यते                 | १५ |
| युत्क्रम च पि यस्यैते तथ युङ्क्ते स ये गत      |    |
| थाऽस्य योगयुक्त सिद्धिम त्मनि पश्यत            | १६ |
| निर्मथ्य नस्सूक्ष्मात्म रूपा येतानि दर्शयेत्   |    |
| शैशिरस्तु यथ धूमस् सूक्ष्म सश्रयते नभ          | १७ |
| थ देहा द्विमुक्तस्य पूर्वरूप भवत्युत           |    |
| अथ धूमस्य विरमेद् द्वित य रूपदर्शनम्           | १८ |
| जलरूपि शे तत्रैव त्मनि पश्यति                  |    |
| अपां ति मे च पि िरूप ाशते                      | १९ |
| <sup>३</sup> स्मि परते च व य य सूक्ष्मम यथ     |    |
| रूप प्र ा ते तस्य पीत र्ण दप्यजे               | २  |
| तस्मि परते रूपम् अ ाशस्य प्रक शते              |    |
| <sup>४</sup> ऊर्णस र्णरूप तत् तस्य रूप प्र ाशे | २१ |
| तत तां गतिं गत्व सोऽहङ्कारे ाशते               | २२ |

1. नि च्यम : सु द्रूपणी दशेत् [ १ रम् ]

2. 3. च नाि

4. िदिमधम्

5. थ गि गता । व्य सु प्यजम्

|   |    |
|---|----|
| तस्मि परे चस्य बुद्धिरूप प्रक शते             |    |
| सुशुक्लं चेतससौ म् अ यक्ते ाहण वै             | २३ |
| एते वपि हि ज तेषु फलजातानि े शृणु             |    |
| ज तस्य प र्थिवैश्वर्यैस् सृ ष्टिरिष्टा िध यते | २४ |
| प्रजापतिरिव क्षोभ्यश शरीर त् सृजते जा         |    |
| र्णतो गृ ते न प्सु नाप िवति चाशया             | २५ |
| अङ्गुल्य .. मात्रेण ह प देन तथा               |    |
| पृथिवा पयलेको गुणो वायोरिति स्मृ              | २६ |
| अ क शमूतश्चाकाशे सवर्णत् । दृश्यते            | २६ |
| न चास्य तेजस रूप द्यते श यते थ                |    |
| अह ारस्य विजये प ैते युर्वश नुगा              | २  |
| ष ण ात्मनि बुद्धै च जितायां प्रभवत्युत        |    |
| निर्दोष तिभ ेष त समभिवर्तते                   | २८ |
| तथै यक्त ात्म नम् अ यक्त प्रतिपद्यते          |    |
| यते नि सरते लोको भवति यक्तसङ्गक               | २९ |
| िषयप्रतिसह रस् स ङ्ख्य ि सिद्धिलक्षण          |    |
| तत्र य मया य ख्यां शृणु त्व वि रेण मे         | ३  |
| तथा यक्तमया चैव सख्यापूर्व निबोध मे           | ३१ |

|  |    |
|--|----|
| प ां शि त्व नि तुल्या युभ त समम्<br>गे स येऽपि च था विशेषां त्र मे शृणु              | ३२ |
| प्रोक्तं तद्व्यक्तमित्येव जा ते वर्धते च यत्<br>ज ये ि यते चै चतुर्भिर्लक्षणैर्युतम् | ३३ |
| पर त तो यत् तद यत्तमुद ६ म्<br>द्वाव त्मानौ च ेदेषु सिद्ध ते व युद् तै               | ३४ |
| चतुर्लक्षणज त यच् चतुर्वग प्रचक्षते<br>यत्तम यत्तजं चैव तथा धुद्धिरथे रत्            | ३५ |
| सरं क्षेत्रज्ञ इत्येतद् द्वयम यत्तदशनम्<br>द्वाव त्म नौ च वेदेषु विषयेष्वनुरः त      | ३६ |
| विषयात् प्रतिसह रस् स ऋचानां विद्धि लक्षणम्  | ३६ |
| निममश्च नह रो निर्द्वन्द्वि सश<br>नैव क्रुध्यति न द्वेष्टि न नृता भ षते गिर          | ३  |
| आ ष्टाडितश्चापि मैत्रा ध्य यति नाशुभम्<br>वाङ्मन कायद नां त्रयाणं च नि र्तक          | ३८ |
| समस र्वेषु भूतेषु ब्रह्माणमतिवर्तते<br>नैवेच्छाि न चानिच्छे यत्र मात्र स्थित         | ३९ |
| अलोलुपेऽ यथे द तो न कृतिर्न निरा ति  |    |

२२२] शां पणि मोक्षधर्म वे १२८५

नास्येन्द्रियेकाग्र नातिक्षिप्ते मनोरथ  
हस्तस्स भूत नाम् २ क ड्ख्ये विमु ते ४  
अथ योग द्विमु य ते ारण्यैर्निबोध मे  
गैश्वर्यमति न् चोऽऽ क्रामति मुच्यते ४२  
इत्येषोभयजा बुद्धि थि ते सशय  
एव भ ति निर्द्व द्वो ब्रह्माण च ति ते ३

इति भारते शतसहस्रि त्वा ित्यां िक्यां  
शां पणि एक शत्यधि द्विशततमोऽध्यायः २२  
८ धर्मप णि द्विस ति िोऽध्यायः ३  
[ ि १३ श्लोकः ]

### द्वावशत्यधिकद्विशततमोऽध्याय

भी े युधेष्टि ति भूे ार णनपूर्वकज्ञानप्र पर  
ति व्य ानु ादः

व्या :

थ नप्लव रो गृह त्वा शान्तिमास्थित  
उन् निमज्ज िद्यामे भिसश्रयेत् १

मथो विद्या यथ निस्तरति द्वयम्

प्रवृत्तिलक्षणो मर्निवृत्तिरिचैव हि २

व्य

परयतुभूतानां निनेपलभ्यते  
विद्यया । दृष्टानां विद्या हि परम गति ३

यस्तु पश्येत् भावेन विना भा मचेतन  
पुणति स पुनस्सिन् प्रज्ञया मुक्तहेतुक ४

येषं चैक तभाेन भरण महत्  
दूर्धातृणवृस का ये ते लभ ते ि न ५

ये चैन पक्ष श्रित्य तैय तेऽल्पचेत  
भाव रण त न श्रेय प्र ि ते ६

भावो हि विनाशय मोह ममनोभ  
निरु मेतयोरेव स्वभा परिभा ये

यादीनि हि मर्णि सस्यसङ्गुण नि च  
प्रज्ञ द्वि प्रक ति य न सनगृहाणि च ८

आ न गृहाणां च गत न म गतस्य च  
प्रज्ञ वक्तारो ज्ञ न द्विरनु ि त ९

1. धद्वय नाि उपि

2. सु ि

3. गद न गदस्य

प्रज्ञ सयोजयत्यर्थे प्रज्ञ श्रेयोऽधिगते  
राजने भुञ्जते राज्यं त्रयं त्यलक्षणा १

भूतानां जम सर्वे ऽ विधानां चतुर्विंशत्  
जर मये द्वेदं इत्युपलक्षयेत् ११

स्य वरेभ्यो विशिष्टानि जङ्गमा युपलक्षयेत्  
उपपत्तिं हि यच्छ्रेष्ठानि शिष्येति शेषत १२

द्विद्वेषद्वेषदनि जङ्गमनि द्वयानि तु  
द्विपादानि विशिष्टानि जतिधर्मवधरणात् १३

द्विपदनि द्वयं यदुपस्थितं नीतरणि च  
पार्थिवनि विशिष्टानि तानि निभु १४

पार्थिनि द्वयं यादुर् मध्यमं युत्तमं न च  
४ उत्तमनि विशिष्टानि जातिधर्मोपधारणात् १५

उत्तमानि द्वयं यदुर् धर्मज्ञानातराणि च  
नि विशिष्टानि कार्यार्थोपधारणात् १६

1. परं र भूतानां त्रयं तोपल  
ति विंशत् परागा [ धि : :]

2. बह्वं यं विशिष्टानि द्विपादानि बहू पि [ प रम् ]

3. द्विपादानि द्विज यादुर् ज्ञानतराणि  
ग द्विपादानि यादुः [ त्तरम् ]

4. ध्यं ०. न्य



|  |    |
|--|----|
| धर्मज्ञाने द्वया यद्दुर्वेदज्ञानीतराणि च   |    |
| वेदज्ञाने विशिष्टानि वेदोक्तेषु प्रतिष्ठित | १७ |
| वेदज्ञाने द्वय यद्दुर्वेदप्रवक्तृणीतराणि च |    |
| प्रवक्तृणी विशिष्टानि सर्वधर्मोपधारणत्     | १८ |
| वेदज्ञाने हेतुवैवेदासु सहधर्मफलिय          |    |
| सत्यसकला वेदाप्रवक्तृवभिनिस्तृता           | १९ |
| प्रवक्तृणी द्वया याद्दुर्वेदज्ञानेतराणि च  |    |
| अधर्मज्ञाने विशिष्टानि जन्ममेक्षोपधारणत्   | २० |
| सर्वधर्मज्ञाने हि यो वेदसर्वस्सर्वधर्मवित् |    |
| सत्याशी सत्यसङ्कल्पसु सत्यक्षाति स ईश्वर   | २१ |
| धर्मज्ञानेति हि तदेव ब्रह्मण विदु          |    |
| शब्दज्ञानेति नापरे च कृतनि यम्             | २२ |
| अज्ञाने च हेतुवैवेदधिय धिदै तम्            |    |
| जानन्ति तान् नमस्य मसु ते देवै त ते द्विज  | २३ |
| वेदेषु विश्वमिदं भूतं सद्यश्च जगद हि म्    |    |
| वेदेषु हात्म्यभासदृशं नित्यं च             | २४ |

१अद्य त निधनं च धम च धीत्यंश  
चतुर्विधं भूतस्य सर्वस्येशस्त्वय भु २५

इति श्रीमहाभारतशतसहस्रनामहिताय वैयासिक्या

शान्तिपर्वणि द्वाविंशत्यधिकद्विशतोऽध्यायः २२२

८८ पवणि चतुस्त्रिंशदोऽध्यायः

[अस्मिन् पर्वणे २५ अध्यायाः]

### त्रयोविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

युधिष्ठिरि मत्तमे युगधमेऽपि पादकव्यास  
उवाच

:

एष पूर्वतरावृत्तिर्गणस्य विधयते  
ज्ञाननिर्णयकर्मणि कुर्वन् सर्वत्र सिद्धिं १  
तत्र चेभवेदेवसशयनिर्णये  
ऋतुकर्मभवेवद्वैवकमतिः । पुन २  
२तत्र वेदविहितसर्थं न यत् पुरुषप्रति  
उपपत्त्युपलब्धभ्यां वणयि मीच्छणु ३

1. यदि तौ निधनं च धीत्यंश

गद्यं च धीत्यंश

गद्यं च धीत्यंश

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| पारुष कारण ेचित् ेचित् कर्मे मन       |    |
| मे प्रशसति मपरे जन                    | ४  |
| पौरुषं कर्म दैव च फल ति भा त          |    |
| त्रयमेतत् थ भूतम् अिक च केचन          | ५  |
| एव तन्न च प्येवम् उभ वेव न चाप्युभा   |    |
| र्मस्थ विषय युस् सत्त्वस्थास्समदर्शिन | ६  |
| त्रे यां द्वापरे चैव कलिज त ससशय      |    |
| पि न प्रशान्तश्च सत्त्वस्था कृते युगे |    |
| अ थ दर्शिनस्सर्वे ऋक्स मसु यजु पु च   |    |
| मद्वेषौ थग् तप त पासते                | ८  |
| पे मण सयुक्तस् तपे नित्य सुसशित       |    |
| ते सर्वान ेति यन् कमन् मनसे छति       | ९  |
| पस तद ेति यद्भूत सृजते जगत्           |    |
| सत्य तपश्च भूत ना सर्वेषा भवति प्रभु  | १  |
| दुक्त ेद ादेषु गहन ेददर्शिभि          |    |
| ेदा ते पुन र्यक्त क्रमयोगेन लक्ष्ये   | ११ |
| अ र भय क्षत्रास्त्युर् हविर्य विश मृत |    |

1. तद्भूत भूता तद्भूत भू नां  
नयज्ञः

२२३] शान्तिपर्वणि ेक्षधर्मपर्व १२९१

परिचार झाशूद्रास्तुं जप । जिजातय १२

परिष्ठित यो हे ध्यानेन द्विजे भवेत्  
यद्दय कुर्य मैत्रो ह्यण उ यते ३

यां स ला ेदा य णश्रमास्तथ  
रेष दायुषत्वैते य ते द्वापरे युगे १४

द्वापरे विप्लव यति वे । लियुगे तथा  
दृश्यन्ते न पि श्यते कलेरन्ते पुन पुन १५

उत्स दति धमश्च तत्र धमण पाति  
गवा भूमे ये च पाम् अपधीनां च ये र १६

अधर्म तर्हिता ेदा वेदधर्मा थऽऽश्रमा  
विक्रिय ते स्वधर्माश्च रणि चराणि च १

यथा सर्वणि भूत नि वृष्ट्या तृप्यति प्रावृषि  
सृज्य ेदतोऽङ्ग नि तथ वेदा युगे युगे १८

हित लन त्वम् न दिनिघन च त्  
यत् पुरात्ते त सयति च प्रजा १९

धेद प्र स्थ न भूत नां संयमो य  
भानैव त े द्वद्वसृष्ट नि भूरिश २



मनसोद्द्रयाणां च ऐ श्य यद् अप्यते  
येने प येन पुरुषैस् त य ख्यातुमर्हसि ४

यासः

न यत्र विद्य तपसोर् ना यत्रेद्द्रयनि ह त्  
न्य लोभस त्यागात् सिद्धिं वि द् कश्च ५

हाभूत नि सर् णि पूर्वसृष्टौ यन्भुव  
भूयिष्ठं प्र णभृत्काये निविष्टानि शरं रिपु ६

भूमेर्देहो जल त् ोते ये तेषश्चक्षुषी स्मृते  
प्राण पान ये व यु खेष्व काशशरं रिणाम्

ते ि पुर्वले शक्र ोष्टेऽर् मुक्तिमि छति  
र्णये प्र देशश्चेत्रे जि यां ाक् सर त् ८

णै त् क् चक्षुषी जि नसिक चै प मी  
दर्श ानीन्द्रियोक्तानि द्व रा य ै र्यसिद्धये ९

श द्दर् पशस्तथा रूप रसे ग ध पञ्चम  
इद्द्रयाणि थक् ाथान् मनसा दर्शयन्त्युत १

इद्द्रि णि नो युङ्क्ते वश्य न् य ते वाजिन  
मनश्च पि सद युङ्क्ते भूत त्मा ि दये स्थित ११

इद्द्रयाणं यथ तेषां सर्वेष मीश्वर मन

|   |    |
|---|----|
| नियमे च विसर्गे च भूत त्म मनसस्तथा      | १२ |
| इ य णा ि य थ स्वभावश्चेतना मन           |    |
| प्र ण पानौ च जीव नित्यं देहेषु देहिनाम् | १३ |
| अ श्र ौ न ि सत्त्वस्य गुण सर स्य चेत ।  |    |
| स े तेजस्तृजति न गुणान् वै क चन         | १४ |
| एव सप्त श देह त षो शभिर्गुणै            |    |
| मन षी मनसा विप्र पश्यत्य त्म नमात्मनि   | १५ |
| न य चक्षुष दृश्ये न च सर्वैरपी द्रयै    |    |
| मनस दीपभूतेन महान त्मा प्र िशते         | १६ |
| अशब्द पर्शरूप तद् अरस ग धम ययम्         |    |
| अशर र शर रेषु निरीक्षेत निरी द्रयम्     | १  |
| अ यक्त सर्वदेहेषु मर्त्ये वमृतम हितम्   |    |
| योऽनुपश्यति स प्रे कल्पते ह्यभूयसे      | १८ |
| विद्य १ ि न सम्प े ाह्यणे गवि हस्तिनि   |    |
| नि च धपाके च पणि तास्समदर्शि            | १९ |
| स च स े भूतेषु जङ्गमेषु ध्रुवेषु च      |    |
| सत्येको महा त्म येन सर्वमिद ततम्        | २  |
| स े भूतेषु च त्म न सर्वभूत नि च त्म नि  |    |

२२ ] शान्ति णि ौक्षधर्मपर्व १२९५

य । पश्यति भूतात्म ह्य स पद्यते तद् २१

य नात्मनि मे ।त्म ता ।न । पर ।त्मनि  
य एव सतत वेद सेऽमृतत्वाय लपते २२

सर्वभूत ।त्मभूतस्य सर्वभूतहितस्य च  
देवा मार्गे मु ।ति अप ।स्य पदैषिण २३

श नान मि काशे जले रीचरस्य च  
यथ गतिर्न दृश्येत तथैव सुमह ।त्मन २४

ल पचति भूत नि सर्व येवात्मन ऽऽत्मनि  
तु पच्यते लस् त न देह क न २५

न ऊर्ध्वं न तिर्यक् च न धञ्चरति व पुन  
इन्द्रियैरिह बुद्ध्या व गृ े न कद् चन २६

न मध्ये ते ह्नाति नैव कश्चित् तश्चन २६

सर्वेऽ तस्य इमे लोका व मेषां न कि न  
य सह समाग छेद् यथा व णो गुणा युत २

नैव त रणस्येच द् यदि च स्या मनोज  
।त् सूक्ष्मतर नाि नस्ति थूलतम तत २८

सि पाणिप द् तत् सर्वतोक्षि शिरेमुखम्

1. ।। Xन ।। .त

२. ग ।दम म्



|   |    |
|---|----|
| वतश्चुतिम ०० सर्वमा स्य ति ति           | २९ |
| १तदे णोरणुतर महद्भ्यश्च महत्तरम्        |    |
| तद त सर्वभूत नां ध्रु तिष्ठन् न श्यते   | ३  |
| अक्षर क्षर वै द्वैधीभा ०ऽयम त्म         |    |
| क्षर स ० पु भूतेषु दि ० मृतमक्षरम्      | ३१ |
| नवद्वार पुर गत्व ह ० हे नियते शा        |    |
| ईश्वरस्सर्वभूतस्य स्थ वरस्य चरस्य च     | ३२ |
| ह नेन गतकालान वानां स ० न च             |    |
| शरीर णामजस्य हुर हसत्व पारदर्शिन        | ३३ |
| हसोक्त यत् क्षर चै कूटस्थ यत् तदक्षरम्  |    |
| तद्विद्व नक्षर प्राप्य ज ण्मरणज मर्त    | ३४ |
| ए त्वं बुद्धिमनसोर् २ द्रियाणां च स ० श |    |
| अ त्म नो यापिनस्तात णमे दनुत्त म्       | ३५ |

इति ० र ० तसहकार्या हि । वैश्या  
 ० णि तुर्विंशत्यधि द्विश ०ऽध्याय २२  
 ०० पर्वणि षट् णि मोऽध्यायः  
 [ १ ० अध्याये ३५ ०कः ]

- 
- 1 तदेवाहुरणुभ्य ऽणु हद्भ्य स्
  - 2 क्षर क्षर ०
  3. —ए ० इति ल्य

## पविंशत्यधिकाद्वशततमोऽध्याय

अधिप्रतिभोगरूपादिनिरूप

बोधकव्या

नुवादः

असः

|  |   |
|--|---|
| छतस्तव सत्पुत्र यथा दि० तत्त्वत            |   |
| साङ्ख्यन्यायेन संयुक्तं यदेतत् कर्तितं मय  | १ |
| योगकृत्य तु ते कृतं वर्तयिष्ये मे तच्छृणु  | १ |
| एकं बुद्धिमनसोरिन्द्रियाणां च सर्वश        |   |
| अत्मनेऽयं ययिनस्तात मेतदनुत्तमम्           | २ |
| तदेतदुपशातेन तेन यत् शलिना                 |   |
| अत्मरामेण श्रुद्धेन बोद्धयं चिर्मण         | ३ |
| ये गदोषान् समुच्छिन्द्यात् पयन् कवयो विदुः |   |
| कमो ध च लोभ च भयं च पञ्चमम्                |   |
| धे मेन जयति मसल्पं जित्                    |   |
| रससे नाद्धीरो निद्रामुच्छेत्तुमति          | ५ |
| अदाद्भयं जेभप्रापेसेवनात्                  |   |
| एमे न गदोषाञ्जयेत्यमतन्द्रित               | ६ |

|   |    |
|---|----|
| धृत्य शिञ्जे दर रक्षेत् पणिपाद च चक्षुष     |    |
| च <sup>१</sup> श्रौ च मनसा मग्नौ च च विद्यय |    |
| अग्नाश्च ण नर्चेद् दे प्रणमेत च             |    |
| वर्जये द्रशत च हस युक्तां मनोनुगाम्         | ८  |
| तेजेमय शु य सर्भिद त म्                     |    |
| एकस्य सर्वभूत द्वय रजङ्गमम्                 | ९  |
| ६ नमध्ययन दान सत्य रर्जव क्ष ।              |    |
| शौचमाह रस द्विर इन्द्रिय णा च निग्रह        | १  |
| एतैर्विवधते तेज पप्मान च पकर्षति            | ११ |
| सि ति चस्य सर्थ विज्ञा च प्र शते            |    |
| सम सब भूतेषु ल ध ल धेन वर्तयेत्             | १२ |
| धूतपप्म तु जस्वी ल ह रो जि य                |    |
| मोधौ वशे कृत् निनाषेद्र ण पदम्              |    |
| सञ्चेन्नि य णा च कृत् त्रय स हित            |    |
| पूर्वर त्रेऽपर च ध रये न अत्म               | १४ |
| ज ते प य यदेक छेद्रमिन्द्रियम्              |    |

- 
1. गोत्रे नो बुद्धि धिन  
 . युक्ता इम्  
 3. : 4. -ग

२२५] शान्ति पंचाण ेक्षधर्मपर्व २१९

ततोऽ ति प्रज्ञ दृते पदादिषो. म् १५

मन तु पूर्वं दद्यत् लीरमिव मत्स्यह  
ततश्च्रे च चक्षु जि घ्रण च ये गति १६

एत नि स य मनसि पये द्रव  
तथै पो सङ्कल्पन् मनो त नि धरयेत् १

त च नेन स धाय मनसि पयेद्वर्त  
यदे । ते ते मन षष्ठ नि च त्मनि १८

सीदित च सस्थ य द ह्य प्रक शते  
धिूम इ स चिर् आदित्य २ मूर्त्ति न् ९

ध्वै तोऽ रि क शे पश्यत्य त्म नम त्म नि  
सर्व स स त्र य पकत्व दृश्यते २

त पश्यि महत् नो ह्याणा ये मन षिण  
धृतिमो महाप्र ज्ञस् सर्वभूतहिते र २१

ए परि त कलम् चरन् सशित  
स ने हि रहस्येको गच्छेदक्षरस ताम् २२

1. ु गिन

2. —द्यति'

3. नि ध र ता े ति :

१ नेन ध र े े :

4 धै त नाति

|   |   |    |
|---|---|----|
| १ | दो म अ ण श्रवणदर्शने                    |    |
|   | अद्भुतानि रसस्पर्शे शा णे म रुत ति      | २३ |
|   | प्रतिहारोपसग प्रतिसत्य ये गत            |    |
|   | िस्तर् दि दना त्य मन निवर्तयेत्         | २४ |
|   | यात् परिचय ये गे त्रैकाल्य नियतो मुनि   |    |
|   | गिरिशृङ्गे तथा चैत्ये वृक्षेषु च योजेत् | २५ |
|   | सि यम्येद्रि प्रम गेष्टे भ मनागि        |    |
|   | एकाग्रं चिन्तयेत्य योग द्वेजये मन       | २६ |
|   | येनोप येन क्येत सनिय तु चल मन           |    |
|   | तत्त को निषेवेत न चैव विचलेत् तत        | २७ |
|   | शून्या गिरिगुहाश्चै देवत य न ते च       |    |
|   | शून गार णि चैकाग्रो निव सार्थमुप मेत्   | २८ |
|   | नाभि जेत् पर व च मनसा र्मण तथ           |    |
|   | पेक्षे य हरे ल ध ल धे समो भवेत्         | २९ |
|   | यश्चै मभिनि देत श्रैनमपि ।दयेत्         |    |
|   | मस्तयो युभे र भि ि ह्युभ भम्            | ३  |

1. दोहो

. प्रति प्रा

3. तो

1 ख— इव

न ेयेत लभे नालभे थ चि तयेत्  
स सर्वे भूतेषु स र्मा मा रिश्व ३१

ए त्मन स घोस् सत्र समदर्शिन  
षण्म स लियु द ति ३२

प्रज दृष्ट लेश्म न  
एतान् रितो रै विरमे विमेहित ३३

अपि ण प श्र तु न री धर्म क्षिण  
येतेन म र्गेण गच्छेतां परम पदम् ३

ज पुर ण परम सनात  
यदि द्वयैरुप भ्येत नि लै  
अणेरणियो महतो मह र  
त, त्म । पश्यते युक्तम व न् ३५

इद महर्षे चन ह त्मने  
थ दुक्त मन ऽनुदृश्य च  
अवेक्ष्य चेय त् परमेष्ठिस त्मतं  
प्रयाति यं भूतगतिं मन षिण ३६

इति णि र्वा णि र्वा णि र्वा णि र्वा णि  
शांति णि विंशत्यि द्विंश ऽध्यायः २२५  
८८ णि र्वा णि र्वा णि र्वा णि र्वा णि  
[ सि ष्या २६ ाकाः ]

- 1 ग ना णः 2. र र तिम्  
3. ग जर 4. ग र्वा णि

|   |  |    |
|---|--|----|
| १ | दे भ्रम अ ण श्र णदर्शने                      |    |
|   | अद्भुतानि रसस्पर्शे शा णे म रुत ति           | २३ |
|   | प्रतिह रोपसग प्रिसह्य ये गत                  |    |
|   | तं स्वदिनाद्व्य मनैव निवर्तयेत्              | २४ |
|   | यात् परिचय योगे त्रैकाल्य नियतो मुनि         |    |
|   | गिरिशृङ्गे तथा चैत्ये वृक्ष त्रेषु च योजयेत् | २५ |
|   | यिन्ये द्वयग्राम गोष्ठे ४म मन गि             |    |
|   | एका चिन् ये त्य योग द्वेजयेन्मन              | २६ |
|   | येनेप ये क्येत सनियन्तु चल मन                |    |
|   | तत्त क्तो निषे त न चै विचलेत् तत             | २  |
|   | शून्या गिरिगुहा देवत य नानि च                |    |
|   | शून्य गार णि चैक त्रो निव सार्थमुप मेत्      | २८ |
|   | भिष्वजेत् पर च मनसा र्मण तथ                  |    |
|   | पेक्षे यत ह रो ल घ ल धे समो भवेत्            | २९ |
|   | यश्चैन भिनि देत श्रैनमपि ।दयेत्              |    |
|   | स ये यु योर् न भिष्येच्छुभ शुभम्             | ३  |

1. प्रमोहो

. प्रति ।सु तिसह्य

3. तो

1 । इव

न ेयेत लभे नालाभे थ चि तयेत्  
सम ेर्वे भूतेषु सधर्मा ि रश्चन १

ए त्मन स धोस् सत्र समदर्शिन  
ष मस ेत्युक्त श द्ब्र ति ते ३२

अ त प्रज दृष्ट्वा स लेश्च ३  
ए िन् निरतो िर्वेरमे वे हित ३३

अपि णाप ष्टु नरी धर्मे इक्षिण  
व येतेन ेण ग छे ि परम पदम् ३

अज रण परम नात  
यदि द्रयैरुपलभ्येत निश्चलै  
अणेरणये महतो महत्तर  
त त्मन पश्यते युक्तमात्म न् ३५

इद महर्षेर्वचन मह त्मने  
थ दुक्त मनस ऽनुदृश च  
अवेक्ष्य चेय त् परमे त्मत  
प्रया ित यं भूतगतिं मर्न षिण ३६

इति रे ियां ि ति  
ति प णि शत्याध द्वि ि न्य : २२५  
८८ िो णि ि िोऽभ्य :  
[ क्षि न्ये ३६ षो ि :

1. ग न िः २. र िम्  
3. ग जर 4. ग े द्र



## षड्विंशत्याधकाद्विंशततमेऽध्याय

भी ० धिर ० । मस्वरूपादिनि व्या तु

:

यदिद वेद चन कुरु ० त्यजेति च  
ए द योन् वैरूप्य तेते तिकूलत १

। दिश ० द्यय य ि ं च ग ० र्मणा  
एतद्वै ० तुमि ० मे तद्भ न् प्र वीतु मे २  
ति

स्त्यु ० ल्यु । चेद पराशरसुतस्सुतम् २

। :

कर्म ० द्य मयावेतै याख्या । मि क्षराक्षरौ  
यां दिश विद्यय याति यं च गच्छति र्मण ३  
शृणु वै मना ग र ० त . तरम्

अ ० धर्म इति क्त् । स्तीत्यत्रै यो देत्  
पक्ष सदृशम् २६ मम भवेदथ ५

1.

० वि या ति गच्छ

२२६] शांति पर्वण षोडश पर्व १३ ३

द्वाविमावथ पथानै यत्र वेद प्रतिष्ठित  
प्रवृत्तिलक्षणो धमा नि त्तै च यवस्थित ६

विद्यया जायते नित्यम् अययो क्षरत्  
र्मण वायते जतुर् विद्यया च विमु यते  
तस्मत् म न कुर्वति यतय परदर्शि

र्मण जयते प्रेत्य मूर्तिमान् षोडश त्म  
र्म त्वेके प्रशसति त्पबु य रा ८  
ते देहजालानि रम त उपासते ९

ये तु बुद्ध पर धर्मेणैषु यदर्शिन  
ते म न प्रशसति कूप नद्यं पि १

र्मण फाति सुखदुःखे भव भ  
विद्यया तद् गेति यत्र गत् न शेचि ११

यत्र गत्वा न वि ते य गत्वा न ज  
न र्जयते य गत्वा यत्र गत्व न धेते १२

तद्यति परम पुराणमजर ध्रुवम्  
अय हतमनय सम् अमृतत् च विद १३

1. दत्तत्र पर र  
ग ति ब्र र क्त वम्

|   |    |
|---|----|
| द्व द्वैर्यत्र वध्ये मनसेन च कणा                    |    |
| समसत्रैश्च सर्भूतहिते रता                           | ४  |
| विद्ययेऽयपुषस् तातर्ममयेऽपर                         | १  |
| विद्धि चन्द्रमसदर्शे सूक्ष्मयकलया स्थितम्           |    |
| १० यंत रुषं नित्यज्ञानगुणात्मम्                     | ५  |
| देतेण प्रोतिरेणानुर्मये                             | १६ |
| च शिन दृष्ट्वा वतमि म्वरे                           |    |
| एादशविारत्मा कलासभारसम्भृत                          | १  |
| मूर्तिनिहितं विद्धि ततर्मगुणात्मकम्                 | १  |
| स्मिन् यसस्थिते रि नित्यस्थायामि हि                 |    |
| अानतं जिजानीहि नित्यत्यगजितत्मम्                    | १८ |
| ये यस्सश्चि स्ति विदुरिवपु रे                       |    |
| क्षेत्रे विजनीहि नित्यज्ञानजितमकम्                  | १९ |
| तमो रजश्च सत्त्वच <sup>३</sup> विद्धि जावगुणात्मकम् |    |
| जात्मगुणविदूअत्मनपरमात्मन                           | २  |

1. ेदम्

2. —ज्ञानचिदम्

3. बुद्धि विगुणानि च

अचे जिवगुण दति

स चेष्टते चेष्टयते च सर्गम्

तत पर क्षेत्रविदे वदन्ति

प्र कल्पयद्यो भुवन नि स

२१

इति षोडशोऽध्यायः शतसहस्रव्यायां द्वितायां यासि

षोडशोऽध्यायः षोडशोऽध्यायः २२६

८ मो ध पर्वणि १ मोऽध्यायः ८

[ षोडशोऽध्याये २ श्लोकाः ]

स षोडशोऽध्यायः द्विशोऽध्यायः



षोडशोऽध्यायः षोडशोऽध्यायः

:

क्षरत् भृति यस्सर्गस् सगुण नैन्द्रियणि च  
बुद्धैश्चर्य भिसर्गं प्रधानश्चात्मनश्श्रुतम्

१

भूय एव तु लोकेऽस्मिन् सद्वर्ति हैतुक षोडशोऽध्यायः  
यस्य त प्रवर्तते तमिच्छन्नुवर्तितुम्

२

वेदे चनमुक्त तु कुरु मे त्यजेति च  
कथमेत द्विजानीयां तद्भवन् वक्तमर्हसि

३

लेकवृत्ता ततर पूतोऽह गुरुश सन त्  
कृत्व बुद्धिं विमुक्तात्मा द्रक्ष । यात्मानम त्मन ४

:

एष वै विहिता वृत्ति पुरस्त द्रह्मण यम्  
एषा पूर्वतरै सद्भिर् आर्चिर्णा परमर्षिभि ५

चर्येण १ लो ज् जयति परमर्षय  
आत्मनश्च हृदि श्रेय अ च्छ मनसाऽऽत्मनि ६

१ मूलफल शा च १त य परम तप  
यायतनचारि च भूत न मर्विहिंस ७

१ धूे स मुसले व नप्रस्थप्रतिश्रये  
क ले प्रप्ते चरेद् भैक्ष कल्पते भूयसे ८

ने तुतिर्निर्न र परित्य य भाशुभे  
अर ये विचरै ।र्क येन केन चिदाशित ९

:

यदिद ेदवचन लेकव दे विरुध्यते  
प्रम णे च प्रमाणे च विरुद्धे श त त १

इत्ये छोटुमिच ।मि भगवन् प्रव्रवीतु मे  
र्मणा िरेधेन थमेतत् वर्तते ११

|   |    |
|---|----|
| इत्यु प्रत्युवाचेद ग धवत्यास्सुतस्सुतम्<br>ऋषिस्तत् पूजयन् क्य पुत्रस्यामिततेजस       | १२ |
| :   |    |
| गृहस्थो ब्र च री च त्तप्रस्थोऽथ भिक्षुक<br>यथे कारण सर्वे ग छति परमां गतिम्           | १३ |
| ए य अश्रमानेतान् अधितिष्ठेद्यथ विधि<br>अ त्मद्वेषसयुक्तस् स परत्र <sup>१</sup> महायते | १४ |
| चतु पद हे निश्श्रेणी ह्य येषा तिष्ठित<br>ए माश्रित्य निश्श्रेण ब्रह्मलेके मदीयते      | १५ |
| अ युषस्तु चतुर्भांग ब्र चर्य नसूयक<br>गुरौ व गुरुपुत्रे । सेद्धर्मार्थिके विद         | १६ |
| जघ यश र्य पूव द् उत्थाय गुरुवेश्मनि<br>य शिष्येण कर्त य काय द सेन व पुन               | १  |
| तमित्ये तत् सब कृत्वा तिष्ठेत प र्थ<br>ङ्करस्स री च सर्व मसु कोविद                    | १८ |
| र्मशेषेण तु गुरोर् अध्येत यं बुभूषता<br>दक्षिणेनोपसार्द स्याद् अ हूतो गुरुमा जेत      | १९ |

|   |    |
|---|----|
| चिदक्षो गुणोपेतो यूय दि मि । र          |    |
| चक्षु गुरुम यत्रे निरक्षेत जितेति द्वय  | २  |
| न मुक्तं चाश्रयाद् अप तवति ने पिबेत्    |    |
| न ॐ थाऽऽस त ना ॐ प्रस्वपेत च            | २१ |
| त्त नाभ्य च प णिभ्यां पाद स्य मृदु शेत् |    |
| दक्षि दक्षिणेनैव स य स येन पी येत्      | २२ |
| भि । गुरु ॐ दूर्ध्वं भग ॐ ति            |    |
| इद रि ॐ भग न्निद चापि                   | २३ |
| इति सर्मानुज्ञ य निद्य गुरो ध म्        |    |
| ति ८ च तत् सवम् आख्येय गुरो पुन         | २४ |
| यस्तु गधन् रसन् वऽपि चरि न सेवते        |    |
| सेतैतन् वृत्त इ ॐ मेषु ि य              | २५ |
| ये क्वेचि रेणोक्त नियम चारिण            |    |
| न् स त्तनुगृही द् वेच्च तपगो गुरो       | २६ |
| स एव गुरो प्रीम् पत्न्य यथ बलम्         |    |
| येण श्रमे ॐ व शि ॐ तैत र्मा ।           | २  |
| वेद ॐ पे सेन च थ च युषो गते             |    |
| गुरो दक्षिणा दत् स तै थ वि              | २८ |

धर्मल धैर्युते दारैर् अ नुत्पाद्य य त  
द्वितीयम युषे भ ग गृहमेधी व्रती भवेत् २९

इ श्री भार्वातः । या वि व्यासक्य  
। तपत्राण स शिल्पि द्विशत गोऽभ्यः २२  
८८ गो ध ए जेन वि गोऽभ्यायः ९  
[ वि ध्याये २९ श्लो ० ]

### अ विं त्यधि द्वाशततमोऽध्याय

भीमैण धि वि गृहस्थध प्रतिपाद । स यानु । दः

व्य :

द्वितीय युषे भ गं गृहमेधी गृहे सेत्  
धर्मल धैर्युतो दारैर् अ नुत्पाद्य यन्नत १  
गृह वृत्तयश्चै चत कविभि मृत १  
१ मूलधा य प्रथम भीमैः य त न तर  
अश्वस्तनोऽथ ।पोतीम् आस्थिते वृत्तिम चरेत् २  
एषां पर परो ज्यायान् धर्मते ले जित्तम ३  
षट्कर्मा र्तयत्ये स् त्रिभिरे प्र तते  
द्वाभ्य मेकश्चतुर्थश्च ह्यसत्रे य स्थित ४

1. कुहुम्ब । यत्रा :



|  |    |
|--|----|
| गृहमेधिव्रता य ह तीह प्रचक्षते           |    |
| न त्मार्थे पाचयेद् न वृथा घातयेत् पशून्  |    |
| प्रण यदि । प्राणी स कार जुषाऽर्हति       | ५  |
| न दि प्र पेज्ज तु न पूर्वापररात्रयो      | ६  |
| न भुञ्जीता तर ाले न नृताव येत् ि यम्     |    |
| नास्यानन्नन् सेद्विप्रो गृहे कश्चिदपूजित |    |
| थ ऽस्य तिथय पू या ह यक यवहा सदा          |    |
| ेदवि त ात श श्रेत्रिया वेदपारग           | ८  |
| क र्जि नो द त क्रिय तस्तपि न             |    |
| ेषं ह य च य च प्यर्हण र्थं विधीय         | ९  |
| नखरैस्स प्र तस्य कमख्य पकस्य व           |    |
| अपविद्ध मिहेत्रस्य गुरेर्व ऽर्ककारिण     | १  |
| सवि गोऽत्र भूत न सर्वेष मेव शि यते       | १  |
| तथैवापचम नेभ्य प्रदेयं गृहमेधिना         | ११ |
| घस श भवे त्य नित्य चामृतभोज              |    |
| अमृ यज्ञशेषस्य भोजन ह िष समम्            | १२ |
| भृत्यशेष तु येऽन्न ते तमाहु िघसाशिनम्    | १२ |
| दारनिरतो दा तो नसूयुर्जिते द्रय          | १३ |

२२८] शान्तिपर्वणि ेक्षधर्मप १३११

ऋति कपुरोहित च यैर् मातुल ेथि श्रितै  
लवृद्धातुरैर्वैद्यैर् । तिस वधिवा वै १४

मातापितृभ्यां जर्म भिर् भ्रात्रा पुणे भर्ष ।  
दुहित्रा दस गेण ेवाद ननुयोजयेत् १५

एतैर्विमु य सवाद न् सर्वप पैर्विमु यते  
एतैर्जित तु जयति सर्वाङ्गो । न् स य ६

आचार्यो ब्रह्मलोेश प्रजापत्ये पिता प्रभु  
अतिथिति द्रलोेशो देवलेकस्य चर्ति ज १७

जामयोऽसरसां लेके वैश्वदेवेषु ज्ञातय  
स बन्धव ध । दिक्षु पृथि यां म तृमातुलौ १८

वृद्धब ल तुरकशास् त्वाकाशे प्रभा णव १८  
भ्र ता येष्टस्सम पित्रा भार्य पुत्र स्वका तनु

छाया स्वा द सवर्गस्तु दुहिता कृपण परम् १९  
त देतैरधिक्षि स् सहै ल्यमसञ्च र

गृहधर्मरतो विद्व न् धर्मनित्ये जित म २  
न चाथबद्ध र्मणि धर्म व कि द चरेत्

गृहस्थवृत्तयस्ति स् त सां निश्श्रेयस परम् २१  
पर परं तथै दृश च तुराश्र यमेव तत्

ये चेक्त नियमास्तेषां सर्व यै बुभूषता २२

|   |    |
|---|----|
| भीष यैरुच्छिशिलैः पेटा च स्थितैस्तथा    |    |
| या श्रै वस त्यर्हसू तद्वाष्ट्रमभि र्धते | २३ |
| दश पूर्वान् दश परान् पुनाति च पितामहन्  |    |
| गृहस्य त्त च प्येतं तयेद्यो गत यथ       | २४ |
| चक्रचरलोकानां सदृशीमा युयाद्रतिम्       |    |
| यतेद्वित्रयणामथ । गतिरेषा विधीयते       | २५ |
| स्वर्गलोको गृह नाम् दरमनसं हित          |    |
| स्वर्गा नि नसयु ेद स्सुपुपित            | २६ |
| गलो ग्रे गृहस्य न प्रतिष्ठ नियत त्मनाम् |    |
| ण विहिता णिर् एषा यस्माद्विधयते         | २७ |
| ित य क्रमश प्रप्य गलो मदीयते            | २८ |

अत पर परममुदारमाश्रम

वृत्त यमाहु त्यजता ेबरम्

नौकस गृहपतिन मनुत्त

श्रृणु त्वमि श्रशरारकरिणाम्

२९

इति े त्मार सह ैय नि णिसिक्

शानि नि - विंशत्यधि द्विशत गो ज्य : २२८

८८ गो धमपवणि ैति गोऽभ्य : ८

[स्य ज्यो २९ ो १ः]

1. इत ः प नि

2. ग सिन् मुच्य

## ए े शिदधिकद्विशततमोऽध्याय

ति े िष्टि । वनस्थधम िपादकव्या । दः

ति :

प्रेक्त गृहस्थवृत्तिस्ते १ि हित य मनाषिभि  
तदन तरमुक्त यत् ताि बोध युधिष्ठिर १

यासेन थित पूव सुत य सुमहात्मने १

व्या :

मश तु विर्धयेत तृतीया वृत्तिरुत्तम २

सयोगवृत्तिखि ानां वानप्रस्थाश्रमैकसाम्

श्रूयतां पर्थ भद्र ते सवलोक श्रय त्मनम् ३

प्रेक्ष पूव निवृत्त नं यदेशनिवासिनम्

गृहस्थ तु यद पश्येद् लीपलितम त्मन

अपत्यस्यापि चापत्य वनमेव तदाऽऽश्रयेत् ४

तृतीयमायुषो भ ग वानप्रस्थ श्रमे वसेत्

त नेव ग्रीन् परिचरेद् यजमानो दिवैकस ५

नियो नियत हारष् षष्ठभक्तोऽ प्रम द्ब न्

1. गृहो । मर्नषिणा

2. ग न ेद म्

3 न्

|   |    |
|---|----|
| द होत्र ता ग गो य ङ्ग नि च सर्वश        | ६  |
| १अ वै िहिय नी र िघस नि च                |    |
| ह षि स प्रयच्तेत मखे वत्र पि प सु       |    |
| ानप्रस्थाश्रमेऽ ये िश चत े वृत्तयर मृ । |    |
| स क्षल केचित् ेचि मसि स य               | ८  |
| र्षिक स केचित् ेचि दशमासि म्            |    |
| र्व त्यतिथिपूजाथ य त र्थमे च            | ९  |
| अभ्रा िश िसु हेमन्ते जलसश्रया           |    |
| े मे च प पस श्वच्च मि भोजन              | १  |
| भूमै िपरि र्ते ते तिष्ठन्ति प्रपदरपि    |    |
| स्थाना नै र्तयति सवने भिषि ते           | १  |
| द तोल्लखलिन ेचिद् अश्मकुट् था परे       |    |
| पक्षे िबन्त्ये य गू कथितां स त्         | १२ |
| णपक्षे िबन्त्ये भु ते । थ गतम्          |    |
| मूलैरेके फलैरे ैरेके ढत्रता             | १३ |
| र्तयि यथ याय वखानसमते स्थिता            | १४ |

- 
1. —अफाल चर्न । विस नि [ िश म् ]
  2. पू ।
  3. —याव मे
  4. चित्

२२९] शान्तिपर्वणि मोक्षधमपव ३१५

एतश्च याश्च विधिदक्षास्तेषां विधिणाम् १४

चार्थैर्नैषदे धर्मसाधारणस्मृत

प्रस्थो गृहश्च तोऽयसर्तते १५

अस्मिन् युगे तात प्रैस्सर्वार्थदर्शिभिः १६

गत्य सप्तऋषये मधुच्छदेऽधर्मण

ङ्किदे स्थिरयवितकृतश्रम १

अहो पीर्यस्तथ यतो धेधि श

स्मृतपालने शून्यपलशु १८

एधर्मसुद्विंशसु ततर्गमुन् १८

तप्रत्यक्षधर्माणसु तथा यायावरगणा

ऋषणामु तसां धर्मनैपुणदर्शनाम् १९

अय अपरिमेय ह्यणा नमश्चि

नसा बाल्या विदिताश्च तथा परे २

1. त

2. ण्डयो धेधिः

ग व्यस्तयो स्मृ

3. प्रे सुनिवः शूः लः श्रः

प्रे िः शूः यपालः ि

ग प्रे िः

4. ण

०. ग ि

|  |    |
|--|----|
| र्मभिस्ते निरन । धनित्या जितेद्रिया      |    |
| ग प्रत्यक्षधर्माणस् ते स वनमाश्रित       | २१ |
| अनक्षत्र न धृ य दृश्यते ज्योतिषा गणा     | २२ |
| जरस तु परिदूनो याधिना परिपाडित           |    |
| चतुर्थे त युषशेषे वानप्रस्थाश्रम त्यजेत् | २  |
| साद्य । संनिरुप्योर्धिं सर्ववेदसदक्षिणम् |    |
| अत्मयज से त्मरि र् अत्मक्रा ते त्मसंश्रय | २४ |
| आत्म यन्न रौ य त्यक्त । सर्वपरिग्रहान्   |    |
| साद्यस्का यजेद्य न् श्चै ह सर्वश         | २५ |
| सदे याजिन य स् तथैवात्मनि ते             | २५ |
| त्यजेत् स यगू आत्म येवात्ममोक्षणत्       |    |
| प्राणेभ्ये यजुषां प षट् चाश्रियाद त्सयन् | २६ |
| शरेमनान् य नो मुनि                       |    |
| अश्रमादाश्र स पूते गच्छति र्मभि          | २  |
| भय भूतेभ्यो दर य जेत् पुन                |    |
| ले मयास्त प्रेत्य च न त्यमश्नते          | २८ |

1. ऽपि परी ङ्गा × : रय

२. ऽ जनां यज्ञादाति

नातवृत्तो यपनीतकल्मषे  
 न चेह न मुत्र च कम हायते  
 अरेषमोदे गतसिधिविग्रहो  
 भवेदुदसीनवत्सविन्नर २९

यमेषु चैव त्मगतेषु न यथेत्  
 स्वशास्त्रसूत्र हतिमत्र वित् क्रमात्  
 भवेदथे । गतिरात्मयजिनो  
 न सशयो धर्मपरे जिते द्वये ३

अत पर श्रेष्ठमतीव दुर्गैर्  
 अधिष्ठितत्रिनधिवृत्तमाश्रमन्  
 चतुर्थमुक्तपरमश्रमशृणु  
 प्रकार्यमनपरमंपरायणम् ३१

मारे शतसहस्रं । हितयां ध्यासिक्य  
 शांतिपर्वणि एतेनां शदाश्रकद्विंशतोऽध्यायः २२९  
 ८८ धर्मपर्वणि एतेनां १०ऽध्यायः ८  
 [स्मिन् न्ये ३ श्लो १ः]

1 ग । १०० दि :

1 मुक्तम्  
 J II 4७



## शब्द द्विशतोऽथ

भी युक्तिं तुराश्रमध प्राकृत्य चन तदः

शुक्रः

वर्तमानं त्रैत्रिप्रस्थाश्रमे य  
ये क्तये त्मा कथं शक्तय पर वै इक्षत प.म् १

:

य सस्करमेताभ्याम् आश्रमभ्य तत परम्  
यत् कय<sup>१</sup>परमाथ च तदेहैकमनाश्शृणु २

कषयपचयित् च श्रेणस्थानेषु च त्रिषु  
प्रब्रजेच्च परस्थानपरि ज्यामनुत्तमाम् ३

इ नेवमभ्यस्य ततां श्रूयतां तथा  
ए ए चरेद्धम सिद्धार्थमसह यान् ४

ए श्वरति य पश्यन् न जहाति न हीयते  
निरग्निरनिके स्याद् न मम र्थम श्रयेत् ५

अश्व ननिधनस्य मुनिभावसमवित  
ल शि नियताहारसू सक्वद निषेवते ६

कपल वृक्षमूलानि चेल स यत

1. था 2. ि

|  |    |
|--|----|
| उपेक्ष सर्भूत नम् एत द्विधुलक्षणम्               |    |
| यस्मिन् व च प्रणश्यति कूपे प्रा शिला इ           |    |
| <sup>१</sup> न वक्तर पुनर्यति कै ल्य श्रमे वसेत् | ८  |
| नै परये शृणु व य जातु स्यचित्                    |    |
| ब्राह्मणानविशेषेण नैव ब्रूयत् थ न                | ९  |
| यद्ब्र ह्मण कुशल तदेव सतत देत्                   |    |
| तूर्णम सीत नि दायां कुर्वन् भेषजम त्मन           | १  |
| येन पूर्णमिवा श भ त्येकेन सर्वद                  |    |
| शूय येन जना िर्णं त दे ब्राह्मण विदु             | ११ |
| <sup>२</sup> येन केनचिद् छ ा येन केन चिदाि त     |    |
| यत्र कचन श य च त देवा णं विदु                    | १२ |
| हेरिव गणाद्धी तस् <sup>४</sup> सन्म ना मरणादिव   |    |
| कुणप दिव च भ्यस् तं देव ह्मणं विदु               | १३ |
| न त्ये प्रहृ ये म नितेऽमा नितश्च य               |    |
| सर्भूते वभयदस् तं देव ह्मण विदु                  | १  |

1. द्वार नर्याि . न द्व पु यि  
नवद १ पुर ि
2. इद न ि
3. न त्य प दः घ यस्य चिदाशि :
4. ित्य र ि

|  |    |
|--|----|
| नाभिन देत मरणं नाभिन देत ज वितम्<br>कालमेव प्रतीक्षेत <sup>१</sup> निर्वेशं भृतको यथ | १५ |
| अनभ्य हतचित्तस्स्याद् अनभ्यात्तवाक् तथा<br>निर्मुक्तस्सर्वपापेभ्यो निरमित्रोऽकुते भय | १६ |
| अभय सर्वभूतेभ्ये भूतानामभय यत<br>तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन            | १७ |
| यथ न गपदेऽयानि पदानि पदग मिनाम्<br>सर्वं येव पिधिय ते पदजात नि कौञ्जरे               | १८ |
| एव स हिंस यां धर्मार्थमपिध यते<br>मृत स नित्य भवति ये हिं तिपद्यते                   | १९ |
| अहिंस स्या मतिमन् धृतिमान् नियते द्वय<br>शर य सर्वभूतानां गतिमाप्नोत्यनुत्तमाम्      | २० |
| ए प्रज्ञानवृत्तस्य निर्भयस्य मनीषिण<br>न मृत्युरधि ते भावात् स मुक्तिमधिगच्छति       | २१ |

1. निर्देश 2 न गपदम्

3. स्समस्तो ग म स्य

4. न मृत्युराधर तस्य मृत्युमधिनि

रधि ते + अक्त धिगच्छति

न रधि + रधिगच्छति

रधि ते + धिगच्छति

|  |    |
|--|----|
| मुक्त सर्वसङ्गेभ्यो मुनिम काशवत् स्थितम्<br>अ काशशरण शा त त देवा ब्राह्मण विदु                               | २२ |
| जवित यस्य धर्मार्थं धर्मो न र्थमे च<br>अहोरात्रं च पु याथ त देव त्र ण विदु                                   | २३ |
| निरा शेषमनार भ निर्नम क र मस्तुतिम्<br>अक्षीण क्षीण र्माण त देव ब्राह्मण विदु                                | २४ |
| सर्वाणि भूतानि सुखे र ते<br>सर्वाणि दु स्य भृश त्रसति<br>तेषां भयोत्प दनज तखेद<br>कुर्या कर्माणि हि श्रद्ध न | २५ |
| द न हि भूत भयद क्षिणाया<br>दानानि सर्व यधितिष्ठतीह<br>तृ णां तनु य प्रथमां जह ति<br>सोऽन तम ेल्यभय प्रज भ्य  | २६ |
| स दत्तमास्येन हविर्जुहो ति<br>लोकस्य न भिर्जगत प्रति ।<br>त ज्ञमङ्गानि कृत कृत च<br>श्च नर स मे प्रपेदे      | २७ |

प्रदेशमत्रे हि हृदि स्थित यत्  
 तन् प्रणान्मयाजी जुहोति  
 तस्य त्रिलोत्र हृतमात्मसस्य  
 सर्वेषु लोकेषु सदै तेषु

२८

देवं त्रिधातु त्रिवृत पर्ण  
 ये विरुद्र्यां परमार्थतां च  
 ते सर्वलोकेषु महि यम ना  
 देव स्समर्थ अमृत हति

२९

वेदांश्च वेद्य च विधिं च कृतं  
 मिथो निरुक्त परमार्थतां च  
 सच शरारत्मनि य प्रपेदे  
 तस्य स देवा स्पृहयति नित्यम्

३

भूगवसक्त दिवा मेय  
 हिरमय च जम मधे  
 पत्रिण पक्षिणम तरिक्षे  
 यो वेद भो यात्मनि दी रश्मिम्

३१

1. वि . ग भुज . भ ते  
 च

अ वर्तमानमजर विवर्तन

ष णेमिन द्वादशारं सुपर्व

यस्येदम स्ये परिय ति विश्वं

तत् कालच निहित गुह यम्

३२

<sup>1</sup> स प्रज नञ्जगत शरीर

स ँन् स लैकानधिगच्छतीह

तस्मिन् हुत तर्पयतीह े।ंस्

ते वै वृत्रास्तर्पय त्य स्यमस्य

३३

तेजेम ो नित्यतनु पुराणो

लो ।नन तानभयानुपैति

भूत नि यस्म त्रस ते दाचित्

स भूतेभ्ये न त्रसते कदाचित्

३४

अगर्हणी ये न च गर्हतंऽयान्

स वै िप्र पस्म त्म मिच्छेत्

िन तमोहे पनीतकल्मषे

न चेह न मुत्र च <sup>4</sup>सोऽर्थमि छति

३५

1. ।दत् १. ।स्य पदः

२. ग मृच्छेत्

4. गोभसृच्छा

अरोषणो य स लेष्ट न  
 प्रदीणशोको गतसिधिविग्रह  
 अपे निन्द स्तुतिरप्रियाप्रियश्  
 चरेदुद स न देव भिक्षुक

३६

इति विमहा त्रैशतसहस्रिकाय विताया वैयासि  
 ि ि ि शदधि द्विश ऽभ्य : २३  
 ८८ सो पवणि शतितमो न्य : ८२  
 [ ि ि ि ि ३६ श्लोकः ]

### एका दधिकद्विशततमोऽध्याय



भै ति वल्लभ्य पि र या क लु

व्य

प्रकृते वि र ये क्षे स्तै परिश्रि  
 ते चैन ज ि स विज न ि निह १  
 तै ह्ये िय षष्ठै रेहेन्द्रियै  
 द तैरिव य ता दृढै परम जिभि २  
 इन्द्रियेभ्य पर र्थ अर्थेभ पर मन  
 स पर बुद्धिर बुद्धेर मह न् पर ३  
 म पर य म् अ यक्तात् पुरु र

२३१] शांतिवर्णनं मोक्षधर्मं १३२५

|  |    |
|--|----|
| पुरुषान्न पर किं त्सा ष्ठास परा गी   | ४  |
| ए सवषु भूतेषु गूढो त्म न प्रकाशते<br>दृश्यते त्वग्रय वुञ्ज्य सूक्ष्मय तन्वदशिभि      | ५  |
| अ तरात् नि सलय मन षष्ठ नि मेघय<br>इन्द्रियणीन्द्रिय र्थाश्च बहुचि मचि तयन्           | ६  |
| ध्यानोपरमण कृत्वा वि स पातित मन<br>अनिश्चरन् प्रश तात्म त छत्यमृं परम्               |    |
| इन्द्रियणं तु सर्वेषां इय त्म चलि मृति<br>अ न स प्रदानेन मर्त्ये मृत्युमुपाश्रुते    | ८  |
| हितं तु सर्वसङ्कल्पन् सत्त्वे चित्त निवेशयेत्<br>सत्त्वे चित्त समवेश्य तत लोको भवेत् | ९  |
| चित्तप्रसदे यि र्जहति दे शुभ शुभम्<br>प्रसत्तात्मनि स्थित्व सुखमान त्मश्रुते         | १० |
| लक्षणं तु प्रसदस्य यथ तृप्त सुखं पते<br>निवृत्तं यदापोती नो न पते                    | ११ |
| ए पूर्व परे रत्रौ युक्तानमात्मना<br>वहरे विशुद्धत्मा पश्यत्येकानमात्मनि              | १२ |

1. ह्य

२. रो. ख अरं



|  |     |
|--|-----|
| रस्य सर्ववेद न म् अनैति मनागतम्            |     |
| अ त प्रत्ययिक शा म् २६ पुत्रानुशासनम्      | १३  |
| ध र्ख्यानेषु सर्वेषु चित्र ख्य नेषु यद्वसु |     |
| दशेद ऋक्स ६ णि निर्मथ्य मृतमुद्धतम्        | १४  |
| नवन त यथा दत्र का दग्निर्यथै ६             |     |
| तथै िदुष ज्ञान पुत्रहेतोस्समुद्धतम्        | १५  |
| त नाभिद शास्त्र व च्य पुत्र नुशासनम्       |     |
| तदिद न प्रशा ताय नादा तायतपस्विने          | १६  |
| न वेद विदुषे यं तथा नानुग ाय च             |     |
| नासूयक य नृजवे न च निर्दिष्टकारिणे         | १   |
| न . केशा द ध य तथैव पिशुनाय च              | १ । |
| ऋ धिने ऋ घनीय य प्रश ताय तपस्विने          |     |
| इद प्रियाय शि याय पुत्र यानुगत य च         | ८ . |
| रहस्यधर्म वक्त य न यस्म तु कथञ्चन          | १९  |
| यद्य य मह द द् रत्नपूर्णमिमां नर           |     |
| इदेव ततश्श्रेय श्ति म येत तर वित्          | २   |
| अतो गु तर र्थ यद् अध्यात्ममतिमानुषम्       |     |
| यत्त महर्षिभिर्दृष्ट वेदा तेषु च गीयते     | १   |

२३२] आन्तर्पणि लोक्षधर्मपर्व ३२ .

तत्तेऽहं तैयि । मि यदि मं परिपृच्छसि २१ ।

य ते मनसि तते पर

यत्र च स्ति तव सशय क्वचित्

श्रूयत मय हं त । त

पुत्र किं हि कथयामि ते परम् २२ ।

इति रते शतस । त्र्यं । ह । या । रि । क्य

श । ि । ए । त्रिंशदधिकद्विशत । तोऽभ्यः । २३

८८ । तो धमपवणि-यर्त्त । ि । ेऽभ्यायः । ८२

[ स्मि ध्याये २२ । काः ]

### द्वात्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय



भै । ि । रि । प्रा । अध । त्मि । य । व्य । १ । नु । दः

:

अध्यत्स विस्तरेणेह पुनरेव वदस्व मे

यदध्यात् यथ वेद<sup>१</sup> भगव षिसत्तम १

। :

अध्यत्स यदिद तात पुरुषेह िद्यते

तत्तेऽहं स प्रवक्ष्यामि तस्य वाख्यमि ं शृणु २

भूमिरपस्तथा योतिर्वायुराकाशमेव च

1. गवान् ऋषिसत्तमः

|   |   |
|---|---|
| हामूतानि पञ्चै स गर ेर्मयो यथ           | ३ |
| प्रसार्येह यथा ज्ञ नि कूर्मसहरते पुन    |   |
| तद्व मह ित भूतानि य ियस्सु विकुर्वे     | ४ |
| इति त मयमेवेद स स्थावरजङ्गमम्           |   |
| र्गे च प्रलये चैव तस्मा ि दिश्यते तथा   | ५ |
| महाभूत नि प ैव सर्वभूतेषु भूतकृत्       |   |
| रेत्तेषु वैष य योऽस्मिन् यदनुपश्यति     | ६ |
| :                                       |   |
| अ रेद्यच्छंरीरेषु कथ तदुपलक्षये         |   |
| इन्द्रियाणि गुणा केचित् कथ तानुपलक्षये  | ७ |
| सः                                      |   |
| एतत् ते वर्तयि यामि यथ वदनुपूर्वश       |   |
| शृणु तत्त्वमिहैक नो यथ तत्त्व यथा च तत् | ८ |
| श दश ेत्र थ खानि त्रयमा शस भ म्         |   |
| ण ेष थ पर्श एते ियुगुण य                | ९ |
| रूप चक्षु ि ि ध येति ि ध ते             |   |
| रे थ र न ेहो गुणास्ते त्रयोऽ भसाम्      | १ |
| ेय ण शरार च भूमेरेते गुणा य             |   |

1.

दमधम्

2.

वादह दश म्

|   |    |
|---|----|
| १श्रेत्रं त क् चक्षुषा जि । नासिका चैव प र्म  | ११ |
| एताव निद्रियग्रामे य ख्यात प भौतिक            | ११ |
| वाये पशा रसोऽद्भ्यश्च ज्योतिषो रूपमुच्यते     |    |
| अ काशप्रभवश्श दो ग धो भूमिगुण स्मृत           | १२ |
| मनो बुद्धिर् भावश्च त्रय एते त्मयोनिजा        |    |
| न गुणानतिवर्तते गुणेभ्य परमा गति              | १३ |
| इन्द्रियाणि तथ पञ्च षष्ठं तु मन उच्यते        |    |
| सप्तमीं बुद्धिमेव ह्य क्षेत्र पुनरष्टम        | १४ |
| चक्षुरालोकन यैव सशयं कुरुते मन                |    |
| बुद्धिरध्य सान य साक्षि क्षेत्रज्ञ उच्यते     | १५ |
| रजस्तमश्च सत्त्व च त्रय एते त्वयोनिजा         |    |
| समास्सर्वेषु भूतेषु तद्गुणेषूपलक्षयेत्        | १६ |
| यथा कूर्म इवाङ्गानि प्रस य विनियच्छति         |    |
| एवमेवोन्द्रियग्रामं बुद्धिस्पृ । नियच्छति     | १  |
| यदूर्ध्व पादतलये र् अव ड्भूर्ध्वश्च पश्यति    |    |
| ए स्मि े कृत्ये च वर्तते बुद्धिरुत्तमा        | १८ |
| गुण न् निन यते बुद्धिस् सुदृढैवेन्द्रियाणि च  |    |
| मन षष्ठं निद्रिय णि बुद्ध्यभावे ो गुणा        | १९ |
| तत्र यत् प्रीतिसयुक्तं किञ्चिद त्मनि लक्षयेत् |    |

|  |    |
|--|----|
| प्रश तमिष सशुद्ध सख तदुपध रयेत्  | २  |
| यत् तु स तापसंयुक्तम् अप्रीति रमात्मन<br>रज प्रवर्त तत् स्यात् सतत हारि देहिनाम् | २१ |
| यत् तु स मोह युक्तम् अ यक्तविषय भवेत्<br>अप्र कर्मविज्ञे तमस्तदुपध रयेत्         | २२ |
| हर्ष प्रीतिर न दस् ४स स्वस्थात्मचित्तत<br>अ षदि स्म द् वर्तते सार्विको गुण       | २३ |
| अतिमानो मृष दो मोहो लेभ थ ऽक्षम<br>लेङ्गानि रजसस्त नि वर्त ते हेत्वदेतुत         | २४ |
| तथा मोह प्रमाद त द्वी निद्र ऽप्रबोधिता<br>कथञ्चिदभिवर्त ते िज्ञेयास्त मसा गुणा   | २५ |

इति भारते सहस्रि त्वा सिति रि

शा वि षणि द्वा ि शद ध द्वि िोऽभ्य : २३२

८ िो धर्मपर्वणि रर्षि िेऽः ८

[अस्मिन्नध्याये २५ श्लो :]

- 
1. तु नाति
  2. मन्ति भ त्
  3. प्र व र दु िेत् [ ि : ठः]  
ग र : िे स्मात् त रि दे नि म् [पाठ रम्]
  4. िे .
  5. ि दो

## त्रयस्त्रिंशद् धकद्विशततमोऽध्याय

भ े धिणि प्रि ज्ञानादसा नप्रि िद य यानु-  
व :

:

|   |   |
|---|---|
| मन प्र जते भ व बुद्धिरध्यवस यिना                      |   |
| ६. य प्रियायि ये वेद त्रि िधा कर्मवेदना               | १ |
| ३.ि येभ्य परा र्था अर्थेभ्यश्च पर मन                  |   |
| १.मनस तु पर बुद्धिर बुद्धेरात्म परे मत                | २ |
| बुद्धिरात्मा मनु यस्य बुद्धिरे <sup>१</sup> वमन त्मनि |   |
| यद् वि रुते भ वं तदा भवति सा न                        | ३ |
| इन्द्रियाणां पृथ भावाद् बुद्धिर्वि ियतेऽसकृत्         |   |
| शृ वर्त भवति श्रेत्र पृशत पर्श उ यते                  | ४ |
| पश्य र्त्त भवते दृशी रस त रसन भवेत्                   |   |
| जि ती भवति ण बुद्धिर्वि ियते थक्                      | ५ |
| इन्द्रिय णि ति या य हुस् तेऽव दृश्याऽधितिष्ठति        |   |
| तिष्ठत रुषे बुद्धिस् त्रिषु भ वेषु वर्तते             | ६ |

1. िद . स् 2. सान् परः

3. ि न िान

|  |    |
|--|----|
| कद चिल्लभते प्राति द चिदपि शे च ति                 |    |
| सु नेन न दु खेन कदाचिदि युज्यते                    | ७  |
| <sup>1</sup> ए भावात्मिक भ वांस् श्रीनेताननुवर्तते |    |
| सरि णं सागरे भर्त वेळ मिव होर्मिमान्               | ८  |
| यदा प्रार्थयते किं त् तदा भवति सा मन               |    |
| अधिष्ठ नानि वै बुद्धे पृथगेतानि सस्मरेत्           | ९  |
| इन्द्रिया येवमेतानि विजेत यानि कृत् श              |    |
| सर्व येवानुपूर्व्येण यानुविर्धयते                  | १० |
| स ऽविभागगत बुद्धिर भावे तमसि तते                   |    |
| प्रवर्तमान तु रजस् सत्त्वम यनुवर्तते               | ११ |
| ये चैव भाव वर्त ते सर्व ए वे ते त्रिषु             |    |
| <sup>4</sup> अ वर्थ स प्रवर्त ते रथनेमि रा इव      | १२ |
| प्रद पथ र कुर्याद् इन्द्रियैर्बुद्धिस मै           |    |
| निश्चरद्विर्यथायोगम् उदासीनो यच्छ्रय               | १३ |
| एवस्वभवमेवेदम् इति विद्वान् न मु ति                |    |
| अशोच प्रहृ य नित्य वि ातमत्सर                      | ४  |

।त्मा शक्यते द्रष्टुम् इन्द्रियै ामगोचरै

1. . . . . 2. ग - भागमनि  
3. . . . . नम् 4. . . . .

२३३] शान्तिपर्वणि ेक्षधर्म र्व १३ ३

तेम नैरनयैर् दुर्धैरकृत त्मभि १५

तेषां तु मनस रश्मिन् यद स यङ्गिय ति  
तद काशते ता द े दी यन् निर ति ६

सर्वेषामेव भूत नां तम युपरते यथ  
१ प्र श भवते स तथेदमुपध र्यताम् १

यथा रिचर पक्षी न लि यति जले चरन्  
ए मे कृतप्र ो न दोषै षयं रन् १८

असज्जमान सेषु न थ न लिप्यते १८

त्यक्त ा पूर्वकृत कर्म रतिर्यस्य पर त्मनि  
सवभूत मभूत स गुण गै न सज्जते १९

सन्त्वम त्म प्रखजति गुण नपि वन  
न गुण िदुर त्मान गुण न् वेद स सर्व २

परिद्वष्ट गुणानां स ष्ट चै यथ भवेत्  
क्षे क्षेत्र यरेवम् अ तर विद्धि सूक्ष्मये २१

सृजतेऽत्र गुण नेक एके न सृजते गुण न्  
थ भूतै प्रकृत्य तौ स प्रयुक्तौ च स दा २२

1. िदम स

द

3. िरित्



थ त् ऽद्विरन् स्सन् प्रयुक्तस्तथै षौ  
 मशकोदु रौ ऽपि स प्रयु षौ थै हे २३  
 इषीका थ मु थक् च स चैव ह  
 थै सहित ते यो िन् प्र ितौ २

ति िमहाभारते िय ित्यां सि  
 िन् िप िनि िशदि द्विश िो न्य २३  
 ८ िोक्षध ि िशति िो ८५  
 [ सिञ्चभ्या २ षो : ]

### च ि शदाधकद्विशततमो ऽय



भे यु ि प्र ि िनादिप्र सापर क्यातु

व्य :

सृजते त्रिगुणान् सत् क्षे ज्ञस्त नुति ति  
 गुणान् विक्रियत सबान् उद स न दीश्वर १

युक्त त् सत् यदिमान् सृजते गु न्  
 ऊर्णन भिर्यथ सत् सृजते त तु द्रुण न् २

प्रध्व न निवर्त ते िवृत्तिनापलभ्ये  
 ए मे यव ित निवृत्तिरिति च परे

उ य स धार्यैतद् अध्य ि थ मति ३

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| इत म दय थं बुद्धिचिन्तामय दृढम्     |   |
| अत ल्य खमसीत न ोचरे सशय             | ४ |
| अेनै ेधनेन भेद्र्भश े महान्         |   |
| अनदि े न नित्य आस चिरेन्नर          | ५ |
| १ े न न प्र े नित्य विगतमत् र       | ६ |
| येयु यु । थ य य पूर्णा न । नर       |   |
| अ ग ि द्वांसे विद्धि लो भिम थ       |   |
| न यति वै े द्वन् स्थले चरति तत् ेत् |   |
| ए ये े दते मान केवल नमास्थित        | ८ |
| एव बुद्ध नरस्स े भूतान म गतिं गतिम् |   |

1. ेद म्

2. इ ो न्य यस हि प्रोकाः ि ि :

ो रथो दिव्यो ो  
 स र रपे ेक्षुः  
 ग तुमन ि धि क्ष्यामि शीघ्रगम्  
 सप्तयो न कृ ः प्रति  
 पृष्ठः पा ि ः त्  
 ः प े ि पः  
 ोति यत्तदै क्क र द्विः  
 व्य े शः ि  
 क्तमा िपि यस्यै थ े योगतः  
 त् क्तस्य ि ध ः पश्यतः

पू ३ वृत्तम्

नि ० मानं सूक्ष्मत्वा प ० दि दशयेत्  
 शरस्तु यथा धूमसु नः  
 थ ० द्वि कस्य पूर्वरूप द यु  
 थ धूमस्य विरे द्विती रूपदशनम्  
 जलरूपि श त्वे त्मनि पश्य  
 र यति मे ऽपि द्विरूपं प्र श  
 स्मि नुपरे ऽस्य त्वे सूक्ष्मस्यथ  
 रूपं प ० णवदः  
 स्मि नुपरे रूपम् । शस्य श  
 स रूप त् त प्र श  
 स्मि परे ऽस्य द्विरूपं प्र श  
 चेतस सम्य अ यक्त ब्र स्य  
 ए ० पीह जातेषु फ ० ने शृणु  
 । त्य पा ० श्वयै स्तुरिषा धि ते  
 ि ि गोभ शरीरत् ति प्र  
 गुह्यते ऽ सु न य पि । चाशयाः  
 स्ना त्वे सा रूप द ० शाय थ  
 ० याऽङ्गुष्ठ त्वेण पादेनवत् तथा  
 थि ि पय त्वे गु ादति स्मृ  
 । शमू । ० त च दृश्ये  
 द्वार ि जये पद्भ ० स्यु श नुगाः  
 । त्मनि द्वै तु नि । प्र त्यु  
 नदौ । कृत्स्ना स । व  
 थै क्त । मान क पि  
 ती निस्तर तो ला । ि यक्त  
 ० याव्यं गु ०



ए बुद्ध भवेद्बद्ध <sup>१</sup>किम यद्बुद्धलक्षणम्  
विज्ञ यै द्विमुच्य ते कृ कृत्या मनीषिण

११

न भ ति विदुषां महद्भयं

यदविदुषां सुमद्भय परत्र

हे गतिरधिकाऽि चिद्

भवति हे य विदुषां सनात <sup>१</sup>

१२

इ <sup>१</sup> भारेश सहिकाय सति <sup>१</sup>याति <sup>१</sup>  
शाति वैणि चतुरिं दधि द्वि गोऽथः २३  
८८ म पणि शी ति गोऽध्यायः ८६  
[ ति व्या २ गो : ]

1 पादा १

2 ग तुरमस्य जनस्  
नेरी त्य श  
पश्य शलानशो गो  
विदुस्तदु कृतम्  
: गोत्यन ति पूर्व  
निणुदति त् र तम्  
दुभय : डि  
वै : [ : १ . ]

प िशदधिकाद्वश ोऽध्याय

ध्मेण रि ि प्रि िनापायादि रि द िदः

:

य द्वर्मात् परे धमा िद्यते नेह श्रन  
यो विशिष्टश्च धर्मेभ्यस् तं भव न्<sup>१</sup>प्र वीतु १

। :

धर्म े प्रवक्ष्य मे पुराणमृषिस कृ म्  
िष्ट सवधर्मेभ स् तमिहैक नाश्रृणु २

इि य णि प्रम थीनि बुद्ध्या सय य त  
सर्ते नि पि णूनि पित व ल निवात्मजन् ३

मनसश्चेन्द्रिय णा च ै ियं परम प  
याय सर्वधर्मेभ्यस् धर्म पर यते  
नि स णि सन्धाय मन ि मेधय  
त् तृ उप बहु चि त्यमाच यन् ५

गोचरेभ्ये निवृत्त नि दा ति ैश  
द त्म ऽऽत्मान पर द्रक्ष सि श्व म् ६

स र्त्मन हात्मन विधूममि प वकम्

1. त । 2. नास्ति

|  |    |
|--|----|
| पश्यति महात्ते नै ण ये म षिण                 | ७  |
| यथ पुपफलोपे बहुशखे २ द्रुम                   |    |
| आत्मनो न भिजानीते मे पुप मे फलम्             | ८  |
| ए त्म ज ते गमि ये ो हम्                      |    |
| अन्यो ा तर त्म ऽस्ति य स मनुपश्यति           | ९  |
| नदीपे ो श त्यात्मानम त्मन                    |    |
| दृष्ट्वा त्म त्मन ऽऽत्म न निर त्म भ सर्पि त् | १  |
| मुक्त सर्प पेभ्यस् त् च त्यक् व यथोरग        |    |
| पर बु म प्येह पि िगत र                       | ११ |
| सर् भवां ेरां द लो प्र हिर्नम्               |    |
| पञ्चेन्द्रि ग्रह त मनस्स परोधसम्             | १२ |
| लेभमोहतृण ं कम ो रीसृपम्                     |    |
| सत्यत र्थं नृ क्षेभां ो प ं सरिद्वरम्        | १३ |
| अ यक्त भ शा ां दुस्तर त त्मभि                |    |
| नदा बु ा म ह म लम्                           | १४ |
| सारस गरग ं ये निप लदुस्तराम्                 |    |
| त्मज ोद्भ ं त जि त दुरस ाम्                  | १५ |
| या रन्ति कृतप्र ा धृ ि ो न िण                | १५ |

२३५] शान्तिपवणि ेक्षधर्म र्व १३४१

|  |     |
|--|-----|
| तां त णस्सर्वतोमुक्त पूतात्म । मविच्छुचि |     |
| उत्त बुद्धिम स्थ य भूय भवि यसि           | १६  |
| स तीर्ण सर् सङ्केश न् प्रस त । कि ल्मष   |     |
| भूमि र्नि भूत नि पर्वतस्थो निश मयेत्     | १   |
| न ँ ध्य प्र यश्च अनृशसमि थ               |     |
| तो द्रक्ष्यसि सवषां भू तां प्रभव प्ययम्  | १८  |
| ए वै सर् धर्मेभ्ये विशिष्ट मेनिरे बुध    |     |
| धर् धर्भृतां श्रेष्ठ मुनयस्तत्त्व शिनि   | १९। |
| आत्मनोऽ ययिनो ज्ञ नम् इद पुत्रानुश सनम्  |     |
| प्रयत य प्रवक्त य हिताय नुगत य च         | २   |
| अ त मिद गु सर्वगु तम महत्                |     |
| अ व यदह त त अ त स क्षि मञ्जस             | २१  |
| नैव ि मान् व ऽपि नै चेद नपुसकम्          |     |
| अदु ख सुख चै ह्यभूत भवा म म्             | २२  |
| नैत छुत् । पुमान् ि । पुनर्भ मव ँ यात्   |     |
| । प्रतिपत्त्यर्थम् एतद्ध विधी यते        | २३  |

1. िच्छुत् मत्

. ग .द

3. त



यथ म नि स णि न चैतानि यथा तथा  
थितानि मया पु भवति न भवति च

२४।

तत् ितियुक्तेन गुणा ि तेन वा  
पुत्रेण सत्पुत्र मनोनुगेन  
ष्ट्रे हृद प्रीतमना यथ थ  
ब्रूय त् सुतस्येह यदुक्तमेतत्

२५

इति िहा े ियं ि य यासक ि  
श ि पर्व ि शदधि द्वि त मऽः २३५  
८८ ि ध ि िशी ि मो ष्य ः  
[ ि ि िय २५ ः ]

### ष ि शद धिकाद् िऽऽयाय

भी े यु ि ि ि नस े ि प ि स य दः।

ग ध न् र ि न् न नुरु ेत् ख  
लङ्करां ुयात् तस्य  
ान च े च शश्च ने छेत्  
स े प्रचर पश् तो ि ण

१

य तो ि ि ि ३ े

निद नध यीत ह्यश्रू ब्र चर्यं न्  
ऋचो यजूषि साम नि वेदवेद ज्ञपारग २

इ विवि । य तूश्चैवा दक्षिणन्  
नै प्रा ेति ह्य म्<sup>१</sup>अिज्ञात थ न ३

ज्ञाता य सर्भूत नां सर्ित् सर्वभूतकृत्  
न काले म्रियते ज तु न दे े न च ब्र ह्मण ४

यद् च यं न विभेति यद् चा । विभ्यति  
यद् ने छति न द्वेष्टि ब्र स पद्यते तदा ५

यद् न रुते भ व सर्वभूतेषु प प म्  
र्मण मनसा चा पद्यते दा ६

धनमेद नान्यदस्तीह बन्धनम्  
बन्धनमुक्तो हि भूयाय लपते

मतो मु । न धूमाभ्र दि च द्र  
विरज काल । इक्षन् धीरो धैर्येण ते ८

अ पूर्यमाणमचलप्रति

स द्र प प्रि ित द्वत्

१ वि नत् । हि ।

१ न क गो े न ेन :

। गो हि े े : [ ७ म् ]

|   |    |
|---|----|
| स कामे न तु कामक मस्                      |    |
| स वै लो स्वर्गमुपैति देह                  | ९  |
| देपनिषत् सत्य सत्यस्योपनिषद्म             |    |
| दस्येपनिषत् न द नस्येपनिषत् तप            | १  |
| पसेपनिषत्त्यागस् त्यागस्योपनिषत् सुखम्    |    |
| सुोपनिषत् र्गस् र्गस्येपनिष छम            | ११ |
| दन शे क्तमसेस् स तीर्णस्तृ णया सह         |    |
| र मृ छति स ेषाच् तिलक्षणमुत्तमम्          | १२ |
| वेशे े निर् शश त प्रश त त्माऽऽत्मा च्छुचि |    |
| षड्भिलक्षणव नेतैस् सम पुनरे ति            | १३ |
| ष भिस्सर गुणेपेतै झरधि मत्रिभि            |    |
| ेदु प्रत्यगात् नम् इहस्थ नमृत न् विदु     | १४ |
| अ त्रिम हय निरुप म्                       |    |
| ध्यत्म कृत स् सु म ययमश्रते               | १५ |
| ि चार त्व ति प्य च सर्त                   |    |
| य भे तुि सा न शक्यमतेऽ यथ                 | १६ |
| े तृ यत्यभु ने ये तृ यत्य प त न्          |    |
| 1. निर्माते . निर्                        |    |
| .. ति                                     |    |

२३६] शां पर्वणि मोक्ष मपर्व १३४५

|  |    |
|--|----|
| येनास्त्रेदो बल धत्ते यस्तं वेद स वेदवित्  | १  |
| असङ्गे त्मनो द्वार यपिध य विचिन्तयन्       |    |
| यो त्स्ते त्र णोऽि ष्टस् स आत्मरतिरु यते   | १८ |
| समाहित परे तत्त्वे क्षीण मम स्थितम्        |    |
| सर्वतस्सुखम वेति वपुश्चा द्रमस यथा         | १९ |
| सि शेषाणि भू नि गुणांश्चाभजतो मुने         |    |
| सुखेनापो ते दु ख भ करेण तमे यथ             | २० |
| तमति । तक्रमाणम् अतिक्र गु क्षयम्          |    |
| ह्यण विषय श्लिष्ट जरामृत्यू न वि दत        | २१ |
| स यदा सर्वतो मुक्तस् सम पयवति ते           |    |
| इन्द्रियाणीन्द्रियाथाश्च शरीरस्थे न वर्तते | २२ |
| रणं परम प्र य अतिक्र त कायतम्              |    |
| पुनर न स्ति सम्प्राप्तस्य परात् परम्       | २३ |

इति शां पर्वणि मोक्ष मपर्वे षष्ठ्या क्य

शां पर्वणि द्वा वि दधि द्वि ऽन्य २३६

८८ ० ० पर्वणि ० शां मो ष्य : ८८

[ वि ष्या २ १ : ]

१सप्त द्वाधकद्विशततमो ध्य



श दिभूतगु । दप्र पाद

क्यानु ।दः

व्य

द्वन्द्विर्मोक्षजिज्ञसुर्धर्मनुति  
गुणतशिश्श्रयपूर्दिदमहत् १

शमरुतेरिआपध्वचप  
भभाचसभूतेषुसु २

१ इः भृतिाय शेषे नति  
शेषेऽप्येति धि उपलभे इति म्  
शेषेति

। :

द्विर्मोक्षजिज्ञसुर्धर्मनुति  
गुणतशिश्श्रयपूर्दिदमहत्  
रुणरुतेरिआपध्वचप  
भभाचसभूतेषुसु  
तापःपाः शज्योयम्  
गुति । राय

त् जतिभिः परंवा रत  
। न् पयन्स न् स्वस्वानि न्

पू १० वृत्तम्

दृष्ट्वा कृप - त नो  
 । मि रि । ० । ० न ० ।  
 त छे त व स्थि । न्  
 निप ि प्य गोचर्या । शोचति

ति :

नित्य ' । :  
 दम त्  
 द्वा दहा भूत राधिप  
 गोचरि र गति  
 गी रे ।  
 उभे वि ते उ सह । वनश्य :  
 गीह म् : प्येवलम्  
 वैवमा । ना य । ि :  
 भू निधन नि । गी । रः  
 तत् न गो नरा मुह्यति ञ्मृत्  
 ि ि रजोमो र ।  
 च्छ । ए दि बुद्धि प्रणश्या  
 बुद्धि भाक्त पुरुषस् दि । त्विषम्  
 विपा म् र र प्रसीदि  
 पुनः पुनः  
 पणः परि प्य रभिदूषि :  
 थसिद्धि नथ च दि र त  
 दः फं द्वे  
 ि । नरो ि  
 उर्भ ना । न ि :  
 जित नू : ति त्पुह । ये

पूव गोऽत्तम्

१ भ तिक ेव रोति त्  
 २ गोह े कृते विनाशप्रभवानुभौ  
 ३ योऽभिमत ेत स्य पि चापः  
 ४ पृथगीत्युराशम् आऽज्यापि प ५  
 ६ एद्यनीनिभूतानि परिदना  
 ७ ि गोऽपदि वन्दुल यः  
 ८ नी विरूप सुगोदुभग यः  
 ९ वका संमादत्ते गम् गिरस्तेन ेजसा  
 १० स्मात् । शं े । थ े विजानः  
 ११ दधेवानुदहति तमे तु ये  
 १२ नश्य न े ग्रे ध े नरः  
 १३ .....द्वः कुतः । र न र दृश े  
 १४ ना प्रपश्याम दि दिं यस्य ति यन्  
 १५ यदि े : । लो भूतानि नि श े त्  
 १६ स्य े दप गेध चपे  
 १७ तु त्व प्रविविक्तजने गृ े  
 १८ ि गाद रू म् आग रिगहसे  
 १९ इ कुय द्वि रूप गि ु ।ऽऽःः  
 २० विभीषणानि येने ेथ र्वे े  
 २१ दत्ते । सव यच्छा  
 २२ े िष्टं स । कृथा श प े रूपम्  
 २३ पु स प्र े ि े दर  
 २४ ैमि े कस्य ध न नम्  
 २५ वमपे मे ।ऽत न विश्मय गः  
 २६ भ म स्थः कदाचन  
 २७ ैर े ि थै । था पुर

पूर्वोऽवृत्तम्

समोक्ष नृद्धिदि नृद्धिदि

मनुयाः पिरोगधर्वो गरा :

सन् सर्वे तस्यैव ।

नम र दिशे स्तयस्यैर नाबि :

इति प्यम य द्विमात्सोः :

न दनुशे मिना क्ष शचीपते

एनेनिता द्विशास्तिम्यह

दृश्येति । दशनी : प नृ

दुःर्जनसहामात्यो भित्ति ।

णीरूपसम् दुभग श दृश्ये

विरूप भग शये

द कृ नैच्छव कृम्

गो जिन् यद्वप्ये ग यम्

न कुतो ततो

ऋविऽप्यऽनृदिः । यकृत्

पश्याति वारिज वराजमवाम्

चि चग तोपरि

(ए) यथ द्वि यारो न तोऽथः परिसीदि

दियुक्ता थरं दति त्

यद थगः मेन र रिदति

गभू थ बुध्य नोभा लम्

िशूरः

स सा

दाय

[ धि : ]

इति शांतिपर्वणि लोक्षधर्मपर्वणि



- अन्तरत्सक श तन् य श्रोत्रमिन्द्रियम्  
 त श २ गुण विद्या मुनेशशा विधानवित् ३
- चरण मरु त्मेति प्रा प नौ च तन्मयै  
 स्पर्शन चेन्द्रिय विद्यत् तथ पर्श च त मयम्
- त प पा प्रकाश योति क्षु त मयम्  
 तस्य रूप गुणं वि तात् तमेन शकम त्मव न् ५
- प्रकृदो द्रव ेह इ ापो पदिश्यते  
 रस चे वि य जि रसश्चापां गुणो ६
- स त पार्थि े धतुर् अदि न नि च  
 श्मश्रु रेम च केशाश्च सिर आयु च चर्म च
- इन्द्रिय णसज्ञ न न सिकेत्यभिशि दितम्  
 ग ध ेन्द्रि थाऽय वि ेय थिर्विमय ८
- त्तरे गुणा सति स पूर्वेषु नोत्तरा  
 प भूतसङ्ख्यानं स तति मुनये विदु ९
- मन तु न चैषं बुद्धि तु दशम मृतं  
 एक शस्त तर ता स सर्वपर ७ यते १
- य आयत्मि । बुद्धिर् मनो याकरण त कम्  
 क निम न द्विज्ञे स् स जीव क्षेत्र जित ११

एभिः प्रमैर्भवैर्यत्सर्वैस्सर्वमिति तम्

पश्यत्यल्पो बुद्ध्वा स मोहं ननु ते

१२

ति भस्ते शतसहस्रं त्रि

। पतिं दिक्द्विशततमाऽन्याः २३

८ एतेन नवति तोऽन्याः ८५

[- त्रिंशत् २ श्लोः ]

दिक्द्विशततमोऽयं य

प्रति त्रिंशत् द्विपर १ :

व्यासः

शरीराद्विप्रमुक्तं हि सूक्ष्मभूतं शरीरिणम्

कर्मभिः परिपश्यति शास्त्रैश्च चेतसः

१

य मरीच्यसहि रति

गच्छति तिष्ठति च दृश्यमान

देहिमुक्तं विचरति लेशं

थैव सत्त्वं यतिमनुष्यिणि

२

तिरूपयथवा त्वत्सूर्यस्य लक्ष्मणे

सत्त्वं वा तु तथ सत्त्वं प्रतिरूपं प्रपश्यति

३

नि सूक्ष्मणि सत्त्वस्थि मुक्तनि शरीरत  
तेन त्वेन तत्त्वज्ञा पश्यति नियोद्विया ४

जन्त चैष सर्वेषामात्मचि तनम्  
प्रथमं द्वै युक्तानां दहते मज रज ५

यथऽहनि तथा रात्रौ तथा रात्रौ तथाऽहनि  
शे तिष्ठति तत्रात् सतत ये गयोगि इम् ६

तेषां नित्यं सतां नित्यो भूतात्मा सतत गुणै  
स भि त्ववित सूक्ष्मै चरि णुरजरामर

मने बुद्धिपराभूतस्वदेहपरदेहवित्  
पि भ लेष वि त सुखदु खयो ८

तत्र पि लभते दु ख तत्र पि लभते सुखम्  
इम क्रोध च तत्रापि कृत्वा यसनमृ छति ९

प्राणितश्चापि भवति मत्तो र्थान् अप्य च  
करेति पु य तत्र पि जाग्रति च पश्यति १

तमे मतितेजो श भूता इ दये स्थितम्  
तमे रजेभ्य म विष्टो ना य पश्यति मूर्तिषु ११

श ये गपर भूत् म त्म नमभी सव

२३९] न्तिपर्णि ेक्षधर्मपर्व १३५३

तमेरजेभ्यां निर्मुक्तस् तं प्रपश्यति मूर्तिषु १२

अनुच्सा यमूर्तिनि यानि ज्ञोपम यपि १२

पृथक् भूतेषु सृष्टेषु चतुर्वश्रम मसु  
समधौ योगमेवैषां शिष्यशममिति १३

दित् । सूक्ष्मणिषङ्गच महेश्वरम्  
प्रधनविनियोगज्ञपरधिगति १४

ति द्वाभारतेशतद्वित्यतिथ्यां वैयारि ।

ति अतिशक्तिद्विध्या २३८

८८ तौ धर्मपि ति षोडश्याः ९

[ - ध्ये प्रोकाः ]

एनचत्वारिंशद्विंशत्या



धिप्रतिदिक्त्तिप्रपादपूर्वतो ।  
प्राद्वनप । वः

व्यासः

दिद्रमिन्नो हिस यस भ

धम नमह विवित्स परिवेषण

च न धर प्रद परिषेचम्

1. - ना ।

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| सोऽः सूया लंशे हि रा दु साखन्        | २ |
| सम्मोहचि त वि प शो शो भयङ्कुर        |   |
| मोहनभि पिपा भिरू लभि परिष्टि         | ३ |
| उप सते महा क्ष सुलु धास्ते फले स     |   |
| आ तै सय पाशै फला परिभक्षयन्          |   |
| यान् पाशन् वशे त्वा वृक्षमप र्षति    |   |
| गत स दु खयोर त जरामरणयोर्द्वये       | ५ |
| सरेहत्य तप्रज्ञस् ससन्वो ह्यि प दपम् |   |
| स हते हति ष मि तुरम्                 | ६ |
| त नुगतमूलस्य मूलमुद्ध्रियते बलात्    |   |
| त्य ग प्रम दात् तिन सत्येन परम सिन   |   |
| ए यो वेद मस्य ेवल परिसर्पणम्         |   |
| एत श मस्य दु खा यि ते                | ८ |
| शर र रमित्य हुस् स्व मिन बुद्धिरि ये |   |
| त बुद्धेश रारस्थ मने न मार्षचि म्    | ९ |
| इ य णि जन पैरस् तदर्थ तु रेहिता      |   |

1. ङ्करः

2. ि :

3. ात् + ि ागा ङ्कि

२३९] शान्तिपर्वणि ेक्षधर्मपव ५५

द्वौ दारुणौ दोषौ तमो न रज थ १

र्थमु जी ित पौरास्स६ पुरेश्वरा  
अद्व रेण मे िथ द्वौ दोष वुपजीवत ११

<sup>1</sup> त्र बुद्धिर्हि दुर्धषा मनस्स र्यमुच्यते  
पैरा पि मनस्वप्तास् तेष मपि चल स्थिति १२

यमर्थ बुद्धिरध्या े सेऽर्थ परिषीदति  
पैरमत्रि युक्तोऽय सोऽर्थ ससा ति क्रमात् १३

थ पृथगध्यास्ते मनस्तत् परिष दति १३

थ भूत यथा बुद्ध्या मनो भवति े लम्  
अत्रैन वि त शून्य रज पर्यवतिष्ठते १४

मन रुते सख्यं रजसा स६ सङ्गतम्  
त च द जन पैर रजसे स प्रय छति १५

ति श्री भा े ि या

ति पवर्णि ए गेन ि शदि द्विश िो न्यायः २३९

८८ िोक्षध ि ए न ि तमो न्यायः ९

[ सि न्याये ५ िो िः ]

## चत्वार दा द्विश िऽभ्य य

ति मे धिा प्रति ि यादिभूतगुण िपाद  
द'

भूत िं गुणस चान भूय िश मय  
प न ङ्ग ऋ घय परय घ १

द पानल निभ प्राह भगव न् घम त्सल  
तत्तेऽहमपि क्षय मे भूय पुत्र निदर्शनम् २  
व्य :

भूमे स्थैय गु र च क ठिन्य प्रस त्तत  
ग धो भार शक्तिश्च स तस्थ पन धृति ३

अपं शैत्य र क्लेदे द्रवत्व हे यते  
जि वि य दन च भूमा स्र ण तथ ४

अे दुर्धर्षता दीस् प प शनम्  
शैच रागो घुस्तैक्ष य सतत चोर्ध्वभ सिता ५

1. धूम्र चै :: च :
2. पण
3. ति
- 4.

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ये स्तिय गति पशो पांसूत्थ न त त       |    |
| बल शै च मेक्षश्च र्मचेप्र त्तमत तथ    | ६  |
| अ श गुणश दे पिता ि त पि च             |    |
| अनाश्रयमनाल वम् अ यक्तमि रि ।         |    |
| अप्र घ त चै श्रेतृ विवर णि च          |    |
| गुण प शत प्रेक्त प भूतविभ वि          | ८  |
| फलोपपत्ति र्यक्तिश्च विसर्ग लपना क्षम |    |
| सदस श्युता चै मनसो नव वै गुण          | ९  |
| इष्ट निष्पि ल्प य सा सम धि            |    |
| य िपत्ति बुद्धे प हे ह ये गुणा        | १  |
| अ ह्यु षष्टिं भूतगुण न् वै            |    |
| भूत िषक्ता ४ प्रकृति िसृ              |    |
| नित्य विषक्तश्चाक्षरसृष्टास्          |    |
| स ि नित्य िह वद ि                     | ११ |

1. ग . . . . . १. दमधम्

दि रः

एभ्य एना ि गुणावात्मन ऽपि

श्र : िपि बुद्ध प हे गु :

ए . . . . . ६ सुक्ष प

ति :

[ ि : प : ]

4. ग नित्यावपक्ताः

ति विदि :



१तत् त्र वि तालयन यदुक्तम्

अनागत तेन च स प्र ह

भूताथतर द स

भूतप्र हाद्भव श तबुद्धि

१२

इ ती आर श सहति ि यर ि क्वा

नि र्धणि रिंशदि द्वि तमो व्यायः २

८ ा पव द्विनवति ती व्यः ९२

[ व्याये २ ाः ]

### एकचत्वारशदधिकाद्वशतत े याय

मे धिष्ठि प्रति र पन िद दः ना देन

ए णु ि दानु िदारः २

युधिष्ठिरः

य इमे पृथि पाल श शेरते पृथिवीतले

पृतन मध्यग े हि गतसत्त्वा महा ल

१

एकै शे र्भिमवल नागायुतबल स्तथ

ए े हि ेहता स ेत्वे तुल्यतेजोवलैर्नरै

२

1. पुल्लि चलयन

पुल्ल द्रुक्त मन

|   |   |
|---|---|
| नैषां पश्य मि ह र ण ना सयुगे पुरा       |   |
| मेणै स प सू तेजोबलसमन्वित               | ३ |
| अथ चेमे मह प्राज्ञ श शेरते हि गत स      |   |
| मृत इति च श दोऽय त्तये गतासुपु          | ४ |
| इमे मृत नृप प्रयशे भामवि मा             |   |
| त्र मे सशये ज त त सज्ञा मृता इति        | ५ |
| क स मृत्यु तो मृत्यु केन मृत्युरि प्रजा |   |
| हरत्यमरस श त मे ब्रूहि पितामह           | ६ |
| पुर तयुगे त त रज सी क पन                |   |
| स शत्रु शम प सू सङ्गामे क्षी णवाहन      |   |
| स्य त्रो हरिर्न म नारायणसमे बले         |   |
| स शत्रुभि त सङ्घये सबल सपद नुग          | ८ |
| स रजा शत्रु शग पुत्रशेकसमिवत            |   |
| यद् या श ि परे ददर्श भुवि नारदम्        | ९ |
| सै स सर्व ाचप्र यथावृत्तं जनेश्वर       |   |
| शत्रुभिर्ग्रहण स षे पुत्र मरण थ         | १ |
| द्वचन श्रुत्व नारदेऽथ तपोधन             |   |

अ ख्य न्दिस चप्रे पु शोकहर तथ ११

:

रजञ् शृणु ह ख्य नं समेद बहुवि रम्  
यथावृत्त चैव मय ऽपि वसुधा धिप १२

प्रज स्तु ह तेजा <sup>१</sup>प्रज सर्गे पि ह  
अ । वृद्ध बहुल न त स्ते तत प्रज १३

<sup>३</sup>न तरमभूत् किं त् विज्ज तुभिर यु  
निरुच्छ मिबो द्व त्रै क्यमभव प १४

चिन्त समुप सह रं भूपे  
चि यन् न ध ग त् स सह रे हेतुक रणम् १५

रे मह राज खेभ्योऽग्निरुदतिष्ठत  
स र्दिशो राजन् दद ह स पित मह १६

ो त्वि भुव ख च जगच्च सचर चरम्  
दद ह प वको राजन् भग त् षोष भव १

त द त भूत नि जङ्गम नि ध्रु णि च  
ह कोपेगेन पिते पि महे १८

1. पू

2. नासृष्य पुनः नासृष्य : प्र . :

भून् युस्

3. न ङ्ग : पूण णिभि युत [ रम् ]

२४२] ान्तपर्व ण ेक्षध पर्व ३६१

ततो हरो जट स्थ णुश श्मश ननिलयश्शिव  
जग म शरण देवे ब्रह्म ण परमेष्ठिनम् १९.

तस्मि भिगते स्थाणौ प्रजानां हितक यय  
अत्रवा द्वरदो देवे ऽवलन्निव तद शि म् २

करव च कं कम वरा ९९सि म ो मम  
क स्मि प्रिय शम्भे त यद्धदि वर्तते २१.

इति भ े श सहि क र्थं सङ्गि ाया व सिक्क्या

ि पर्वणि एक - ां श धिकद्विंश ाोऽभ्यायः २

८८ ा धमपवणि ति ि ाो यः ९३

स्मिन्नभ्याये २ षो ाः

द्वचत्वारंशदधिक द्व त ोऽय य



स्थाणु चन ा दा ङोप े ने म्  
च ादीं द्वेभ्यो ां देवीं ति ि नयोज म् २

ाणुः

प्रजासर्गनिमित्तां मे क र्थं त्त मिमं प्रभो  
वेद्धि सृष्ट्रा.त या ह म मा प्यस्त्व पिताम १.

1. ि प ि शवः

त् प ो

- तेजेनि दे प्रज द तित सर्श  
मम कारु य म यत् जगत्प्रभे २  
प्रज ति.
- न कुयेऽह न मे क मे न भवेरन् प्रजा इति  
लाघ थ धर य तु स्सहर इ यते ३  
य हि मां सद देवी भर तं स चेदयत्  
सहर र्थं मह दे भरेण निम ती ४  
य ह नाधिगच्छि बुद्धि बहु ि चारयन्  
ह रम सं द्धानं तं मां ेध आ िशत् ५  
णुः
- सह रा नि र्तं मा ष्वस्त्रिदशेश्वर  
मा प्रजा स्थ रंश्चै जङ्गमांश्च यर्न नश ६  
पल लानि च सर्णि सव चैव तृणेलपम्  
स्थ र जङ्गम चै भूत् ताम चतुर्विधम्
- तदेत द्भूत जगत् सर्वमुपप्लुतम्  
प्रसीद भगवन् साधे र एष ते मया ८  
नष्ट न पुनरे यति प्रज ेता कथ  
तस्मान्निवर्त्यतामेतत् तेज ेनै तेजसा ९  
उपायम य स पश्य प्रज नं हितक यया

यथे ज तव सर्वे निवर्तेरन् परन्तप  
 अभाव नाधिग ैयुर् उत्स प्रजन प्र  
 पुत्रत्वेन नुसङ्कल्प्य त्वय ऽह तपसाऽप्यज ११

अधिदै ैयुक्तेऽि लोकानं हि करण त् ११

वद्भुव हि जग ैथ जगत् वरजङ्गमम्  
 प्रसाद्य त्वां महादे य चा यवृत्तिज प्रज १२

ना दः

श्रुत् तु चन दे स् स्थ णोर्नियतव द्भान  
 तेजस्तत् निजःऽह पुनरेवान्तर त्सनि १२

त तोऽग्निमुपसहृत्य भग ौ भ न  
 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च ल्पयामा वै भु १

पसहर स्तस्य मां रेषज तद्  
 प्र दुर्बभूव विश्वेशात् खेभ्ये र मह त्सन १५

णरक्ता वरधरा रक्तनेत्र ला तर  
 दि यकुण लस प । दि य भरणभूषिता १६

स विनिस्तृत्य खेभ्येऽ दक्षि म यद् दिशम्

1. न दीदमधम्

धचतु नाि

२. ैयुक्तेऽि लोकानं हि करण त् [ म्

3. ैभ्यः

ददृशातेऽथ तां यां देवौ विश्वेश्वराबुभौ १

।माह थ तद् देवो लोकानाम दिरीश्वर

मृत्यो रति हीप जहि चेम प्रज इति १८

प्र पतिः

८ हि सहारबुद्ध्या मे चिति । रुषेन च

तस्मत् सहर सर्वा त्व प्रज सजडपा त १९

अ शेषेण चै त्व प्रजास्सहर भामिने

म त्व हि नियोगे श्रेय परमव ष्यसि २

न दः

एवमुक्त्वा तु स देी मृत्यु <sup>१</sup> नकम लिनी

प्रदध्यौ दु खिता बल सा पातमतीव हि २१

प णिभ्यां स ऽथ जन् ह ता यश्रूणि जनेश्वर

म व नां हितार्थय ययाचे पुनरेव सा २२

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रि हित वैयासि

।नि ि द्वि िरिंशदधि द्विंश म ऽभ्यः २४२

८ िक्ष पवणि चतु ि म ऽभ्यायः ९

[ ि ि २२ िकाः ]

अत्रचत्वारशदधिकद्विंशोऽध्यायः

ना २ युवह्नं गदा व दपू . पनस्य पुत्र गो पनोदनम्

१ र :

नीय दु खमबल स र ती यतेक्षण  
व च झलिभूत् लतेव जि तदा १

२ :

सृष्टा य न री माऽश दतां र  
रैः र्मभिज येत सर्प्रणिभ ड्करम् २

विभे यहमधमस्य ध र्यम दिश कर्म मे  
त्व ां भातामैक्ष शिवेनेश्वर चक्षुषा ३

बाल न् वृद्ध न् वयस्यांश्च न हरेयमनागस  
प्र णिन णिन मीश नमस्तेऽस्तु प्रस द मे

य न् त्र न् वयस्यांश्च भ्र तृमातृ पितन पि  
अनुध्य स्यति यदेव मृतं स्तेभ विभे यहम् ५

पण श्रुपरिदो दहेन्मां शाश्वती स्त

भ्योऽह बल द्धीत शरणं त्व मुप गत ६

1. ि :

[ ा म् ]

१



- यं भूने देव यात्यते पापकर्मिण  
 देवे तं रद प्रसाद रु मे विभो
- एतदिच्छा ह म त्ते ले पित मह  
 इच्छेय त्प्रसद तपस्तप्तं सुरेश्वर ८
- पित :
- ४८ हि सारबुद्ध्य मे चितित रुतितेन च  
 स्मात् सहर सर्वा त्व जा म च विचारय ९
- ए मे द श दि भवि नैतद यथ  
 यिताम ङ्ग यथोक्त मद्वचोऽनघे १
- रदः
- ए क्ता ह व हे मृत्यु परपुर य  
 न याजहर त च प्र भगवदु मुखी ११
- पुन पुनरथेक्त सा गतसत्त्वे भ मिना  
 तूण म सीत् त देवे लोकानाम् श्वरेश्वर १२
- ससाद किल यमेवात्म ऽऽत्म न्  
 यम नश्च लो शे ले त् स नवैक्ष १

२४३] शांतिर्वणि मोक्षपव १३६

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| वृत्तरेषे ता स्तु भगवत्यपराजिते    |    |
| सा कन्य पजग स्य समीपाति नश्चुति    | १  |
| अपसृत्य प्रिश्रुत्य प्रज सहरण तद   |    |
| रम णेव रजेन मृत्युधनुकमभं गात्     | १५ |
| तत्र परम देवा तपोऽचरत दुश्चरम्     |    |
| समो कपदे तस्थौ दशपद्मानि प च       | १६ |
| तां तथ वर्ता तत्र प परमदुश्चरम्    |    |
| पुनरेव महातेज ह्य वचनमब्रवात्      | १  |
| रु व मे चे मृत्यो तदनान्य सत् र    |    |
| तथैवै पदे तात नर यानि स स          | १८ |
| तस्थौ प नि द् चै प द्वे चैव म नद   |    |
| भूय प आयु तात मृगै सह च च र सा     | १९ |
| नर्गत्व ततोऽन त मौनम तिष्ठदुत्तमम् |    |
| अ सु वर्षसह णि स चैक च प र्थि      | २  |
| जगाम स य शि । भर षभ                |    |
| त युजलाहर चचर नियम पुन             | २१ |
| ये ययै ह भ ग गङ्गं मेरुं चै वलम्   |    |
| दार्ढ्यं निश्चे प्रजानां हित यय    | २२ |

|   |     |
|---|-----|
| ते हिम े मूर्ध्नि यत्र देव स्समीजिरे      |     |
| त्र ज्जुष्टेन रजेन् न्निख े परम तप        | २३  |
| त गौ ेत महं चैव तेषय मास यन्नत            | २३  |
| ततस्तामत्र तत्र लोकानां प्रपितामह         | २४  |
| ि भिद ैसे त्रि क्रियतां मम द्वच           | २४  |
| न रदः                                     |     |
| त े ात् नर्मृत्युर् भगव त पि महम्         | २५  |
| न हरेय प्रजा देव पुन े ऽह प्रसादये        | २५  |
| नारदः                                     |     |
| त मधर्मभयत्र ां पुनरेव प्रजापति           |     |
| तद ऽ वीदे दे े निगृ ेद वचस्तत             | २६। |
| ।   |     |
| अधर्मो न स्ति ते मृत्यो सय छेमा प्रजाशुभे |     |
| मय ऽ यु मृषा भद्रे भविता नेह कि न         | २७। |
| धर्म सनातनश्च े ाम् इहैव नुप्रवेक्ष्यि    |     |
| अह च विबुध श्रै े द्विते निरत सद          | २८। |
| इममन्य च ते ाम दद मि मनसे प्सितम्         |     |
| न े ां दोषेण यास्यति याधिसम्पीडिता प्रजा  | २९। |

२४ ] शान्तिर्वाण मोक्षधर्ष १३६९

पुरुषेषु च रूपेण पुरु त्व भि ध्यसि  
स्त्रीषु रूपिणी चै तृती च नपुसकम् ३

नारदः

० क्त राज तञ्जलरु च ह  
पुनरेव मह म ते देवेशम ययम् १

त म तदा देवे मृत्यो संहर म नान्  
धर्मस्ते न भि तथा ध्यस्या यह मे २

१८ हि श च युक्ता च पूर्वोत्प च भ मिनि  
अनुशि च निर्दोष तस्मात् तत् रु मे म म् ३३

य नश्रुवि दून् पतितानपश्य  
प णिभ रित स्ते रस्त त्  
ते याधये म नवान् घेररूपा  
प्रप्ते कले प ये यन्ति मृत्ये ३४

स षां त प्र णिन म त ल्ले  
का धै सहि गौ योजयेथ  
एव धर्म त मुप यत्यमे धे  
च धर्म लप्स्यसे तुल्यवृत्ति ३५

1. दि म्

ए धम प लयि य मेघ  
 न च त्म न म यि यस्यधम  
 स्म त् । म रोचय ः । ग ८  
 सा ८ साधे सदरे ह जन्तून् ३६ ।  
 । वै तदा मृत्युसज्ञा कृता स  
 शापाद्भू त व ढमित्य ित् तम्  
<sup>१</sup>अथो णान् प्र णिन म त ले  
 मक्रोधौ प्र प्य नित्य निह १ त  
 मृत्ये १ ते य । श्रुप त  
 मनु य णां युज्यते यैश्शरीरम्  
 सबषां १ प्राणिनां प्राणन ते  
 तस्मा १ मा था बुद्ध्वा बुद्ध्वा ३८  
 सर्वे देवा प्राणिनां प्र णनान्ते  
 गत्वा वृत्ता स १ वृत्त थैव  
 ए स । न । प्राणन ते  
 गत् । त्त देववद्राजसिंह ३९ ।  
 युभ १ १ र्भ मन दो हौज स्  
 स १ षं च प्राणिनां णभूत

1. १ ।

2. : पाद न रि

नान त्तिर्देहे । देहभेदे

तस्म द्वयुर्देवदे े विशिष्ट

४

<sup>१</sup>स े दे मर्त्यस विशिष्टास्

सर्व मर्त्य े सन्न विशिष्टा

तस्म त् पुत्र । शुचे राजसिंह

पुत्रस गै प्राप्यते मोदते २

४१

र्भ :

एव मृत्युर्दे सृष्टा प्रजानां

प्राप्ते कले सहर यथा त्

<sup>२</sup>तस्य श्रैव । धयस्तेऽश्रुपात

प्ते ले सहर तीह ज तून्

४२

इ े । भारे शतसह े सति वैयासिक्य

न्तिपवणि दि । े शदधिकद्विशत गो : २२

८८ े ध प ि नवति गोऽभ्या : ९५

[ स्मि त्याये २ षो : ]

## चतुर्दशिकाद्दशतमोऽध्याय



विष्टिरिति नम्

युधि

- इमे म स ध प्रति शिञ्कित  
 १ ५ धर्म तो धर्मस् मे ब्रूहि पितामह १
- १ धर्मस्त यि हर्थ किम् अमुत्र थोऽपि वा भवेत्  
 थोऽपि । धर्मस् मे ू हे पितामह २
- ति
- सद च र स्मृतिवद स् त्रिध ध क्षणम्  
 च र्थ र्थ ाहु ये धर्मलक्षणम् ३
- धुक्तानि मणि व लुप्तमूषरे  
 लोक त्रार्थमे ध नियम कृत ४
- उ य खेद इह च पर च  
 अल ध्व निपुण धम पाप पापेषु ति ५
- च प प पाप मु य ते केचिद् पदि  
 प प ा भ ति यद् भ ति धर्मवित् ६

२४४] शान्तिपर्वणि लक्षधर्मपर्व १३ ३

१धर्मनिष्ठ सदाचारस् मेव श्रि चावसेत् ६

सत्यस्य च न स धु न सत्या द्विद्यते परम्  
सत्येन िधृत स सब सत्ये प्रति तम्

पि प पकृतो रौद्रास् सत्यं कृत् । मिथ तम्  
अद्रे ह्मविस द प्र र्त् ते तदाश्रया ८

ेऽपि मिथ ि । ष कुर्युर् नश्येयुरसशयम्  
न ह य परधनम् इ ि धर्मवित् े दु ९

म यन्ते बलव त द् दुर्वलै स प्रवर्ति म्  
यदा नि ि दौत्रल्यम् अथैष े व रे चते १

न ल्य त बलयुत भ ति सुखिनोऽपि । ११

रमते पहर े न परवित्तमराजके  
यदाऽ द्दर ल्य ये तद् राज नमिच्छति १२

यथा धर्मसम िष्टो रौद्रं गृह्णाति तर रम्  
तद् तेषां पृहये ये े तुष्टास् कैर्धनै १३

भ इ चिरभ्येति रजद्वार शङ्कित  
न हि दु रितां कि ि द् अ तरात्मनि पश्यति १४

1. ध नि । द्वः :: ध नि । चार
2. धमस्य नि । िच ..... [ ि : प : ]
3. े नि थो े . े चे ि था े यु . े न्
4. म् न नः



|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | दनाजैवै बुद्धिर् न ार्या ते कथ न        | १  |
|   | असाधुभ्ये ऽ न भय न चोरेभ्ये न राजत      |    |
|   | न ि त् चित् िन् निर्भ श्शुचिर सेत्      | ५  |
|   | सर् श्श ते स्तेने मृगो ामिेये ान्       |    |
|   | बहु ाऽऽचरित पापम् अ स्यै ानुपश्यति      | १६ |
|   | दितश्शुचिरभ्येति सर् ते निर्भय सद       |    |
|   | न हि दु रित िञ्चिद् आत्मनोऽ येषु पश्यति | १  |
|   | दात यमित्यय धर्म क्ते भूतहिते रतै       |    |
|   | त यन्ते धनयु कृपणै स प्रवर्तितम्        | १८ |
|   | दाऽनीय त कार्प यम् अथैषामेव रोच         |    |
|   | धनव तोऽपि न त्य तं भवति सुखिनोऽपि       | १९ |
|   | यद यै िहितं नेच्चेद् आत्मन र्म पूरुष    |    |
|   | न तत्परेषु वीं ज न प्रियमात्मन          | २  |
|   | योऽ यस्य दु द्वक्ति कस्त हसि मर्ति      |    |
|   | यद यस्त त् र्य मृ येदि मे मति           | २१ |
|   | जितु य चे छेत् थ सोऽ ि प्रघ येत्        |    |
|   | द त्मन इेत तत् परस्य पि चि येत्         | २२ |

२४४] शान्तिपवणि ोक्षधर्मपत्र १३ ५

अतिरिक्त सविभजेद् भोगैर य न्ति नान्  
 एत त् रणाद्वात्र सीदस प्रवर्ति म् २३  
 ~ दे । समये <sup>१</sup>स परं मरभेत्  
 अथ चे भस ये ति मऽ यशोभना २४  
 सब प्रिय भ्युपगतं पु यम हुर्मनाषिण  
 पदयै लक्षणे देश धर्माधर्मे युधिष्ठिर २५  
 ले स ह्सयुक्त िधात्र विहित पुर  
 सूक्ष्मतरं थनिय सदाचरि मुत्तमम् २६  
 धर्मलक्षणम ख्यातम् एतत्ते कुरुसत्तम  
 त ।दनार्जे बुद्धिर् न ते ार्यं थ न २

इ ि ।म.र श सहस्रि ि ।।<sup>१</sup> सिक्क  
 शान्ति प णि - ~ द द्विश िोऽय्य : २  
 ८८ ोक्षध पवणि ि ति िोऽभ्या : ५२  
 [ ि ञ्जभ्या २ ।।। ]

## प चत्वारिंशदाधकाद्रशततमोऽध्यायः



धिदिरेण भे ति प्राप्ता ेपः

धिष्टि :

- सूक्ष्मं स धु समादिष्ट भ त धर्मलक्षणम्  
 िभा ि मे क चित् ब्रूयामनुम नत १
- भूयांसो ७. ये ये मे प्रश्न स्ते य हृता त्वया  
 इमम य प्रवक्ष ि न रजि २
- इ हे प ल न्तीह सृज त्युत्तारयति च  
 न धर्म परिप ठेन शक्ये भर ेदितुम् ३
- अ ो धर्म समस्थस्य िषमस्थस्य च पर  
 अत े तु कथं शक परिप ठेन वेदितुम् ४
- स च रे मते धर्मस् स तस् िच रलक्षणा  
 साध्यासाध्य थ शक्य सदाच रेऽप्यलक्षण ५
- दृश्यते धर्मरूपेण धम प्राकृ रन्  
 धर्म च धर्मरूपेण ि प्र क्रत रन् ६

1. इ निहा ि स्म ग ि प  
 2. न ेदमधम्  
 3. दस्

|  |    |
|--|----|
| पुनर प्रमाण हि निर्दिष्टं श े दिदै         |    |
| वेदव द्वाश्रानुयुग हस तीति हि नश्चुतम्     |    |
| अ ये तयुगे धर्मस् त्रेतायां द्वापरे परे    |    |
| अ कलियुगे धर्म यथाशक्ति कृत इव             | ८  |
| आ य चन सत्यम् इत्ययं लोकसङ्ग्रह            |    |
| येभ्य पुन ेदा प्रसृत सर्वतोमुखा            | ९  |
| चेत् स े ण वै प्रम णं तु िद्यते            |    |
| म ण चेत् प्रम णेन विरुद्धेच्छ स्त्रता त    | १  |
| धर्म हि म ण बलवद्भिर्दुरात्मभि             |    |
| यदा विक्रियते सस्था तत साऽपि प्रणश्यति     | ११ |
| िद्वो वै न न वा विद्वान् शक्यं वेदितु न वा |    |
| अर्णयान् क्षुरध र य गरीयान् पर्वतादपि      | १२ |
| ग धर्वनगराकार प्रथमं स प्र श्यते           |    |
| अ वीक्ष्यम ण विभि पुनर्गच्छत्यदर्शनम्      | १  |
| निपानानीव गोभ्याशे क्षेत्रे कुल्ये च भारत  |    |
| मृतो हि श श्वतो धर्म विप्रहीणो न दृश्यते   | १४ |
| क मा पेक्षया चा ये ारणैरपरै था             |    |
| अस ेऽपि वृथाचारं भजते ब्रह्मोऽपरे          | ५  |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| धर्मो भूतिः स क्षिप्रं विलेभते स धुषु |    |
| अये तनुरुमत्तन् अपि वचहसत्युत         | १६ |
| हजन्तुपावृत्तारजमसमश्रिता             |    |
| नचसगतश्चिआचारप्रदृश्यते               | १  |
| तेनैप्रभवति सोऽपरते पुन               |    |
| श्यते च स नस्तुलरूपो यदृच्छय          | १८ |
| ये नैव य प्रभवति सोऽपरनपि बधते        | १९ |
| अचारणनयसोषमे लक्षये                   | १९ |

तिः :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| चिरमिपिभिपूर्वधर्मउद्भूत |   |
| तेनाचारेण पूवणसभतिशश्व   | २ |

इति श्रीमद्भारतसंहितायां  
 शान्तिपर्वणि विंशदधिकद्विंशोऽध्यायः २५  
 ८८ मोक्षधर्माध्यायः ९  
 सिद्धन्त्ये २ । :]

## षट्चत्वारिंशदधिकाद् १५५

भोष्मण धिष्ठि ति ति । धनार :  
म १ जलिन खेचरकृत या तुलारस १पगमनम् २

|   |   |
|---|---|
| अत्र युदाहर ती मम् इतिहास पुरातनम्        |   |
| तु धरस्य वाक्यनि धर्मे ज जलि । सह         | १ |
| ने नचर १ ज् जाज लिर्नाम वै द्विज          |   |
| स गरदेशम ग य तपस्तेपे मह तप               | २ |
| नियते निय हारश चीर जिनजट धर               |   |
| मलपङ्कधरे धी । न् बहून् वषगणान् मुनि      | ३ |
| स द चिन्महातेज जलव से महीपे               |   |
| चच र ले न् १ि प्रथि प्रेक्षम णे म० ज      | ४ |
| स चिन्तय म स मुनिर् जलमध्ये त् च          |   |
| १प्रेक्ष्य स गर ता वै हा स न म्           | ५ |
| न मय स शेऽ । ह ले स्थ वरजङ्गमे            |   |
| अप्सु वैहाय सान् गच्छन् २ ये य १ि ही ति २ | ६ |

इत्ते १० स १  
सङ्गत् १यं ग्यस्सहे १

स दृश्यम नो र ेभिर् जलमध्ये च भ रत  
 आ फोटयत्तदाऽऽ शे धम प्राप्नो मयेति वै  
 अुवश्च पिशाचास्तु नै त्व वक्तुमर्हसि  
 तुल धारो वणि धर्म राणस्यां महायशा  
 ेऽ ये नाह े क्तु यथ त्व द्विजसत्तम  
 इत्युक्तो ज जलिभूतै ३ प्रत्युवाच महातपा

८

९

पश्येय त मह । तुलाधारं यशानि न्म

इति ब्र ण तमृषि रक्षां युत्थ य सागर त्  
 अ वन् ग पन्थानम् आस्थायेम द्विजे त्तम  
 इत्यु ो ज जलिभूतैर् जग म ि न स्तदा  
 राणस्यं ल र समास द्य ि िज

१

११

युधि :

ि त ६सु । र्म जजलिना र  
 ेन सिद्धिं परां प्रप्तस् त मे य रु तुमर्हसि

१२ ।

1. स 2 न दम म्

. इ ऽऽ दा नि

4. ाण दिष्ट : प ष्ट दन

[पाठा रम्]

5. ग : 6 ग हु र

भी :

|   |    |
|---|----|
| त तपस युक्ते घोरेण स बभूव ह             | १३ |
| नद्युप पर्शनपरस् स य तर्महातप           |    |
| अदिं परिचरन् स यक् ध्यायपरमो द्विज      | १४ |
| व नप्रस्थ विध नो जाजलि वलनप्रिय         |    |
| सत्ये तपसि तिष्ठन् सन् न चाधममक्षत      | १५ |
| शशथी च हेम ते ज सश्रय                   |    |
| । तपसहे मे न च धर्ममविन्दत              | १६ |
| दु खश च विधि भूमा च परि नम्             | १६ |
| द चित् स मुनिर् वर्षास्व क शमास्थि      |    |
| अ रिक्षाज्ज मूत्र प्रत्यगृणा मुहुर्मुहु | १  |
| बभूवुथिता आप्लतस्य जटा                  |    |
| अरण्यगमनो नित्य मिनो मलसयुत             | १८ |
| द चिरहरो युभक्षे महातप                  |    |
| त द यत्रे न चचल च हंचित्                | १९ |
| त स्म स्थ णुभूतस्य निर्विचे स्य भरत     |    |
| लिङ्गश ना राजन् र्नी शिरसि चक्रतु       | २  |
| स तौ दयवन् स मुनिर् उपप्रैक्षत ढ प      |    |

1. निः १. ये पस्यति त्



|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ॐ ना त्र जटासु वृणतन्तुभि            | २१ |
| यदा च न चलये स्थाणुभूते मह तप        |    |
| त तौ परिश्वस्तौ सुख त्रेषतु द        | २२ |
| अती । थ षसु शरत् ल पस्थिते           |    |
| प्राजापत्येन धिन विश्व सात् ।ममोहितौ | २३ |
| त गोप दयतां रजञ् शिर नि खेचरौ        |    |
| बुध्यत तेज ि स विप्र सशितत्र         | २४ |
| बुद्ध च तेजा न चचाल च ज जलि          |    |
| धर्मो धृ मन नित्य न धम स रेचयत्      | २५ |
| अह यहनि च ग य तस्त मूर्धनि           |    |
| अश्व सितौ च स त स प्रहृष्टौ तद् विभे | २६ |
| अ भ्यत् थ श्रेभ्य प्र ज यत् शकुन्त   |    |
| य र्धन् च तत्रै न चा पत जाजलि        | २७ |
| स रक्षमणत् ।नि लि नं धृत त           |    |
| थै तौ धा निचे सम हित                 | २८ |
| ततस्तु स ये बभूवुत् थ पक्षिण         |    |
| बुवुधे स रि जातपक्षञ् त न्           | २९ |

२४६] शान्तिपि क्षधर्मपर्व १३८३

|   |    |
|---|----|
| तत ाचित् त त्र पश् न् पक्षिन् यतत्र     |    |
| २तथै तथै धर्मात्मा निचेष्ट सम हित       | ३  |
| बभूव परमप्रतस् तद् मतिमतां वर           | १  |
| त निह सवृद्धान् दृष्ट्व चै तान् मुदम्   |    |
| नी निर्भयौ त ऊ तु जैस्सह                | ३२ |
| जातपक्षं तन् पश्यन्नृद्धीनान् पुनर गतन् |    |
| ४स यं स य द्विजान् विप्रौ च कम्पत ज जलि | ३३ |
| कदाचित् नरभ्येत्य पुनर्ग तिस म्         |    |
| त्यक्ता मा पितृभ्यं न चाक पत ज जलि      | ३४ |
| अथ ते दि से च र गत साय पुनर्नृप         |    |
| उपा र्त त तत्रै नि सथ शकु तका           | ३५ |
| दाचि वान् प स त्पत्य विहङ्गम            |    |
| षष्टेऽहनि पु र्ज मुर् न च कम्पत ज जलि   | ३६ |
| क्रमेण च पुन स दि स नि बहून्यपि         |    |
| नेप र्त त श न जातपक्षश्च त              | ३  |
| द चिन्मासमात्रेण समुत्पत्य विह मा       |    |

1. द्वि तो :

ग ता दम म्

3. ग थानि त्ना मुदम्

4. ना दम म्

- नै ग छंस्तते राजन् प्रतिष्ठत स जाजलि ३८
- तते प्रलीनेषु जजलिर्जातवि य  
सिद्धोऽति म त चक्रे ततस्तं मन अ विशत् ३९
- स तु तन् निर्गतान् दृष्ट्वा श तन् नियत त  
स ितात्मा स भा य भृश प्रीत दाऽभवत् ४०
- स द्यं समुप श्य तर्पयित्वा हुताशनम्  
दय त थादित्यम् अभ्य गच्छ मह तप ४१
- चट न् मूर्ति जाजलिर्जपतां र  
आ फोटय थाऽऽ शे धर्म प्रप्ते मेति च ४२
- अथा तरिक्षे गा ित् सं स श्र जजि  
मेण न समस् वै ला र जाजले ४३
- राणस्यं मह प्र सू तुल र प्रति त  
सेऽप्ये न हते वु यथा त भ षसे द्विज ४४
- सोऽ शमाप सू तुलाध रदृष्टक्षया  
थे िमचरद्र जन् यत्रसायगृहो मुनि ४५
- कालेन मह । ग छन् स तु वाराणसा पुरीम्  
क्रिणन् च प यानि तुल । र ददर्श स ४६
- ोऽपि दृष्ट्वैव त िप्रम् आय तं भ र्जि न

२४६] शान्तिपवणि षोडशोऽध्यायः १३८५

स त्वय सद्गुरुस्व गतेन भ्यपूजयत् ४  
:  
अ यन्ने सि िदिते मम ह्यन् न सशय  
ब्रवीमि यत्तु चन तच्छणु व द्विजोत्तम ४८  
स गरानूपमाश्रित्य तप प्र त य महत्  
न च धर्मस्य स्थान त्व पुरा वेत्थ कि ४९  
ततसिद्ध तपस व िप्र श त ।  
क्षिप्र शिरस्यज यन्त ते च स भाविता त य ५  
ज पक्ष यद् ै च गताश्च चरितु त  
म यमान ते धम चट भ द्विज ५१  
खे च त्वं तदा श्रौषिर् मं प्रति द्विज प  
अ र्ष शम प स् त प्र ै भव नेह ५२  
करव णि प्रिय ै े तत् प्रब्रूहि द्विजेत्तम ५२

इ श्री ेश सहि त्या ि ै रि  
॥ पर्वणि षट्च रिंशदधि ि गो व्या : २६  
८ गो णि न गो : ९८  
[ - ै १५२ गो : ]

स चत् रिं दि कद्विशततमोऽध्य



र

हस्योपदेशः

र्भी :

इत्युक्त स तद् तेन लाघरेण धीमता  
 च चन र्धीमाञ् ज जलिर्जप र १  
 ज

विक्रीण न सर् रसान् सर्वगन्धांश्च वाणिज  
 न पत नोषधीश्च तेषा मूलफल नि च २

अध्यग नैष्ठिका बुद्ध कुत त मिय गत  
 एतद् चक्ष मे स<sup>१</sup> निखिलेन मह ते ३

ए लाघरे ह्वणेन यशस्विन  
 त्च धर्मसूक्ष्माणि वैश्यो धर्मार्थतत्त्ववित् ४

जाज ल ि प्रतपस ज्ञ नवृत्तस्तदा नृप

रः

वे ह ज जले धम सरहस्य सन तनम्  
 स भूते मै त<sup>१</sup> राण य ना ि दु ५

ोहेणै भूतानम् अल्पद्रेहेण व पुन

२४ ] णि ोक्षधर्मपर्व ३८

या वृत्तिस् परो धस् ते जीवामि जाजले ६

परि ै तुणैर् ममेद शरणं कृतम्

१ ला पं तुङ्ग ग धं े । च नपि

रस त न् ि ै मद्य र्जमह हून्

क्रीत्व तु प्रति णि परह दम यय ८

सर्वेषां य सुत्ति त्य सर्वेषां च हिते रत

र्मणा मनस वाच स धर्म वेद ज जले ९

न २ परेषां र्म णि प्रशस मि शप मि व

आकाशस्ये लो जाजले पश् चित्रतम् १

न नुरुये विरुध्ये व न द्वेषि न च मये

समे स्मि सर्वभूतेषु पश्य मे जाजले व्रतम् ११

ल मे सर्वभूतेषु समा तिष्ठति जाजले

इष्टानिष्टि युक्त प्रियद्वेषविवर्जित १२

इति मां तं ि जानाहि सर्वलोकस्य जाजले

समे मतिमतां श्रेष्ठ समलो इम । न १३

थ ५ ध धिरो मत्त उच्छ्वासपरमा सद

दैवेन पिहितद्व रास् गोप । पश्यते मम १४

1. लक्त

2. विकस्

स्ये इति शेष पा । र प्यरि

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| थ वृद्धातुर श निस्पृह विषयन् प्र |    |
| तथ र्थभोगे मम पि विगता पृह       | १५ |
| द च य न वि यदा च स्म भ्यति       |    |
| यद ने छि न द्वे द सिद्धति द्विज  | १६ |
| यद रुते भ भूते प पकम्            |    |
| णा नस चा स पद्यते तद             | १  |
| भूतो भ योऽ च धर्मोऽि श्वन        |    |
| भय सर्वभूत प्रा त्य य पम्        | १८ |
| दुजिते ग्रेकस् सौ मृ युमु दिव    |    |
| ूर क्ये द परस् स ते महद्भ म्     | १९ |
| था र्तम ननं द्धानं पु पौत्रि म्  |    |
| नु र्गि हे त्तम् इह णां हाः म्   | २  |
| न शशाश्रु गो धमस् सद चरेण मेहित  |    |
| प । न न् ऽि मु                   | २१ |
| ए य धु द चरेदद्रेहचे सा          |    |
| आचर जले । क्षिप्रं धर्मम । त्    | २२ |
| गाद् यथ म् उह्यम यदृच्छय         |    |
| यदृच्छयै ष्टेन स ध ग छे नचित्    | २३ |

२४७] शान्तिपर्वणि ोक्षधर्प १३८९

|   |    |
|---|----|
| त्रापराणि वरूणि ससृ य ते ततस्तत         |    |
| वृण ष्ट रीषाणि कदाचि समाक्षय            | २४ |
| एवमेव यम चार. प्र दुर्भूतो यतस्तत       | २५ |
| सहायव न् द्र यवान् यस् सुभगोऽपि यत त    |    |
| ततस्त नेव कवयश शास्त्रेषु प्रवद युत     | २६ |
| कीर्त्यर्थमथ ल्लेखा पटव कृत्स्ननिर्णया  | २६ |
| यस्मा द्विजते भूत जातु किं त् कथ न      |    |
| अभय स भूतेभ्यस् स प्रा ेति मह मते       | २  |
| यस्म दुद्विजते विद्वन् स लोके वृ िदि    |    |
| ोशतस्तीरम स घ यथ सर्वे जलेचर            | २८ |
| स भय स भूतेभ्यस् स प्रा ेति महामते      | २९ |
| तपोभिर्यज्ञानै व क्यै प्रज्ञाश्रितैस्तथ |    |
| ना त्येभ्यदान यद्यत् फलमुपाश्रुते       |    |
| लो य सर्वभूतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणाम्     |    |
| स सत्ययज्ञैर ज न प्रा त्येभ्यदक्षिणम्   | ३१ |
| भूतानामहिंसाय ज्याय न् धर्मोऽस्ति क न   | २१ |

1. अधद्
2. नास्ताद म्
3. ा देम तु यम्



|  |      |
|--|------|
| यस्मा िजते दानो ज तु ि त् थ न<br>सोऽभय सर्भूतेभ्यस् स प्रा िति हामुने          | ३२   |
| स्व दुद्विजते लो स् सर्पाद्वैशमगत देव<br>न स धर्मम िते २२ ले परत्र च           | ३    |
| सर्भूत् र भूत् सर्वभूत ि पश्यत<br>दे । अ यस्य मु ित अपदस्य पदैषिण              | ३४   |
| ान भूत भ स्य द्भुस् सर्द नेभ्य उत्तमम्<br>वीमि ते सत्यि द श्रद्धत्स्व यत जाजले | ३५   |
| स ए सुभगो भूत् । पुनर्भ ति दुर्भग<br>य पात्तं क ण द्वा जुगु सित जना सदा        | ३६   |
| अक रणे हि नेह स्ति धर्म सूक्ष्मो हि जाजले<br>भूत यार्थमे मप्र चन म्            | ३    |
| सूक्ष्मत् स ि ज्ञातु शक् स्ते बहु िर्ण<br>पलभ्या रे चा यान् अ च रन् न वबुध्यते | ३८ । |
| ये च च्छि दन्ति वृक्षाणां ये च ि दति स्थिान्<br>कृषि महो भरन् वाघ्रनि दमयति च  | ३९   |
| हत् र नि दनिान् थ न ि गर्हसे<br>नुष मनुषे द सभेगेन भु ते                       |      |

२४ ] शान्तिपर्ण ेक्ष ेर्व १३९१

|   |    |
|---|----|
| धव धनिरोधेन ।रयि दि ।निशम्                  | १  |
| अत्मन ।पि ज ना सि य ख धत ने                 | १  |
| पञ्चे ।येषु भूते सव सति दवतम्               |    |
| आदित्यश्च द्रम ।युर ह्या प्र ण ऋतुर्यम      | ४२ |
| ।नि जीवति विक्राय । मृतेषु ि च रणा          | ४३ |
| का तले । घृते ब्रह्मन् मधु यप्स्वेषधीषु वा  | ३  |
| अदशमशके देशे सुखसवर्धितान् पशून्            |    |
| तांश्च म तु प्रियान् धुर्यन् अ य बहुधा नरा  | ४४ |
| बहुदश लान् देश न् नयति बहुकर्मन्            | ४५ |
| व हस प ि ता धुर्यास् स द त्यि धिना परे      |    |
| न म ये भ्रूणहत्याऽपि विशिष्टा तेन कर्मणा    | ४६ |
| ।ष साधि ति म य ते सा च वृत्तिस्सु । रुण     |    |
| भूमिं भूमिशयांश्चैव ह ति क ष्टैरयोमुखै      | ४७ |
| तथैवा डुहो युक्त न् क्षुत्त ण श्रमकर्षितान् |    |
| अ य रति गवां न म एतान् ह तुमर्हति           |    |
| मह कारा शल वृथ ये गं निद ति च               | ८  |
| ऋषयो यतये ेते नहुे प्रत्यवेदयन्             |    |
| गां म र च प्य धी र वृषभं च प्रज पतिम्       | ४९ |

|  |    |
|--|----|
| कार्यं नहुषं रूलस्यामत्ते यथम्             | ५  |
| शतं चै च रोगाणां सर्वभूते प यन्            |    |
| ऋषय मह भागा प्रशस्ता न जाजले               | ५१ |
| भ्रू नहु चाहुर न ते भेक्ष्य महे वयम्       |    |
| इत्युक्त्वा महात्मानस् सब तत्त्वार्थदर्शिन | ५२ |
| ऋषयो य यशशा तास् तपस प्रत्यषेधयन्          | ५२ |
| ई शानशि न् घोरान् अ चार निह ज जले          |    |
| केवलाचरितः त्तु नैपुणा बुध्यसे             | ५३ |
| रणाद्धर्मो विरस चरेत्                      | ५४ |
| यो ह अत्र मां तैति तत्रापि शृणु जाजले      |    |
| समौ त पि मे स्य ता न हि मे प्रिय प्रिये    | ५५ |
| ए मीदृशक ध प्रशसति नाषिण                   | ५५ |
| उपपत्त्य हि स प तेभिश्चेह से यते           |    |
| स तं धर्मश लै नै णेनै पलक्ष्यते *          | ५६ |

इति मीमांसा शतसहस्रस्य सहाय्यस्य सिक्क्या

तत्पर्वणि सप्तचत्वारिंशदधिकद्विंशोऽध्यायः २४

८ पञ्चणिण्युत्तमोऽध्यायः ५९

[ अस्मिन् ५६ अध्याये ]

1. अधचतु ष्ति

\* त्रैलोक्ये चैतन्महाभारतम्

## अ चत्तारिंशदधि द्वेऽऽ

अथ जज रस्योपे :

- अयं प्रवर्तते धर्मस् तुलध र यथ त्वय  
 गद्व रप्रवृत्तिश्च भूतानामवरोत्स्ये १
- षिभ्योऽ च भवति तत् त्वमु जीवसि  
 पशुभि षैषाभिश्च मर्त्यं ज ि व णिज २
- ततो यज्ञश्च भवति नास्तिक्यमिह जल्पसि  
 न हि वर्तेदय लो े वर्तामुःस्तृ य केवलम् ३
- उ त्तरः
- क्षयामि ज जले वृत्त ना ि ब्रा ण नास्ति  
 न च विनि द मि यज्ञवित्त सुदुर्लभ ४
- नमे ण यज्ञाय ये च यज्ञविदो ज  
 यज्ञ ा ण हित्वा क्षत्रय मनुष्टि ५
- लु धौ ित्तपरैर्ब्रह्मन् न ि कै स प्र र्तिताम्  
 वेदवेद र्थि न सत्य म मिवानृतम् ६
- इद देयमिदं देयम् इति न यच्च िर्षते  
 अत स्तै य प्रभ ते वि म णि च ज जले

|   |    |
|---|----|
| दे सु त ह य े न तु यति दे ता              |    |
| नम रिण हवि ध्य यैरौ धैस्तथ                | ८  |
| पूजा स्य दे त नं हि यथाश निदशनम्          | ८  |
| इष्टापूर्त्त स धून िदुषां ज ते प्रजा      |    |
| लु धेभ्ये जायते लु धस् समेभ्ये ज यते स    | ९  |
| यजमान यथ च हुर ऋ त्वज तथा प्रजा           |    |
| य त् प्रज प्रभ ति नभसोऽ भो यथ ऽमलम्       | १  |
| ौ ऽऽहुर्ब्रह्म दित्यमुपग ते               |    |
| आदित्याज्ज यते वृष्टिर् वृष्टेर तत ज      | ११ |
| यज्ञत् नुष्टि त् पूव सर्वान् ामश्च लेभिरे |    |
| अकृष्टप या पृथि ि अ शर्भिर्व रूधोऽभवन्    | १२ |
| न े यज्ञे ात्मसु व फल पश्यति किञ्चन       |    |
| शसमान फल ये ये यजेरन् कथञ्चन              | १३ |
| जन त तथ स धु लु धा वित्तप्रयोजन           |    |
| ते पाप ता लो न् ग ेथु प प िण              | १४ |
| प्रम णमप्रम णेन य र्यदशुभ नर              |    |
| प पात्म ऽ त स् स वैह द्विजेत्तम           | १५ |
| यि ि त य वेत्ति यो ाह्मणे भयम्            |    |

२४८] शांतिपर्व^ मोक्षधर्पव १३९५

त्रा े स र्ते लोके नैतर्त यत पुन १६

विगुण च पुन र्म ाय इत्यनुशुश्रुम  
सर्वभूतेष रश्च फलभ वे च यम १

सत्ययज्ञा जपय । अलु धाश्च त्म त्तय  
उत्प त्यागिन सब जना अ स मःसरा १८

क्षेत्रक्षे र्व सू स्वय परिनिष्ठिता  
ह्य वेदमधीयन्ते तोषय त्यमर नापि १९

खिल दै त स ब्रह्मन् ब्रह्मणि सश्रितम्  
वृष्यन्ति वृ यतो देवास् वृ ावृ स्य जाजले २

यथ मृ रसवृष्य नाभिन दति के न  
थ प्र ानवृष्य नित्यवृष्यस्सुखोदय २१

ध र्मा े धर्मपर त यवसित थ  
अि न र्वतो भूय इति प्राज्ञस्त्ववेक्षते २२

नि ानित केचित् पर पार निन षव  
अ िव तत् स . पु य पु य भिजनशोभितम् २३

यत्र गत्व न शेचित न च्यव ते यथित च  
ते तु द्र णस्थान प्रुव र्तीह स र्विका २४

नै ते र्गमि तित न यजित तपेधना  
सतां वर्त्मानुवर्त ते यथावलमहिंसय २५

|  |    |
|--|----|
| न पत ेषीश्च फलमूलानि ते विदु                 |    |
| न चै नृत्विजो लु धा य जयित १धनार्थिन         | २६ |
| मेव थ वि र्वाणा य िश्चक्रुरनृत्विज           |    |
| परिनि तकर्मण प्रज नुह ह्क्षिण                | २  |
| पयेयु प्रज र्ग स्वधर्मचरणेन वै               |    |
| इति मे र्तेते बुद्धिस् समा सर्वत्र जाजले     | २८ |
| प्रयुञ्जते येन ज्ञे सद ा द्विर्षभ            |    |
| तेन ते दे यानेन पथ य तित म्मुने              | २९ |
| अ वृत्ति त्र चैकेषां न त्यावृत्तिर्मन विणाम् |    |
| उ तै दे यनेन गच्छतो जाजले पथ                 |    |
| य चैष हो युञ्जित च हित च                     |    |
| य ा दुहते नस्स ल्पसिद्धिभि                   | ३१ |
| यं यूपानुप द य यज ते दक्षिण                  |    |
| थ भ ि त्म त् स िमाँ धु र्हिते                | ३२ |
| ओ धी ि थ ब्र न् जेरस्ते ता शा                |    |
| श्रद्धय ऽह रस्कृत्य िदृश प्र वीमि ते         | ३३ |
| निर शिषमन र भ निर्नमस्कर तुतिम्              |    |
| अक्षीण क्षाण र्माण त दे ा ब्राह्मण विदु      | ३  |

न श्र यन् न च यजन् न दद्रु णेषु च  
 यं वृत्तं लि स न कां गतिं य ि जाजले ३५

इद द त ८ यथ य मव यत्  
 रे शे हि स ० षा पशूनां मे य उच्यते ३६

अथ र्मण केन िणिज प्रु यत् सुखम्  
 ह प्र द ० तद् भृश वै श्रद्ध मि ते ३

भय नुप ज्ञे नै यज्ञमथ ह ० ति  
 अ येन प सा द ० स ० त्या मिक्षया ८ च ३८

० पादैश्च शृङ्गेण ४ स भवत्येव गोर्मुखम्  
 प ० तेन विधिन प्र रेति नियोज न् ३९

- ि :
1. न मुनी िश्रणमः क्ष  
 पृच्छ मि ० ि  
 पूर्वे पूर् ० ना ०  
 ि : प तमृष : प ०  
 ि ० ० न प : म् ध : ]
  2. इ न ि
  3. उ ज उ नाहा ० ित् [ ि म् ]
  4. ० ० म्
  5. प ० न प ०
- J II 47



१सं नद्य सर तस् सर्वे पु यादिशले य  
 ज जले तीर्थम त्मेव मा स्म देश तिर्थिर्भवेत् ४  
 एत नी शक न् धर्मान् आचरि ह जाजले  
 रणैर्ध मवि न् स लोक न् प्राप्ते भ न् ४१  
 णि :

एत नीदृश न् धमास् तुलाध र प्रशसति  
 पपत्य हे स प न् नित्य सद्भिर्निषेि न् ४२  
 इति श्री र शतं कि था द्वि त्या यासिक्यां  
 न्ति ि चत्वारिंशदि द्विश णोऽध्या : २८  
 ८८ णो ध प ि श णो न्या :  
 [-दि ष्य ये २ णो :]

1. इ . . . व यथ ज्ञा त्  
 रोड णो ि पशून् ष्य उच्ये [ ि : पा :

## एकोनपञ्चाशदधि द्विशोधय



युधिष्ठिर प्राजा लिखितु धर दानुदः

तु

- सद्भिर्वा यदि ।ऽसद्भिर् अय पथास्सम स्थित  
 प्रत्यक्षि यतां साधु तते स्वसि यद्यथ  
 एते शता बहवस्स सम ताद्विचरति ह  
 तवेत्तमाङ्गे स भूत श्येनाश्च यश्च जात २
- अथैनान् महत्र न् विशम नांस्ततस्तत  
 पश्येमान् वस्तप देन श्लेषान् देहेन सर्श ३
- स भवयति पितरं त य स भवि । खगा  
 असशय पित च त्व पुत्रान य जाजले ४
- ततो जाजलिना ते तु समाहू पतत्तूण  
 वचमुच्चारयन् दि यं धर्मस्य वच त् ५
- पदि  
 अहिंसदि कृत र्म इहै च परत्र च  
 स्पर्धा निहित वै धम स हतो हति त नरम् ६

|  |    |
|--|----|
| साना श्रद्धा नाना समतना सुचेतसाम्<br>तं ज्ञ इत्ये यज्ञे जातु चे यते                      | ७  |
| श्रद्धा वै सात्विती देवी सूर्यस्य दुहि नृषु<br>सावित्री प्रसवित्रा च हविर्धानमय तत       | ८  |
| वा वृद्धा त्रायते श्रद्धा मनोवृद्धा च ज जले<br>श्रद्धा वृद्धा वाङ्मनसं न यज्ञात्तुमर्हति | ९  |
| अ गाथा गता कीर्तयति पुराविद्<br>शुचेश्रद्धा श्रद्धा नस्य चाशुचे                          | ९  |
| दे । ४ वृत्तमम यन्त सदृश यज्ञकर्मणि<br>श्रेत्रियस्य कदर्यस्य वद यस्य च वर्धुषे           | १  |
| समासित्वोभय देवसु समम मल्पयन्<br>जपति तु च षिभ कृतमित्युत                                | ११ |
| श्रद्धा पूत वदा यस्य हतमश्रद्धयेतरत्<br>भेयम वद यस्य न दर्यस्य वाधुषे                    | १२ |
| अश्रद्धा न एवैके देना नार्हते हि<br>स्यै न भोक्त यम् इति र्मविदे विदु                    | १४ |

1. । ति दिस ३ । द शो । नो २ (S. F. N. 2  
. ग सा ३ प्रसि ती . ति ती सि ३ च t p. 140 )
3. यर्
4. ति

२९] । पवण ेक्ष ० १४ १

अश्रद्ध परम प म श्रद्ध प पप्रमेचनी  
जहति पाप श्रद्ध न् सप जीर्णाम त चम् ५

य यस या पवित्राणां नेवृत्ति श्रद्धय हि स  
नि त्तदो शीलो य श्रद्ध न् पूत एव स १६

एक तस्य तपसा यै ि तेन ि मत्मन  
श्रद्ध मयेऽय पुरुषो ये य श्रद्धस्स ए स १

इति धर्म सम ख तस् सद्भिर्धर्मार्थदर्शिभि  
वय जि सम न तं स प्रा । धर्मदर्शनत् १८

स्पधा जहि महाप्रा त स्यसि यत् परम् १८  
तिः

२न २ मु िनां शृणुमश्च तत्  
पृ छ मि े व णिज तत्त्वमेतत्

पूर्वे हि पूवऽयनवेक्षमाणा  
नात पर ते ऋषय पयति १९

यस्मि ेव तु तत्त्वेन पशव प्र यु सुखम्  
पार्त्वि तेन विधिना प्र रोति नियोजयन् २

श्रद्धाव न् श्रद्ध नश्च य यह याहि वाणिज २१

1 नि त्तिर्दो शः 2. ि  
3. ति े . िवृ े  
4. ध ि ध २ ि .

। :

र्मने ि च्च गरायानेष भूतले २१

ः

तो चिरेण लेन तुल धार स एव च  
दिव तौ महाप्राज्ञौ ि हरेतां यथासु म् २२

<sup>1</sup> स्थ नमुप ग य र्मफलनिर्जितम् २३

ए हु तथ च तुल धारेण भाषितम्  
स यक् चैनमुप ल धो र्मश्रोक्त सन तन २४

त ख्य त र्यस्य श्रुत् । क्य ि ज जलि  
तुलाध रस्य तेय शा ि तमेव वपद्यत २५

स नं श्रद्धानानां युक्त नं च यथाव म्  
र्व ि इत्येव न यज्ञो जातु चे ये २६

इति ि भारे ि ि विवरि ि

णि णि एकान शदधि द्विशतत िोऽध्यायः २९

८८ ध एकश िोऽभ्य :

[ रि न्य २६ िकाः ]

1 न ि

2 एव बह तु म्  
विचदमु र ना :  
िख्या ि स्य च ि िनि द्वि :  
तु धार ये ि ि प  
न ह सु िम्

पूर्व िोऽनुवृत्तम्

इ न य िो  
 द्वा पि िरि े दे े सुयस्य दु े नृ  
 वि े ि ि िं इ े :  
 ग्वा ि े श्रद्ध िो द्वा भार  
 द्वावृ द्धान न तुमहा  
 िी ग े े ि पुर विदः  
 ह िनस्य िध स्य िशुचेः  
 दे ि सदृश यज्ञक िणे  
 श्रो ि स्य दयस्य द य च धु :  
 ि ि े स् म यन्  
 पति िनु िच े कृतमियु  
 पू ि त श्रद्धे रत्  
 भ द स्य द स्य व धुः  
 हधान एवै ि दे िन े िः  
 र द न भोक्त यम् इति ध े दो िदुः  
 द्वा परमः प े द्वा प मप्रमा न  
 जहाति चास्य पस क ि तेन ि मन  
 श्रद्ध याऽ पु िो ये इद्ध एव :  
 इ िध स स्य : िद्वि ि द ेभिः  
 थै प यो े शेन कि े न् श्रेतमि च्छसि

धि : :]

इ श ि पवाण ि ध े च श िो ध :

## प दधि द्शततमोऽध्याय

भी युधिष्ठि । । । । पूर्व र र रोधेन र  
 गो । थ २

युधिष्ठि :

- १ रा. मापदश्चैव न विदत्यविहिंस ।  
 थ त्र शरीर निररभ सेत्स्यते १
- थ शरीर न लायेन्नै मृत्यु श भेत्  
 तथा सु ते समर्थो धर्म चरेत् २
- अ युदाहर तीमम् इतिह स पुरातनम्  
 प्रज नामुप रथ गीत राज्ञा विचख्युन ३
- भि धूलवृष । विर व च ग । भृशम्  
 जगह य । टस्थ प्रेक्षम णस्स पार्थि ४
- ि गोभ्येऽस्तु लोकेषु तो निर्च कृतम्  
 हस यां तु प्रवृत्तेयम् आश रेषाऽनुकपित ५
- य ि मर्यदैर् विमूढैर्नाि कैर्नरै

1. -व । सि

3. । गृहे

२५ ] शांति पर्वणे लोक्षधर्मपत्र १ ५

सशयात्मभिर यत्कैर् हिंस समनुदर्शित ६

स मर्मे ह्येसां हि धर्मात्म मनुर वात्  
का राद्विहंसति हिर्वे । पशून् नर

त् मण क य धर्मस्सूक्ष्मो विज नत  
अ हस े सर्वेभ्यो धर्मेभ्यो ज्य यसी ता ८

पो य सशिते भूत् । हित्व वेदकृतं शुचि  
अ चार इ न च र कृपण फलहेतव ९

यदि ि छ दित वृक्ष यूपं ेदिश्य ानवा  
वृथा मांसानि ख दित नैष धर्म प्रशस्यते १

सुरा मत्स्यो मधुर्मांसम् आस कृसरौदनम्  
धूर्ते प्रवर्तित ेत तद्वेदेषु लिपितम् ११

मा महेहाच्च लेभा लौक्यमेतत् प्रवर्तितम् ११

वि णुमेव यज िह सर्वयेषु ब्राह्मण  
पायसैस्सुमनोभिश्च तस्यैव यजन मृतम् १२

य ि याश्चै ये वृक्ष वेदेषु परिकल्पिता  
यच्च पि कि ि त् कर्त यम् अ य लोक्षै सुस कृतम् १३

महासरैश्शुद्धभ वैस् सर्व देवार्हमेव तत् १४



युधि :

शरीरमपदञ्चैव ि दत्यवि सका

थ यत्र शरीरस्य निर र भस्य सेत्स्यते १५

भी :

यथ शरीरं न लायेया मृत्युवशं यथा

था ि तेत समर्थे धर्ममचरेत् \* १६

इति िम १ रे स हि िया ि या १

ि ि श श धिकद्विशत िऽयः २५

८८ मा ध प ि द्वि िऽयाः २

[ - दि न्ये ६ िो १ः ]

ए प िशद ध द्विश िऽय य

धि र ि चर रि िोपाख्यान थ म् र  
रि च २

यु ि र

कथं कथं परीक्षे शां वाऽथ चिरेण वा

सर्वथ येदुर्गेऽस्मिन् भवान् न परमे गुरु १

ति :

अत्र युद्धं हरन्तीमम् इतिह स पुरातनम्

चिरं रिस्तु यत् पूर्वं वृत्तमङ्गिरसं ले २

\* न न्य समाधि-इत्ये

- चिरकारि भद्र ते भद्रं े चिर रि  
 चिर री हे मे ावी न पराध्यति कर्मसु ३
- चिर री ह प्राज्ञे गौतम ाभ त् सुत  
 चिरेण स र्याणि विमृशन् तिप ते ४
- चिर रि यत्यर्थं चिर ज चिर पन्  
 चिर र्याभिपत्ति चिर रि तथो ये ५
- अलसग्रहण प्रप्ते दुर्मेधा इति चोच्यते  
 बुद्धिलाघ युक्ते जनेन र्द र्घदर्शिन ६
- यभचरे तु स्मिं द् यति यापरन् सुतन्  
 पित्रोक्त कुपितेनाथ जहीमां जननीमिति  
 स तथेति चिरेणेक्त भ चिरकारिक  
 िमृश्य चिरकारित् च चि तय म स वै चिरम् ८
- चर रि :
- पि रज्ञां थ र्यां न ह यं म तर थम्  
 थ धर्मं ले न स्मिन् निमज्जेयमसाधुवत् ९
- पितुरा परो धर्मस् स्वधर्मो मातृरक्षणम्  
 अ तत्र च पुत्रत्व के नु मामत्र पीडयेत् १
- य हत्वा म तर च के नु ज तु सुखी भवेत्  
 पि र चप्य य क प्रतिष्ठामवा यात् ११

|  |    |
|--|----|
| अन पितुयुक्ता धर्मो म तृरक्षणम्<br>युक्तक्षमाप्रभा <sup>१</sup> तौ नातिवत्य <sup>२</sup> थ मया | १२ |
| पिता त्म नम धत्ते मात भ । निदिता<br>र्श चारि गोत्रस्य धारण थ कुलस्य च                          | ३  |
| सोऽह त्म स्वय पित्रा पुत्रत्वे च त पुन<br>नमेतत् किं न स्य द् बुबुधे चात्मस भ म्               | १४ |
| जा कर्मणि त् पित योप णि<br>पर्यप्त स द्दृक्तर पितुर्गौरवनिश्चये                                | १५ |
| गुरोर्य परे धर्म पोषण यायन िवत<br>पित यद ह धर्म स वेदे वपि सुनि ित                             | १६ |
| प्रति त्र पितु पुत्रस् सव पुत्रस्य वै पित<br>शरीर िनि देयानि पित त्वेक प्रयच ति                | १  |
| तस्मात् पितुर्वच ाय न विचाय द् चन<br>पातका यपि पूय ते पितुश्शासन िरिण                          | ८  |
| भे यभेगे प्र ने सर्वलोकनिदर्शे<br>भर्त्र चैव स योगे सीम तो यने तथ                              | १९ |
| अशि स्त भज त्येन पुरुष प्राह यत् पित<br>पि ा ध <sup>३</sup> पित र्ग पित परम तप                 | १९ |

२५१] न्तपर्वणि लोक्षधर्पर्व १४ ९.

|  |     |
|--|-----|
| पितरि प्रातिमापे सर्वे प्रणति देवत   | २   |
| नि कृतिस्सर्पपनां पिता यदभिन दति   | २१  |
| मु यते ब धनात् प फल वृ त मु यते<br>ि श्य पि पितुस्ते ह पुत्रे ह न मु ति          | २२  |
| एत द्वि चित्तं त वत् पुत्रस्य पितृगै र म्<br>पितुरूप तर स्थ न चि तयि यामि म तरम् | २३  |
| यो य म ये सङ्घ तो मर्त्ये पा भै तिक<br>अस्य मे जनन हेतु प व स्य यथाऽरणि          | २४  |
| माता देह रणि पुसां सर्वस्यातेस्य निर्वृति<br>न च शोचि न येष स्थाविर्यमप र्षति    | २५. |
| श्रिय ह नोऽपि यो गेहम् अ बेति प्रतिपद्यते  | २५  |
| पुत्रपैत्रसम प ो जन य समाश्रित<br>अपि र्षशतस्याते ह यन्त्वे स वर्तते             | २६  |
| समथ ऽसमथ व कृशं वाऽप्यकृश तथा<br>रक्षत्ये सुत मात ना पेशा ४तथ विध                | २   |
| द स वृद्धे भवति तद भ ति दु खित   |     |

1. कृश गो पि ेहः

2. ग ी 3. ग सा ।

4. ि न :

|  |    |
|--|----|
| दा शून्य जगत् तस्य यद् मत्र वियुज्यते            | २८ |
| नास्ति मृतस च नास्ति तृसम गति                    |    |
| नामि मृतसम त्रण नास्ति मातृसमा <sup>१</sup> प्रप | २९ |
| क्षौ स धारणाद्धारि जननाज्जननी मृता               |    |
| अङ्गनां धनद व वीरसूत्वेन रिसूः                   | ३  |
| शिशो शिशुश्रूषणा लश्रूर् माता देहमन तरम्         |    |
| चेतन व न् स को ह य द् य न सुषिर शिर              | ३१ |
| द पत्यो प णिसश्लेषे योऽभिसधि कृत ि ल             |    |
| माता व पिता वेति भूत था तरि स्थित                | ३२ |
| म । जान ति यद्नेत्रं मात जान ति यस्य स           |    |
| तुर्भरणम त्रेण प्र ति ेह पितु प्रज               | ३३ |
| प णिवन्ध यं कृत्वा सहधर्ममुपेत्य च               |    |
| यदि य यमि पुरुषास् ि ये नर्हति य यताम्           | ३४ |
| भर ाद्धि ि या भर्त पालना पति थ                   |    |
| गुणस्य निवृत्तौ तु न भर्त न पति था               | ३५ |
| एव ि न पराप्नोति र ए पराध्यि                     |    |
| युच्चर महादे नर एव पर ध्यति                      | ३६ |
| ि य हि पर े भर्त दैव परम मृतम्                   |    |

२५१] शान्ति पर्वणि ेक्षध'पव १४११

स्यात्मन तु सदृशम् आत्मान परम ददौ ३

नापर धोऽस्ति नार णां नर एव पराध्यते  
सर्वक र्यपराधीन न पर ध्य'त चाङ्गन ३८

यश्च नोक्तेऽथ नि शस् इ य मिथुनवृत्तये  
तस्य स्म रयते यक्तम् अधर्मो नात्र सशय ३९

एव न रा मातर च गौरवे चाधिके स्थित म्  
अवध्यां तु विजानीयु पशवेऽप्यविचक्षणा ४

देवतानां समा ापम् ए स्थ ितर विदु  
मर्त्यानां देवत नां च ेह दभ्येति म तरम् १

ः

एव विमृशतस्तस्य चिरकारितया बहु  
र्ध ले यति । तस् ततोऽस्य भ्य ग त् पि । ४२

मेधातिथिर्महाप्रा े गौतमस्तपसि स्थित  
स मृश्य तेन क लेन प य स्तस्य यतिक्रमम् ४

सोऽ वी द्भृशस त े भृशमश्रूणि वर्तयन्  
धूतधैर्यप्रस देन पश्चान्त पमुप गत ४४

ग :

आश्रम मम स प्रप्तस् त्रिलोकेश पुर दर

1. - नि' ग निर्वेशः

2. ध ' ि

3. ग ु प्रसा'न

|  |              |     |
|--|--------------|-----|
| अतिथि तम स्थ                                       | य रूपमास्थित | ५   |
| स तदा स त्ते िग्भिस् गतेन भिपूजित                  |              |     |
| अध्य पद्यं च य येन मय हि प्रतिप दितम्              |              | ४६। |
| परव नस्मि चेत्युक्त <sup>१</sup> अनुशिोऽस्मि तेन च |              |     |
| अत्र च श्ले जते ि य नस्ति यति म                    |              | ४   |
| ए न ि न चैवाह न ध्वगि दशेश्वर                      |              |     |
| अपर ध्यति र्मस्य प्र द्स्त् पर ध्यति               |              | ४८  |
| ई र्याज यसन प्र हुस् तेन चैवोर्ध्वरेतस             |              |     |
| इ र्यय त्वहम क्षि मग्नो दु कृतसागरे                |              | ४९  |
| हत् स ध्व च नारा च यसनित्वा श सितम्                |              |     |
| ह यतेन भर्य चो नु मं तारथि यति                     |              | ५   |
| तरेण मयाऽऽङ्गिर् अकारात्युदारधी                    |              |     |
| यद्य चिर रि स्यात् स मां त्रायेत पाप त्            |              | ५१  |
| चिरकारि भद्र ते भ ते चिरकारि                       |              |     |
| य चिर री त्व ततोऽसिं चिरक रि                       |              | ५२  |
| त्र हि मां मातर चै पे य र्जित य                    |              |     |
| अत्मान पा केभ्यश्च ततोऽद्य चिर रि                  |              | ५३  |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| सहज चिर रित्वम् अति ज्ञ य तव          |    |
| सफल तथ घ तु घ चिर रिक                 | ५४ |
| चिरम श सिते म त्र चिर गर्भेण ध रित    |    |
| सफल चिर रित्व रु त्व चिरकरिक          | ५५ |
| चिर यते तु सत्य त्म चिर स्वपिते ध रित |    |
| अ योश्चित्तस तापम् अवेक्ष्य चिर रि    | ५६ |
| फल त् प्रद । तु भ घ चिरकारिक          | ५  |
| मी :                                  |    |
| ए स दु ो राजन् महर्षिर्गौतमस्तद       |    |
| चिर रें ददर्शथ स्थित पुत्रमथ तिते     | ५८ |
| चिर री तु पितर दृ । परमदु खित         |    |
| श त्यक्त तद मूर्ध्ना प्रसाद योपच मे   | ५९ |
| गौतम तु ततो दृ शिरस पतित भुवि         |    |
| प चै र र पर मभ्यगम मुदम्              | ६  |
| हे स तेन स भेद पी ना महात् ना         |    |
| जिने च श्रम ने पुत्र पि सम हि         | ६  |
| ह यामिति न चेतेश पणौ सुते स्थिते      |    |
| िन स त निव से चात्म र्मसु             | ६२ |

1. च रि ? ध ि

3. न ि म्



|  |    |
|--|----|
| बुद्धिः । स त् त दृष्ट्व पितु रणयोर्नतम्<br>श ह च पत् सं णोति भयादिति            | ६३ |
| तः पित्र चिरं स्तुत् चिरं चा । य मूर्धनि<br>चिरं दोर्भ्यं परि य चिरं जीवेत्युदाह | ६४ |
| एव स गौतम पुत्रं प्र तिहर्षमुदा युत<br>अभि ह प्रज्ञ इदं वचनं वात्                | ६५ |
| चिरं रिकं भद्रं ते चिरं । रं चिरं भ<br>चिरं य यदि ते १ य चिरं स्मि १ सुदु खि     | ६६ |
| गाथा त्र वी द्विद्वन् गौतमो मुनिसत्तम<br>चिरकारि धारे गुणोद्देशसम श्रया          | ६  |
| चिरेण चि बघ्नीयाच् चिरेण च त्यजेत्<br>चिरेण हि मित्रं चिरं धरणमहति               | ६८ |
| रगे गौ च माने च द्रुहे पपे च र्मणि<br>अप्रिये चै कर्तये चिरं री प्रशंते          | ६९ |
| धूतां हृदा च भृत्यानां चिजनं च<br>यक्ते राधे चिरं री प्रशंते                     |    |
| एव स गौतमस्तस्य प्रीतं पुत्रस्य भारत   |    |

|  |   |
|--|---|
| ण तेन ै तेय चिर ।रि य तथा                | १ |
| ए सर्वेषु र्थे विमृश्य पुरुष             |   |
| चिरेण नि य कृत्व चिरेण प्रतिप ते         | २ |
| चिर र तो रोष चिर र्म नि                  |   |
| पञ्च त्ताप र र्म न किं दुपपद्यते         | ३ |
| १चिर वृद्धानुप सीत चिरम ं पूजयेत्        |   |
| चिर धम निषेवे र्या ऽ वेषण चिरम्          | ४ |
| चिरम वास्य विद्वंस चिर शिष्ट न् निषे च   |   |
| चिर िनीय चात्म न चिर यात्यनवद्यत म्      | ५ |
| वतश्च पर पि वाक्य धर्मोपसंहितम्          |   |
| चिर पृष्टो हि ये ब्रूय च् चिर न परिभूयते | ६ |
| उपास्य बहुल स्ति ऽश्रमे स मह तप          |   |
| स र ग गते विप्र पुत्रेण स हि स्तदा       |   |

इि ऽमहाभारते सहस्रिकाय वैया  
 शान्ति प णि ष्ट प ऽशदि द्विशो णि : २५  
 ८८ णि ऽ पर्वणि षि श ऽ ऽन्यायः ३  
 [ ि ऽ ऽ श्लोकः ]

1. ख िं भद्रानुप सी चि ऽ  
 ग चि वृ ऽनुप. ि चिर ऽ

## द्विप दधिकाद्वशततमो याय

१ । तिर प्रि । त्रप्रि बुम्  
दः

। रः

थ राज प्रज रक्षे च किं त्<sup>१</sup> अपयेत्

िता सतं श्रेष्ठ तं ह्यि पित मह १

भी :

युद्ध हर तीमम् इतिह स पुर तनम्

मुत्सेन स इ र सत्यवता ह २

य त जहर सत्य निति नश्श्रुति

धा न यम नस्य पितुरेव नुशासन त् ३

न्

अधं यति धर्मो या धर्मश्च धमताम्

धे न म भवेद्धर्मो नैतद्भूवितुमर्हति

२. । त्  
न्  
न स । । :  
स षि न थ विध  
दस्युन् नसि रा भू सो नाप्यन् :  
। । पि पुत्रो

[ दि : पठ ]

कथं च त्ववधो धर्मोऽधर्मो जातु चिद्धेत्  
दहयेत् सत्यं न सङ्करो भवेत् ५

ममेदमिति चाप्येतत् प्रवर्तते कलौ युगे  
ले यात्र न चै स्याद् अथ चेद्वेत्थ शंस न ६

ान्

सर्व ए त्रये वर्णा कार्या ब्रह्मणव धना  
धर्मप शनिबद्ध नं नाल्पे यतिचरि यति

ये यस्तेषा पचरेत् त चक्षित वै द्विज  
अय मे न शृणोतीति निरुज प्रध रयेत् ८

सन्वभेदेन य तत् कुर्य यथा ध  
४ असमीक्ष्यै कर्मणि निशा यथ िधि ९

द यून् हिनस्ति वै रजा भूयसो वऽऽ न गस ९

भर्य म त पित पुत्रे द ते पुरुषे हते  
परेण प ते रज तस्स त् स यक् प्रध रयेत् १

अस धुश्चैव पुरुषे ५ लभते शीलमे द

1 नास्यै त्

2. ि पचरि ि

3. र दे र भे

4. ना इः पू

5. दा न र :

- स धेञ्चै साधुभः शू शोभना जायते प्रज ११
- न मूलघ त कर्त ये षै धर्म सन न  
अपि खल धेनै प्र श्रित्त विधीयते १२
- द्वेजनेन व धेन विरूपकरणेन च  
द ेन ते क्लेश्या न पुरेहि स पदा १३
- दा रे हेत वा ते पययुश्शरणैषिण  
रे म पुन न् न प पमिति वादिन १४
- द विसर्जन हं युर इति द नुश सनम्  
बिभ्रह जिन मु ि । णेऽहति श नम् १५
- गरं यांसो गरं यंसम् अपर द्ध न पुन  
तदा ि सर्ग हं त न यथ प्रथमे तथा १६
- मै :
- यत्रै शक्य ते सयन्तु समये प्रज  
स ता न् प्रे यते मी तिलङ्घ्यते १
- अह यम ने पु स् सर्वे पर भवेत् १८
- पूर्वे पूर तरे चै सुश अभवञ्जन  
जन्त स्सत्यभूयि । अल्पद्रोह ल्पम यव १९
- र धि द ए सीद् द स्तदनतरम्

२५२] अन्ति णि ेक्षधर्मपर्व १९

आ द द न द ङोऽपि घ द ङोऽद्य वर्तते २

धेन पि न शक्यन्ते तुम रे जन २

पत्र शमश द दत्ते पिश च च पि दै तम्  
तेषु य मय ित् ीत हतबुद्धिषु २१

नै द युर्मनु यणां न दे न ि ति श्रु  
न ग ध पिपूणां च क स्येह<sup>१</sup> थ न २२

ान्

त त श ेषि चेत् स धु परित्र तुमर्हे या  
स्यचिद्भू भ यस्य भेन थ थ रु २३

र जाने ले यत्राथ त य ते परम तप  
अपत्रपित त दृ भ्यस् तथ वृत्त भ ित च २४

चित्रायमाण सुकृतैर् न क म द्धति दु कृतम्  
सुकृतेनैव र जाने भूयिं श सति प्रज २५

श्रेय सु श्रेयसो ेव वृत्त लो ङोऽनुवर्तते  
दैति गुरेर्वृत्तिम् अ वर्त त म न २६

मः :

अ तानमसम ध य समाधित्सति य परन्

1 न श्र 2.

3. े त. ग ेना ल

4. ना दम म्

|   |    |
|---|----|
| विषयो । यवशं मन प्रहरि तम्                | २  |
| आत्मै । निय त ये दु कृत सि यच्च त         |    |
| येच्च तथा द र अपि धूनन तरान्              | २८ |
| ये र े द भमेहेन केि त् र्यादसम् तम्       |    |
| पाय े य स तथ पाप े तते                    | २९ |
| ये र पाप त् क्लेश न हृदु खमृ छति          |    |
| ध े तत्र प पानि ध े सति वै ध्रुवम्        | ३  |
| इति रु श लो वै ये े द्वान् ण नुग          |    |
| ते चैव नुशिष्टे ऽस्मि पूर्वैस्तात पिता है | ३१ |
| अश्वासयद्विस्सुभृशम् अनुक्रेश त् तथै च    |    |
| एतत् प्रथम ल्पेन राजा कृतयुगे जयेत्       | ३२ |
| देनेन पि धर्मेण ग छेत् त्रेतायुगे तथ      |    |
| परे द्विप देन प देन च परे युगे            | ३३ |
| थ लियुगे प्र े राज्ञां दुश्चरितेन च       |    |
| भेत् क ल े शेषेण ल धर्मस्य षे शी          | ३४ |
| अथ थ ल्पेन सत्यवन् रो भवेत्               |    |

- 
1. तो तो भ े न वि द्विक्कुय द म्  
 १ े यनेय था पा े [ धि : पा : ]
2. सेन  
 १ । य े : । न् [ ि : ळः ]

२५३] शान्तिपर्वणि लोक्षधर्मप १४२१

अ युशश्च च काले च निर्दिश्य तप आविशेत् ३५

सत्यं च न तथ तेन ज इदमफल महत्

भूतानामनुकम्पार्थं मनु इयं भुवेऽवीत् ३६

इति श्री शान्तिपर्वणि लोक्षधर्मपर्वणि तिस्रोऽध्यायः

शान्तिपर्वणि द्विपञ्चाशदाह्वितोऽध्यायः २५२

लोक्षधर्मपर्वणि चतुराशतऽध्यायः ४

[स्मृत्यन्ते ३६ अंशः]

### त्रिपञ्चशदधिद्विपञ्चाशदध्यायः

भूमिं धिष्टिरप्रतिफलनिष्क्यादेः शिवाय  
यूरी नम गोपिल इदं च दः

शिष्टिः

अत्रैरेधेन भूतानां त्यगष्वा यक रित

य दुभयभाधर्मस्त्वमेहि पितमह १

गर्हस्थस्य च धर्मस्य त्यगधर्मस्य चोभयो

सुदूरसुप्रस्थितयो किञ्चिच्छ्रेयपितमह २

भूमिः

उभाधर्ममह भग उभौ पर दुर्धरौ

L. ४. ३



|   |    |
|---|----|
| उभ ह फलै तौ तु सङ्गिर चरे ।वुभै               | ३  |
| त्र े तयि य मि माह त यमुभये यो                |    |
| शृणु मन पार्थ िछ धर्म र्थसशयम्                | ४  |
| अत्र युदाहर त मम् इतिह स रातनम्               |    |
| पिलस्य च स ।द गो ै भरतर्षभ                    | ५  |
| अ य नुपश्यन् हे पुर ण श श्वत ध्रु म्          |    |
| नहुष पूर्वम लेभे यष्टु ग मिति नश्श्रुतम्      | ६  |
| त ियुक्ता दान त्म सन् स्थ सयमे रत             |    |
| ।न ।न् नियत हारो ददर्श पिल थ                  |    |
| स बुद्धिमुत्तमां प्र प्रो नै ।म तेभयाम्       |    |
| पर मशिथिलां सत्यां वेद इत्य ित् सकृत्         | ८  |
| ता ग मृषिस्यूमरश्मि प्र िश्य यतिम व त्        |    |
| स्यू रश्मि :                                  |    |
| <sup>1</sup> भो वेदायते धर्मो धर्म े न परे ता | ९  |
| स्विनो धृ तिमतश् श्रुतिं ज्ञ नचक्षुष          |    |
| सर्वम र्षं हे म यते य हृत विदित त्मन          | १  |
| ैव ग तृ णस्य वि वरस्य निर शिष                 |    |
| विवक्षाऽस्ति ेषु निर र भ सर्वश                | ११ |

1. ग ते ेद ि धमाः े पर म : [ ७ म् ]

2. ते गिनः

- न ह वेदन् नि द मि न ि क्षाऽ ि कर्हि चित्  
थग ण र्म ये थानीति न श्रुतम् १२
- ग ले परित्य गी ानप्रस्थ ग छि  
गृहस्थे ब्र चारा च उभ त पि ग छत १३
- दे याना हि प थ नश् चत्व रश्श श्वता मता  
नैष ज्याय कर्न य त्व फलेषूक्त बल बलम् १४
- एव वेदि ा स र्थिन् अ लभेतेति वैदि म्  
नालभेतेति च यत्र नै क श्रूयते श्रुति १५
- अन ल भे देषर दू आल भे दे उत्तम  
एव स्थित श स्य दु ेय बला लम् १६
- यदत्र ि ि त् प्रत्यक्षम् अर्हि स य परं मतम्  
ऋते त ागमशा ेभ्ये ब्रूहि तद्यदि पश्यसि १
- स्युमरि :
- र्गक मो यजेतेति सततं श्रूयते श्रुति  
१फल प्र ेय पूर्वं हि ततो यज्ञ प्रत यते १८
- अज ाश्वश्च मेषश्च गौ पक्षिगणश्च ये  
य र य षैषधय प्रणस्य मिति श्रुति १९

|   |    |
|---|----|
| तथै २रहसू स यप्रा निरूपे                    |    |
| पशवश्च थ धा नि य स्य ज्जमिति श्रुति         | २  |
| ए ने सह यज्ञेन प्रज पतिर लपयत्              |    |
| तेन प्रज पतिर्देान् यज्ञेन यजत प्रभु        | २१ |
| द्य गपर स्सर्वे प्राणिनस्सप्त स च           | २  |
| गौरजो मनुजो मेष अश्व श्वतरगर्दभ             |    |
| एते न य सम ख्यात पश स स धुभि                | २२ |
| सिंहा य रह हिषा वरण था                      |    |
| हिी व नरा वै सप्त र यास्तथ स्मृता           | २३ |
| यज्ञेपूपाकृतं वि ध हुरुत्तमस ज्ञितम्        | २४ |
| एतैवाभ्यनुज्ञ त पूरै पूरैस्तथ               |    |
| ज तु न विचिन्वीत वि द्वान् स्वं शक्तिमात्मन | २५ |
| पशवश्च मनु यश्च द्रुमाश्चैष धिभिस्सह        |    |
| गमेवाभि ड्क्ष ते न च गौऽत्ये खत्            | २६ |
| ओषधय पशै वृक्ष रुद पये दधि                  |    |
| हविर्भूमिर्शिश्नश्च कलैति द्वादश            | २७ |
| ऋचो यजूषि स म नि ऋत्विज पि श                |    |

1. ग चतु य िरि

2. ल

२५३]                      न्त वणि ेक्ष ेपर्व                      १४२५

१अि ज्ञेये गृहपतिस् स स श उच्यते                      २८

अङ्गा येतानि यज्ञस्य ज्ञे मूलमिति श्रुति                      २८

अ ये पयस दध्न शकृतऽऽमिक्षय त्वचा  
लैशशृङ्गैश्च पदेन स भ त्येव गैर्मुखम्                      २९

एव प्रत्ये श स यद्यदस्य विधायते  
ज्ञ वहति सम्भूय सहर्त्विभिस्सदक्षिणै                      ३

सहस्यैत नि सर्वाणि यज्ञ निर्वर्तय त्युत                      ३१

र्थनाह सृष्टानि थर्षि श्रूयते श्रुति  
एव पूर्वे पूर्वतर त्तश्चापि मानवा                      ३२

न हिनस्ति भते न भिद्र ति कि न  
र्यैश्च यमित्येव ये जत्यफले सया                      ३३

य ज्ञ यपि चैतानि यथेक्त यपि सर्वश  
विधिन विधियुक्तानि तारयति परस्परम्                      ४

अ ायमाष पश्य मि यस्मिन् वेदा प्रतिष्ठिता  
त विद्वांसो न मु त्तत्र णस्य नुदर्शनत्                      ३५

ह्यणप्रभे यज्ञे ब्रह्मणार्पण एव च  
अनुय जगत् सव यज्ञश्च नु जगत् सद                      ३६

अमेति णे येनिरु तम स्व ह था वषट्

1. ि ज्ञेय

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| यस्यैतानि प्रयुज्यन्ते यथ शक्ति त यपि | ३  |
| न तस्य ि लो परलो भ िदु                | ३  |
| इति वेद . तीह वृद्ध परमर्ष            | ३८ |
| ऋचे यजूषि सम नि ेम िधचेदित            |    |
| यि ेतानि सर्णि बर्हिरेव स वै द्विज    | ३९ |
| अन्येये यद्भूति य सोमे सुते द्विज     |    |
| ेतैर्मह यज्ञैर्दत्तद्भगस्तथा          |    |
| त द्वि न् यजेतै य जयेच्च िच रयन्      |    |
| य तो विधिना प्रेत्य र्गफल हत्         | ४१ |
| नाय ले िऽ लयज्ञ नां परश्चेति विनिश्चय |    |
| ेदा वेद िदश्चै प्र िणमुभय तथ          | ४२ |

इति ि र्ते सहस्रि ि य िसिक्व  
 ि प ि ि दधि द्विशत ि िय २५३  
 ८८ ि ि प ि ि ि िऽभ्यः ५  
 [ ि ि न्ये २ िोः ]

1. िश्च . ि ग िोभा
2. ेद िदविदश्चै प्रमा भ था

चतुःषडशद्विंशततमोऽयं यः



१ र प्रा गोऋपि ऋदा ऋदः

१

एतदनुपश्यते यो यो यति मार्गग  
नैषां सवलेषु श्रिदस्ति यतिक्रम १

निर्द्वन्द्वनिर्नमरनिरशार्बधनबुधा  
विमुक्तसर्वपपेभ्यश्चरि शुचयोऽमला २

अपवर्गेऽथसत्यगोबुद्धैश्चतनि  
ब्रह्मिष्ठभूताश्चयेवकृतालय ३

शिशो नरजसस्तेषांलेसतन  
तेषां गातं परंप्रप्यगार्हध्येकेप्रयोजनम्

यूः

येषां परमनि येषां परमा गति  
गृह ननुपश्रित्य नाश्रमेऽयप्रवर्ते ५

यथ मातरमाश्रित्य सर्वेर्जितजव  
एगार्हध्यमश्रित्यवर्त इतराश्रमा ६

गृहस्थ एव जते गृहस्थस्तप्यते तप  
गार्हध्यमस्य सर्वस्य मूल यत्किं देहि

प्रजनद्यभिर्नि स् प्रण तो मुने  
प्रजन । योऽत्र न थ न विद्यते ८

यथ युवहिरेष्व्ये बहिरन्यस्तथ द्विज  
ओ िभ्यो हिर्यस्मत् प्रणी ि विद्यते ९

१ । भेत् सत्य मोक्षो न ि गृहादिति  
अश्रद्धनैर स् सूक्ष्मदर्शन िर्जितै १

१अलसैर्नीरसैर स् तप्यमानै क िभि  
श्र स्येपरमे ष्ट प्र ञ्य नाम प ि तै ११

त्रैलेक स्यै हेतुर्हि मर्याद शश्व ि ध्रुव  
ह्ये म भग ज्ज मप्र ति पूर्यते १२

प्र गर्भाध नम त्र हि प्रवर्त े द्विज तिषु  
अविश्व े र्त ते विश्वस्ते पि सश्रि । १३

दान पुनस्सङ्ग्रहण सश्रित पत्रभोजनम्  
दन ग िं पशूनां ि पि नां चाप्सु मज्जनम् १४

अर्चि म तो बर्हिषद् यद् पितर मृता  
मृ स्य यनुम य ते म त्र मात्रश्च रणम् १५

1. निराशैर िः । िः िः िः िः िः िः

2. िः

3. दा : पुन न

4. िः िः िः िः िः िः िः िः

२५४] शान्तिपर्वणि षोडशोऽध्यायः १४२९

ए ऋशंसु वेदेषु तो मोक्षोऽस्ति स्यचित् १५

ऋणो यदर्थं पितृदेवद्विजातिषु

१६ याँ ह नैरलसै पितरो पलपि १६

वेददपरिज्ञानसत्यभसमि नृतम् १

न वै पापैर्ह्यते गृहे

यो णो यजते वेदश्रुते

ऊर्ध्वं यजन् पभि सार्धमेति

त न ह्यते न मम् १८

न वेदो परिभव शब्धेन न यय

महत् प्रोति पुरो णि विदति\* १९

ः

दर्शपूर्णमास अग्निहेत्र च धमताम्

चामस्य निचैवासस् तेषु य सनातन २

अरभस्सुधृय शुचये ह्यसश्रि

ण एव ते देवांसु तर्पयत्यमृते २१

वैभूतत्सभूतस्य सर्वं नेन पशत

देऽपि मगमुत पदस्य पदैषिण २२

1. ि +पदि र पि म्

\* षोडशोऽध्यायः



चतुर्द्वार पुरु चतुर्मु  
 चतुर्मुखे नैनमुपैति निन्द  
 व हुभ्यं चै मुदरादुपस्थ द्  
 िचि द्व र णि द्व र प ले बुभूषेत् २३

<sup>1</sup>नाक्षैर्दी ये ार्द्व यत्तिं  
 योनिजस्येह ध्रवं प्रगृहेत्  
 दुद्धे नै हरे िद्वंस्  
 थ ऽस्य त् पाणिद्वार सुगु म् २४

न क्रोशन्ते मृ दे  
 न पैशुन जनवाद च र्यात्  
 स्य त मितभ यप्रमत्तस्  
 तथाऽस्य वा द्व रमथे सुगुप्तम् २५

। शनस्यान्न मह शन स्य  
 लोलुप साधुरन गस स्यात्  
 त्राथम हारमिह दर्दित  
 तथाऽस्य ज्ज ठरद्वारगुप्ति २६

1. - न  
 ि तुर्दि नै दर्ध िः  
 तथाऽस्य द्व र णि गु म् [इ ि ]

- वीरप । विद्वेते नर  
न चै भयं नृ येत  
भायां त ।त्मनि धरयेत  
थ स्योप ।रगुर्भे २
- द्वराणि स णि सुगु नि मन षिण  
पस्थमुदर पाणी कचतुर्थं स वै द्वेज २८
- ेष गु र सा ये भ ल्युत  
स्य तपसा य कं यज्ञेन किम त्म २९
- अनु रा सनम् अनुप णि यिनम्  
हूपश यिन श त तं दे ।ह्वण िदु ३
- द्व द्वर मेषु स षु य ए रमते नि  
परेष ननुध्य यस् देव ण िदु ३१
- येन सर्भिद बु प्र तिर्विकृि य  
गति सर्वभूत ना त देव त्र ण विदु ३२
- अभय सर्वभूतेभ्यस् सवष मभय यत  
सर्वभूत त भूते यस् त दे । ण िदु ३३
- न तरेण नुज न ति ेदानां य क्रिय फलम्  
अनु य च तत् सर्वम् अ यद्रे चयते फलम् ३

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | भिस्सश्रितानां तपो घोरत्वमागतं<br>दाचरश्चयपुरणशश्वतध्रुवम्              | ३५ |
|   | अशुवश्चरितुकिं द्धमणसूचितम्<br>निरापद्धअचारे प्रमादेऽपरम                | ३६ |
|   | फलवितचर्माणि युष्टिमिध्रुवणिच<br>गुणनिचपश्यति तथा नैकानि केचन           | ३  |
|   | गुणत्रदुज्ञयताश्चपिदुकर<br>नुतश्चाततइति नुपश्यसि<br>स्युमः              | ३८ |
|   | थचदप्रमंत्यगसफलेयथा<br>पथनवुभौयक्तौभगस्तदस्वमे                          | ३९ |
|   | प्रत्यक्षिपइतेभवतसत्पथेस्थिता<br>प्रत्यक्षतुमिस्ति यद्गतपासते<br>स्युमः | ४  |
|   | युमरि रहिद्वज्जिज्ञासार्थमिहगत<br>श्रेयमप्रत्यवोचमर्जविक्षया            | १  |

1 नास्ति

स्तिना

रसुदुरः

4. ब्र

२५ ]            न्ति णि मोक्ष ० र्व            १ ३३

|   |    |
|---|----|
| इ च स य घोर भगवान् प्र तु मे            | ४१ |
| प्रत्यक्षि पश्य तो भ त सत्पथे स्थि      |    |
| किमत्र प्रत्यक्षतम भगवन् उपासते         | ४२ |
| अ यत्र १धर्मश ेभ्य आगम थ यथ गमम्        |    |
| आगमो वेदव दास्तु त श णि च गम            | ४३ |
| यथ गममुपास त आगमस्त सिध्यति             |    |
| सिद्धि त्यक्षरूप च दृश्यत्य गमनिश्चयात् | ४४ |
| नौर्ना ० निवद्धा हि े स स वि घ          |    |
| रियमणा थ ० प्र कुबुद्धि तरधि यति        | ४५ |
| एव वीतु भगवन् पप े र्ध हि भो            | ४६ |
| नै त्यगी स तुष्टो नाशो े न निर य        |    |
| नानि ० वित्सो नावृत्तो न पवृत्तोऽ ० श्र | ४  |
| भ तेऽपि च हृ यति शे चित च यथ वयम्       |    |
| इन्द्रिय र्थ ० भवतां सम न सर्वज         | ४८ |
| ए चतुणा वण ाम् आश्रम णं प्रवृत्ति       |    |
| ० एकमाल व ान न निर्णये निर यम्          | ४९ |

1. ग ा .  
प िन स्सि ० ब्रह्म ि ० :
3. ० दम म्
4. ०

|   |    |
|---|----|
| एतद्ध त्तु भग न् पप ोऽऽ यधीहि भो          | ४९ |
| यद्यदाचरते शा म् अथ सर्प्रवृत्ति          |    |
| नु न तस्य त्त निरमयम्                     | ५१ |
| स प्रापयति ो ज्ञान नुवर्त                 |    |
| ान दपेता य वृत्तिस् सा विनाशयति प्रजा     | ५१ |
| भ े िनो नित्य सर्वत निर या                |    |
| ऐ तय नम े द्वि द चिदभिपद्यते              | ५२ |
| यबुद्ध र्वेन े चिद्व दबलाज्जन             |    |
| । द्वेष भिभूतत् द् अहङ्कर श ग             | ५३ |
| थ तथ्यमविज्ञाय श ाणां श दस्यव             |    |
| स्तेना निर र भा अपक्वमत ेऽशि              | ४  |
| नैर्गु येव पश्यति न गुण ननुयु ते          | ५५ |
| तेष मश्शर रणा तम ए परायणम्                | ५५ |
| ो यथ प्र तिर्ज तु कृते स्याद्वश नुग       |    |
| तस्य ोधश्च क मश्च द्वेषो दम्भेऽनृत द      | ५६ |
| नित्यमेवानु र्ते ते गुणा प्र तिस भ        | ५७ |
| ए द्वद्ध ऽनुपश्य तस् स त्यजेयुश्शुभाशुभम् |    |

२५४]      ^ पर्वणि    ोक्ष    व      १४३

परां गामिर्भूतो यतय यमे रता      ५८

स्यूमरदि :

सर्वमे त् त या ब्र ज् शा त परि र्तितम्

वि ाय शा ाथ प्रवर्त ते प्रवृत्तय      ५ .

य कश्चि य द्य आच र स वै श मिति श्रुति

<sup>1</sup>यद य द्यमश ' द् इत्येषा श्रू ते श्रुति      ६

न वृत्तिर्ऋते श ात् क चिदस्तीति निश्चय

यद यद्वेदवादेभ्यस् तदुच्छा मिति श्रुति      ६१

पि :

श ादपेत भ्रश्यन्ति बहवो ऽत्यर्थम निन

श ' देष न्न पश्यन्ति इह च मुत्र चापरे      ६२

अवि नहतप्रज्ञ हीनप्रज्ञ स्तमोवृत      ६२

शक्य त्वेकेन मुक्तेन कृतकृत्येन सर्वश

पि ढमात्रमपाश्रित्य चरितु सर्वतो दिशम्      ६३

न त व दमानेन सक्तेन वि दित त्मन

वेद द सम श्रित्य मोक्षोऽस्तीति प्रभ षितुम्      ६४

इद तु दुष् र कर्म कुटु वमभिसश्रितम्

ानमध्ययन यज्ञ प्रजास तानम र्ज म्      ६५

1. य नास्ति      2. ग ध ं न

स्युमरदि :

यद्येतेदे ऽपि न िमोक्षे ऽस्ति स्यचित्  
 ि र च य च श्रमश्च त्र निरर्थक ६६

न िक्यम यथ च स्य दू वेदान पृष्ठत क्रिय  
 ए न त्यमिच्छ मे भगवञ् श्रोतुम सा ६

तथ्य वद मे ह्युप ऽ यधीहि भो  
 यथ े िदिते मेक्षस् थेच्छ युपशिक्षितुम् ६८

इति द्वाभारो ऽत ि . त्यां वयारि  
 ि वैणि : शशधिकद्विश ऽभ्य : २५  
 ८८ ऽ ष प ि धि ऽभ्या : ६  
 [ ि ष्ये ६८ षो : ]

प प शशदाधकाद्वशतत ऽभ्याय



धेरिप्रिग पि स द ऽदः

पिलः

वेद प्र ण लो नां न वेद पृष्ठत कृता  
 द्वे ण ेदि ये श द पर च यत् १  
 श द णि नि णात पर ऽधिग छति

|  |   |
|--|---|
| शरारमेतत् कुरु यद्वैतत् रुते नुम्                | २ |
| द्वशर रो हि पत्र भवति । ण                        |   |
| अ न यमनुचि लैव कर्मणस्तद्रुमि ते                 | ३ |
| निर गममनैति प्रत्यक्ष लो स क्षि म्               |   |
| धर्म इत्येव ये यज्ञ वित वति निराशिष              | ४ |
| उत्प ल्य गिनोऽलु ध ेपासूय विवर्जित               |   |
| <sup>३</sup> निन मेष वै प थास् तथेषु प्रतिपादनम् | ५ |
| अ श्रिता प पकृत्य कद चि <sup>४</sup> द्रह्येनेत  |   |
| मन स रूपस सिद्धा विशुद्धा ननिश्चय                | ६ |
| अुध्य तोऽनसूय तो निरहङ्कारमत्सरा                 |   |
| <sup>५</sup> नि ि शु श्च सर्वभूतदिते रता         |   |
| अ न् गृहस्थ भूयिष्ठ पक्रा त र्म                  |   |
| र जान थ युक्ता ह्यणश्च यथाविधि                   | ८ |
| स र्ज स प ास् स तुष्ट ह्य ननि या                 |   |
| प्रत्यक्षधर्माश्शुचयश श्रद्ध नास्तपोधना          | ९ |

- 
1. कुरु यद्वैतत् कुरु तेम्
  2. ग द्विथासूय कृपा
  3. द नामेष वै प ग ध ा र्ते न न
  4. मयंनि :
  5. ि म्



|  |    |
|--|----|
| पुरस्तद्धितात्माने यथाव रित ता                       |    |
| चरित धम छेऽपि <sup>१</sup> छे च पि सहिता             | १० |
| सहस्य धम चरतां पुर ऽसीत् सुखमेव तत्                  |    |
| ेषां नासी द्विध त य प्र यश्चित्त कदाचन               | ११ |
| सत्य हे धर्मम य दुर धर्षतमा मता                      |    |
| न मत्र नुरुध्य ते न धर्म लम तत                       | १२ |
| एव प्रथम ल्पस् तमे त्र चरन् महान्                    | १२ |
| अस्यां स्थितौ त नां हि प्र यश्चित्त न वि ते          |    |
| यद् तु दुर्लात्मन प्र यश्चित्तं तद् भेत्             | १३ |
| ए एव विध प्र हु ा णा य हन                            |    |
| त्रैविद्यवृद्धाश्शुचयो वृत्तव ते यश स्विन            | १४ |
| यज ऽहरहर्यज्ञैर् निराशर्षे धना बुधा                  |    |
| तेषा यज्ञश्च वेदा र्माणि च यथागमम्                   | १५ |
| अ गम यथ क म सङ्कल्प यथ तम्                           | १६ |
| अपेतक क्रोधनां प्रकृत्या सशित त्मनाम्                |    |
| <sup>४</sup> ऋजूनां शमनित्यानं स्वेषु कर्मसु र्वताम् | १  |

1. दुरो पि

2. दुर्लान्तेनां चित्तिः [ धि : पाठः ]

3. धम्

4. धूना

२५५] ि पर्वणि मोक्ष र्मपर्व १४३९

सर्वम न त्यमेव िद् इति शश श्वती श्रुति १

ेष द न राना दुश्चर च र र्मणाम्  
मभि सशित नां तपो घोरः मागतम् १८१

सद चारमा य पुर ण श श्वत ध्रु म्  
अशु द्वि रितु कि द्विर्मेषु सूचितम् १९

निरापद्धर्म अ चारो प्रम दोऽपराभ  
सर्वव यत्तेषु न सीत् कश्चिद्व्यतिक्रम २

धर्ममे चतु प दम् अश्रिता ये नर विभो  
स ते िधिवत् प्रा य गच्छति परमां गतिम् २११

गृहेभ्य एव नि क्र य वनम ये समाश्रिता  
गृहमेवाभिसश्रित्य तते ऽ ये व्र चारिण २२

य मे चतुर्धा तु श्रमं व्र ह्यण विदु २३  
सर्वे सर्वत्र ति तो ग छति परमां गतिम्

एत एव विधा प्राह पुराणा ब्रह्मचारिण २४

त एते दिवि दृश्यते ज्योतिर्भूता द्विज तय  
नक्षत्र णि धि येषु बहवस्तार ागण २५

आन त्यमुपसम्प्राप्ता स ते दिवि ेववत् २५

1. चतु िद श्र ब्र णा विदः [प रम्]

2. न व्र णस् ान ण नाम नि : [ठा रम्]

|   |    |
|---|----|
| यद्व ग छति ससार पुनयानिषु त दृश                   |    |
| न लिः ते प पकृद्भिः कदाचित् कर्मये नित            | २६ |
| ए युक्ते । णस्य द् अ यो <sup>१</sup> ह्यणके भवेत् | २  |
| कर्मैव पुरुषस्याहुश शुभ । यदि वाऽशुभम्            |    |
| एव प कषाय णम् आन येन श्रुतेन च                    | २८ |
| सर्वमान त्यमेव सीद् इति नश श्रुति                 | २८ |
| तेषामपे तृ ण न निर्णिक्तानां शुभ मनम्             |    |
| चतुर्थं अ पतिषदो धमस्स ध रण स्मृत                 | २९ |
| स सिद्धैस्से यते नित्यं नैर्नियतात्मभि            |    |
| स ेषमूल त्य गात्मा ज्ञानाधि न यते                 |    |
| अप गमतो नित्ये यतिधर्म सनात                       |    |
| स धारण केवलो व यथ बलमुपास्यते                     | ३१ |
| ग छ े बलि क्षेम दुर्बलोऽत्र वसीदति                |    |
| ण पदमिव छन् सस रा मु यते शुचि                     | ३२ |
| स्यूर रदि :                                       |    |
| ये भु ते ये ददते यज तेऽर्घ्ययते च ये              |    |
| मत्र भिर्धर्मल धाभिर् ये व त्य ग सम श्रित         | ३३ |
| ए ि प्रेत्यभाे तु तमे र्गजित्तम                   |    |

ए दाचक्ष मे न् याथातथ्येन पृच्छत ३४  
पि :

परिहाशुभा वै गुणते ऽभ्युदयश्च ते ३५  
तु त्य ग स्व त्त ए वमपि पश्य सि

यू रश्मिः

ते ज्ञाननि १ गृहस्था १ ज्ञाननिश्चया ३६  
आश्रमणं च सर्वेषां नि य मैक्यमुच्यते

ए ते च प्रकृते च विशेषे न य यते ३  
थ वद्यथा याय भगवन् प्रब्रवीतु मे  
पि :

यपि कर्मणि ज्ञान तु परम गति ३८  
पे षये ि ज्ञान यथा नेन तिष्ठति

आनृशस्य क्षमा श तिर् अहिंस सत्यमार्जवम् ३९  
अद्रोहो न तिम नश्च ह्नीस्ति तिक्ष शमस्तथा

पथानो ण त्वेत एतै प्र ेति यत् परम् ४  
तद्विद्व ननुबुद्ध्येत नस कर्मनिश्चयम् ४

ि ि सर्तश्श त विशुद्ध ननि य १  
गते गच्छति स तुष्टास् तास हु पर ं गतिम्

ेदां वेदित य च विदित्वा च यथास्थितिम्

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| १ए ेदविदित्य हुर् अतोऽ ये वेदवाद ।    | ४२ |
| िदुर्वेदविदो ेदे स प्रति तम्          |    |
| वेदे हे निष्ठा सर्व यद्यदस्ति न च ि च | ३  |
| एतद च मध्य च स ास विज न               | ४४ |
| सम त्याग इत्ये शम इत्ये नि तम्        |    |
| स तेष इत्य तग म् अपवग प्रति तम्       | ४५ |

ऋत त्य ेदित ेदे य

स े त्म स्था र जङ्गम च

सव सुख यच्चि व चोत्तर च

ऽ यक्त प्रभवश्च यय

६

तेज क्षमा श ि रन म च्च

तथ ि ध ये सन तन ु म्

एतैश्श दैर्ग यते बुद्धिनेत्रैस्

तस्मै नमो णे ा णाय

इति े ाभारते शतसहस्रि ायं द्वि तार्या वैयासिक्या

नि ि प ुधि द्विश ेऽध्यायः २५५

८८ ा ि िोऽध्यायः

[ रि ियाये ४ श्लोकः ]

## षट् । दधिकाद्वशततमोऽध्याय

ति धि रप्रि ध ि ध स्वै ः यस् तिपाद  
कु ारचरि ि द म्

युधिष्ठिरः

ध र्थं च ाम च वेद शशसति भर  
क लभो िशि िऽत्र मे ू हि पित मह १  
भी :  
अत्र ते र्थि यामि इतिह स पुर तनम्  
कुण ध रेण यत् प्रीत्य भक्त येपकृत पुरा २  
अधने ण श्चित् क माद्धनमवक्षत  
स यज्ञ र्थमते ऽर्थं तु पेऽतप्य दारुणम् ३  
स नि यमथो क्त्वा पूजयाम स दे ता  
भक्त्य न चै ध्यगच्छद् धन स पूज्य दे ा  
त ि तं न प्र क मद्दैवत तु तत्  
यन्ने द्रुत सीदे मानुषैरज ि तम् ५  
अथ े येन व ष देवानुचरसतिके  
प्रत्यपश्यज्जलधर कुण धारमवा ि तम् ६  
दृष्ट्वै त महात्मान तस्य बुद्धिरज यत

|   |    |
|---|----|
| अ मे दस्यति श्रेयो वपुरेत द्वि त दशम्         | ७  |
| सि कृष्टश्च देव नां न च यैर्मनुषैर्वृत        |    |
| ए मे दास्यति धन प्रभूत शि मे च                | ८  |
| त धूप गन्धैश्च मलयैरुवचैरपि                   |    |
| बलिभिर्विधैश्चपि पूजय मस त द्विज              | ९  |
| त ल्पे कलेन तुष्टे जलधर दा                    |    |
| पकरे ियतम् इ वाचमुव च ह                       | १  |
| :   |    |
| च सुरपे च चरे भ ते थ                          |    |
| नि तिर्विहित सद्भि तन्ने न स्ति नि कृति       | १  |
| अ श य स्तनयोऽधर्म क्रोधोऽसूयासुतस्सृ          |    |
| पुत्रो लोभो निकृत्या तु कृत गो न र्हति प्रजम् | १२ |
| र्भ :   |    |
| ततस्स ाह्य र तेजसा                            |    |
| अपश्यत् सर्वभूत नि शेषु शयि स्तद              | १३ |
| मेन पसा चैव भक्त्या च िरुप कृत                |    |
| द्वत्मा ाणे रत्रौ निदर्शनमपश्यत               | १४ |
| णिभद्र स तत्रस्थ दे ानां महद्युतिम्           |    |
| पश्यत हत्मान य दिश त युधिष्ठिर                | १५ |

२५६] शान्तिपवणि मोक्षधर्मपर्व १ ५

तत्र दे य छित राज्यानि च धनानि च  
भै र्मभिररद्ध प्रा त्यशुभे च १६

पश्यत मथ यक्ष णां धारो मह द्युते  
नि पत्य पतिते भूमौ देव नां भरतर्षभ १७

तत तु दे चना मणिभ े मह यश  
च पति भूमौ डधर किमि छसि १८

यदि प्रस देव मे भक्तेऽय व्र णे मम  
अस्यानुग्रहमि छमि कृतं कि त् सु ेद म् १९

तस्त मणि द्र तु पुनर्वचनमब्रवीत्  
दे । मे चन त् कु धार मह तिम् २

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्र ते कृतकृत्य सुखं भव  
धनार्थी यदि विप्रोऽयं धनमस्मै प्रद यताम् २१

य द्धन प्रर्थयते ।ह्वणोऽयं सखा तव  
देवानां शासन त् त द् असङ्घवेय दद यहम् २२

च र्य डधार तु मनु यफलम् म्

1. - च न ि

2. ग । दम् म् 3. इ ना ि



तपसे ते वत्त णस्य यशिन २३

ह धन नि य च मि ब्राह्मण य ध द  
अ ह मिच्छा भक्ताय तुग्रह म् २

धि र पू महद्व र म्  
भ य । िच्छामि भेदे तु धार्मिक २५

धम र तां बुद्धिर धम चै पज  
धर्मप्रधने भ तु मैषेऽनु हे त २६

णि द्रः

तथ धर्मफल र ज्य सुख नि ि ध ने च  
फल ये यमश्च तु यक्षेशि जि २

ः

त मेव बहुश धारो मह श  
अभ्य समकरोद्धर्मे तत तुष्ट देवत २८

णि द्रः

प्रात दे ता ि द्विज स्य तथैव च  
भवि यते च ध त्म धम चास्य तथ मते २९

ति

प्र ते ज धर ाय युधि र

|  |    |
|--|----|
| ईसित म ल ध्वा रम यैर दुलभम्                  | ३  |
| ततोऽपश्यत चीर णि सूक्ष्माणि द्विजसत्तम       |    |
| <sup>१</sup> य नि प श्वेतो ह तत्रेमा मतिम गत | ३१ |

ब्राह्मणः

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| अ न स्मत् त वेत्ति े व वित्स्यते तम् |    |
| गच्छामि नमे ह ४पर धर्मे जीवितुम्     | ३२ |
| ः                                    |    |

|  |    |
|--|----|
| निर्वेदादेव नां च प्रस दात् स द्विजोत्तम |    |
| वन प्रविश्य सुमहत् तप अ र ध ा द          | ३३ |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| दे त तिथिशेषेण फलमूल शने द्विज   |    |
| धर्मे च पि मह र ज रतिरस्ये पज यत | ३४ |

|  |    |
|--|----|
| त्यक्त्वा मूलफल सव पर्णाह रो द्विजेत्तम        |    |
| पर्णं त्यक्त्वा जल हरस् तदाऽऽस त् स द्विजेत्तम | ३५ |

|  |    |
|--|----|
| वायुभक्षस्तु तत्पश्च द् अमूद्वर्षगण न् बहून् |    |
| न च क्षीये प्रणस् तदद्भुतमिव भवत्            | ३६ |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| श्रद्धघ न घम च तप युग्रे च र्त् |   |
| लेन महता त दि य दृष्टिरज यत     | ३ |

1. व ेऽभ्य णो ा धानि ेद णः [ म् ]

2. ग णो न े, णः

3. न सु वेत्ति े व े ग ेत्ति णो णो

4. मण ेदि म्

|   |    |
|---|----|
| स्य बुद्धिं दुरभूद् यद्विदामह धनम्<br>तु कस्मैचिदे हं न मिथ्य तद् भवे मम            | ३८ |
| प्रहृदने भूश्च रघवांस्तप<br>भूय चित् सिद्धो यत्पर ऽभिपद्यते                         | ३९ |
| यदि दद्य मह राजस् तुष्टो वै य क चित्<br>स भेदचिरा जा न मिथ्या व भवे मम              | ४  |
| तस्य सक्षत् घरे दर्शय म स भरत<br>। णस्य पोयोगात् साहदेन पि चोदित                    | ४१ |
| सम ग य स तेन थ पूजां चक्रे यथ विधि<br>ण कु धारस्य विस्मित भव प                      | २  |
| ततोऽर्चित् ।रो दि य ते चक्षुरुत्तमम्<br>पश्य रज्ञां गतिं विप्र लेकंश्चावेक्ष चक्षुष | ४  |
| तते रा णं सह णि मग्नानि निरये तदा<br>आर दपश्य द्विप्र स दि ययुक्तेन चक्षुषा         | ४४ |
| धा :  |    |
| मा पूजयित् भवेन यदि त्व दुःखम या<br>त मया भवेत् ि ते क तेऽनुग्रहो भवेत्             | ४५ |
| पश्य पश्य च भूय त्वेच्छे थ न  |    |

२५६] शांतिपर्वणि शोधर्व १४ ९

गद्वरहे सरुद्ध मनु याणां शिषत ४६

भ .

ोऽपश्यत् स काम च क्रोध लोभ भय म.म्  
निद्र त द्र तथ लस्यम् अवृत्त्य पुरुषन् स्थितन् ४

ए लोके स्तु सरुद्ध दे । मनुष द्ध म्  
तथैव देव चन द्ध े र्वित सर्श ८  
न दे रननुज्ञ क्ति द्ध ति धर्मिक  
ए शक्तेति तपस रज्य दतु धन नि च ४९

:

त पपात शिरस ब्राह्मण े धारिणे  
उ च चैन धर्मत्स म न् मेऽनुह क्रत ५  
क मभोग नुव धेन पुरा े यदसूि म्  
मय े हम विज्ञ य तत्र मे क्ष तुमर्हसि ५१  
क्षा तमेव मयेत्युक्त्वा डधारो द्विजर्षभम्  
परिष ज्य च ब हुभ्यां तत्रै । तरध य ५२  
त स्सर्व निम ो इन् णेऽनुचच र ह  
ध र सादेन तपस योजि पुर ५३

1. न दमधम्

२. -

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ह्यस च न तथ कल्पितार्थ              |    |
| धर्मा कथयोगे योगैव परा गति          | ५  |
| देता ण सक्षे नुषचरणा                |    |
| धर्मो पूजयतीह न धन ह्य न भिनम्      | ५५ |
| प्रसा हि ते देवा यत्ते धर्मो रत मति |    |
| ने खल ऽपि धर्मो तु परम सुम्         | ५६ |

इति भस्मिन् विद्यां द्वितीयं सिक्व  
 वैशिष्ट्यं दक्षिणोऽभ्यः २५६  
 ८८ गोविन्दोऽभ्यः ८  
 विष्णोऽभ्यः ५६ गोः

### पञ्चदशोऽधिकद्विशततमोऽध्यायः



द्विषति विष्णोः या ज्ञस्याप्यप्रशस्त्य विदक  
 दवद उच्छ्रित्तिः क्रमिथनम्

युधि

बहूनापसम् एतानं पित मह  
 धर्मो न सुवर्थाथथय समहित १

1. तन

भी :

अ ० तैयि मि न रदेनानुकीर्तितम्  
उच्छृत्ते र त्त य र्थे ण हि २

नारदः

रष्ट्रे धर्मोत्तरे श्रे ० दि दर्भे भ हिज  
च्छृ ० ० ० श्रिद् स च य स दधे ३

श्य क शन त्र सूर्यपण सु र्चल  
ि च विरस श तपस स्व दुतां गतम् ४

उपग य ने ० सर्भू ० हिसय  
अपि मूलफलैरि य य र्गपरे म ५

तस्य भ र्या व्रतकृशा शुचि पुष्ट र लर्न  
यज्ञप ० म न सत्य ानुविधीयते ६

स तु श परि ा न भ ानु तिर्न  
म यूरर्जर्णपर्णनं व तस्य णितम्

अ ामय कृत त्र य ० होत्रनुम र्गत  
स्य नरज रि अ ध्यान द र्म त् ८

तस्मिन् ने सम पस्थो मृगेऽभूत् सहचारि

1. ग सु ती. सुय ती

2. नारि

3. —श

स्य पुनरा ि

|   |    |
|---|----|
| चेभिर त् सत्य त य दु कृ क तम्               | ९  |
| दे ।ङ्गह नेऽय यज्ञो भ ि त                   |    |
| म भे प्रक्षिप हेत्रे त ग ल्छ स्वर्ग मयत्रित | १  |
| त ज्ञे स ि सक्षत्त च य त्रयत्               |    |
| निम त्रय र्त् प्रत्युक्त न ह यां सहव सिनम्  | ११ |
| एवमुक्त निवृत्ता प्रकृ प्रवृत्त यज्ञप क त्  |    |
| कि दु रित यज्ञे दिदृक्षु सा रसातलम्         | १२ |
| स बद्धा लि सत्यम् अयाचद्धरिण न              |    |
| सेन स परि व य स तुष्टेऽथे यत मिति           | १३ |
| ततस्स हरिणे गत्व पद यै य र्तत               |    |
| स ध्रु हैं य म सत्य हतो य स्यामि सद्गतिम्   | १४ |
| पश्येमा अप्सरसे दि या या दत्तेन चक्षुषा     |    |
| विम न नि विचित्राणि ग धर्वाणां मह त्मन म्   | १५ |
| तत स सुचिरं । पृहालमेन चक्षुष               |    |
| ग लोक्य हसायं र्गव स समर्थयत्               | १६ |
| तु र्मो मृगो भूत् बहु षोषिते वने            |    |
| त नि कृतिम धत्त न त्वसै यज्ञसि धि           | १  |

1. दि :

2. मतन्दि :

२५८] शतिपर्वणि ।क्षधर्मपव १४५३

त तेन भावेन मृग हंस नस्तदा  
पे महत् समु तस्माद्धस न य ज्ञिया १८

त तु भगवान् धर्मो यज्ञ याजयत यम्  
सम ध च भ र्यया लेभे स तपसां वरम् १९

अ हसा परमो धर्मो हंस यज्ञे सम हित  
सत्य तेऽह प्रवक्ष्य मे ये धर्म सत्य दिनम् २

इति शत ि ि सिक्थ  
ति पर्वणि स प शद धं द्विश ।ऽन्यः २५  
८ धर्मपवणि न ।धिकश ।न्यः ९  
[ सि ियाये २ षेः ]

अ प ।शदधिकद्विशत िोऽथाय

युधिष्ठिर प्रति धर्म चरणस्य श्रेयस्साधनत् प्रतिपादम्

धिः

कथं भति पपत्स कथं धम करेति वा  
केन निवदम दत्ते मेक्ष व केन गच्छति १

र्भः

दि ।स्सर्वधर्मा स्थित्यर्थमनु च्छसि  
शृ मेक्ष सनिर्वेद पाप म च मूलत २



|   |   |
|---|---|
| न थ हि प ानाम् इच्छ पूर्णं प्र त्तैते     |   |
| य तां वतते कामो द्वेषो व भरतर्षभ          | ३ |
| त दथ यतते म चारभते पुन                    |   |
| श्च नां रूपग ध म् अभ्यस च चिकीर्षति       | ४ |
| त लेभ प्र वति द्वेष तदन तरम्              |   |
| ततो राग भ ति मोहश्च तदन तरम्              | ५ |
| लो हे भिभूत रागद्वेषा त च                 |   |
| न धर्मै ज यते बुद्धिर् य ाद्धर्मं करोति च | ६ |
| य जेन चरतो धर्मम् अर्थ याजेऽपि रे च       | ६ |
| याजेन सि मानेषु धर्मै रून दन              |   |
| रुते बुद्ध तत प प चिकीर्षति               |   |
| द्वैर्वर्यमो पि पा तैश्चापि भारत          |   |
| उत्तर य यस वद्ध ति प्रचेदित               | ८ |
| अधर्मस्त्रिविधस्तस्य वर्धते र गमेऽज       | ९ |
| प प चिन्तयते र्म प्रव्र ि करेति च         |   |
| धर्मप्रवृत्तस्य दोषन् पश्यति स धव         | १ |

1. दोषा . ि

2. िदम म्

3. न िदम म्

4. िदम म्

ए शालश्च ित्रत्व भज े प प र्मिण  
स नेह सुखमाप्नेति कुत एव परत्र ११

ए भवति प प त्म धर्मत्म तु मे शृणु ११

१यथ शलध १ सन् कुशल तिप ते  
य ए ान् ज्ञय देषान् पूर्मेव नुपश्य १२

शलस्सुखदु खेषु साधूश्च युपसे ते  
तस्य स धु समाच र द् अभ्य स ैव वर्धते १३

धर्मे च रमते धम समुपर्ज व ति  
सोऽथ धर्मदव ेषु धने रुन दन १४

स्यै ासि ते मूल गुणान् पश्यति यत्र च  
धर्मत्मा भ ति ह्येव मित्र च लभते शुभम् १५

स मित्रधनल भात्त प्रेय चेह च न दति  
श दे पश तथा गधे रसे रूपे च भारत १६

प्रभुत्व लभते ज तुर धर्मस्यैतत्फल विदु  
स तु धर्मफल ल ष न तृप्यति युि छिर १

धर्े त नं कै तेय सर्वभोगा यासु च  
अतृ यम णे निर्वेदम् अ दत्ते ज्ञ नचक्षुषा १८

1. चत य स्ति

2. धदश रि

|  |    |
|--|----|
| प्रज्ञाचक्षुयदा मे दोषमे नुपश्यति        | १९ |
| श दे स्पर्शे तथ रूपे रसे ग धं च भरत      |    |
| र यते तद् ऽक मो न च धर्मं विमु ति        | २  |
| सर्वत्यागे च यतते । लोक क्षयात्म म्      |    |
| तते मोक्षे च यतते । नुप य दुप य          | २१ |
| शनैर्निर्वेद । दत्ते प प र्मं जहाति च    |    |
| धर्मात् चैव भ ति मोक्ष च लभते परम्       | २२ |
| एतत्ते कथित त त मां त परि छसि            |    |
| पाप धर्म तथा मोक्ष निर्वेद चैव भरत       | २३ |
| तस्म द्वे प्रवर्तेथ स् सर्वा ो युधिष्ठिर |    |
| धर्म स्थितान कौ ते सिद्धिर्भवति शाश्वती  | २४ |

इति तिमहाभारते सहस्रिकाया साहस्रस्य सिक्त्या

शर्वा वै पञ्चशदधि द्विंश मोऽः २५८

८८ ो धमप ि दशधि श ोऽभ्यः

[ सिक्त्याये २ श्लो १ः ]

## एतेन यधि द्विशततऽयाय

भी े धि र प्रति ोक्षो । ति पादनम्

युधि र.

मेक्ष पितामहेनेक्त पाया नुप यत  
तमुपाय यथा य यं श्रेतुमिच्छ मि भ रत १

भी :

त्वय्येवैत महाप्र युक्तं निपुणदर्शनम्  
यदुपायेन सर्वार्थं न नित्य मृगयसेऽनघ २

१घ स्य करणे य बुद्धिर् घटोत्पत्त्यां न साऽनघ  
एव धर्मभ्युप येषु न यद्धर्माद्धि कारणम् ३

पूर्णे समुद्रे य पथ स न गच्छति पश्चिमम्  
एक पथ हि मेक्षस्य त मे विस्तरतश्शृणु ४

क्षमय ेधमुच्छिद्यात् कमं सङ्कल्पवर्जनात्  
सन्वससेवनाद्धीरो निद्र मु छेतुमर्हति ५

अप्रमद य रक्षे ल सं क्षेत्र शीलनत्  
इच्छं द्वेष च कम च धैर्येण विनिवर्तयेत् ६

1. ग े स्य या द्वि प ि न स े  
ि । ट द्विः ोत्पत्तं तु ता :

|   |    |
|---|----|
| स प्रमोहस म् अभ्यस द्विनि ेत्           |    |
| निद्रा च प्रतिभ चै न भ्यसे तत्त्ववित्   |    |
| पद्रं स्तथा रोगन् हितजीर्णमि शनत्       |    |
| लो मेह च स तेषाद् विषयांस्तत्त्वदर्शनत् | ८  |
| अनु ेश दधम च जयेद्धर्ममुपेक्षय          |    |
| अ त्या च जयेदशम् अथ सङ्गि र्ज त्        | ९  |
| त्यत्नेन च ेह क्षुध येगेन पति त         |    |
| कारु येन त्मनो मन तृ णां च परितोषत      | १  |
| त्यत्नेन जयेत् ि क्षां मूलतो जयेत्      |    |
| मौनेन बहुभाषा च शैर्येण च भय त्यजेत्    | ११ |
| य े द्वाङ्मन बुद्ध्य यच्छे ज्ञनचक्षु    |    |
| ज्ञनमत्मा हन् य छेत् त यच्छे त्नमत्मन   | १२ |
| तदे मुपशा तेन बोद्ध य चिकर्मणा          |    |
| योगदोषान् स चै त्प यन् वये ेदु          | १३ |
| मोध च े च भय च प मम्                    |    |
| परित्यज्य निषेवेत तथेमन् योगस धनन्      | १  |

1. . . . . । दि म्

2. ि ि ि जयेत्

3. च्छाि . . . ग य ल . . . :

4.

२५९] शान्तिर्वणि ोक्षधर्पव १ ५९

- य मध्ययन दान सत्य रिरर्ज क्ष ।  
 शौचमाह रसशुद्धिर् इन्द्रियाणं च सयम १५  
 एविवधते तेज पा म नमपहति च  
 सियति च क्लृप वि न च प्रवर्त १६  
 धूतप प स तेजस्वी ल वा रे जिते द्वय  
 मोधै शे कृत्वा निन षेद्र ण पदम् १७  
 अमूर्त्त म ज्जित्व मोधे नम्  
 अदौ मनुदीणत् म् अनुद्वेगे यवस्थिति १८  
 ए मार्गे हि ोक्षस्य प्रस े विमलशुचि  
 तथा ेधेयो मन नियम ापथेऽ यथा १९

इति े भ े ि हि

ि प ि ए नेन यधि द्विश त ऽभ्य : २५

८८ ोक्षध ि ए ादशाधिकश तमोऽभ्यायः

[ स्म े ९ श्लो ाः ]

## षष्ठ्यधिकद्विंशोऽध्यायः



धिरिति भूतोपत्तिविदिप्रिपददे नारद-  
वादादः

र्भः :

अत्रैवेदाहरतीमम् इतिहासपुरतम्  
नरदस्य च सददेवलस्यासितस्य च १

असितदे लवृद्ध बुद्धा बुद्धिमतां वरम्  
नारदपरिपप्रच्छ भूतानं भययौ २

नादः

तस्मिन्दिश्वजगत्स्थावरजङ्गमम्  
प्रलयेचकिमप्येति भगवान्प्रितुमे ३

येभ्यस्सृजतिभूतनि लोऽयप्रचेदित  
महभूतनिपेति । याहुर्भूतचितक ४

एभ्यस्सृजतिभूतां ल आत्मप्रचोदित  
एतेभ्यो यत्परूयद् असद्रूयदसशयम् ५

द्विनारदपञ्चतञ् शश्वतानचलान् ध्रुवन्

|  |    |
|--|----|
| महतस्तेजसे रश्मीन् क लषष्ठान् भा           | ६  |
| आपश्चैवा तरिक्ष च थिवी पाव निलौ            |    |
| असद्धि परमेतेभ्ये भूतेभ्यो मुक्तसशयम्      |    |
| सोपपत्त्य युक्त्यासन् ब्रूयादसदसशयम्       |    |
| वेत्थ तानभिनिर्वृत्त न् षडेते तस्य रश्मय   |    |
| चैत नि लश्च भावाभावौ च केवलै               | ८  |
| अष्टौ भू नि भूतानां श श्वतानि भ ाप्ययै     | ९  |
| अभ भ ेषु तेभ्यश्च प्रभव ल्यपि              |    |
| विनष्टोऽपि च त येव ज तुर्भ ति प ध          | १  |
| तस्य भूमिमये देहश श्रोत्रम काशस भवम्       |    |
| सूर्याच्चक्षुर वयैर अद्भ्यस्तु खलु शोणितम् | ११ |
| चक्षुषी नासिक कर्णौ त्वग् जिेति च प र्म    |    |
| इन्द्रियाणि द्रिय र्थानां तानि वये िदु     | १२ |

1. चतु य न

ि : ोो क ए शयः  
 ेथ तानभिनि नू े स्वरु ;  
 ै नि भू भ ता [ ा म्  
 तसद्धि परेभ्यो भू भो क्तिस यम्  
 ो र ल्य नू याद दद न्  
 ेदान पि वृ त् रश्मयः  
 भू नि ा ा त्व [ ा म्]



|   |    |
|---|----|
| दर्शनं णं णं स्पर्शनं रसं च               |    |
| पपया गुणान् विद्धि पपय सुपधा              | १३ |
| रूपगंधोरपर्शं तथैतद्ग्राह्यं              |    |
| २ यैरुपलभ्यते पपया पपय भि                 | १४ |
| रूपगन्धरसपर्शशब्दाश्चैतद्द्रव्यानि        |    |
| इन्द्रियाणि न बुध्यते क्षेत्रज्ञे बुध्यते | १५ |
| चित्तं चित्तं यसङ्गतात् परतस्मिन् मनपरम्  |    |
| मनस परबुद्धि क्षेत्रज्ञो बुद्धित पर       | १६ |
| पूर्वं चेतयते जतुर् इति यैर्विषयं पृथक्   |    |
| विचर्य मसपश्चाद् अथ बुद्ध्या यति          | १  |
| इन्द्रियैरुपलभ्यन्ति त्वाऽयं तद्ध्यवति    | १  |
| चित्तमिन्द्रियसंगतमने बुद्धं तथऽस्मिन्    |    |
| अतः नेन्द्रियाणाहुरेता यद्ध्यत्तमचिन्त    | १८ |
| पणपदचपयुचमेहनपममुखम्                      |    |
| इति सशयमननिपमेन्द्रियपि                   | १९ |
| जल्पनाभ्यवहारार्थं मुखमिन्द्रियमुद्यते    |    |
| गमने यथापादौ र्मणं रणे करौ                | २  |

२६ ] शान्तपर्वणि ेक्षध पव १४६३

यूपस्थौ िसर्गार्थम् इद्रिये तुल्य मर्ण  
िसर्गे च पुर षस्य वेसर्गे चापि िके २१

नः यथैति च स य यथ गमम्  
चे ि यगुण स् सर्वे ि शदिता २२

इि यणं िभ्य श्रमादुपरमे यदा  
र्ति यसन्यास द् अथ िपति ि नर ३

इि यणामुपरमे मनेऽनुपरत दि  
से ते िषय ने तद्विद्य त् स्व दर्शनम् २४

स र् श्रै ये भ व स् तथ रजसतामसा  
र्मयुक्त न् प्रशसति स र्विक ेतारांस्तथा २५

आन द् मणां सिद्धि प्रतिपत्ति पर गति  
स र्वि स्य निमित्त नि भ व न् सश्रयते मृति २६

ज तु ेतमे ेवं भाव यो ि सम श्रित  
भा योरीसितं नित्य प्रत्यक्षं गमन द्वयो २

इि यणि च भ व श्च गुण स्सप्तदश मृता  
ेषामष्ट िशे ेहा यशशरीरे स शाश्वत २८

अथ सशरीर े गुण व शररिणम्  
श्रि द्वियेगे ि सशरीर न सति ते २९

|  |    |
|--|----|
| अथव सिंभगेन शरीरप भौतिकम्<br>एक दश चा तै च गुणा सह शरीरेण                        | ३  |
| ऊ ण सह वशेन सङ्घत प भौति म्<br>महान् स रयत्येतच्छरीर वायुन सह                    | ३१ |
| त स्य भा युक्त निमित्त देहभेदने  | ३२ |
| यै तै ते किं त् पञ्चत्व गच्छते थ<br>पुण्यप पनि शा ते पुं यपापसमवित               | ३३ |
| देह विशति लिन ततेऽय र्मस भवम्  | ३३ |
| हित् । हे वा य प्रैति देह देह कृताश्रय<br>लस ोदित क्षेत्री िशीर्णद्वा गृह द्रहम् | ३  |
| तु नै नुत य ते प्राज्ञ निश्चितनिश्चया<br>पण त नुत य ते जना स बधिम निन            | ३५ |
| य चित् क्ति स्य श्रन विद्यते<br>त्ये नित्य ररे सुखदु खभाक्                       | ३६ |
| नै सञ्जायते जन्तुर न च ज तु विपद्यते<br>ते देहमय हित् । चित् परमां गतिम्         | ३  |
| पु यप पमय देह क्षपयेत् सश्र त्   |    |

1 ग न स्ति

2. महा ते रं पञ्चभं तकम्

[ धि : :]

२६ ] अन्तिपर्वणोक्ष्धर्व १४.५

क्ष्णदेह पुनर्देहं तमुपगच्छि ३८

पुत्रपक्षयथ च सन्ध्यां नोक्ष्धर्व  
तत्क्षये हृदि पश्यति ब्रह्म परागम् ३९

ति श्री . शिवायः द्वितीयाः ३६

अन्तिपर्वणि शिवायः ३६

शिवो द्वितीयाः ३६

[अन्तिपर्वणि ३९ श्लोः]

[अन्तिपर्वणि द्वितीयाः ३६]

अस्मिन् स पुटे श्लो ५ ५९ क्यनि ५

अपरशान्तिपर्वणि तृतीयस पुट भवि यति स्वायम  
श्लो

अतर पितर पैत्र ज्ञत सुदस्तथ  
अर्थहेर्हता क्रूरैर् अस्मभि पापबुद्धिभि  
इति

Printed by

V. V. K. T. War S. Trulu of V. R. w. y. tru & So

at V. V. Pr., M. d. . 19 .



महभर शिर्षाद्विं सपुट

द्विधनम्

| टम् | पङ्क्ति | अशुद्धम्    | शोधनम्         |
|-----|---------|-------------|----------------|
| ६६  | १       | शलस्        | शलस्           |
| ६९  | १८      | कीर्ति      | दिभि           |
| ६९६ | १८      | स्य         | चि             |
| २२  | १८      | इति         | पश्यति         |
| ३६  | १४      | बुद्ध्या    | बु             |
| ८११ | १       | ऽहिं त      | ऽहिंसय         |
| ८२  |         | धरांचै      | धरांचै         |
| ८३९ | ३       | ह्यणामिव    | णमि            |
|     | १२      | निर्हृते    | निवृत्ते       |
| ८४  | १       | ये          | यो ये          |
|     | १४      | त           | त              |
| ८४४ | २       | ससिद्ध      | ससिद्ध         |
| ८४  | १३      | सस्मरति     | नसस्मरि        |
| ८६१ | १४      | म           | मास्यम्        |
| ८६८ | १३      | प्रीतित     | प्रीणित        |
| ९   | ११      | गथ          | गथ             |
| १२१ | १       | वाच्छति     | ति             |
| ९९  | १९      | वाक्यानि १६ | क्यनि १        |
| ९८४ | १८      | २८ श्लो १   | २६ श्लो १:५ नि |

| पुटम् | पङ्क्ति | अशुद्धम्         | शोधनम्           |
|-------|---------|------------------|------------------|
| १ ५९  |         | भगवाँलो          | भगवां श्लोक      |
| १ ८   | २       | चूर              | दूर              |
| ११ ५  | ८       | चतुभिर्          | चतुर्भिर्        |
|       | ९       | पिता वरेण        | पीता वरेण        |
| ११२१  | १       | विशुद्ध          | विशुद्ध          |
| ११३५  | १       | निर श्रय         | निर श्रय         |
| ११६६  | ६       | येनेद्           | येनेद्           |
| ११९१  | १       | वक्ष्य           | क्ष्य            |
| १२१८  | १८      | लु               | खलु              |
| १३    | १       | ब्रह्मचर्यनुसूयक | ब्रह्मचर्यानुसूय |
| १३६५  | १       | पितृनपि          | पितृनपि          |
| १३६९  | १       | तस्म त् तः       | तस्मात्          |
| १३७   | १२      | ऽपहरंस्तेन       | ऽपहर स्तेन       |

